

SINGHĪ JAIN ŚĀSTRĀ SIKṢĀPĪṬHA

SINGHI JAIN SERIES—LXXI

GEN. ED.—ACHARYA JINA VIJAYA MUNI

A STUDY OF THE GUJARATI LANGUAGE IN THE 14TH CENTURY
WITH SPECIAL REFERENCE TO A CRITICAL EDITION OF

ṢADĀVAŚYAKA-
BĀLĀVABODHAVṚTTI
OF
TARUṆAPRABHA

BY

PRABODH BECHARDAS PANDIT, M.A., Ph.D. (London)

Professor of Linguistics, Delhi University, Delhi



1976

BHARATIYA VIDYA BHAVAN

KULAPATI K. M. MUNSHI MARG

BOMBAY 400007

All Rights Reserved

First Edition 1970

Price Rs. 50



PRINTED IN INDIA

By Nirnaya Sagar Press, Bombay, Arya Bhushan Press, Poona, and
Associated Advertisers and Printers, Bombay, and Published by
S Ramakrishnan Executive Secretary, Bharatiya Vidya Bhavan,
Bombay-400 007.

सिंधी जैनशास्त्र शिक्षापीठ

सिंधी जैन ग्रन्थमाला - ग्रन्थांक ७१

प्रधान संपादक : आचार्य जिनविजय मुनि

श्रीतरुणप्रभाचार्यकृत

षडावश्यकबालावबोधवृत्ति

★

चतुर्दशशतकगुजरातीभाषायाः विशेषाध्ययनम्
एयं उपपुस्तकशब्दसूचीसमन्वितम्

★

ग्रन्थसंपादक

प्रबोध बेचरदास पंडित,

एम.ए., पीएच.डी. (संस्कृत)

प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय



भारतीय विद्या भवन

ब. मा. मुन्शी मार्ग, बम्बई ४००००७

Contents

Publishers Note	vi
General Editor's Foreword	vii
General Editor's Introduction	ix
Editor's Preface	1
Abbreviations	2
A Study of the Gujarati Language in the 14th Century	3-38
THE TEXT	1 233
THE INDEX	1-62

ययोः पदाम्भोजनिषेवणेन
विद्याऽऽनवद्याऽऽपि मया सुखेन ।
ताभ्यां पितृभ्यां प्रणतेन मूर्ध्ना
कृतिर्मयैपाऽप्यत आदरेण ॥

—प्रबोध

PUBLISHERS' NOTE

The publication of this book in the Bhavan's Singhī Jain Series had been the most ardent desire of the learned author, Dr Prabodh Pandit, since the day he handed over the manuscripts thereof to the General Editor of the Series. But as the respected General Editor has observed in his Foreword, the publication of the work has been unusually delayed due to a series of fortuitous circumstances.

It is a matter of deep regret to us that Dr Prabodh Pandit could not live to see the fulfilment of his cherished desire as he passed away on 28th November 1975. He had no illness as such and his sudden demise at the age of 52 has snatched away a great scholar of linguistics from our midst.

It is, therefore, with a profound sense of sorrow that we are releasing this comprehensive research publication as a posthumous one. Though Dr Pandit is bodily not with us today, he will continue to live with us and with posterity through this great work, his *akshara-deha*.

GENERAL EDITOR'S FOREWORD

I have great pleasure in presenting to the scholars in Indian Linguistics Professor P B Pandit's "A Study of the Gujarati Language in the 14th Century—with a critical edition of the *Ṣadāvaśyaka-bālavabodhāvṛtti* of Tarunaprabha" which is published as 71st volume of the Singhu Jan Series

It is not an insignificant coincidence that my own early research work began with the search for Old Gujarati manuscripts, the vast number of manuscripts in which the literary and historical traditions of Gujarat have been preserved during the last one thousand years have attracted many scholars; I edited a collection of source material for the history of Gujarati Language, *Prācīna-Gujarati-Gadya-Sandarbhā*, in 1930, in the research series of the *Gujarāta-Purātattva-Mandira* of Gujarāta Vidyāpīṭh I had selected a number of prose writings of the 13 16 centuries, besides other samples of early Gujarati texts, I had also selected, for this edition, a number of narratives from a manuscript of Tarunaprabha's *Ṣadāvaśyaka-bālavabodhāvṛtti* It is gratifying to see that now Professor P B Pandit has brought out the complete text of Tarunaprabha's work, together with a linguistic study and a comprehensive etymological word index

Professor Pandit has used four manuscripts for the critical edition. Tarunaprabha composed the text in the year 1411 V S, one of the dated manuscripts used by Professor Pandit belongs to the year 1412 V S, the text thus made available to us is, therefore, fairly reliable It may, however, be noted that Tarunaprabha's text must have been quite a popular work during his time and a number of manuscripts must have been copied by his pupils, probably at the time of Tarunaprabha's writing a diligent search of the various manuscript collections will show many more manuscripts of this work, a comprehensive study of this text material will provide useful data not only for textual criticism but also for dialectal variations in early Gujarati

The printing and publication of this work has been unusually delayed I received the press copy for the work in 1956, and I decided that the printing should be done at the Nirṇayasagara Press, the progress of printing at the Nirṇayasāgara Press was so slow that after a few formes of the text and index were printed we decided to withdraw the work from the Nirṇayasāgara Press in 1965 and requested the Āryabhūṣana Press of Poona to undertake the work, it took six more years for the Āryabhūṣana Press to complete the printing

I may add a personal note to this Foreword Professor P B Pandit's father, Pandit Becharadas Doshi and I were colleagues in the Gujarati Vidyāpīṭha, both of us have worked together in the same field of research for many years, Pandit Becharadas's work has also been published earlier in the Singhu Jan Series Now, with the publication of his son's work, I think we are symbolically handing over the tradition of learning and scholarship to the new generation My best wishes to those who carry forward this tradition.



आचार्य मुनिश्री जिनबिजयजी

जन्म २७-१-१८८८

अवसान ३-६-१९७६



डॉ० प्रवीष बेचरदास पडित

जन्म २३-६-१९२३

अवसान २८-११-१९७५

Homage

Munishri Jinavijayaji

A founder-member of the Bhavan, a member of the first Executive Committee of the Bhavan, the first Honorary Director of the Bhavan and General Editor of the Bhavan's Singlu Jain Series from its inception and an outstanding indologist, Acharya Munishri Jinavijayaji breathed his last on Thursday, June 3, 1976, at the venerable age of 88

In his "Poovashrama" he was known as Kisansinh Vriddhisinh Parmar. He was born in Vikram Samvat 1944 (1888 A D) in a Kshatriya family in the village Rupaheli in Mewar. He remained a bachelor throughout his life.

He had accepted Shri Sundaravijayaji Ganu as his Guru and came to be known as Muni Jinavijaya.

Thereafter he dedicated his life to asceticism and study. He founded the Rajasthan Puratattva Shodhasamstha (Rajasthan Archaeological Research Institute), the Bharat Jain Vidyalyaya at Pune and a Sarvodaya Ashrama at Chanderia.

Under the influence of Mahatma Gandhi, he worked as the Principal of Gujarat Puratattva Mandir in the Gujarat Vidyapeeth. In pre-war years, he had been to Germany for a critical study of the old manuscripts of Prakrit and Apabhramsha and was made an Honorary Member of the German Indological Society. He contributed 22 works in the series of "Grantha and Granthakar" sponsored by Gujarat Vidyasabha, Ahmedabad. Among his many works, Puratattva Samshodhanano Purva Itihas (Early History of Archaeological Research), Adhidhan Deepika (a lexicon of Pali), Prabhandhakosha, Jain Aitihāsik Gurjar Kavya Sanchay and Haribhadracharyasya Samaynirnayah are of permanent value.

He edited many books under the Singlu Jain Series and the Rajasthan Puratattva Granthamala.

He had participated in the famous Dandi March and suffered incarceration for six months. At the invitation of Gurudev Tagore he had also stayed at Shantiniketan and founded there a Jnanapeeth.

The University of Bombay had invited him to deliver a series of lectures under the Thakkar Vasanti Madhavi Lecture Series Scheme.

In 1963, the Government of India had conferred on him 'Padmashri'.

In his death the world of scholars has become poorer and the Bhavan has lost one of its stalwart founders.

श्रीतरुणप्रभाचार्य रचित

षडावश्यकवालावबोधवृत्ति

सिंधी जैन ग्रन्थमाला के प्रधान संपादक तथा संचालक मुनि जिनविजयजी द्वारा आलेखित संपादकीय पर्यालोचन

प्रस्तुत पर्यालोचन के मुख्य विषय

- १ प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का पूर्व इतिहास
- २ प्रस्तुत वालावबोध की विशिष्ट उपयोगिता और इसके प्रकाशन निमित्त मेरे प्रयत्न
- ३ शांतिनिकेतन में सिंधी जैन ज्ञानपीठ की स्थापना और सिंधी जैन ग्रन्थमाला का कार्यारम्भ
- ४ ग्रन्थ का संपादन कार्य डॉ. श्री प्रबोध पंडित को देने का प्रसंग
- ५ ग्रन्थगत विषय का किंचित परिचय
- ६ तरुणप्रभाचार्य का विशेष परिचय
- ७ इस ग्रन्थ का सर्व प्रथम आलेखन करानेवाले धनिक धावक वलिराज के वश का कुछ परिचय
- ८ प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में विलंब के कुछ कारण
- ९ सिंधी जैन ग्रन्थमाला के जीवन का सक्षिप्त सिंहावलोकन
- १० संपादक विद्वान के प्रति कृतज्ञताभाव प्रकटन

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का पूर्व इतिहास

चिरकाल की प्रतीक्षा के बाद तिथी जैन ग्रन्थ-माला का सहायक-प्रभाचार्यद्वारा 'पडावश्यक बालबोध वृत्ति' नामक यह एक विशिष्ट-ग्रन्थ विद्वानों के हाथ में उपस्थित हो रहा है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का इतिहास मेरे साहित्यिक-जीवन के प्रारम्भ काल के जितना पुराना है।

सन् १९१९ में पूना में रहते हुए सबसे प्रथम मुझे इस ग्रन्थ का परिचय हुआ। मैं उन दिनों पूना में नूतन स्थापित भाण्डारकर प्राच्यविद्या सशोधन मन्दिर में राजकीय ग्रन्थ सग्रह का निरीक्षण कर रहा था, प्रो. उटगीकर उस समय उक्त सग्रह के अधीक्षक थे। वे सग्रहगत पुराने ग्रन्थों की सूचियों का निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्होंने जैन ग्रन्थों की सूची में 'पडावश्यक वृत्ति' नामक इस ग्रन्थ की बहुत सुन्दर प्राचीन हस्तलिखित प्रति (पाण्डुलिपि) मेरे सामने लाकर रखी और पूछा कि इस ग्रन्थ का क्या विषय है ?

चूंकि इसके पहले मैंने भी इस ग्रन्थ को देखा नहीं था इसलिये प्रो. उटगीकर की जिज्ञासा को पूरी करने के लिये मैंने ग्रन्थ को हाथ में लेकर उसके आदि अन्त के कुछ पन्नों को उलट पुलट किया, तो मुझे मालूम हुआ कि आवश्यक सूत्र पर प्राचीन गुजराती भाषा में सुलिखित, बालजनों को बोध कराने की दृष्टि से लिखा गया, विवरण-आत्मक बालबोध वृत्ति अर्थात् व्याख्या है।

उस समय मेरे पास उक्त प्राच्य विद्या सशोधन मन्दिर के मुख्य पुस्तकालय स्व. प्रो. पादुरण दाफोदर गुणे बैठे हुए थे। डॉ. गुणे फर्गुसन कॉलेज में संस्कृत भाषा एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान के मुख्याध्यापक थे। उन्होंने जर्मनी जाकर डॉ. हर्मन जेकोबी के पास प्राकृत भाषा का विशेष अध्ययन किया था और पीएच. डी. की डिग्री ली थी। प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा में लिखित साहित्य का उस समय तब विद्वानों को विशेष परिचय प्राप्त नहीं हुआ था। मुझे जैन साहित्य एवं जैन ग्रन्थ भंडारों का अच्छा अध्ययन एवं अवलोकन होने के कारण डॉ. गुणे मुझे इस विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। अतः उनका मेरे साथ धनिय-सा सम्बन्ध हो गया था। जैन भंडारों में प्राकृत अपभ्रंश तथा प्राचीन देवी भाषाओं में लिखित बहुत विशाल साहित्य भरा पड़ा है। इसका परिचय मैं उनको देता रहता था। कुछ छोटी अपभ्रंशी रचनाओं का मैंने उनको परिचय दिया तो वे उनको सम्पादित कर किसी सशोधनात्मक अंग्रेजी पत्रिका में प्रगट करना चाहते थे। उसी सिलसिले में डॉ. गुणे को मैंने इस ग्रन्थ का भी कुछ परिचय कराया। बालबोध शब्द का अर्थ उनको समझाया। मराठी भाषा में बालबोध शब्द प्रचलित है। परन्तु वही प्रायः देवनागरी लिपि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बालबोध अर्थात् देवनागरी लिपि में लिखी तथा छपी हुई मराठी पुस्तक। इससे भ्रान्त होकर डॉ. गुणे ने पूछा कि क्या यह ग्रन्थ मराठी भाषा में है ? तब मैंने उनको बताया कि प्राचीन जैन ग्रन्थों का आवाल-जनों को ज्ञान प्राप्त कराने की दृष्टि से उन पर प्रचलित देश भाषा में जो कोई अर्थ, विवरण या विवेचन आदि लिखे जाते हैं वे सामान्य रूप से बालबोध के नाम से पहचान जाते हैं।

जैन आगमों में आवश्यक सूत्र-नामक नामक प्राकृत भाषा का जो एक मूल सूत्र है उस पर प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में अनेक व्याख्याएँ तथा टीकाएँ आदि लिखी गई हैं परन्तु यह आवश्यक सूत्र संस्कृत तथा प्राकृत भाषा नहीं जानने वाल जैन गृहस्थ-स्त्री, पुत्र या बान आदि सामान्य जनो को भी अवश्य पठनीय है। इसलिये इसका ज्ञान होना आवश्यक मानकर मध्य-कालीन जैन विद्वानों ने अपने समय को प्रचलित देश भाषा में विवरण आदि लिखने का प्रयत्न

किया है और इस प्रकार अनेक प्राचीन जैन ग्रन्थों का तत्कालीन देश भाषा में ऐसे बहुत से बालवबोध स्वरूप लिखे गये ग्रन्थ मिलते हैं ।

डॉ० गुणे को जब यह मालूम हुआ कि इस ग्रन्थ की रचना विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दि के प्रारम्भ में हुई और इसकी भाषा बहुत ही व्याकरणबद्ध तथा शुद्ध उच्चारण पूर्वक प्रयुक्त है तो उनको एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे कुछ दिन तक मेरे पास बैठकर इस ग्रन्थ के कुछ अंशों को समझने का प्रयत्न करते रहे ।

डॉ० गुणे का विचार उस समय अपभ्रंश भाषा के साथ सम्बन्ध रखनेवाला छोटा-मोटा व्याकरणात्मक निबन्ध लिखने का था इस दृष्टि से वे प्राचीन मराठी भाषा का सबसे महत्त्व का ग्रन्थ जो 'ज्ञानेश्वरी' है—उसका भी अध्ययन कर रहे थे । चूंकि 'ज्ञानेश्वरी' की मूल प्राचीन मराठी भाषा का सम्बन्ध प्राचीनतम गुजराती भाषा के साथ भी कुछ कुछ साम्य रखता है । इसलिये मैं भी ज्ञानेश्वरी की रचना का उस दृष्टि से अध्ययन करता रहता था । डॉ० गुणे का यह विचार हुआ कि तरुणप्रभाचार्य कृत—प्रस्तुत पडावश्यक बालावबोध के कुछ अंशों को प्राचीन मराठी ग्रन्थ के रूप में अवतरित किया जाय तो कैसा रहेगा ?

मैंने कई वर्षों से गुजराती भाषा में लिखित प्राचीन गद्य-पद्यात्मक उल्लेखों का संग्रह करता रहा था । पाठ्य में रहते हुए मैंने ताडपत्रों पर लिखे गये कितने ही गद्यांशों का भी संग्रह कर रखा था और वैसे ही वैसे अनेक पद्य रचनाओं का भी संग्रह करता रहा ।

प्रस्तुत बालावबोध की विशिष्ट उपयोगिता और उसके प्रकाशन निमित्त मेरे प्रयत्न

पर जब मैंने तरुणप्रभाचार्य कृत प्रस्तुत पडावश्यक बालावबोध का विशेष ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो मुझे इसकी विशिष्टता का अच्छा ख्याल हुआ और मैंने सोचा कि इस ग्रन्थ का प्राचीन गुजराती भाषा के अध्ययन की दृष्टि से विशिष्ट महत्त्व है और प्रकाश में लाना चाहिए ।

मैंने इसके तो पहले सोम सुन्दरसूरि कृत रचनाओं में से ऐसे कितने प्राचीन भाषा के गद्यात्मक अवतरणों का संग्रह कर रखा था । तथा माणिक्यसुन्दरकृत—'वाग्विलास' नामक एक सम्पूर्ण गुजराती गद्यग्रन्थ का प्रकाशन भी गायकवाड औरिएण्टल सिरीज के एक ग्रन्थ में प्रकाशित करवाया था । परन्तु उक्त रचनाओं की अपेक्षा मुझे प्रस्तुत 'पडावश्यक बालावबोध' अनेक दृष्टि से अधिक महत्त्व का मालूम दिया । इनके रचयिता तरुणप्रभाचार्यने गुजरात राजस्थान सिन्ध आदि प्रदेशों में विशेष परिभ्रमण किया था । अतः इनको तत्कालीन देश भाषा के विविध स्वरूपों का अच्छा परिचय था ।

प्रथम तो इस ग्रन्थ की रचना वि स १४११-१२ में हुई, जो तब तक प्राप्त मुझे सबसे प्राचीनतम गद्यरचना मालूम दी और दूसरी विशिष्टता इसकी यह मालूम दी कि जो प्रति पूना में उपलब्ध है वह उसी समय लिखी गई और वह भी स्वयं ग्रन्थकार के निजी तत्त्वावधान में तैयार की गई है । प्रतिलिपि को ग्रन्थकारने स्वयं पदच्छेद आदि के चिन्हों से अकिन की और लिपिवर्ता से कोई शब्द या अक्षर छूट गया मालूम दिया तो उसे स्वयं उन्होंने शुद्ध कर दिया । इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ की उक्त प्रतिलिपि सर्वथा प्रमाणभूत प्रतीत हुई । अतः विचार हुआ कि इस ग्रन्थ को उम मूल प्रति के आधार पर तैयार करवाकर प्रकाशित करना चाहिए ।

इनके बाद मन् १९२० में महारमा शाघीजी ने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ नामक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और उनमें सेवा देने के लिए स्वयं महारमाजी ने मुझे आमन्त्रित किया । तब मैं पूना स्थित अपने मुख्य कार्यालय को सन्तुष्टि कर अहमदाबाद के गुजरात विद्या-

पीठ में सबसे प्रथम एक राष्ट्रीय सेवक के रूप में सम्मिलित हुआ। मेरी प्रेरणा से गांधीजीने जैन विद्यापीठ में प्राचीन भारतीय सस्कृति, साहित्य और इतिहास के विशिष्ट अध्ययन, अध्यापन की दृष्टि से पुरातत्त्व-मंदिर नामक एक विशिष्ट सशोधन विभाग की स्थापना की थीर उसके मुख्य आचार्य के रूप में मेरी नियुक्ति हुई।

इस विभाग में अनुस्तातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के अध्ययन की विशिष्ट व्यवस्था की गई थी। सस्कृत, पालि, अपभ्रंश, प्राचीन गुजराती, राजस्थानी फारसी और अरबी भाषा के अध्ययन की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। साथ में भारत के प्राचीन इतिहास, स्थापत्य कला आदि सास्कृतिक विषयों का भी विशिष्ट परिचय प्राप्त करने, कराने की भी योग्य व्यवस्था की गई। इन विषयों के विशिष्ट ज्ञाता विद्वानों का भी यथायोग्य प्रबन्ध किया गया।

अध्ययन, अध्यापक के सिवाय उन उन विषयों के प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन कार्य करने की भी व्यवस्था की गई। तदनुसार सर्वप्रथम सस्कृत, प्राकृत, पालि भाषा की प्राथमिक पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की गईं। श्री काका साहेब कालेलकर जो उस समय उक्त पुरातत्त्व मंदिर के एक विशिष्ट परामर्शदाता, मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने 'उपनिषद्-पाठावली' नामक एक पुस्तक तैयार की। मैंने भी प्राकृत भाषा तथा पालि भाषा के विद्यार्थियों के लिए प्राकृत-पाठभाला तथा पालि पाठावली नामक दो प्राथमिक पुस्तिकाएँ तैयार कीं। प्राचीन गुजराती, राजस्थानी भाषा का विशेष अध्ययन एवं सशोधन करने, कराने की दृष्टि से 'प्राचीन गुजराती-गद्य सदर्र्भ' नामक एक विशिष्ट ग्रन्थ का सक्लन तैयार किया। इस ग्रन्थ में सर्वप्रथम मैंने इसी 'पडावश्यक बालावबोध' में से कुछ कथाओं का सक्लन किया। इसके उपरान्त सोमसुन्दरकृत कुछ कथाओं का सग्रह भी सक्लित किया। माणिक्यसुन्दरकृत पृथ्वीचंद्र चरित्र अपरनाम 'चाणूबिलास' नामक एक पूर्ण कृति भी उक्त सदर्र्भ में सक्लित की गई तथा कितने ही पुरातन औचितक निबंधों का भी सक्लन किया गया।

इस सदर्र्भ के संपादन के समय मेरा विचार हुआ कि प्रस्तुत 'पडावश्यक बालावबोध' पूर्ण रूप में 'गुजरात पुरातत्त्व मंदिर' ग्रन्थावली में यथासमय प्रकाशित किया जाय। तदनुसार मैंने इस ग्रन्थ की सम्पूर्ण सुवाच्य अक्षरों में प्रेम कॉपी तैयार करवाई। इस समय मुझे पता लगा कि इस ग्रन्थ का मेरुसुन्दरकृत-संक्षिप्त रूप भी भडारा में प्राप्त होता है। पता लगाने पर बम्बई की रोयल एशियाटिक सोसायटी के ग्रंथ सग्रह में भी उसकी एक प्राचीन प्रति विद्यमान है। तब मैंने उसको भी मगवाई और इन दोनों ग्रन्थों के पाठों का मिलान करना चाहा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरुसुन्दर ने बहुत से अंश तो तरुणप्रभासाय के ग्रन्थ से जैसे-जैसे ही उद्धृत कर लिखे हैं और कहीं-कहीं वाक्यान्तर और शब्दान्तर का भी प्रयोग किया है। मैं चाहता था कि ग्रन्थ के मूल भाग में तरुणप्रभासाय के पाठ दे दिया जाय और उनके नीचे पाद टिप्पणी के रूप में मेरा सुन्दरकृत पाठ दिया दे जाय। क्योंकि तरुणप्रभासाय और मेरुसुन्दर के बीच में प्रायः एक शताब्दि के जितना अन्तर है। इसलिए भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले शोधक विद्वानों को यह पता लग जाय कि तरुणप्रभासाय की भाषा में और मेरुसुन्दर की भाषा में विन्तना अंतर पाया जाना है। इस दृष्टि से मैंने मेरुसुन्दरकृत रचना की पूर्ण प्रतिनिधि करवा ली थी।

यह समय सन् १९२६-२७ का था। मैंने इस ग्रन्थ की छापवाने के लिये बम्बई के निर्णय सागर जैसे विख्यात एवं सुन्दर छापाई करनेवाले प्रेम में जाकर इसके टाइप आदि का प्रबन्ध किया।

इसके साथ ही उसी गुजरात पुरातत्त्व मंदिर ग्रन्थावली में, गुजरात के प्राचीन इतिहास का एक मुख्य आधारभूत ग्रन्थ, मेरुसुन्दरकृत रचित 'प्रबन्ध विन्तारण' नामक ग्रन्थ का मुद्रण कार्य भी मैंने प्रारंभ किया और उसे बम्बई के जैसे ही प्रख्यात कर्नाटक प्रिंटिंग प्रेस में छपाने को दे दिया। निर्णय सागर प्रेस में 'सम्मति तक' नामक महाग्रन्थ, पुरातत्त्व मंदिर ग्रन्थावली के अन्तर्गत छप रहा था इसलिए उस प्रेस के कुछ समय बाद प्रस्तुत ग्रन्थ का काम हाथ में लेने को कहा।

सन् १९२८ के प्रारम्भ में मेरा विचार जर्मनी जाने का हुआ और उसके लिए मैंने, गुजरात विद्यापीठ से दो साल की अनुपस्थिति की स्वीकृति के लिये, महात्मा गांधीजी से निवेदन किया और उन्होंने मुझे सहर्ष एव सोत्साह वसा करने की अनुमति प्रदान की। साथ ही उन्होंने कृपा करके अपने यूरोपियन मित्रों को उद्दिष्ट कर अपने हस्ताक्षरों से अंकित एक सक्षिप्त सिफारशी पत्र भी मुझे प्रदान किया।

सन् १९२८ के भई महीने के अन्तिम सप्ताह में पी एण्ड ओ कम्पनी की स्टीमर द्वारा मैंने यूरोप के लिये प्रस्थान किया। पेरिस और लन्दन की युनिवर्सिटियों और ब्रिटिश म्यूजियम आदि का अवलोकन करता हुआ हार्लैंड और वेलजियम की कुछ विशिष्ट सत्कार्य देखता हुआ, अगस्त महीने में जर्मनी के प्रख्यात बन्दरगाह हाम्बुर्ग में पहुँचा। वहाँ पर मेरे कई सम्मान्य जर्मन विद्वान मित्र—जैसे कि डॉ हर्मन याकोबी, प्रो फोनग्लाजेनाप, प्रो ओट्टोश्रामडर, प्रो शुब्रिग, डॉ आल्सडोर्फ आदि विद्वानों से मुलाकाती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुःख के पास लिखना पड़ता है कि इन विद्वानों में से प्रो आल्सडोर्फ के सिवाय आज कोई विद्यमान नहीं है।

हाम्बुर्ग युनिवर्सिटी में इण्डोलोजी (भारतीय ज्ञानविज्ञान) विषयक शिक्षापीठ के अध्यक्ष प्रो शुब्रिग थे, जो सन् १९२६ में अहमदाबाद स्थित हमारे गुजरात पुरातत्व मंदिर का कार्य निरीक्षण करने के लिए आये थे। उनके साथ वहाँ पर प्रायः चार महीने व्यतीत किया। उनके शिष्यों में डॉ ओल्सडोर्फ तथा डॉ. तवाडिया (जो गुजरात के पारसी कौमके एक रिसर्च स्कॉलर थे और छासकर गुजराती भाषा के अध्ययन, अध्यापन एव सशोधन कार्य का उच्च ज्ञान प्राप्त कर रहे थे), आदि पाँच-सात रिसर्च स्कॉलर जिनमें कुछ जर्मन बहिने भी थी—काम कर रहे थे। डॉ आल्सडोर्फ अपभ्रंश भाषा साहित्य का विशेष अध्ययन एव सशोधन सम्पादन आदि कार्य कर रहे थे। डॉ तवाडिया भी जो गुजराती भाषा एव साहित्य का विशिष्ट अध्ययन कर रहे थे के साथ प्राचीन गुजराती भाषा साहित्य विषयक चर्चा होती रहती थी। प्रसंगवश मैंने प्राचीनतम गुजराती गद्य साहित्य का जब परिचय कराया तो उसमें प्रस्तुत तट्टणप्रभाचार्यवृत्त 'पडावयन्य वालावबोध' का भी परिचय विशेष रूप से कराया। चूँकि डॉ तवाडियाने मेरी सम्पादित 'प्राचीन गुजराती गद्य सदर्भ' नामक पुस्तक का अच्छी तरह अवलोकन किया था। और उनके पास मेरी वह पुस्तक भी रखी हुई थी। प्रसंगवश मैंने उनसे कहा कि जब मैं जर्मनी से वापस लौटकर अपने स्थान गुजरात पुरातत्व मंदिर पहुँचूँगा तब इस पूरे ग्रन्थ को छापवाने का प्रबन्ध करूँगा इत्यादि।

प्रो डॉ शुब्रिग अपने समय के जर्मन विद्वानों में जैन साहित्य के सबसे बड़े अभ्यासी और उच्च कोटि के समस्त विद्वान थे। प्राकृत और संस्कृत, अपभ्रंश भाषा के अनिखिल प्राचीन गुजराती तथा हिन्दी भाषा के भी ज्ञान थे। प्राचीन गुजराती गद्य-पद्य वे अच्छी तरह समझ लेते थे और मुझे उनका आग्रह था कि मैं उन्हें जो पत्र लिखूँ वह गुजराती में ही लिखा करूँ। उनसे भी प्रसंगवश प्रस्तुत 'पडावयन्य वालावबोध' ग्रन्थ का परिचय मैंने उनसे कराया और वे इन सब बातों को बराबर नोट करते रहे।

हाम्बुर्ग से डिगम्बर में मैं बर्लिन गया और वहाँ पर मुझे युनिवर्सिटी में भारतीय विद्या मन्त्रालय के प्रधानाध्यापक तथा जर्मन ओरिएण्टल सोसायटी के अध्यक्ष विश्वविद्यालय गाह्राइमगट डॉ हार्दन्नीग ल्युडम तथा जगरी बिदुषी पत्नी डॉ एन जे ल्युडन, डॉ बाइबेलीन आदि अनेक विद्वानों से परिचय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

उसी तरह जर्मनी के विभिन्न विद्यालय, कई पोलिटिकल के महान् आचार्य, जर्मन साम्राज्य की पोलिटिकल एकेडेमीके अध्यक्ष, प्रो फोनमुस मेवेनिंग जैसे महान् राजनीतिज्ञ आदि अनेक विद्वानों का भी यथेष्ट परिचय प्राप्त करने का सुप्रसंग मिलता। फोनमुस मेवेनिंग अपने समय के मगार के एक राजनीतिज्ञान के महान् विद्वान गुरु थे। उनका भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का भी बहुत कुछ परिज्ञान था। इन्हेंड के मुसलिम राजनीतिज्ञ विद्वान और नेता प्रो-हेल्ड तास्की जैसे उनके विद्वानों में से थे। उनके साथ महत्त्वा गांधीजी द्वारा बनाई जाने

वाली राजकीय प्रवृत्ति के विषय में भी बहुत-सी चर्चाएँ होती थी। उनकी एक मात्र विदुषी पुत्री थी, जिगको भी भारतीय संस्कृति और जाति के विषय में बहुत रचि थी और वह कई बार मेरे द्वारा बलिन में स्थापित हिन्दुस्तान हाउस में मिलने आया करती थी। डॉ. ल्यूइस तथा उनकी पत्नी एच प्रो गेबेनित्त तथा उनकी पुत्री एक बार हिन्दुस्तान हाउस में चाय पान करने के लिए भी आये थे।

बलिन में बैठे बैठे भी गुजरात पुरातत्व मंदिर द्वारा छपते हुए और छपायेजाने वाले ग्रन्थों के विषय की चिन्ता बराबर बनी रहती थी। प्रयन्ध चिन्तामणि के कुछ प्रूफ भी मैं वहाँ मगवाता रहा। प्राचीन गुजराती गद्य सदर्भ की प्रस्तावना जो मैं विस्तार के साथ लिखना चाहता था, परन्तु जर्मनी चले जाने के कारण यह लिख नहीं पाया। बाद में पीछे से पुरातत्व मंदिर को उसी मूलरूप में छपाकर उसे प्रसिद्ध कर देना पड़ा। यदि उस प्रस्तावना को मैं उस समय लिख पाता तो उसमें प्रस्तुत 'पडावश्यक बालावबोध' के साथ सम्बन्ध रखनेवाली उपयुक्त माहिती लिख देना।

जर्मनी से आने पर ज्ञात हुआ कि गुजरात पुरातत्व मंदिर की स्थिति विपटित-सी हो गई है, और मुझे महात्मा गांधीजी द्वारा प्रारम्भ नामक सत्याग्रह आन्दोलन में से सज्जन होकर सन् १९३० के मई महीने में अंग्रेज सरकार के जेल खाने में छ महीने की विध्वान्ति का आनन्द देना पड़ा।

नासिक की सेट्टल जेल में रहते हुए स्व मित्रवर श्री कन्हैयालाल मुशी से अनिष्ट सम्बन्ध हुआ। हम दोनों पास पास भी कोठरियाँ में रातको सो जाया करते थे, परन्तु सारा दिन, खाना पीना, उठना बैठना, चर्चा वार्ता करना आदि सब एक साथ ही करते रहते थे। मुशीजी वही जेल में रहते हुए अपनी 'गुजरात एंड इंडस लिटरेचर' नामक प्रसिद्ध पुस्तक का आलेखन भी करते रहते थे। उसके विषय में उनके साथ हेमेश विचार विमर्श होता रहता था। 'कुक्कम माना' आदि ग्रन्थों का परिचय मैंने उनको कराया उसी तरह और भी अनेक ग्रन्थ तथा ऐतिहासिक प्रमाणों आदि के विषय में भी उनको बहुत से नोट्स कराये। उनके साथ भी प्राचीन गुजराती गद्य विषयक साहित्य के अनेक ग्रन्थों का परिचय देते हुए प्रस्तुत 'पडावश्यक बालावबोध' नामक ग्रन्थ का भी विशिष्ट परिचय कराया। यह गुनवर मुशीजी की बड़ी तीव्र अभिलाषा हुई कि गुजराती भाषा के ऐसे महत्त्व के ग्रन्थों का उद्धार करने की कोई योजना बनानी चाहिए।

चूँकि गुजरात पुरातत्व मंदिर की विपटना हो चुकी थी, अतः उसके स्थान पर बम्बई के पास अंधेरी में एक ऐसी नूतन साहित्यिक सस्था स्थापित की जाय, जिसमें श्री मुशीजी, मैं तथा अन्य इसी प्रकार के दो चार विद्वान आसन लगा कर बैठें और गुजरात की संस्कृति के साधनभूत विविध प्रकार के ग्रन्थों का आलेखन सम्पादन तथा प्रकाशन आदि का कार्य किया जाय। श्री मुशीजी की योजना थी कि उनके द्वारा पूर्वस्थापित गुजरात साहित्य सभा का पुनर्निर्माण किया जाय और अंधेरी में एक अच्छीसी उपयुक्त जगह लेकर वहाँ पर कार्यारम्भ किया जाय। इस विषय में जेल में बैठे बैठे हम अनेक अनौरप विचार करते थे।

इसी नासिक जेल में गुजरात बहुयुक्त कपोवृद्ध कथातनामा कवि श्री बलवन्तराय कन्याश-राय ठाकोर मुझसे मिलन आये। वे गुजराती साहित्य के उदमट विद्वान थे। उन समय वे प्राचीन गुजराती भाषा की साहित्यिक कृतियों का अध्ययन एवं सम्पादन काय करना चाहते थे। उन्होंने जब मेरी सम्पादित उपयुक्त प्राचीन गुजराती गद्य सदर्भ नामक पुस्तक देखी तो उस पर उनकी काम करने की इच्छा हुई। प्रसंगवश वे नासिक के पास देवगाली नामक स्थान में रहनेवाले अरने एक मित्त के पास हवा खाने की दृष्टि से कुछ दिन आकर रहे थे। उनकी ज्ञात हुआ कि मैं भी नासिक की जेल में हवा खा रहा हूँ। तब वे जेल सुपरिंटेंडेंट को खाम इजाजत लेकर मुझसे मिलन आये, सबसे पहले तो मुझ बहुत मीठे शब्दों में उन्होंने उपालम्भ दिया कि आप साहित्य सेवा के महान् पुण्य कार्य को छोड़कर इस राजनैतिक खटपट के गोरक्षधन्धे में पड़कर अपना अमूल्य समय क्यो नष्ट कर रहे हैं—इत्यादि। चूँकि प्रो ठाकोर एक विशिष्ट विचारधारा रखनेवाले बड़े स्वतन्त्र मिजाज के धनी थे। महात्मा गांधीजी द्वारा चलाई गई कुछ राजकीय प्रवृत्तियों के वे खास विरोधी

ये। इसलिये मुझे उन्होंने उक्त प्रकार का भीठा उपालम्भ दिया, उनके साथ मेरा बहुत वर्षों से घनिष्ठ सम्बन्ध था मैं जब पूना में भाडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए कार्य कर रहा था, तब वे पूना के देश प्रख्यात डेक्कन कॉलेज में एक वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे थे। तभी से उनके साथ मेरा विशिष्ट स्नेह सम्बन्ध हो गया था। प्रो. ठाकोर के साथ अनेक प्रवार कौ साहित्यिक चर्चा वार्ता के प्रसंग में उन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की, कि 'प्राचीन गुजराती गद्य सदर्म' गत गद्य रचनाओं पर भाषाकीय विश्लेषण रूप एक निबन्ध और विशिष्ट शब्द कोष तैयार करने का विचार है। इसलिए तरुणप्रभाचार्य कृत-पंडावश्यक बालासबोध' के रचना समय तथा उपलब्ध प्राचीन लिखित प्रति एवं प्रथकार के विषय में उपयुक्त जानकारी मांगी। मैंने उनसे एतदर्थक सब जानकारी दी और कहा कि मैं जेल से मुक्ति पाने के बाद इस पूरे ग्रन्थ को छपवाने का प्रबन्ध करना चाहता हूँ।

सुनकर प्रो. ठाकोर बोले कि आप जब यहाँ से मुक्त होकर अहमदाबाद जावे तब मुझे सूचित करना जिससे मैं वहाँ आकर इस विषय में विशेष बातचीत करना चाहूँगा।

जेल का समय पूरा होने पर मैं और श्री मुशीजी दोनों ही एव साथ नासिक के सेट्रल जेल के द्वार से बाहर निकले और साथ ही रेल द्वारा बम्बई पहुँचे। उस समय मुशीजी सान्तापुत्र में रहते थे, हम दोनों वहाँ पहुँचे। मुशीजी की पूजनीया माताजी ने हमारा स्वागत किया। मैं उनसे साथ दो-तीन दिन वहाँ रहा और उसी समय अन्धेरी में जाकर, जिस सस्था की स्थापना की बल्पना जेल में बैठे कर रहे थे उसके लिये उपयुक्त जगह की भी तलाश की। दो-तीन जगह भी देखी गई। मुशीजी चाहते थे कि महीने दो महीने में ही यह नूतन सस्था शुरू कर दी जाय। उसके लिये अपेक्षित रकम कैसे प्राप्त की जाय इसकी भी कुछ रूपरेखा उन्होंने आलेपित कर ली और मुझे भी उसमें शोध ही सम्मिलित होकर कार्यरत करने का आग्रह किया। मैं वहाँ से फिर अहमदाबाद अपने स्थान पर पहुँचा।

शांतिनिकेतन में सिंधी जैन ज्ञानपीठ की स्थापना तथा सिंधी जैन ग्रन्थमालाका कार्यारम्भ

दो-तीन महीने अहमदाबाद रहना हुआ इस बीच मैं बलवता से स्व श्री बहादुर सिंहजी सिंधी का आग्रहपूर्वक आमन्त्रण मिला और जेल जाने के पहले शांति निरनेन जाने का और वहाँ पर सिंधी जैन ज्ञानपीठ स्थापित करने का जो बहुत-सा विचार विनिमय होकर एक सन्ध्या गा हो गया था। तदनुसार १९३१ के दिसम्बर महीने में अहमदाबाद से अपने आश्रम के कुछ छोटे-बड़े गाणियों को लेकर मैं शांतिनिकेतन पहुँचा। वहाँ पर सिंधीजी की विशिष्ट साहित्य प्रियता एवं उदारता के कारण सिंधी जैन ज्ञानपीठ और सिंधी जैन ग्रन्थमाला की नूतन स्थापना की। प्रथम सिंधी जैन ग्रन्थमाला में अनेकानेक ग्रन्थों के सम्पादन और प्रकाशन की याचना हाथ में ली उगने परिणाम स्वरूप जैन साहित्य के अनेक विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाश में आने लगे।

ग्रन्थमाला में प्रकाशित लिये जानेवाले ग्रन्थों की विज्ञापना नामावली में प्रस्तुत 'पंडावश्यक बालासबोध' ग्रन्थ का भी समावेश किया गया। क्योंकि इसकी प्रेस कॉपी जो मैं अहमदाबाद में पुस्तकालय भण्डार में रहते हुए बरखाई थी वह भरे सच में सुरक्षित थी।

षाद में मर् १९३९ में मुशीजी के विशिष्ट प्रयत्न में उगी पुरानी घोखना और बल्पना (जो हमने नासिक की सेट्रल जेल में बैठकर सोती और जेल में म निरन बाद अन्धेरी में सस्था क निने जगह आदि की जो देखभाइ कर लगी थी) तदनुसार भारतीय विद्या भवन की नूतन स्थापना का शुभारम्भ हुआ। श्री मुशीजी ने प्रारम्भ ही मे मुझ इगमें संगम होने के लिए गौहार भरा आग्रह किया। मैंने उनके उत्साह सामर्थ्य, कर्तव्य, प्रतिभा आदि अनेक विशिष्ट गुणों के कारण आग्रह करने तथा पाम्य इन नूतन भारतीय विद्या भवन के कार्य में अपनी मना देने का उत्तर दिया। शन के उद्देश और दोरव को लक्ष्य कर मुशीजी ने मुझे उग्रता सम्मान्य निरामक (अनन्तरी)

टाइपेटर) का कार्य भार सम्भालने को बड़ा। यद्यपि येरे पाम सिधी जैन ग्रन्थमाला के सम्पादन एवं प्रकाशना का बहुत बड़ा काम था और जिसका पूर्ण दायित्व मेरे ही पर निर्भर था तथापि श्री मुग्गीजी के सादर आग्रह के कारण मुझे भारतीय विद्या भवन के नियामक का कार्य भार भी कुछ समय के लिये हाथ में लेना पड़ा। सिधी जैन ग्रन्थमाला के संरक्षक स्व. श्री चाबू घट्टाकर सिंहजी सिधी के परामर्श से ही मैंने यह काम भी सम्भाला। बाद में श्री मुग्गीजी के आग्रह से तथा ग्रन्थमाला की भाषी मुख्यवस्था एवं सुस्तिरता की दृष्टि से ग्रन्थमाला का सारा बाह्य प्रबन्ध भी भारतीय विद्या भवन को सौंप देने का मैंने निर्णय किया। तदनुसार ग्रन्थमाला भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित की जा रही है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का संपादन कार्य डॉ. श्री प्रबोध पंडित को देने का प्रसंग

उपरोक्त उल्लेखानुसार सिधी जैन ग्रन्थमाला प्रकाशमान ग्रन्थों की सूची में प्रस्तुत बालाब-बोध का भी समावेश कर रखा था और तदनुसार सन् १९४२-४३ में इस काम को हाथ में लेने का और प्रेस में छपवाने का विचार मैं कर ही रहा था, उन्ही दिनों डॉ. प्रबोध पंडित भारतीय विद्या भवन में एक स्कॉलर के रूप में कुछ अध्यापन करना चाहते थे। इसलिये मैंने इनको स्व. लिखित विषय देने का प्रकण्ड किया। बाद में उनका सदन जाकर पीएच. डी. करने का विचार हुआ तो मैंने इनको मुझसे कहा कि तरुणप्रमत्त प्रस्तुत बालाबबोध के कुछ अंशों का भाषा वैज्ञानिक अध्यापन करने जैसा है। इनको मेरा मुझसे उपयुक्त लगा और इन्होंने सदन जाकर इसी विषय पर अपना थीसिस तैयार करना निश्चित किया। जो प्रतिलिपि मेरे पास थी, वह मैंने इनको दो साथ में प्राचीन गुजराती गद्य सदर्भ नामक पुस्तक भी इनको दी क्योंकि इस ग्रन्थ की मुख्य जो कथाएँ हैं वे सब उनमें मैंने छपवा दी थी।

श्री प्रबोध पंडित सन्दर्भ से डिग्री प्राप्त कर वापस आये तब इन्होंने मुझे अपना यह थीसिस दिखलाया इसकी विशिष्ट उपयोगिता देखकर मैंने इनसे सिधी जैन ग्रन्थमाला में छपवा देने का निर्णय किया, परन्तु इन्होंने जो काम किया वह तो ग्रन्थ गत विशिष्ट शब्दों वाक्यों का भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण रूप है। ग्रन्थ का मुख्य विषय क्या है और इसमें ग्रन्थकारने किन किन विषयों का विचारों का विवेचन किया है वह तो मूल ग्रन्थ का पूरा अध्ययन किये बिना ठीक परिज्ञान नहीं हो सकता और मेरा लक्ष्य जो इस ग्रन्थ की तरफ प्रारम्भ ही से आग्रह हुआ है वह तो भाषाकीय विश्लेषण के उपरान्त ग्रन्थ गत विविध विषयों की विशिष्टता के कारण है। अतः मैंने अपने पूर्व सक्त्यानुसार डॉ. प्रबोध पंडित के प्रस्तुत थीसिस के साथ पूरे ग्रन्थ को मूलरूप में शुद्धता के साथ छपवा देने का निर्णय किया और इस पूरे ग्रन्थ का सम्पादन कार्य करने का भी इनको परामर्श दिया। तदनुसार बम्बई के निर्णय सागर प्रेस में मुद्रण कार्य मैंने चालू कराया।

निर्णय सागर प्रेस में इसका काम जब चालू किया तब उस प्रेस में सिधी जैन ग्रन्थमाला के और भी ऐसे अनेक महत्त्व के ग्रन्थ छप रहे थे। इसलिये प्रेस सुविधानुसार धीरे धीरे इसका मुद्रण कर रहा था। इसी बीच मेरा बम्बई निवास कम होने लगा और अधिक समय राजस्थान में मेरे प्रयत्न द्वारा नूतन प्रस्थापित और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान' का कार्यभार मुझे सम्भालना प्राप्त हुआ। अतः अधिक समय इस नूतन प्राच्य विद्या मंदिर की व्यवस्था में व्यस्त रहने लगा।

उत्तर बम्बई में निर्णय सागर प्रेस जिसमें मेरे अनेकानेक ग्रन्थ छपते रहे इसकी व्यवस्था में भी कुछ विशेष शिथिलता होने लगी और प्रेस अपनी इच्छानुसार काम देने में असमर्थ मालूम दिया। सब अग्रुरा रहा हुआ काम पूना के आर्य भूषण प्रेस में कराना निश्चित किया। ग्रन्थ सम्पादक डॉ. प्रबोध पंडित भी उस समय पूना के एक इन्स्टीट्यूट में काम कर रहे थे इसलिये इनको प्रूफ आदि देखने में सुविधा रही। इस प्रकार कई वर्षों के परिश्रम के बाद अब यह ग्रन्थ प्रकाशित होने का अवसर प्राप्त कर रहा है।

प्रस्तुत सम्पादन में, जैसाकि श्री प्रबोध पंडित ने सूचित किया है तीन-चार प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं इसमें सबसे पहले जो प्रति मेरे देखने में आई वह ऊपर उल्लिखित पूता के भाडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर के सग्रहगत राजकीय ग्रन्थागार की है। परन्तु बाद में वीकानेर के प्रसिद्ध जैन भटार में इस ग्रन्थ की एक वैसी ही विशुद्ध प्रति उपलब्ध हुई जो प्रसिद्ध साहित्योपासक और बहुपरिश्रमी लेखक श्री अग्रचंदजी नाहटा द्वारा प्राप्त हुई। वैसी ही दो अन्य प्रतियाँ क्रमशः पाटण (गुजरात) और लीमडी (सौराष्ट्र) के ज्ञान भटारो से प्राप्त हुई। ये सब प्रतियाँ ग्रन्थकार के समय की हैं। ग्रन्थकार के उपदेश ही से उनके भक्त धावकोने इन प्रतियो का आलेखन कराया है। अतः इस दृष्टि से इस ग्रन्थ का यह सम्पादन एक विशिष्ट महत्त्व रखता है।

इस ग्रन्थ की एक ऐसी ही विशिष्ट प्रति हमको जेसलमेर के भटार में देखने को मिली थी। हमारे विचार ने यह प्रति सर्वोत्तम थी। इसके प्रथम पृष्ठ में सुवर्णमय जिन भगवान का चित्र था और दूसरे पृष्ठ के प्रथम पात्रव में तरुणप्रभाचार्य का रेखांकित स्वर्णमय चित्र था। मालूम देता है कि इस प्रति को स्वयं ग्रन्थकारने अपने हाथ से संशोधित की थी। इसकी अन्तिम प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है कि इस 'पडावश्यक बालावबोध की अट्टारह प्रतियाँ उस समय तैयार की गई थी। उनको भिन्न भिन्न भटारो में स्थापित की थी। इस प्रशस्ति की हमने नकल करली थी। परन्तु वह हमारे सग्रह के इधर उधर हो जाने से अब हमें प्राप्त नहीं है।

कुछ ऐसे अन्य बालावबोध भी उपलब्ध हुए हैं

अन्यान्य भटारो के अवलोकन करते समय हमें ऐसे और भी पडावश्यक बालावबोधो की प्रतियाँ देखने में आई, जिससे मालूम होता है कि तरुणप्रभाचार्य प्रस्तुत बालावबोध के अतिरिक्त भी अन्य कुछ विद्वाना ने ऐसे बालावबोधो की रचनाएँ की हैं, जो इसी प्रकारकी भाषा शैली में लिखी गई हैं।

तरुणप्रभाचार्य खरतर गच्छ के एक विशिष्ट अनुयायी थे और उन्होंने अपने गच्छ के उपासक जनो की दृष्टि रखकर अपने गच्छ की परपरानुसार इस ग्रन्थ में सूत्र पाठ अलेखित किया है। संभव है इसी तरह तपागच्छ आदि अन्य गच्छो के विद्वानो ने भी अपने अपने गच्छों की परपरानुसार मान्य सूत्र पाठ पर बालावबोध लिखे होने चाहिए। इसी प्रकार का एक अन्य 'पडावश्यक बालावबोध' हमारे अवलोकन में आया है,—जिसके स्थान का अब हमें ठीक से स्मरण नहीं है। शायद अहमदाबाद के ही किसी भटार में उपलब्ध हुआ था। परन्तु उसके अन्तिम दो पत्रों की फोटोकापी हमने अहमदाबाद में रहते हुए करवा ली थी, जो अभी तक हमारे पास है। यह प्रति भी बहुत पुरानी है। यह बालावबोध भी बहुत पुराना लिखा हुआ है। इसकी पत्र सख्या १५५ है। इसका जो अन्तिम पत्र है वह मूल प्रति थी, आकृति और लिपि से कुछ भिन्न है। इससे मालूम होना है कि मूल प्रति का अन्तिम पत्र किसी कारण से नष्ट या भ्रष्ट हो जाने के कारण पीछे से नया पत्र लिखकर मूल प्रति के साथ सलग्न कर दिया गया है। यह नया पत्र स १४५५ में लिखा गया है। अतः मूल प्रति इससे अवश्य पुरानी लिखी गई होनी चाहिए तथापि स १४५५ का उल्लेख सूचित करता है कि कम से कम तरुणप्रभाचार्य के बालावबोध रचना के समसामयिक ही यह बालावबोध रचा गया होगा। इस बालावबोध की प्रति का अन्तिम उल्लेख नीचे दिया जाता है। भाषा की दृष्टि से यह उतनी परिष्कृत नहीं मालूम देती, जितनी हमने ध्येष्ट समझा है। तथापि भिन्न भिन्न लेखक विद्वाना की विभिन्न शैली की दृष्टि से ऐसे सभी ग्रन्थो का संशोधन संपादन कार्य होने से भाषा के विकास विस्तार एवं प्रचार का सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसे ग्रन्थो के अध्ययन से शब्दोच्चार और शब्दाधार संयोजन के विविध रूपा का विरचयेणात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है।

‘एह्वा पच्चक वाणनइ विपइ। विवेचिइ। यत उद्यम खप करवा। जेह मणी नूपा धर्मनउ उद्यम जीव हइ। मोक्ष पत्तदायी उपाद। ॥ छ ॥

प्रत्याख्यान बालावबोध ॥ छ ॥ चउषड-अधिकार सपूर्ण हूउ ॥ छ ॥ श्री आवश्यक-
पडावश्यक बालावबोध । एहमाहि च्यारि अधिकार ॥ छ ॥ पहिलइ अधिकारि देव वचन १ ।
बीजइ गुर वदा २ । सीजइ पडिवमणउ ३ । चउषडपञ्चवा । ४ । समाप्त ॥ रावन् १४५५
वर्षे मादवामागे गुणलपधे १२ गुरवागरे । लिपित वायस्य ॥

ग्रन्थगत विषय का किंचित परिचय

तरुणप्रभाचर्य ने इस ग्रन्थ के आवश्यक सूत्र में आनेवाले विषयों का बहुत विस्तार से विवेचन किया है । उन्होंने न केवल आवश्यक सूत्र के अन्तर्गत सूत्र पाठों का ही अर्थात्पाठन करने का प्रयत्न किया है । अपितु प्रसंगान्तर्गत अनेक अन्यान्य शास्त्रीय उन्नेष और प्रमाण उद्धृत करते उन्ना भी अर्थात्पाठन किया है । इसलिये इगमें मूलसूत्र पाठ के सिवाय गैर-प्राचीन भाषाएँ तथा प्रवरण आदि से बहुत से श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं और उनका भी स्पष्टीकरण सूचक अर्थ लिखा गया है । वही-वही किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाले लम्बे प्रवरण भी उद्धृत कर दिये हैं ।

उदाहरण के तौर पर खान पान के विषय में जैन धर्मानुयायियों को किस प्रकार सपम रखना चाहिए और किन किन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए इस विषय में जो अनेक नियम उपनियम बतलाये गये हैं, उनमें मद्यपान, मासभक्षण, रात्रिभोजन, आदि का निषेध भी बनाया गया है । मद्यपान के कारण मनुष्य को किन किन दोषों का भागी होना पडना है और मनुष्य का जीवन किस तरह दुःखमय और दुर्गमय बनता है, इसके लिये प्रमाण स्वरूप हिन्दूशास्त्रों में से अनेक श्लोक उद्धृत किये हैं । इसी तरह मास भक्षण के लिये भी हिन्दूग्रन्थों में से निषेधात्मक कई श्लोक उद्धृत किये हैं । रात्रि भोजन से होनेवाले शारीरिक और मानसिक दोषों का निरूपण करने-वाले कई ग्रन्थों के श्लोक उद्धृत किये हैं । इस विषय में आयुर्वेद शास्त्र के भी कुछ प्रमाण लिखे हैं (देखें प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ १७३ से १७६ तक दिये गये संस्कृत श्लोक) ।

इसी तरह जैन धर्मानुयायियों को व्यापार आदि में भी किस प्रकार का सपम रखना चाहिए और किस किस प्रकार के व्यापारिक काम भी नहीं करने चाहिए । इसका भी बहुत सामिक विचार धार्मिक दृष्टि से किया गया है और उसके लिए जैन ग्रन्थों में से अनेक शास्त्रीय प्रमाण उद्धृत किये गये हैं । (देखें पृ १७८ से १८० तक) ।

प्रसंगानुसार जैन गृहस्थों को अपने लोक उपभोग की सामग्री के व्यवहार में किस प्रकार का सपमभाव रखना चाहिये और उससे किस प्रकार मनुष्य को लाभ अनाम आदि फलकी प्राप्ति होती है । जिसके लिये उदाहरणस्वरूप एक पुरानी धर्म-कथा भी लिखा गई है । इसी तरह अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य अर्परग्रह आदि व्रतों के पालन के विषय में भी गुण-दोष सूचक अनेक ग्रन्थ प्रमाण लिखे गये हैं । तथा विवेचनीय विषयों को स्पष्ट करने के लिये तद् तद् विषयक उदाहरण भूत पुरानी कथाएँ भी लिखी गई हैं । ये सब कथाएँ हमन अपनी उक्त प्राचीन गुणरूपी गद्य सदर्थ नामक पुस्तक में भी प्रकाशित कर दी थी । जिनकी संख्या २३ है । वही वही ग्रथकार ने अपनी स्वरचित रचनाएँ भी प्रसंगानुसार कर दी हैं जैसे कि पु २१६ से २१९ पर स्वरचित "त्रैलोक्य शाश्वत जिन प्रतिमा प्रमाण स्तवन" नामक बालीस पद्या का एक पुरा स्तोत्र ही उद्धृत कर दिया है । इसी तरह पृष्ठ २२६ पर "शाश्वत जीव बिन्द स्वरूप निरूपक" नाम से आठ पद्यों का एक और स्वरचित स्तवन उद्धृत किया है ।

इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में आबाल जनो को जैन धर्म विषयक ज्ञातव्य विचारों और निदान्तों का परिज्ञान कराने का योग्य प्रयत्न किया गया है और इसलिये यह यथार्थ बालावबोध ग्रन्थ बन गया है ।

संस्कृत भाषा में न होकर बाल जनोपकारिणी सुगम देशभाषा में लिखी गई। इसलिये इसका पूरा नाम 'षडावश्यक बालावबोध' वृत्ति ऐसा रखा गया।

* * *

तरुणप्रभाचार्य ने यह बालावबोध वृत्ति किस लिये बनाई है। इसका संक्षिप्त निर्देश उन्होंने अपने इस ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति में सूचित किया है।

गुजरात के सुप्रसिद्ध नगर पाटण में रहनेवाले ठक्कुर पद धारक मंत्री दलवशीय बलीराज नामक श्रावक की विशिष्ट अभ्यर्थना के कारण प्रस्तुत सुगम स्वरूप और बालावबोध कारिणी षडावश्यक वृत्ति की रचना की गई, ग्रन्थकार ने रचना की समाप्ति का समय विक्रम सं १४११ के दीवाली का शुभ दिन बताया है। उस समय अणहिलपुर अर्थात् पाटण में बादशाह फिरोजशाह का राज्यशासन था। इस ग्रन्थ की जो मुन्दर एव सुवाच्य लिपि में लिखी गई प्रति बीकानेर के ग्रन्थ भंडार में विद्यमान है, वह सवत् १४१२ के चैत शुद्ध तृतीया शुक्रवार के दिन लिखकर पूर्ण की गई है। यह प्रति भी अणहिलपुर अर्थात् पाटण में ही लिखी गई है और इसके लिपिकर्ता पंडित महिमा नामक यति वर थे। अर्थात् रचना समाप्ति के बाद प्रायः पाँच छ महीने के अन्दर यह प्रतिलिपि तैयार हुई। इस तरह इसकी अन्यान्य प्रतिलिपियाँ भी यथासमय उन्ही वर्षों में तैयार हुई होंगी। हमको जेसलमेर में जो प्रति देखने के मिली वह सवत् १४१८ में उक्त भंडार में स्थापित की गई। ऐसी उसके लेख से ज्ञात हुआ और ये सब प्रतिलिपियाँ ग्रन्थकार के निजी तत्त्वावधान में ही सम्पन्न हुई थी और इनमें कुछ प्रतिलिपियों को स्वयं ग्रन्थकारने संशोधित की थी। अतः इस ग्रन्थ का जो पाठ प्रस्तुत पुस्तक में मुद्रित है। वह प्रायः शुद्ध है। ऐसा कहा जाय तो उस में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

तरुणप्रभाचार्य का विशेष परिचय

ग्रन्थकार तरुणप्रभाचार्य अपने समय में प्रसिद्ध जैन आचार्य और विद्वान् धर्म-नायक थे। इनके जीवन के विषय में कुछ बातें पट्टावली आदि में मिलती हैं वे आगे लिखी गई हैं। इन्होंने स्वयं तो अपनी इस ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति में जो कुछ छोड़ा परिचय दिया है, उसका सारांश केवल इतना ही है कि सुप्रसिद्ध खरतर गच्छ नामक जैन सभ के वे सुप्रसिद्ध एव मान्यता प्राप्त आचार्य थे।

इनके दीक्षादायक गुरु का नाम जिनचन्द्र सूरि था।

ये श्री जिनचन्द्र सूरि अपने समय के जैन-सभ में बहुत प्रभावशाली आचार्य हुए। खरतर गच्छ की परंपरा के अनुसार ये द्वितीय जिनचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हैं।

प्रथम जिनचन्द्र सूरि खरतर गच्छ के मूल संस्थापक एव प्रतिष्ठापक श्री जिनदत्त सूरि के दीक्षित शिष्य थे। ये गच्छानुयायियों में 'मणिधारी दादा' जिनचन्द्र सूरि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म विक्रम सं ११९७ में हुआ था और छ वर्षों जैसी बाल्यावस्था में (सं १२०३) जिनदत्त सूरिने इनको अपना दीक्षित शिष्य बनाया। ये अत्यन्त तेजस्वी और अप्रतिम प्रतिभावान् बाल मुनि थे। गुरुवर्षों श्री जिनदत्त सूरिने अपनी योग विद्या का सर्वथा श्रेष्ठ पाठ मान कर इनको उस बाल्यावस्था के दो-तीन वर्षों में ही अपनी योग सिद्धि करनेवाली विद्या प्रदान की और सवत् १३२५ में अर्थात् ८, ९ वर्षों जैसी बालवय में ही अपने भावी पट्टधर आचार्य के रूप में इनकी स्थापना कर दी। जैन आचार्यों के प्राचीन इतिहास में यह एक विशिष्ट घटना है।

सवत् १२११ में महान् आचार्य दादा साहब श्री जिनदत्त सूरि का अजमेर में स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद लघुवयस्क आचार्य जिनचन्द्र सूरि ने अपने महान् गुरु के सभ सम्प्रदाय का सञ्चालन भार सम्भाला। अप्रतिम प्रतिभा और गुरुवर्षों द्वारा प्राप्त विशिष्ट विद्या बल के कारण जहाँ-जहाँ ये जाते थे वहाँ-वहाँ इनका प्रभाव खूब पड़ना रहता था। इन्होंने मरूमि तथा गणदासना के अनेक गाँवों, नगरों में परिभ्रमण किया। मयुरा और दिल्ली के प्रदेश में भी

इन्होंने विवरण किया। स १२२२ में तीर्थयात्रा करने हुए अपने भवन धर्मिन् श्रावकों के साथ इनका आगमन दिल्ली नगर में हुआ (दिल्ली का नाम उस समय योगीनीपुर भी प्रसिद्ध था)। दिल्ली में उस समय तोमरवंशीय राजा मदनपाल का राज्यशासन चल रहा था। दिल्ली में उस समय राज्यमान्य और जन सम्मान्य अनेक जैन श्रावकों का स्थूल प्रभुत्व था। मंत्री दलवंशीय के नाम से प्रसिद्ध प्राण्य श्रावकों के कई धर्मिन् बुद्धिमान्य वहाँ बसते थे। इन श्रावकों ने विद्या मिद्ध और बुद्धि निधान आचार्य जिनचन्द्र सूरि का बहुत बड़े ठाठ के साथ प्रवेशोत्सव किया। जिसे जान मुन्य कर महाराज मदनपाल भी बड़ा प्रभावित हुआ और उनमें बहुमानपूर्वक जैन आचार्य को अपने चरण वन्दन से राज प्रासाद का पवित्र करने के लिये आमन्त्रित किया। राजा ने बहुत भक्तिपूर्वक इनका सत्कार किया और अत्यन्त विनय भाव से धर्मोपदेश श्रवण किया। देवगति से इनका उम्मी वर्य दिल्ली में ही स्वर्गवास हो गया।

इस तरह केवल २५, २६ वर्ष जितनी अल्पायु में ही ये देवगति को प्राप्त हुए, परन्तु इनकी इस प्रवार की अल्पायु में ही बड़ी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हुई। इनकी योग विद्या मिद्ध अनेक जन्मस्मार्तिक घटनाएँ धरतर गच्छ की घट्टाविनिषा में उल्लिखित मिलती हैं। दिल्ली के पान महरोली नामक स्थान में जहाँ इनके विभूतिपूर्ण शरीर का अग्निमस्कार हुआ था वहाँ पर सुप्रसिद्ध दादावाडी नामक एक पूजनीय स्थान बना हुआ है, जहाँ पर आज भी सैकड़ा भक्तजन उस भूमि के दर्शन वन्दन करने जाते रहते हैं।

इन्हीं प्रथम जिनचन्द्र सूरि की पट्ट परंपरा में द्वितीय जिनचन्द्रसूरि हुए जो प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता के दीक्षागुरु थे। ये जिनचन्द्र सूरि भी प्रथम जिनचन्द्र सूरि के समान ही बहुत प्रभावशाली और सम्मान प्राप्त आचार्य हुए। इनकी आचार्य पदस्थापना सवत १३४१ में इनके गुरु आचार्य जिनप्रबोध सूरि ने स्वयं की और सवत १३७६ में इनका स्वर्गवास हुआ। इस प्रकार प्राय ३५ वर्ष जितने इनके आचार्य काल में धरतरगच्छ की मुख्य परंपरा के अनुयायी समुदाय में इनके द्वारा अनेक धार्मिक महोत्सव सम्पन्न हुए। इन्होंने अपने आचार्यकाल में सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मपाद-तथा एक सिंध प्रदेश में कई बार परिभ्रमण किया और वहाँ के निवासी अपने भक्तजनता में धर्मोपदेश द्वारा धार्मिक सत्कारा की खूब वृद्धि की अनेक तीर्थयात्राएँ की गईं। इससे लिये बड़े बड़े मद्य निवासि गये अनेक स्थानों में नये जिन मंदिर बनाये गये और उनमें सैकड़ा जिन मतिर्या स्थापित की गईं। इसी तरह अनेक श्रावक श्राविकाओं ने आत्म कल्याण का अत ग्रहण किये तथा तपस्या आदि के उच्चापन, मालारोपण आदि विविध प्रकार के धार्मिक कार्य सम्पन्न हुए।

इन जिनचन्द्र सूरि के समय में गुजरात सौराष्ट्र, मारवाड, दिल्ली, हरियाणा और सिन्ध के प्रदेशों में भयंकर राजनैतिक उथल फुलल हुई। यह समय भारत का राजकीय इतिहास में बहुत ही दुःखदायक एक प्रलयकारी परिस्थिति का घटक रहा था। इन्हीं वर्षों में गुजरात के स्मृद्धिशाही अणहिलपुर, पाटण का विध्वंस हुआ। उसकी अपार स्मृद्धि का निनाश हुआ। सौराष्ट्र में शत्रुजय, गिरनार, सोमनाथ तथा द्वारका जैसे भारत विख्यात तीर्थस्थान नष्ट भ्रष्ट हुए। जालोर चित्तौड और रणथम्भोर जैसे हिन्दूजाति के महान् सरक्षक गिन जानेवाले दुर्ग ध्वस्त हुए। गुजरात का सोली की राजवंश, मालवे का परमार राजवंश मेवाड का गुहिलीत राजवंश तथा जालोर और रणथम्भोर का चौहान जैसे महान् पराक्रमी राजवंश स्थानभ्रष्ट और सत्ताहीन बनें। इससे कारण सारा भारत भयाव्वात हो रहा था। सर्वत्र विधर्मी लुटेरा द्वारा भयंकर लूटमार मची हुई थी। जनता का सर्वस्व खोसा जाता था। हिन्दू देवी-देवताओं के भव्य मंदिर म्बड़हर बन रहे थे। देवमूर्तियाँ तोड़ी फोड़ी जाकर मस्जिद और मक्बरा की दीवारों में चुनी जा रही थी। हजारों स्त्री-मुरूप पकड पकड कर बँदी बनाये जा रहे थे और हजारों ही तलवार की धार से कत्तल किये जा रहे थे। एक प्रकार से भारत के मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा सक्टा मय और विपत्तिजनक वह समय था।

जिनचन्द्र सूरि उस समय के प्रत्यक्षदर्शी एवं अनुभवी आचार्य थे। धरतर गच्छ बृहद गुर्वाचली

नामक ग्रन्थ में इन आचार्यों के कार्यकाल का काफी प्रभाविक वर्णन दिया हुआ है। जिसमें जगह जगह पर उन उन स्यानों में होनेवाले ऐसे दुःख प्रसंगों का सकेत रूप में उल्लेख मिलता है। इन्हीं आचार्यों ने प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता तरुणप्रभ सूरि को 'मूलनामतर्णकीर्ति' को १३६८ में भीमपल्ली (भीलडिया) नामक नगरमें दीक्षा दी थी। उस समय इनका नाम तरुणकीर्ति ऐसा रखा गया था। इनके साथ तेजकीर्ति नामक एक अन्य बालक को दीक्षित किया था तथा व्रतधर्मा और दृढधर्मा नामक दो साध्वियों को भी नई दीक्षा दी और उसी समय प्रतापकीर्ति और एक अन्य क्षुल्लक मुनि की उपस्थापना विधि सम्पन्न हुई। उसी समय ठक्कुर हासिल के पुत्र रत्न ठक्कुर दहेड के छोटे भाई ठक्कुर धीरदेव की सुपुत्री जिसकी श्री जिनचन्द्रसूरि ने पहले अपने हस्त से दीक्षा दी थी और जिसका नाम रत्नमजरी गणिनी था, उसको महत्तरा पद प्रदान किया और श्री जयार्द्ध महत्तरा के नाम से घोषित किया और प्रियदर्शना नाम गणिनी को प्रवृत्तिनी पद प्रदान किया। इस अवसर पर भीमपल्ली के श्रावक समुदायने बहुत बड़ा उत्सव किया। (देखें स्व ग गुर्वावली पृष्ठ ६३-६४)

तरुणकीर्ति के लिये यहाँ 'क्षुल्लक' ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। जिससे ज्ञात होता है कि उनकी उम्र उस समय आठ-दस वर्ष जितनी छोटी होगी। पट्टावली में ऐसे बाल वय में दीक्षित होनेवाले बालक बालिकाओं के लिये क्षुल्लक और क्षुल्लिका विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रायः जैन ग्रन्थों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आठ दस वर्ष से लेकर १२ वर्ष की शिशुवय में ऐसे अनेक दीक्षित हुए हैं और बाद में वे बड़े विद्वान् चारित्रिक और प्रभावशाली व्यक्तित्व बने हैं। तरुणकीर्ति भी इन्हीं में से एक बालवय में दीक्षित होनेवाले प्रथम क्षुल्लक मुनि बने।

गुरुवयं श्री जिनचन्द्र सूरि ने इनको विद्याध्ययन करने के निमित्त अपने एक अन्यतम विद्वान् शिष्य यश कीर्ति नामक गणि को सौंप दिया। तरुणप्रभ ने लिखा है कि पिता से भी अधिक वात्सल्यभाव इनका मुझ पर था और मुझे इन्होंने पहले पहले विद्याध्ययन कराया।

‘पितृभ्योऽप्यति वात्सल्य
येनाधायितरा मयि ।
यश कीर्ति गणिर्मा
सपूर्वं विद्यामभाणयत् ।

इन यशकीर्ति गणिको सन १३४९ के मार्गशीर्ष वदी २ को पालनपुर नगर में श्री जिनचन्द्र-सूरि ने दीक्षा दी थी।

इसके बाद तरुणप्रभ ने श्री राजेन्द्रचन्द्र सूरि से भी कुछ कुछ विद्याभावा अध्यायन किया।

‘राजेन्द्र चन्द्र सूरिर्द्वं विद्या काचन काचन ।’

ये राजेन्द्रचन्द्राचार्य भी श्री जिनचन्द्रसूरि के स्वहस्त दीक्षित शिष्य थे। इनकी दीक्षा सन १३४६ के जेठ विद ७ के दिन उसी भीमपल्ली नगर में हुई थी। इनके साथ नरचन्द्र, मुनिचन्द्र, पुष्पचन्द्र, नामक साधुओं की तथा मुनिजदमी और मुनिश्री नामक दो साध्वियों की दीक्षा बड़े उत्साहपूर्वक हुई।

इसके बाद सन १३४७ में मार्गशीर्ष सुद ६ को राजचन्द्रादि नूतन दीक्षित साधु साध्वियों का उपस्थापना महोत्सव मनाया गया। इन राजेन्द्रचन्द्र ने महोत्साध्ययन विवेकगमुद्र का पाठ बहुत वर्षों रहकर लक्षण, तर्क, साहित्य, अलंकार, ज्योतिष आदि अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। अपने गमुदाय में ये स्वयंम पर समय विद्वान् तत्त्वों के बड़े ज्ञाता गमने जान थे और इगामिने इनके गुरु इनको पंडितराज कहकर सर्वोद्धिन किया करते थे।

गवत् १३७३ में स्पेच्छ विप्रमिया का दुष्ट आक्रमण का कारण गिधु मण्डन निवासी श्रावक यम जय बहुत उद्विग्न और व्याकुल हो रहा था और जब वहाँ के कुछ अग्रगण्य श्रावक जैग कि भोत्रदेव, मा लक्षण, मा हरिसाव आदि उष्वाणुदी नगर के प्रमुख श्रावक नागपुर (नागार) में अपने ऊपर उनकी श्रावक-गुहार भयकर शीघ्र श्चु में भी तथा मुगलशासक द्वारा मारा गिधु मण्डन

आक्रान्त होकर वहाँ की जनता अत्यन्त तस्त और भयभीत हो रही थी, तब वहाँ जाकर जिनचन्द्र सूरि ने अपने विद्यादल, तपोवन और विशिष्ट वाक्चातुरी द्वारा लोमो को शांति प्रदान करने का यथेष्ट प्रयत्न किया। वहाँ पर शांतिपारक धर्म कार्य करते हुए शारीरिक अवस्था क्षीण हो जाने के कारण श्री जिनचन्द्र सूरि ने अपने विद्वान शिष्य श्री राजचन्द्र पंडित को अपने पास बुलाने के लिये दो विश्वस्त श्रावकों को गुजरात के पाटण शहर भेजे। जहाँ पंडित राजचन्द्र महोपाध्याय विवेक समुद्रगणि की सेवा में रह रहे थे। इससे ज्ञात होता है कि राजेन्द्रचन्द्र, श्री जिनचन्द्र सूरि के एक बहुत ही विशिष्ट कोटि के शिष्यों में से थे। इसलिये इनको अपने अन्तिम समय में पास में बुलाया और वही पर इनको आचार्य पद प्रदान कर राजेन्द्रचन्द्राचार्य नाम से प्रतिष्ठित किया। खरतर गच्छ बृहद गुर्वावली में इनके विषय में बहुत से उल्लेख आये हैं। श्री जिनचन्द्र सूरि का स्वर्गवास ही जाने पर उनके मुख्य पद पर सुप्रसिद्ध आचार्य जिनकुशल सूरि को प्रतिष्ठित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

ये उक्त प्रकार से बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे। इसलिये तरुणप्रभ ने कुछ कुछ विशेष विद्यार्ण इनसे भी प्राप्त की थी।

सवत् १३७६ में जिनचन्द्र सूरि का स्वर्गवास हो गया। उनसे पट्टपर उन्हीं की इच्छा एवं आज्ञानुसार राजेन्द्रचन्द्राचार्य के विशिष्ट प्रयत्न से पाटण में जिनकुशल सूरि का सवत् १३७७ के ज्येष्ठ वृष्ण ११ के दिन बड़े समारोह के साथ पट्टाभिषेक हुआ।

इन जिनकुशल सूरि का जन्म सवत् १३३७ में मारवाड के समियाणा नामक गाँव में हुआ था और ९ वर्ष की वय में अर्थात् सवत् १३४६ में इनकी दीक्षा दी गई थी। जो वे जिनचन्द्र सूरि के भाई के पुत्र थे और इस प्रकार उनके साथ इनका कीटुम्बिक सम्बन्ध भी था। इनका उस समय कुशलकीर्ति नाम रखा गया। इनके साथ देववल्लभ, चारित्रवतिलक नामक साधुओं की दीक्षा हुई थी, तथा रत्नश्री नामक एक साध्वी की भी दीक्षा हुई। उन समय सा धेम सिंह भ्राता बाहुड द्वारा कई जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठा का महोत्सव किया गया, उस समय वहाँ पर चाहमान (बल्लान) चशीय महाराजा सोमेश्वर का शासन काल चल रहा था और महाराजा ने इन महोत्सवों में बहुत उत्साहपूर्वक योगदान दिया था। सवत् १३७५ में मारवाड के तापोर नगर में गच्छ नामक आचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि ने इनको सर्व विद्या कुशल जानकर तथा अनेक शिष्यों से परिवृत्त बहुत लडिध संपन्न समझ कर एवं भविष्य में अपनी परंपरा की कीर्ति को बढ़ानेवाले मानकर पंडित राजकुशल-कीर्ति गणि को आचर्याचार्य पद प्रदान किया। उसी समय धर्मनात्ता गणिनी और पुष्पमुन्दर गणिनी को प्रवर्तिनी पद प्रदान किया। इस समय मंत्री दलचशीय ठक्कुर विजयसिंह ठ सेडू ना ह्दा प्रमुख नाना ग्रामों के अनेक धनिक श्रावकजन एकत्रित हुए थे और बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया था। फिर ठ विजयसिंह, ठ सेडू ठ अचल प्रमुख भक्त श्रावकों ने एकत्र होकर गच्छ नायक आचार्य के साथ बड़े ठाठ से पलोद स्थित पारवनाथ भगवान की यात्रा की।

स १३८४ में श्री जिनकुशल सूरि जब जेसलमेर थे तब सिध के निवासी अनेक धनिक और प्रभावशाली जनो ने आचार्यजी को सिध में पधारने की बहुत आग्रहपूर्वक विनति की। तब उनकी क्लिप्त स्वोकार कर आचार्यजी ने सिध के लोगों को धर्मोपदेश देकर उनकी कल्याण कामना पूर्ण करने की दृष्टि से उस तरफ बिहार किया।

सिध में उस समय देवराजपुर (देरावर) नामक नगर एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। वहाँ पर अनेक जैन कुटुम्ब बसते थे। जो बहुत कुछ सम्पत्तिशाली और राज्यमत्ता के माथ भी विशिष्ट सध्वन्ध रखते थे। जिनकुशल सूरि ने उस नगर को अपना केन्द्र स्थान बनाकर उसके आगशाय के उच्च नगर, राणुवकोट, बहीरामपुर, मन्किपूर, धोजबाहन, बयामपुर आदि स्थानों में यथा समय परिभ्रमण करते थे और वहाँ के जना को धर्मोपदेश द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रेरित करते रहते थे। उनसे विद्या तप एवं योगदल के प्रभाव से उस प्रदेश के मुगलशासन शासन भी उनका प्रति अपना आदरभाव प्रकट करते थे। इससे वहाँ की जनता को बहुत कुछ आश्वासन मिलना रहता था।

सूरि की वृद्धावस्था का प्रभाव बढ रहा था। उनकी शारीरिक स्थिति क्षीण हो चली थी तब वे अपना अन्तिम समय नजदीक जानकर से स १३८८ में देवराजपुर आ गये। वहाँ के श्रावक जनो ने उनका बडा प्रवेशोत्सव किया। उस समय उनकी सेवा में जो यति, मुनि आदि विद्यमान थे उनमें मुख्य श्री तहणप्रभ गणि और लब्धिनिदान गणि थे। उस वर्ष के मार्गशीर्ष शुक्ल दसवी के दिन एक बडा महोत्सव मनाया गया और उस महोत्सव में ५ तहणकीर्ति गणि को आचार्य पद प्रदान किया गया और तहणप्रभाचार्य ऐसा नाम उद्घोषित किया। ५ लब्धिनिदान गणिको महोपाध्याय के पद पर अगिपिक्त किया। उसी प्रसंग पर दो क्षुल्लक और दो क्षुल्लिकाओ का भी दीक्षोत्सव हुआ। उन क्षुल्लको के नाम जयप्रिय मुनि और पुष्पप्रिय मुनि रखे गये। क्षुल्लिकाओ के नाम जयश्री और धर्मश्री थे। उस प्रसंग पर दस श्राविकाओ ने धर्ममालाएँ धारण की तथा अनेक श्रावक, श्राविकाओ ने कई प्रकार के व्रत ग्रहण किये। वृहद् गुर्वावली में इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए तहणकीर्ति गणि के लिये निम्नलिखित गुणवर्णनात्मक पक्ति लिखी गई है -

‘तस्मिन् महोत्सवे गाम्भोर्योदायं, धैर्यं स्थैर्याजं विद्वत्त्व कवित्व, वाग्मिन्त्व, सत्त्व, सोविहित्य ज्ञान दर्शन चरित्त्र विशद पट्ट त्रिसत्सूरि गुण गण गणि विपणि ना. ५ तहणकीर्ति गणिनाम्।’— इस पत्रितगत उल्लेख से तहणप्रभाचार्य की विशिष्ट गुणवत्ता का आभास मिलता है।

उसके बाद आनेवाला चातुर्मास जिनकुशल सूरि ने उसी देवराजपुर में व्यतीत किया और श्री तहणप्रभाचार्य तथा लब्धिनिदान उपाध्याय को सम्मति तर्क और स्यादवाद रत्नाकर जैसे महान् जैन तर्क शास्त्रो का गभीर अध्ययन कराया फिर माघ शुक्ल में गाढ ज्वर और श्वास आदि व्याधि प्रकोप बढ जाने पर तहणप्रभाचार्य और लब्धिनिदान उपाध्याय को आपने आदेश दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पट्ट पर पचमूर्ति नामक १५ वर्षीय बाल मुनि को पद स्थापना की जाय।

यह पचमूर्ति मुनि आचार्य श्री जिनकुशल सूरि के स्वहस्त दीक्षित शिष्य थे। ये पचमूर्ति लक्ष्मीधर सेठ के पुत्र साधुराज आम्बा के पुत्ररत्न थे। इनकी माता का नाम कीका था। इनकी दीक्षा स १३८४ में इसी देवराजपुर में हुई। इनके पिता साधुराज सा आम्बा बडे धनिक व्यक्ति थे। उस साल के माघ सुदी पचमी के दिन बडा भारी प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, जिसमें सिंध के कई स्वानो में मूर्तियाँ विराजमान करने की दृष्टि से अनेक प्रतिमाएँ वहाँ लाई गईं और जिनकुशल सूरि के कर कमलों द्वारा वह सारा प्रतिष्ठा कार्य सुसम्पन्न हुआ।

उसी महोत्सव पर साधुराज आम्बा के पुत्र-रत्न को भी दीक्षा दी गई और उसका नाम पचमूर्ति रखा गया। उनके साथ आठ अन्य क्षुल्लको को भी दीक्षित किया गया। इन क्षुल्लको के नाम इस प्रकार हैं—भावमूर्ति, मोदमूर्ति, उदयमूर्ति, विजयमूर्ति, हेममूर्ति, भद्रमूर्ति, मेघमूर्ति और हर्षमूर्ति। इनके साथ कुलधर्मा, विनयधर्मा, शीलधर्मा नामक तीन क्षुल्लिकाएँ भी दीक्षित हुईं।

श्री जिनकुशल सूरि के हाथो से सिंध में यह सब से बडा महोत्सव सम्पन्न हुआ। समझ है पचमूर्ति बालसाधु जो उस समय श्री जिनकुशल सूरि की सेवा में विद्यमान थे। एक तो वे बहुत धनिक गृहस्थ के पुत्र थे और सोमाम्यादि गुणो से भी भाग्यशाली दिखाई देते थे। इसलिये सूरिजीने उनको अपना गादीधर गच्छ नायक बनाना योग्य समझा और अपनी यह इच्छा उन्होंने तहणप्रभाचार्य जैसे गच्छ के बहुत बडे मुनि के सम्मुख प्रकट की।

इस के बाद सवत १३९० के फाल्गुन मास की कृष्ण पचमी की रात्रि को जिनकुशल सूरि का स्वर्गवास हुआ। दूसरे दिन बहुत विस्तार के साथ उनका अग्निस्कार किया गया। इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन वृहद्गुर्वावली में दिया गया है।

इस के बाद सवत १३९० के जेठ महीने की शुक्ल छठ सोमवार के दिन श्री तहणप्रभाचार्य ने जयधर्म महोपाध्याय तथा लब्धिनिदान महोपाध्याय आदि तीस मुनि तथा अनेक साध्वी मठन के साथ श्री जिनकुशल सूरि की अन्तिम शिक्षा के अनुसार उनसे पट्टपर पचमूर्ति क्षुल्लक की पदस्थापना कर जिनपच सूरि के नाम से उद्घोषित किया।

उस समय नूतन गच्छ नायक जिनपद्मसूरि की अवस्था पन्द्रह वर्ष की थी। अतः गच्छानुयायी सद्यः वा साराभार श्री तरुणप्रभाचार्य समावृत्ते थे। दुर्भाग्य से जिनपद्मसूरि का स्वर्गवास (दस, ग्यारह वर्ष बाद) सन् १४०० में हो गया। फिर उनके पट्ट पर तरुणप्रभसूरिने अपने सहाध्यायी उपाध्याय पद धारण कर ली। जिनपद्मसूरि के नाम से विद्या देकर जिनपद्मसूरि के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और जिनलब्धि सूरि नाम से उद्घोषित किया। परन्तु १४०६ में जिनलब्धि सूरि का भी नागौर में स्वर्गवास हो गया।

फिर उनके पट्ट पर जैसलमेर में जिनचन्द्र सूरि (तृतीय) की पद स्थापना की। परन्तु उनका भी सन् १४१५ में स्वर्गवास हो गया। तब उनके पट्ट पर खम्भात में श्री जिनकुशल सूरि के ही अन्यतम शिष्य श्री सोमप्रभ को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और जिनोदय सूरि के नाम से उद्घोषित किया।

इन सोमप्रभ को सन् १३८२ में भीमपल्ली (भीमडी गाँव में) श्रीकुशल सूरि ने दीक्षा दी थी। इनके साथ विनयप्रभ, भतिप्रभ और हरिप्रभ नामक बालसाधुओं को दीक्षित किया। इसी तरह कमलथी ललितथी नामसे दो बालिकाओं को भी दीक्षा दी।

इस प्रकार श्री जिनकुशल सूरि के स्वर्गवास के बाद उस गच्छ की परंपरा में जिनोदय सूरि प्रभावशाली आचार्य हुए। बीच में जो उक्त प्रकार के पच्चीस वर्ष के अन्तरमें तीन आचार्य गद्दी पर बैठे, परन्तु थोड़े थोड़े वर्षों के बाद उनका स्वर्गवास हो जाने से और एक दो आचार्य तो अल्पकालीन जीवन ही पा सके थे। इसलिये उन २५ वर्षों की पाव शताब्दि उक्त परंपरा के लिये प्रभावशाली से व्यतीत हुई। इन २५ वर्षों में तरुणप्रभाचार्य ही इस परंपरा के एक सर्वाधिक प्रभावशाली और गच्छ के विशिष्ट नायक रूप में विद्यमान रहे।

तरुणप्रभाचार्य बहुत अधिक शास्त्र ज्ञाता थे। यह तो उनकी प्रस्तुत 'पडावश्यक बालावबोध वृत्ति' के अवलोकन से ज्ञात होता है। उन्होंने अनेक जैन ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया था। पट्टावली के उल्लेखानुसार स्वयं श्री जिनकुशल सूरि के पास स्वादवाद रत्नाकर आदि महान तर्क ग्रन्थों का अध्ययन किया था। जिनकुशल सूरि ने 'चैत्यवदन कुलक' नामक एक प्राकृत प्रकरण ग्रन्थ पर बहुत विस्तृत मस्कृत व्याख्या लिखी थी। जिसके सशोधन में तरुणप्रभ सूरि (उम समय इनका मूल दीक्षित नाम तरुणकीर्ति था) ने अपना सहयोग दिया था। इसलिये श्रीकुशल सूरि ने उनकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए इनको 'विद्वत्तजन चूडामणि' के सम्मान वाचक शब्द से उल्लिखित किया है। इनकी ऐसी विशिष्ट विद्वता और प्रभावशीलता के गुण को लक्ष्य कर श्री जिनकुशल सूरि ने अपनी अन्तिम अवस्था में इनको उपर्युक्त लेखानुसार आचार्य पद प्रदान किया था और इसी गुण के कारण वे श्रीकुशल सूरि के बाद २५-३० वर्ष तक इनकी गच्छ परंपरा में विशेष रूप से सम्माननीय बन रहे थे।

तरुणप्रभाचार्य ने प्रस्तुत 'पडावश्यक बालावबोध वृत्ति' के अनिर्वचन ग्रन्थ भी किसी ग्रन्थ की रचना की हो-ऐसा ज्ञात नहीं होता। क्योंकि वैसी कोई ग्रन्थ रचना की होनी तो वह बीरानेर, जैसलमेर, पाटण आदि के भंडारों में अवश्य उपलब्ध होती। हाँ उनकी कुछ छोटी-छोटी स्तुति, स्तोत्र, स्तवन आदि रचनाएँ उपलब्ध होती हैं—जिनका उल्लेख श्री अणवरत्नजी नाहटाने अपने 'आचार्य प्रवर तरुणप्रभ सूरि' नामक सशोधनात्मक लेख में किया है। (देखें शोध पत्रिका भाग ६ अंक में)

तरुणप्रभ सूरि का अधिकतर विचरण गुजरात मोरारपुर और राजस्थान तथा सिंध प्रदेश में हुआ जान पड़ता है। प्रख्यात ग्रन्थकार जिनप्रभ सूरि की तरह उन्होंने विविध देशों में भ्रमण किया हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। इन्होंने छोटी छोटी स्तुति, स्तोत्रादिक जो रचनाएँ की हैं। उनमें 'सम्मान पाशवनाथ स्तोत्र', 'अर्जुनाक्षर आदिकाश स्तोत्र', 'देवराजपुरमंडन आदि जिन स्तवन', 'जैसलमेर पाशवनाथ स्तवन', 'जीरापल्ली पाशवनाथ विज्ञप्ति', 'विमलाक्षर आदिदेव स्तवन',

‘पट पत्तनालकार आदि जिनस्तवन’, ‘भीमपल्ली वीर जिनस्तवन’, ‘तारगलकार अजित जिनस्तवन’, आदि रचनाओं से ज्ञात होता है कि इन्हीं तीर्थस्थानवाले प्रदेश में इनका भ्रमण रहा होगा।

इनका स्वर्गवास किस वर्ष में हुआ, इसका कोई उल्लेख हमारे देखने में नहीं आया। श्री अमरचन्द्रजी नाहटा का अनुमान है कि स १४२० के आसपास इनका स्वर्गवास हुआ होगा।

श्री तरुणप्रभ सूरि की शिष्य परंपरा आदि के बारे में भी कोई विशेष उल्लेख हमारे देखने में नहीं आया।

श्री जिनोदय सूरि की पट्ट स्थापना इन्हीं के द्वारा हुई थी और इसलिये जिनोदय सूरि के सम्बन्ध में जो ‘विवाहला तथा पट्टाभिषेक रास’ नामक तत्कालीन प्राचीन भाषा रचना प्राप्त होती है। उसमें इनके विषय में लिखा है कि “तरुणप्रभ सूरिने श्री जिनचन्द्र सूरि (तृतीय) के पट्ट पर सोमप्रभ नामक विद्वान गणि की स्थापना कर उन्हें जिनोदय सूरि के नाम से उद्धोषित किया।”

जिनोदय सूरि श्री जिनकुशल सूरि के बाद चौथे पट्टघर आचार्य हुए। जो वे उन्हीं के दीक्षित शिष्य थे। ये बहुत प्रभावशाली आचार्य्य थे। इनका रचा हुआ “विज्ञप्तिमहालेख” हमें मिला है। जिसको हमने, सिंधी जैन ग्रन्थमाला के प्रयाक ५१ के रूप में, अन्यान्य अनेक विज्ञप्ति लेखों के साथ, प्रकाशित किया है। यह ‘विज्ञप्ति महालेख’ इस प्रकार के विज्ञप्ति लेखों में एक विशिष्ट एवं उत्कृष्ट रचना है। यह लेख विक्रम संवत् १४३१ में रचा गया है। उस समय जिनोदय सूरि गुजरात के प्रसिद्ध पाटण शहर में चातुर्मास रहे हुए थे। वहाँ पर अयोध्या नगर में रहनेवाले लोकहित्वाचार्य द्वारा भेजा हुआ एक विशिष्ट प्रकार का विज्ञप्ति लेख श्री जिनोदय सूरि को मिला तो उसके प्रत्युत्तर रूप में जिनोदय सूरि ने भी वैसाही एक विशिष्ट लेख तैयार कर श्री लोकहित्वाचार्य को अयोध्या भेजा। यही उक्त ‘विज्ञप्ति महालेख’ है।

जिनोदय सूरि ने उस समय से पहले तीन चार वर्षों में जो तीर्थ यात्राएँ तथा प्रतिष्ठा महोत्सव आदि जहाँ जहाँ किये उनका विशिष्ट प्रकार की अलंकारिक भाषाओं में वर्णन किया है। लेख बहुत ही श्रेष्ठ शब्दावली से अलंकृत सल्लूत भाषाओं में लिखा गया है। इस विज्ञप्ति महालेख में उन्होंने उल्लेख किया है कि, “सौराष्ट्र देश की यात्रा करते हुए हम सुप्रसिद्ध नवलखी बन्दरनामक स्थान पर भी गये और वहाँ के जैन मंदिर में स्थित श्री जिनरत्न सूरि श्री जिनकुशल सूरि तथा श्री तरुणप्रभ सूरि के पाद-पद्मों को वंदन नमन किया।” इससे ज्ञात होता है कि संवत् १४३१ के पूर्व ही श्री तरुणप्रभ सूरि का स्वर्गवास हो गया था।

उस समय श्री तरुणप्रभ सूरि ने स्थान पर गच्छ एवं सधकी व्यवस्था का कार्यभार श्री विनयप्रभ उपाध्याय सभाल रहे थे, ऐसा जिनोदय सूरिने विज्ञप्ति महालेख से ज्ञात होता है। उन्होंने लिखा है कि—“हम यात्रा करते हुए जब घोषा नामक बन्दर में पहुँचे तो वहाँ पर नवलख पाशर्वनाथ भगवान के दर्शन किये और वही पर गच्छका समग्र कार्यभार वहन करने वाले हमारे सहायक एवं विद्या के समुद्र समान श्री विनयप्रभ महोपाध्याय का अत्यन्त आह्लादजनक सगम हुआ।” इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि श्री जिनकुशल सूरि ने स्वर्गवास के अनन्तर गच्छ समुदाय का जो कार्यभार श्री तरुणप्रभसूरि वहन करते थे। उनके अभाव में वही कार्यभार उस समय श्री विनयप्रभ महोपाध्याय वहन कर रहे थे।

ये विनयप्रभ श्री जिनकुशल सूरि के ही दीक्षित शिष्य थे। जिनोदय सूरि ने साथ ही इन्होंने संवत् १३८२ में दीक्षा ली थी। जिनोदय सूरि का दीक्षा नाम सोम प्रभ था। जिनको तरुण-प्रभाचार्य ने संवत् १४१५ में आचार्यपद प्रदान कर गच्छनायक के रूप में प्रतिष्ठित किया था।

ये विनयप्रभ उपाध्याय श्री तरुणप्रभाचार्य के समान ही अच्छे विद्वान् थे। इनकी ‘श्री गौतम स्वामीरास’ नामक एक प्राचीन भाषा रचना सुप्रसिद्ध है। जो प्रायः, दीपावली के दूसरे दिन अनेक यति-मुनि तथा धावक आदि के द्वारा एक मांगलिक स्तुति पाठ के रूपमें पढ़ी-सुनी जाती है। यह भी एक सयोग की बात है कि जिस दीपावली के दिन तरुणप्रभाचार्य ने अपने प्रस्तुत बालावलीय ग्रन्थकी

रचना पूर्ण थी उसी दीपावली के दूसरे दिन श्री विनयप्रभ उपाध्याय ने उक्त गौतम रास की रचना की अर्थात् सवत १४११ के दीपावली के दिन तरुणप्रभाचार्य की रचना पूर्ण हुई। और स १४१२ के प्रथम दिन अर्थात् पार्वतिव सुदी १ के दिन (जो गौतम गणधर का वैबल्य ज्ञान प्राप्ति का दिन माना जाता है) उस दिन उक्त रासकी रचना हुई थी। तरुणप्रभाचार्य उस समय पाटण में थे और विनय-प्रभ उपाध्याय खभात में थे।

जिस प्रकार तरुणप्रभाचार्य वृत्त प्रस्तुत बालावबोध प्राचीन गुजराती की एक उत्तम कृति है, इसी प्रकार विनयप्रभ उपाध्याय रचित 'गौतम रास' भी प्राचीन गुजराती भाषा की एक विशिष्ट पद्य रचना है।

बहुत बयों पहले गुजराती भाषा के प्राचीन इतिहास की दृष्टि से विद्वानों में वादविवाद चला था और उसमें बहुतेरे विद्वान गुजराती पद्य रचना के आदि कवि नृसिंह मेहता को मानते थे। उस वादविवाद के प्रसंग पर स्व. श्री मनसुखलाल विरतचन्द मेहता ने अपने एक निबंध में यह स्थापित करने का प्रयत्न किया था कि गौतम रास गुजराती भाषा की सबसे प्राचीन तथा उत्तम कौटिकी पद्य रचना है। इत्यादि—

। परन्तु इसने वाद तो हमने नैमीनाथ चतुस्पदिका नामक एक सुन्दर प्राचीन गुजराती पद्य रचना प्रकट की थी जो विनयचन्द्र सूरि की बनाई हुई है, और वह गौतमरास के पूर्व साठ सत्तर वर्ष पहले रची गई थी।

प्रस्तुत बालावबोध एक प्रकार से प्राचीन गुजराती गद्य रचना की एक विशिष्ट कृति मानी जाने योग्य है। परन्तु हमारे अवलोकन में इससे भी पूर्व की कुछ ऐसी बालावबोधरूपक गद्य रचनाएँ देखने में आयी हैं। कल्प मूल के बालावबोध के कुछ कृतित प्राचीन लिखित पत्र हमारे देखने में आये हैं जो सवत १३६० के आस पास के लिखे हुए थे। इससे पूर्व की एक बालावबोधरूपक रचना हमें जेसलमेर के एक भंडार में मिली थी जो प्रायः सवत १२८० और १० के बीच में लिखी हुई ज्ञात होती है। यह रचना जिन दत्त सूरि रचित कुछ कुलकात्मक प्रकरणों पर है। इसकी भाषा शैली प्रस्तुत बालावबोध के समान है। और जो थोड़े से पत्रे इस रचनाके हमें मिले हैं उनकी लेखनशैली भी भाषाकी दृष्टि से प्रायः व्याकरणसंगत है। हमारा विचार था कि राजस्थान पुरातन ग्रन्थ-माला में उसको यथावस्थित रूपमें प्रकट कर दी जाय, परन्तु समयभाव के कारण हम जवनक उस ग्रन्थमाला के संचालक रहे तबतब वैसा न कर सके।

हमारे खयाल से यह प्राचीन राजस्थानी और गुजराती भाषा के प्राचीनतम गद्यरूपक कृति के रूप में माने जाने योग्य है।

इस ग्रंथ का सर्व प्रथम आलेखन करानेवाले धनिक श्रावक बलिराज के यश का कुछ परिचय

तरुणप्रभ सूरि के प्रस्तुत बालावबोध नामक ग्रंथ का सर्वप्रथम आलेखन कराने वाले धनिक श्रावकमन्त्रीदल वशीय ठक्कुर बलिराज के गुण और यश का वर्णन करने वाली जो प्रशस्ति ग्रन्थ-कार ने ग्रन्थान्त में लिखी है उसमें ज्ञान होता है कि ठक्कुर बलिराज अपने समय में बहुत बड़ा धनवान तथा राजमान्य और जनसम्मान्य गृहस्थ था। इनके कई पूर्वजों के तथा वंश के अनेक गृहस्थों के उल्लेख पट्टावली आदि में मिलते हैं। दिल्ली एवं राजस्थान के कई स्थानों में भी इन वंश के अनेक धनी गृहस्थ रहते थे। जो समय-समय पर तीर्थयात्राएँ, प्रणिष्ठाएँ आचार्यपद स्थापनाएँ आदि

धार्मिक उत्सवों में बहुत धन व्यय किया करते थे। इस वंश वालोंके नामों के पहले ठक्कुर शब्द का व्यवहार— हुआ है। इससे जाना जाता है कि इनके पूर्वजों में से किसी ने किसी राजसत्ता द्वारा बड़ी जागीर प्राप्त की थी और धार्मिक कार्यों में बहुत कुछ द्रव्य व्यय करने के कारण या व्यापारादि के कारण बहुत सम्पत्तिशाली होना चाहिये। यह वंश घरतर गच्छ का परम अनुसारी था। इसलिये घरतरगच्छ के प्रसिद्ध पूर्वाचार्य जैसे कि जिनकुशल सूरि, जिनचन्द्र सूरि आदि प्रभावशाली आचार्यों के उपदेशों से इस वंश वाले श्रावकों ने अनेक तीर्थस्थान और नगरों में जैन मंदिर बनवाये तथा उन उन आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठादि महोत्सव कार्य सम्पन्न करवाये। घरतरगच्छ बृहद गुर्वायनी नामक महत्त्व के ऐतिहासिक ग्रन्थ में (जो हमने मिथी जैन ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ग्रन्थांक ४२ के रूप में प्रवृत्त किया है।) इस वंश के अनेक कुटुम्बों के परिचामक उल्लेख मिलते हैं। तरणप्रम सूरि के प्रस्तुत बालावबोध ग्रन्थ के आलेखन और प्रचार में जिस ठ बलिराज का वर्णन है वह इसी मन्दीरवधशीय एव कुटुम्ब का प्रसिद्ध पुरुष था। वह बहुत धर्मानुसारी और दानशील था। उसी की विशेष अभ्यर्थना के कारण तरणप्रम सूरि ने प्रस्तुत बालावबोध की रचना की और उसीने सर्वप्रथम इस ग्रन्थ की अनेक प्रतिलिपियाँ लिखवाई थी।

श्री तरणप्रम सूरि ने जैन ग्रन्थकारों की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए ग्रन्थ के अन्त में जो प्रणति लिखी है, उसकी पद्यमध्या ३३ है। इसमें से १२ पद्य तो उन्होंने अपने पूर्वाचार्य तथा निजके परिचयस्वरूप लिखे हैं, शेष २० पद्यों में ग्रन्थ का आलेखन कराने वाले ठ बलिराज के पूर्वजों आदिने परिचयस्वरूप लिखे हैं। इनके पूर्वजों में मन्दीरल के वंश में पहले एक ठ दुर्लभ नामका मुख्य पुरुष हुआ उसका पुत्र ठ. दामर हुआ। उसका पुत्र ठ भूपाल हुआ। उस भूपाल के ठ. देवपाल, ठ तेजपाल, ठ. राजपाल, जयपाल, सहृणपाल, ठ. नयपाल नामक ६ पुत्र हुए।

इनमें से देवपाल के हरिराज और हेमराज नामक दो पुत्र हुए। ठ हरिराज की रामदे नामक पत्नी थी। जिसने ठ. चाहट और ठ. धन्धक नामके दो पुत्र हुए। इनमें से ठ. चाहट बड़ा बुद्धिमान, लक्ष्मीवान, गुणवान और राजा का प्रसादपात्र था। उसने तीर्थों की उन्नति के लिये तथा गुरुजों की भक्ति के लिये और धार्मिक भाईयों की सेवा के लिये बहुत सा धन व्यय किया। वह पद्मवस्त्रक वस्त्रें करनेवाला श्रद्धालु पुरुष था। इस ठ चाहट की पत्नी मन्दीरनदी की जो गुरुज कार्य— करने में उसके समान चित्त वाली थी। इनके नमर्वागह विजयगिह, जयगिह और वर्णगिह नामके चार पुत्र हुए।

इनमें विजयगिह बड़ा दानी और धर्मप्रिय पुरुष था। उसने अनेक तीर्थयात्राएँ की और गावों क्षेत्रों में खूब धन व्यय किया। वह श्री जिनकुशल सूरि का अत्यन्त भक्त था। उसकी पदप्रणयना का बड़ा महोत्सव जब पाटण में हुआ, तब वह द्वितीये से बड़े समुदाय के साथ वहाँ आया और बड़ी भक्तिपूर्वक आचार्य पद की स्मरणता करवाई। इस विजयगिह की वीरमदे नामक धर्मपत्नी की जो गुरुगिह मन्दीरनदी की पुरी थी, उसकी पूजिनी नाम की द्वितीय पत्नी थी जो वरदेव की पुरी थी उसी तरह भीरू नामक एक अन्य स्त्री थी।

वीरमदे नामक पत्नी में विजयगिह की बलिराज और बलिराज नामके दो पुत्र हुए। ये दोनों बड़े तेजमयी, बुद्धिमान और राजसमान्य थे। इन दोनों भाइयों का परस्पर अत्यन्त घट स्नेहसम्बन्ध था। विजयगिह की दूधरी की पूजिनी के उपराज, जयराज, अरजराज और गणराज नामके चार पुत्र थे। बलिराज की सोन, शांतिन, शोचिन्य आदि गुणा की धारण करनेवाली सोनदेई नामकी बुद्धिमानपत्नी पत्नी थी वह विजयम में बड़ी अथवा चन्देवाली सुन्दरता थी, उसकी क्षेमगिह नामक पुत्र हुआ किमही भीरू नामक स्त्री थी। उसका गणराज नामक पुत्र हुआ जो बहुत ही भक्तवत्तवी होकर बड़ा धर्मानुसारी था। इस प्रकार पुत्र दोर्गादि परिचयसूचक कई गणक धार्मिक उपाय हैं। इनके वर्णन में कण्डूय के समान संभावमान ही है।

तरणप्रभाचार्य ने अन्त में लिखा है कि बलिराज ने मेरे पास बैठ कर श्रद्धापूर्वक इस पडावश्यक भाषा वृत्ति का श्रवण किया और फिर इसने अपने और अन्य जनों के हितार्थ पुस्तकरूपमें इसको लिखवाया ।

इस प्रशस्तिगत उल्लेखानुसार बलिराजने जो इस प्रस्तुत ग्रन्थ की पुस्तक के रूपमें प्रतिलिपियाँ करवाई । उन्हींमें की, कुछ प्रतिष्ठा दीवानेर, पूना, पाटण आदि के ग्रन्थभंडारों में आज तक विद्यमान है । उन्हींमें की ३, ४ प्रामाणिक प्रतियों के आधार पर भाषाशास्त्रविद् डॉ प्रबोध पंडित ने इस ग्रन्थ का प्रस्तुत सुसपादन किया है ।

विद्वान सपादक ने अपने सम्पादन विषयक कार्यपद्धति का जो परिचय दिया है, उसमें उपयोग में ली गई प्राचीन प्रतियों का यथेष्ट वर्णन दे दिया है ।

प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशन में विलंब के कुछ कारण

जैसा कि ऊपर सूचित किया है, इस ग्रन्थ का मुद्रणकार्य आज से कोई १६, १७ वर्ष पहले चालू कराया था । परन्तु उपर्युक्त अनेक कारणों से इस ग्रन्थ का मुद्रणकार्य पूर्ण होने में काफी विलंब होता गया, चूंकि सिंधी जैन ग्रन्थमाला के संचालन एवं प्रकाशन की व्यवस्था का सम्पूर्ण भार हमारे ही ऊपर निर्भर था । सन १९५० से हमारी साहित्यिक कार्यप्रवृत्ति बम्बई और राजस्थान के जयपुर-जोधपुर के बीच विस्तृत होकर कुछ विभक्त सी हो गई । हम बम्बई में जिस तरह स्वस्थापित तथा स्वसंचालित सिंधी जैन ग्रन्थमाला का कार्यभार सम्भालते थे, उसी तरह राजस्थान में हमारे द्वारा स्थापित तथा सरकार द्वारा संचालित प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के तत्वावधान में हमारे ही द्वारा प्रारंभित एवं सपादित राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला का सम्पूर्ण कार्यभार भी हमारे ही ऊपर निर्भर था । इसलिये इन दोनों ग्रन्थमालाओं के कार्य में समान रूपसे व्यस्त रहने के कारण बम्बई की ग्रन्थमाला के कुछ ग्रन्थों के प्रकाशन में अर्थाधिक विलंब होता रहा ।

डॉ श्री प्रबोध पंडित द्वारा ग्रन्थ का सम्पादन व मुद्रणकार्य कोई ८-१० वर्ष पूर्व ही पूर्ण हो चुका था, परन्तु पिछले कई वर्षों में हमारी शारीरिक अस्वस्थता के कारण हमारा बम्बई जाना न हो सका और इसलिये इस ग्रन्थ को समय पर प्रकाशित करने की योग्य व्यवस्था हम न कर सके । ग्रन्थ छपकर आठ-दस वर्षों से बम्बई के भारतीय विद्या भवन के गोदाम में पड़ा हुआ है और हम अपनी दुर्बलता के कारण सिंधी जैन ग्रन्थमाला का यह एक विभिन्न ग्रन्थ रत्न आज तक विद्वानों के करवमल में उपस्थित करने में असमर्थ रहे ।

डॉ प्रबोध पंडित कुछ समय से दिल्ली युनिवर्सिटी में हैं । वहाँ से ये कभी कभी पत्र लिखकर मुझे सूचित कर रहे कि प्रस्तुत ग्रन्थका जो मुख्य सम्पादकीय वकनव्य मुझे लिखना है उसे मैं लिखकर भारतीय विद्या भवन को भेज दूँ और उसको मुचिन कर दूँ कि ग्रन्थ को प्रकाशित कर देने की समुचित व्यवस्था कर दी जाय । परन्तु पिछले कई वर्षों में मैं यहाँ जिन चदेरिया नामक ग्राम (चित्तौड़गढ़ के पास) में निवास कर रहा हूँ ; मेरे पास साहित्यिक विषय की कोई विशेष सामग्री उपलब्ध न होने से और मेरी आँखा की ज्योति भी प्रायः शीघ्र हो जाने के कारण स्वयं लिखने-पढ़ने में असमर्थ हो जाने के एक गहायक निखन आदि का भी कोई प्रबंध न होने में मैं अपना संचालकीय वकनव्य लिखने में भी असमर्थता ही रहा । परन्तु पिछले २, ३ महीने पढ़ने डॉ श्री प्रबोध पंडित ने अहमदाबाद में मेरे चिरसाथी एवं परमादरणीय मित्रवर पंडित प्रवर डॉ श्री मुञ्जानजी सघवी से इस विषय में कुछ निवेदन किया तो श्री पंडितजी ने मुझे सादर आग्रह एवं कुछ मीठ उपायन के साथ लिखा कि मुझे किसी तरह प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रधान संपादकीय वकनव्य लिख देना चाहिये और ग्रन्थ को प्रकाशित कर देने की व्यवस्था कर देनी चाहिये इत्यादि । श्रीमान पंडितजी का आदेश

पाकर मैंने किसी तरह अब यह सचालकीय वक्तव्य लिखकर ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था का प्रयत्न किया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में इस प्रकार अत्यधिक विलम्ब होने के कारण मैं हम विधि के किसी अज्ञात सबैत ही को निमित्त समझते हैं। ऊपर दिये गये पूर्व इतिहास से ज्ञात होगा कि सन् १९१८-१९ में हमें इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम परिचय हुआ और तभी से हमको इसको प्रकाशित कर देने का मनोरथ उत्पन्न हुआ। हमारे जीवन की साहित्योपासना का वह प्रारम्भ काल था, उसी समय हमको उद्योतन सूरिकी प्राकृत भाषा की महाकथा 'कुवलयमाला' का प्रकाशन करने की भी अभिलाषा उत्पन्न हुई। इन दोनों अभिलाषाओं को साथ लेकर हम अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में आये और वहाँ पर पुरातत्त्व मंदिर के द्वारा इन दोनों ग्रन्थों के प्रकाशन का आयोजन करते रहे तथा प्रेस में छपने के योग्य प्रेस-बॉयियाँ भी तैयार करवाईं। इनमें से 'कुवलयमाला' का तो सिधी जैन ग्रन्थमाला के ४५-४६ प्रकाश के रूप में भारत के सुप्रसिद्ध प्राच्यविद्या विशारद और हमारे एक परम मित्र डा ए एन. उपाध्ये द्वारा सुसंपादित करवा कर हमने इत पूर्व प्रकाशित कर दी। इसके प्रथम भाग के प्रारम्भ में हमने विचित्र प्रास्ताविक वक्तव्य के रूपमें कुवलयमाला कथा के प्रकाशन का पूर्व इतिहास नाम का जो निबन्ध लिखा है उसमें उक्त कथा के प्रकाशन सम्बन्धी हमारे मनोरथ की सारी बातें लिख दी हैं। उक्त कथा के प्रकाशन की कहानी भी ठीक प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन की कहानी जैसी ही है। 'कुवलयमाला' का मुद्रणकार्य सन् १९५० में प्रारम्भ हुआ और उसका प्रथम भाग मूल ग्रन्थरूप सन् १९५६ में तथा दूसरा भाग, सन् १९६९ में मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ।

गुजरात पुरातत्त्व मंदिर (अहमदाबाद) में ही बैठकर हमने 'प्रबन्ध चिन्तामणि' ग्रन्थका सम्पादन व मुद्रण चालू कर दिया था और तभी उसने साथ प्रस्तुत बालावबोध को भी प्रेस में दे देना चाहा था परन्तु उपर्युक्त कथनानुसार विदेश में चले जाने के कारण यह काम रुक गया। 'प्रबन्ध चिन्तामणि' के कोई ४०-५० पृष्ठ छप चुके थे, पर उसका भी काम उसी कारण से आगे न चल सका। पर फिर जब शांति निरन्तर में जाकर सिधी जैन ग्रन्थ माला का सन् १९३१ में कार्यारम्भ किया तो उसके सर्वप्रथम मणि के रूप में हमने उस 'प्रबन्ध चिन्तामणि' को पुन निर्णयसागर प्रेस में सुन्दर रूप से छपवाने को दे दिया और १९३३ में यह ग्रन्थमाला का प्रथम ग्रन्थ स्वरूप प्रकाशित हो गया। उस ग्रन्थ की भूमिका में हमने उसकी भी कुछ प्रकाशनकथा लिखी है। इस प्रकार जिस गुजरात पुरातत्त्व मंदिर के माध्यम से हमने इन ग्रन्थों का प्रकाशनकार्य सोचा था, उसमें से 'प्रबन्ध चिन्तामणि' सिधी जैन माला में सर्व प्रथम स्थान प्राप्त कर यथाशक्त्य शीघ्र ही प्रकाश में आ गया और उसने पश्चात् ग्रन्थमाला में अन्वयान्य कई छोटे-बड़े ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे। सन् १९५० तक ये २० वर्षों में कोई ४०-४५ जिनके ग्रन्थ प्रकाश में आ गये, परन्तु वह कुवलयमाला महाकथा ग्रन्थ जिसको प्रकाश में लाने के लिये हम सन् १९१८ से ही अत्यधिक तालाशित थे सन् १९५० में प्रेस में दिया जा सका और कोई जीग वर्ग बाद सन् १९७० में पूर्ण होकर प्रसिद्धि पा सका।

उसीका गापी यह पदावरण बालावबोध जिसका मुद्रणकार्य हमने सन् १९५६ में चालू कराया था अब कोई १६-१७ वर्षों के बाद प्रकाश में आनेका अवसर प्राप्त कर रहा है। हमें यह अनुभव कर सयोग हो रहा है कि जिसका मनोरथ को जीवन के कोई ५५ वर्ष जिनके दीर्घकाल तक हम अपने मन में साते किन्न रह और न जाने कहाँ कहाँ हम जिसको अपने अनेक विद्वानों के सम्मुख प्रकट करते रहे, वह अर्द्धमुष्णित मनोरथ आज इस प्रकार सतत होने का दिन देख रहा है।

सिधी जैन ग्रन्थमाला के जीवन का संक्षिप्त निहावत्तोक

इस ग्रन्थमाला का सुमारम हमने सन् १९३१ में मुद्रण करवाया था। रचितकाल ठाण्ड के विषय-
व्यवस्थाकारी सम्बन्ध में साहित्य विवेकानन्द विद्या विद्यापीठ में ईड कर

विया। गुरुदेव की महती इच्छा को लक्ष्यकर स्व बाबू श्री बहादुरसिंहजी ने वहाँ पर हमारी प्रेरणा से सिंधी जैन ज्ञानपीठ नाम से जैन शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन हेतु शिक्षापीठ (जैन चैयर) स्थापित किया। उसीवे अन्तर्गत जैन ग्रन्थों के प्रकाशन निमित्त प्रस्तुत सिंधी जैन ग्रन्थमाला का प्रकाशन-कार्य भी हमने शुरू किया। बम्बई के प्रख्यात निर्णयसामर प्रेस में ग्रन्थों के मुद्रण की व्यवस्था की। एक साथ अनेकानेक ग्रन्थों का सशोधन, सम्पादन एवं मुद्रणकार्य चालू किया गया। अहमदाबाद में गुजरात पुरातत्त्व मंदिर द्वारा प्रकाशित करने के लिये जिन ग्रन्थों को हमने प्राथमिकता दे रखी थी, उन्हीं ग्रन्थों में से कुछ को हमने सर्वप्रथम छपवाना शुरू किया। ग्रन्थमाला का पहला ग्रन्थ 'प्रबन्ध चिन्तामणि' प्रसिद्ध हुआ। बाद के 'प्रबन्ध कोष', 'विविध तीर्थे कल्प' आदि ३-४ ग्रन्थ भी उसी स्थान के नाम से प्रकाशित हुए। इन ग्रन्थों का प्रकाशन देखकर गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना शुभाशीर्वाद भी, स्वहस्ताक्षर से अंकित, हमें प्रदान किया।

वर्षे ३ वर्ष बाद स्वास्थ्य एवं कार्य की सुविधा की दृष्टि से ग्रन्थमाला का कार्यालय अहमदाबाद लाया गया और वहाँ पर 'अनेकान्त विहार' नामक अपना निजीस्थान बनाकर वहाँ से हमने 'भानुचन्द्र चरित', 'ज्ञानविन्दु प्रवर्णादि' ग्रन्थों का सम्पादन एवं प्रकाशन कार्य किया। सन् १९४० में स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुशी के सद्प्रयत्न से बम्बई में भारतीय विद्या भवन की स्थापना हुई और उनका स्नेह एवं सौहार्दभंग आमन्त्रण पाकर मैंने उनकी प्रवृत्ति में अपना यथायोग्य सहयोग देना स्वीकार किया। बाद में सिंधी जैन ग्रन्थमाला के प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था का प्रबन्ध भी भारतीय विद्या भवन के अधीन कर देना मैंने निश्चित किया। इस निश्चय में ग्रन्थमाला के सस्थापक एवं सर्वथा सरक्षण स्व श्रीमान बाबू बहादुरसिंहजी सिंधी तथा मित्रप्रवर श्रीमान डॉ पंडित श्री मुखलासजी सधवी की पूर्ण सहमति प्राप्त हुई। पंडित श्री मुखलासजी इस ग्रन्थमाला के जन्मकाल से ही अन्तरंग सहायक और सत्परायणदायक बने हुए हैं तथा कई ग्रन्थरत्नों का इन्होंने स्वयं भी सम्पादनकार्य किया है।

स्व बाबू श्री बहादुरसिंहजी का ग्रन्थमाला के विषय में अत्यन्त अनुराग एवं उत्साह था। उनकी इच्छा थी कि इस ग्रन्थमाला के कम से कम १०८ ग्रन्थ प्रकाशित होने चाहिये और इसके लिये जितना धन खर्च किया जाय वह करने को वे उत्सुक थे। उनकी ऐसी उत्कट ज्ञानप्रकाशन की भावना को लक्ष कर मैंने भी यथाशक्य एक साथ अनेकानेक ग्रन्थों के सम्पादन एवं प्रकाशन की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया, परन्तु दुर्भाग्य से सन् १९४४ में उनका स्वर्गवास हो गया और उसके कारण मेरा मानसिक उत्साह भी कुछ निश्चिन्न बन गया, परन्तु श्री सिंधीजी के सन् पुत्र स्व बाबू राजेन्द्रसिंह सिंधी तथा स्व बाबू श्री नरेन्द्रसिंहजी सिंधी ने अपने प्रवृत्तिय पिता की भावना को पूर्ण करने की इच्छा से हमने ग्रन्थमाला के सम्पादन एवं प्रकाशन कार्य को यथावत् चालू रखने के लिये सद्भावपूर्ण सहयोग देने की अपनी मनोकामना प्रकट की। हमने उनकी इच्छानुसार ग्रन्थमाला का कार्य उसी तरह चालू रखा जिस तरह स्व बाबू बहादुरसिंहजी की प्रेरणा से कर रहे थे। सिंधीजी की मृत्यु के बाद भी प्रায় २० वर्ष तक ग्रन्थमाला का कार्य हम उसी तरह चल रहा और उसके कारण अनेकानेक महत्त्व के ग्रन्थ प्रकाश में आय।

द्वैकी दुर्विवासाता के कारण पिछले ५, ६ वर्षों में बाबू श्री बहादुरसिंहजी के उनका दोना मन्-पुत्रो का भी देहान्तान हो गया।

जैसा कि ऊपर सूचित किया है इस प्रयत्न माना का प्रारम्भ सन् १९३९ में हुआ। ४२ ४३ वर्ष के हमने जीवनकाल के दमियान इसके द्वारा छोटा-बड़े कई साठ भ अधिक ग्रन्थ प्रकाश में आये। इसके लिये स्व सिंधीजी ने और उनके बाद उनके सन्पुत्र बाबू श्री राजेन्द्रसिंहजी और श्री नरेन्द्रसिंहजी ने हजारों रुपये खर्च कर ग्रन्थमाला का सर्व प्रकार सन्वोधन किया। हमारे निमित्त भाग्यीय विद्या भवन को भी हजारों रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। लाखों की वीमन की बड़ी मूल्यवान

हजारों पुस्तकें भवन को प्रदान कर उसकी लाइब्रेरी को सुसज्ज बनाया। ग्रन्थमाला का प्रकाशन सम्बन्धी प्रबन्ध भवन को सौंप कर उसकी साहित्यिक जगत में विशिष्ट प्रतिष्ठा बढ़ाई।

सिंधी जैन ग्रन्थमाला में जितने ग्रन्थ प्रकाशित हुए, वे भारतीय साहित्य भंडार के अनमोल रत्न जैसे हैं। देश और विदेश के सभी प्राच्य विद्या अभिन्न विद्वानों ने मुक्त-वचसे इनकी प्रशंसा की। भारत सरकार द्वारा नियुक्त संस्कृत भाषा आयोग ने इस ग्रन्थमाला को भारत की एक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थमाला के रूप में प्रमाणित किया। इसी ग्रन्थमाला की गुणवत्ता को लक्ष्य कर जर्मन ओरिएंटल सोसायटी जैसी विश्व के प्राच्यविदों की श्रेष्ठतम संस्थाने हमको अपनी आनरेरी सदस्यता प्रदान कर हम जैसे एक अतिसामान्य विद्याभ्यासी को भी यह गौरव प्रदान किया जो आज तक भारत के किसी भी अन्य विद्वान को (केवल स्व सर रामवृष्ण भांडारकर को छोड़कर) नहीं किया गया। यह गौरव हम अपना नहीं मानते अपितु सिंधी जैन ग्रन्थमाला का गौरव समझते हैं। हमको केवल इस बात से आत्मसंतोष होता है कि हम अपने क्षुद्र जीवन में इस प्रकार ग्रन्थमालास्वरूप छोटीसी नीचा या आधार पाकर दुस्तर भवनवादी को पार करने में प्रवृत्त हुए हैं।

ग्रन्थमाला के मूल संस्थापक और उनके पितृभक्त पुत्र भी चले गये। इसलिये ग्रन्थमाला अब एक प्रकार से निराधार दशावा अनुभव कर रही है। इसी तरह ग्रन्थमाला के एक हितैषी भारतीय विद्या भवन के वृत्तपति और हमारे प्रिय मित्र श्री कन्हैयालालजी मुशी भी अपनी सारी स्थूल सम्पत्ति और लीला-लक्ष्मी को छोड़कर वैकुण्ठ में वास करने चले गये। श्री मुशीजी के विशेष आग्रह से ही हमने ग्रन्थमाला का कार्यप्रबन्ध भारतीय विद्या भवन को सौंपा है।

अब हमारा शरीर भी क्षीण हो चुका है और हम भी अब उसी मार्ग की ओर झाक रहे हैं जिस पर से वे अपने अन्यान्य साथी चले गये हैं।

ग्रन्थमाला के भविष्य में क्या लिखा है, वह हमें ज्ञान नहीं, पर हमारे द्वारा सम्पादित कुछ ग्रन्थ अभी अधूरे पडे हैं। हम इनका उद्धार कर सकेगे या नहीं, यह तो वही विधाना जाने जिनने प्रस्तुत ग्रन्थ को प्रकाश में लाने के लिये हमें यह अवसर दिया है। यदि वैया षोडा सा भी अवसर हमें मिल गया तो हम उन ग्रन्थों को भी यथावत् प्रकाश में रखने का प्रयत्न करना चाहते हैं।

ग्रन्थ के सम्पादक विद्वान के प्रति आभार प्रदर्शन

भाषाशास्त्र के अभिन्न विद्वान् डा श्री प्रबोध पंडित ने कई प्राचीन हस्तलिखित प्रतिपा के आधार पर बहुत परिश्रमपूर्वक ग्रन्थ का शुद्ध याचन तैयार करने का जो प्रयत्न किया है और उगने साथ भाषा विरचयणात्मक प्रौढ़ निबन्ध मन्त्रलित कर एक विशिष्ट शब्दा या व्युत्पत्ति-दर्शन शब्द बोध तैयार कर ग्रन्थ को उपयोगिता प्रदर्शित करने का जो श्रम उठाया है, उमर लिये मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

डा प्रबोध मेरे एक अनन्य विद्वानमित्र पंडित श्री बेचरदागरी के सुपुत्र हैं। पंडित श्री बेचरदागरी का साहित्यिक सम्बन्ध मेरे साथ बहुत पुराना है। उतना ही पुराना जितना प्रभुता प्रकाशयमा ग्रन्थ के साथ रहा है। सन् १९१९ में जब मैंने पूना में जैन साहित्य मण्डल नामक समिति की स्थापना की और उगने द्वारा 'जैन साहित्य मण्डल' नामक माध विषयक संस्थापक पत्र का प्रकाशन कराया निश्चित किया तब उग साथ में महोदय के रूप में श्री पंडित बेचरदागरी को मैंने अपने पास बुलाया था। तभी से उनका और ह्यासक साम्प्रतिक पत्रिष्ठ जेट सम्बन्ध बना आ रहा है। मैं जब पूना में अर्धवर्षा में मुख्यतः पुरातन मन्दिर का नक्शा बनाने के लिये गया था तब मैं पंडितजी श्री बेचरदागरी को भी उग ज्ञान मन्दिर में एक सुन्दर भण्डारण तथा दिना

सहायक के रूप में आमंत्रित किया। पंडितजी श्री वेचरदासजी प्राइत भापा एव जैन शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ विद्वान हैं। इन्होंने कई महत्त्व के ग्रन्थों का सशोधन, संपादन एव आलेखन आदिका कार्य किया है। सिंधी जैन ग्रन्थमाला में भी इनके सम्पादित एक दो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। भारत सरकार ने इनकी विद्वत्ता को उपलक्ष्य कर इनको सम्मानित किया है। इस प्रकार सिंधी जैन ग्रन्थमाला में इन दोनों पिता पुत्र विद्वानों द्वारा गुफित ग्रन्थ रूपी पुष्पो का समावेश होने से, ग्रन्थमाला की जो शोभावृद्धि हुई है। इनके इस प्रकार के वाग्मयात्मक सहयोग के लिये मैं इनके प्रति अपनी हार्दिक वृत्तज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ।

आशा है ग्रन्थमाला के सहृदय अध्येतावर्ग प्रस्तुत प्रकाशन को प्राप्त कर प्रसुदित होंगे।

श्री हरिभद्र सूरि
स्मृति मन्दिर
चित्तौड़गढ़-राजस्थान
दि ७ जुलाई १९७३

मुनि जिनविजय

PREFACE

A study of the Gujarati Language in the 14th century was undertaken by me in 1947 when I began my studies in Indo Aryan at the University of London. A study of the language based on the narratives and illustrative stories from the text, together with a critical edition of the narrative materials and an etymological index of the text was submitted to the University of London in 1949 as partial fulfilment for the degree of Doctor of Philosophy. Later on, I edited the complete text and prepared a complete etymological index, the section on grammar required additions and alterations in light of the complete text instead of rewriting that section, I have tried to present an overall picture of phonological and grammatical changes in Gujarati, using mainly the data from the text, in a section on the historical phonology of Gujarati vowels. The etymological index will make up for the items which are missed in the grammar section. The continuity of the grammar section is not maintained, there are also some terminological discrepancies for this, I crave indulgence of the learned readers. The press copy was submitted to the Singh Series in 1956 various delays, including the change of the printing press—from Nirnayasagar of Bombay to Aryabhushan of Poona—held up the publication. The findings of the study, presented after a delay of about two decades, may, however, be of some use in reconstructing the history of Gujarati language.

After the press copy was ready, a number of manuscripts of Tarunaprabha's sadāvaśyaka vṛtti were noticed in various Bhandāras apparently this was quite a popular text. Further collations may bring out useful data for a study of dialects of old Gujarati, and provide a fruitful exercise in textual criticism.

Here I take the opportunity of expressing my deep gratitude to Professor Sir Ralph Turner and Dr A. Master, for valuable suggestions and guidance in the preparation of this study. My father, Pandit Becharadas Doshi cleared many points in the interpretation of the Prakrit portion and Muni Punyavijay explained many theological terms of the text. I am indebted to them for their help. Thanks are due to Muni Jinavijay, general editor of the Singh Jain Series and the authorities of the Bharatiya Vidya Bhavan for including this study for publication in their esteemed series. I acknowledge my thanks to the authorities of the Bikaner, Bhandarkar Oriental Research Institute, Lumbini and Patan collections for lending me the mss.

University of Delhi
Delhi

P. B. Pandit

ABBREVIATIONS

Āv	Die Āvaśyaka-Erzählungen ed Leumann E Leipzig 1897
BH	Bhavisatta kaha von Dhanavala ed Jacobi H Munchen 1918 Separate mention is made when Gune and Dalal's edition is used
BL	Origin and Development of Bengali Language Chatterji S K Calcutta 1924
CM	Les Chants Mystiques de Kanha et de Srāha ed Shahidullah M Paris 1928
EA	Evolution of Awadhī Saksena B 1937
GL	A study of the Gujarati Language of the 16th century (V S) ed Dave T N London 1933
GP	Gujarati Phonology, Turner R L published in JRAS 1921
HC	Prakrit Grammar of Hemacandra
HOS	Harvard Oriental Series
HP	Harivamsapurana von Puspadanta ed Alsdorf L Hamburg 1936
LM	La Formation de la langue Marathe Bloch J Paris 1920
MP	Mahapurāna of Puspadanta 3 vols ed Vaidya P L Bombay 1941
OWR (Tessitori)	Old Western Rajasthan—in the sense used by Tessitori L P in his articles in Indian Antiquary, 'Notes on the Grammar of the Old Western Rajasthan with special reference to Apabhramsa and to Gujarati and Marwari', vols 43 44, 45 1914 16
SC	Sanatkumaracaritam ed Jacobi H Munchen 1921
SR	Sandēśa-rāsaka ed Muni J V and Bhayani H Bombay 1945
Veli	Veli Kṛisan Rukmanī nī ed Thakur R and Parik S Hindustani Academy Prayag 1931
BSOS	Bulletin of the School of Oriental (now 'and African') Studies
JAOS	Journal of the American Oriental Society
JASB	Journal of the Asiatic Society of Bengal
JRAS	Journal of the Royal Asiatic Society
NPS	Nagari Pracarini Sabha Patrika vol x 1990 V S
LSI	Linguistic Survey of India ed Sir George Grierson
ND	Nepali Dictionary Turner R L London 1931
Sk	Sanskrit
Pā	Pali
Pk	Prakrit
OG	Old Gujarati
MG	Modern Gujarati

Transliteration is followed according to the convention of the Royal Asiatic Society

A Study of the Gujarati Language in the 14th Century

1 The text and its significance

The wealth of documentary evidence for the history of the Gujarati Language is made well known by Sir George Grierson's remark in the Linguistic Survey of India, 'We have thus a complete chain of evidence as to the growth of the Gujarati language from the earliest times. No single step is wanting. The line is complete for nearly four thousand years (Vol ix part ii, p 327). But at the same time the paucity of critical editions of early Gujarati is also remarkable. Much material still lies in Gujarati mss and marginal glosses of Pk mss. The earliest specimens of the Gujarati language date from 1330 V S. There are four fragmentary prose pieces (in all, less than 200 lines) from 1330 to 1369 V S, while this work is a detailed document containing popular narratives, written in 1411 V S. This work is, not only the earliest detailed document of Gujarati, but one of the earliest in the New Indo-Aryan languages.

Śaḍāvaśyaka vṛtti was composed at Anahilla pattana, now Patan, then the seat of Gujarati learning and the capital of the famous Solanki dynasty. It is a Gujarati commentary on Śaḍāvaśyaka, composed by Tarunaprabha, pupil of Jinacandrasūri of the kharatara gaccha. The praśasti at the end of the work says that it was composed under the rule of Emperor Pirojashha (Firoz Tughlaq).

There are four mss available, of which one from the Bikaner collection is written in 1412 V S, the other three are from the Bhandarkar Oriental Research Institute (not dated) the Limbdi (1419 V S) and the Patan (1503 V S) collections.

Śaḍāvaśyaka is an important Jain text, both for monks and for laymen. It includes important features of the Āvaśyaka literature in its stock of stories which are narrated to illustrate the power of various vows to be observed by Jains. The stories were told from generation to generation in Jain temples and houses. Dry descriptions of virtues and vices were made palatable by introducing stories in a popular medium. These thirty one popular stories are therefore, the nearest approximation to the spoken Gujarati of the period under examination.

It is an important phenomenon that our best ms is written just one year after the composition of the text. At the same time, the other two the BORI and the Limbdi mss are written between 1411-1419 V S, thus, of the four mss available three are written during the first ten years succeeding the composition of the text. Evidence which cannot be disregarded in the restoration of the text. So I have edited the text eclectically. By presenting the internal evidence I have been able to show the probable course of text transmission, which has helped me judge the authenticity of various readings, and to fix the date of the BORI ms.

2 Description of the Mss

The following Mss have been used in preparing the text —

(1) B. A paper ms from Bikaner, Maham Bhakti Bhanjar. This is a well preserved ms. in good handwriting. It has 308 folios, measuring 9 × 3, margin of half inch on right and left, a left line on top and bottom ten lines to a page, till folios 199 and 9 lines thereafter. The marginal space does not vary, and the whole ms is by one hand. It has 40 letters to a line, except lines 3, 4, 5, 6, which have an average of 35 letters due to the space left in the middle.

The colophons (see appendix) clearly say that the work was composed by Tarunaprabha on Saturday, Dipotsava day 1411 V S at Anahilla-pattana, and the present ms was written by Paṇḍita Mahāpāka on Friday, 9th day of the bright half of Caitra, 1412 V. S. The elaborate praśasti stanzas at the end give the genealogies of the teachers of the author and the patron.

The margins of the text are indicated by thick red lines on both sides, and two big red dots on the two sides, and a third red dot in the middle of the page in a 1" sq. The middle dot is perforated, and the edges of the hole are worn, indicating that the paper mss were also preserved by binding with string. The red dots and the lines together with the size of the paper indicate a palm-leaf origin (cp Vaidya MP Vol I p xi, Hertel HOS Vol 12 p 38).

The ms is written on a thin paper and ink is well preserved. The corrections in the ms are indicated by a kākapaḍa in the line and the same in the margin together with the no of the line. When some words are to be deleted from the body of the text, a yellow pigment is rubbed over the unrequired words, or marks like ' , or a wavy line is placed over those words. Usual punctuation signs i e of danda and ardha-danda, are used. Vertical strokes over the words are used as a device for the punctuations. Usually padimātrā is used.

The ms begins with —Arham śhrī Gautamasvāmīne namaḥ Surāsurādhiśamahīśa-namyam pranamyā samyag jnarājāvīram, subodham artham dinakṛtyasatkam līkhāmy abuddhīpratibodhanāya and ends with śīvam astu Bhadram bhavatu Samasta sādhu samudāyasya Ācamdrārkkam nandatu.

The text presented by our ms is as good as an autograph copy, but at the same time an autopsy and a comparison with other mss shows that the haplographies and other eye-mistakes cannot be explained without the existence of a lost autograph.

Of all available mss this is the oldest and best.

(11) B. A paper ms from Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona No 797 of 1895-1902.

Though worm-eaten at many places this ms is preserved in a good condition, and is written in clear bold hand-writing. It has 342 folios, measuring 9½' x 4', margin of 1" to right and left, a little less on top and bottom. Ten lines to a page, 36 letters to a line, except lines 4, 5, 6, 7, which have an average of 27 due to the space kept in the middle.

The colophons give the same date and place of composition. The last page giving the date of copying is lost and instead a new paragraph is added at the end, in later hand, which gives the name of the person who, at the suggestion of his master, presented the ms to the bhāṇḍāgara. The loss of the last page can be easily explained. As the person who possessed the ms wanted to preserve his name, and not the name of the scribe, threw away the last page, which did not contain anything by way of text, but which contained the name of the scribe and the date of copying and then inserted his name and his master's name.

The praśasti in this and the remaining two mss is short. Stanzas 14-32, which give the genealogy of the patron in B are not given. Evidently, the patron of the B was not the patron of the scribes of the other mss.

The margins are indicated by thick red lines on both sides and two large red dots on the two sides, and a third red dot in the middle of the page in a 1½' sq (this measurement is not uniformly observed) kept in the centre. The central dot is perforated by a very pointed needle, but it appears that the hole was never used for tying the ms with a string, as the edges of the hole are not worn. The red dots and the decorative lines indicate a palm-leaf origin (see above).

The ms is written on a thick, nice glazed paper, and the ink is well preserved. Folios are numbered twice in the margin in different hands till pp 134, and then till end in one hand only.

There are marginal corrections and punctuations by a later hand the corrections are indicated in the same way as B. There are a few intralinear corrections here and there, there are a few marginal gloss, which explain and give equivalent old Gujarati words for Sk or Pk words. This is the only ms which gives marginal gloss.

Usually padīmatrā is used.

The ms begins with Arham Śrī Gāutamasvāmine namaḥ Surāsurādhisamahīsanāmyam etc and ends in the first hand by Śrī camdragacchalamkāra Śrī Śrī kharatara-gachhadhipatī Śrī Jinacamdrasūrisīyaśeṣa Śrī Tarunaprabhasūribhīh Śrī mamtri—, and the rest is lost.

This ms with its clear hand writing, careful marks of punctuation, and intralinear dissolution of sandhu, with marginal gloss and careful corrections in the margin, on the whole leaves an impression of a very carefully copied ms, and though the date of copying is lost, it is an important aid in restoring the text.

(iii) L. A paper ms from Limbdī Bhandār.

Written in slovenly handwriting, this ms has 154 folios, measuring 11' × 4½', margin of about half inch on both sides, a little less on top and bottom it has 15 lines to a page, 50 letters to a line, except lines 6, 7, 8, 9, 10, due to the space kept in the middle.

The colophons (see appendix) give the same date and place of composition the date of copying is given as the 5th day of the bright half of Pāusa, 1419 V S i e eight years after the composition of the text. This ms is also copied at Patan. The praśasti stanzas 14-32 are dropped.

The margins are indicated by ordinary double black lines on both sides, and there is a space of about 1' in the shape of a parabola in the middle. The centre is perforated but it seems that it has never been used for binding the ms as the edges are not worn.

There are no punctuation marks above the lines, and every word is separated in writing. The ms is full of blunders like dharmma-ksau for karmma-ksau luddhenam for tutthenam, and frequent omissions and lacunae show that it is carelessly copied. There are very few marginal corrections, (in spite of innumerable mistakes) and whatever there are, are in very inferior hand. Corrections are mainly done by deleting the wrong words in ordinary ink, or rubbing yellow pigment over the wrong word. The ms is written on such an inferior paper that the scribe has sometimes to leave some space for fear of spreading ink.

Use of padīmatra is less frequent. The ms begins with —namaḥ sarvajñaya Namaḥ Śrutadevatayāi Śrī Gāutamasvāmine namaḥ Surāsurādhisamahīsanāmyam etc and ends with —śubham bhavatu śubham astu.

This ms, as it will be seen later, has its exemplar in Bh, and hence it is not useful as apparatus criticus, though the orthography of the ms helps in studying scribal habits.

(iv) P. A paper ms from Patan, Śrī sangh no jain jñān bhandar, no 691.

Closely written on an ordinary paper, it contains 196 folios a margin of 1' on the right and left, a little less on top and bottom, twelve lines to a page, 51 words to a line, except lines 5, 6, 7, 8, due to the space left in the middle.

The colophons give the same date of composition and the date of copying as 11th day of the dark half of Jeth Tuesday, 1508 V S, at Sarasvatī Pattana, i e Anahilla Pattana. The praśasti stanzas 14-32 are, as in two other mss, omitted.

The margins are marked by ordinary black lines on both sides. There is a space of 1" sq left in the middle. The ms is written on a thick but inferior paper. There are few marginal corrections probably by a later hand, and no punctuation marks above the line. Use of *padimātrā* is very rare.

The ms begins with — Arham Śrī Gāutamasmvāmīne namaḥ Surāsurādhisāma-
hīśanamjam etc, and ends with ubham bhavatu śubham astu lekhaḥāvācaka
suśrāvakaḥavagasya anustubhām sahastram sapta tvakarasamkhyayā, jñeyāni vrttāv atra
sādhikāni manīḥbh 1.

The last line remains unfinished, and a later hand has added other lines (see appendix), the name of the gaccha to which the scribe belonged is cleverly erased by a later hand, and re-written as 'Kharatara gacchīya'. Perhaps the last line contained the name of the scribe.

The ms, though inferior as regards its descent is concerned, is carefully copied, and has preserved some good readings though in many cases we find the text modified by dialectal influence — in space and time — and therein lies the importance of the ms.

3 Orthography

31 These mss are written in a popular spoken language about a popular topic. Four mss three of which are written during first eight years of the composition of the text, the fourth, a hundred years later, all at the same place create a problem of their own. Varying scribal habits, dialectal differences and the influence of a standard language are the principal factors influencing the orthography of our text.

32 There are two main sources of variants. Many of them are, no doubt, the result of orthographic errors—mistakes of the scribes— But when we find certain cases repeated again and again in a consistent way, we cannot impute those errors to the scribes only they must have their basis in the existing conditions of the language. More so when we are dealing with a text which is written in a popular current language, (for a similar case regarding Pk mss see Leumann *Āv* introduction)

Of our mss P provides a good example of scribal peculiarities. It is copied in 1599 v s and therefore, later than the other three though copied at the same town. Its peculiarities are

It writes -tau post pos for یتاυ¹, thākau thaka post pos for thī-, and generally it has huau hua, for huyau huya. Add to this stray variants like jesi for jsi², thāhara for tāhārā, which would, on the whole suggest that the scribe of the P hails from a different dialectal area. Dialectal differences already appear in the literature of the Pre Gujarati period, i e in the Ap works, (as reflections of dialectal differences in the *deśabhāṣā*, see Jacobi *BH p* 68) and in the *OWR* texts also dialectal differences are evident (*Turner GP p* 333).

Bh once reads thāharau for tāharau which is again an important indication of early development of this form though foreign to the language of the text.

L has often a y glide in forms like isau isyau, karisu karisyai, and it also writes cyāni for ciyan.

33 In these cases, dialectal differences can be ascribed to particular scribes, because of the relative frequency of particular readings. But there is another group of variations which is not peculiar to any scribe or ms but occurs intermittently in all the

¹ I have forgotten in this matter that at § 80 it alters a correct reading karai tau to kara tau also in the reading at § 113.

² This text history of the reading leaves no doubt that it is not a scribal error. It exists. BH has only an 1 adds it in the margin, while P has jesi. What is certain is that a conjunctive particle was needed and the scribe of the P wrote the one which he used.

mss, and is inherent in the structure of the text. Scribal variation has little to do with it as its occurrence is simultaneous in all the mss. The fact that the same forms sometimes occur in one way, sometimes in other, indicates contemporary variation in the pronunciation, and it also suggests that certain forms had already developed in the spoken language but found difficulty in getting full recognition in the written language —

-ai/-e in the stereotyped locatives pākhar/pakhe āgar/age also in māthas/māthe, kai/ke

-au/-o in the past participles lādhu/lādho also -au/-u, thus indicating later Gujarati and n endings ghanau/ghanu, ūpanau/ūpanu also in the older and younger forms of pronouns haum/hum, taum/tūm

Once L has hraiṃ for rahaiṃ which is frequent in the later texts (Dave GL p 59)

Spellings of some words vary in each ms

	B	Bh	L	P
§ 73	sammau	sāmuḥau	sāmuḥau	sāmahau
§ 94	sarasaum	sarisau	sarisu	sarasaum
§ 109	ūpahurā	ūpaharā	ūpahara	ūpaharā
§ 112	kuṭumbi	kutumbi	kutumbi	kumdambī

Each form has its own reason to be confused in spelling, but it indicates relative instability and variability of pronunciation

3.4 Nasal signs are a vexed problem of the orthography. Nasal signs are not found consistently in one ms itself, or in comparison with other mss. Here modern conditions offer a clue. In modern Gujarati writing — not the printed word, which is now standardised — in letters, ledgers etc. each writer has his own scheme for marking nasals, as well as pronouncing nasal sounds. What is more important in our text is that on surveying a number of variations in marking nasal signs a regularity is noted, which leads us to believe that each scribe had his own scheme. It should not be forgotten that there are definite dialectal differences in nasal pronunciation in MG. A few pages containing nasal variations are surveyed below* —

	B	Bh	L	P
§ 38	bālakaham	—	-ba	—
	māhi	—	—	-hiṃ
	tetalaiṃ	—	—	-ai
	kahum	—	—	u
	parahamsu	-hasium	—	-hāsū
	kām	-kāi	kamim	kāi
	kahim	-ai	—	-ai
	ghaneraum	—	—	-au
	parahamsu	—	—	hāsū
	kidhau	—	—	-aum
	thikāi	ka	—	thakam
	humtā	—	am	—
	paḍikkamatam	—	—	t
	śavahim	—	-hi	hi
	tṛnai	—	—	-aiṃ
nau	—	—	nūm	
§ 73	lumtau	—	—	—
	sāmṛau	samuhau	samuhau	sāmāhau
	vāmdai	—	-aiṃ	aiṃ

* When a form is mentioned under its ms it means that it is the same as in

	B	Bh	L	P
	citavai	cim-	cim-	—
	māhu	—	—	-im
	aneraī loc sg	—	-aim	—
	kim hīm	—	kuna haim	—
	isaum	—	—	au
§ 71	dhyāvataī loc. sg	—	-im	dhyātai
	hoī	—	-im	—
	chanau	—	-naum	eham naum
	anaī	—	—	-im
	jsām	jsā	-sā	-sā
	tīmham	tīham	tīmha	tīham
	tīham	tīmha	tīha	tīham
	tīham	tīham	tīha	tīham
	tīham	tīmham	tīmha	tīham
	tīmham	—	tīmha	tīham
	solasaīm	—	—	-ai
	tīham	tīmham	tīmha	—
	solasaīm	—	—	-ai
	ciyārisaīm	—	—	-ai
	ekaviśām	—	—	-sā
	pāmcasaīm	—	—	-ai
	chatrisām	—	—	-sā
	etalām	—	—	-lā
	isaum	—	—	-au
	kāhuum	—	—	-ru
	namataī	—	aim	—
	huyaum	—	—	-au
	maim	—	—	mai
	lādhāum	—	-au	-au
	teha	—	—	-am
	sarium	—	-ru	-ru
	isaum	—	isyauum	-sau
	apanapaum	—	—	-pau
	jitaum	—	—	-au
	taum	—	—	-tau
	jim	—	-im	—
	taim	—	omits	tai
	humtai	—	-im	—
§ 108	gagali	—	—	gam-
	,	—	—	—
	tanau	—	—	-um
	gāgali	—	—	gam-
	āvataim	—	—	āmva-
	pamca hūm	—	-hi	—
	rahaī	im	-im	-im
	pāchāum	—	—	-au
	bhanaī	—	—	-im
	vamdau	—	—	-um
	bhanaī	—	-im	-im
	jetalai	—	-im	—
	saiim	—	—	sai
	cāliyām	-yā	-yā	—

ORTHOGRAPHY

	B	Bh	L	P
§ 109	tīhām	—	tīmha	—
	saim	—	—	sai
	pāranai	—	—	-im
	mekhalām	—	—	-lā
	"	"	"	"
	saim	—	—	sai
	"	"	"	"
	mekhalām	—	-lā	-lā
§ 110.	tīmham	—	tīham	tīham
	tīhām	tīhā	—	—
	rahaim	—	—	-ai
	īmhām	—	—	īhām
	nahīm	nahi	—	nahī
	isaum	—	—	-au
	tīmham	—	tīha	tīha
	tāpasahām	—	-ha	tāpasa
	hūmtā	-ām	—	—
	tīhām	tīmha	tīmha	—
	nai	—	—	naim
	ūpanau	—	-nu	-aum
	māhi	—	—	-im
	-saum	—	—	sau
§ 111.	tanau	—	—	-um
	māhi	—	—	-im
§ 112	saim	—	—	sai
	samai	—	—	-im
	māhi	—	—	-im
	tehe	—	—	-em
	māgium	—	—	-iu
	kāim	kāimim	—	—
	māgiyam	—	—	mām-
	isaum	—	—	-au
	māgium	—	—	-iu
	tanai	—	—	-im
	āpanai	—	—	-im
	hūmtaum	—	—	-au
	teha	—	—	-am
	tanai	—	—	im
	āpanapaum	—	—	-au
	tīlām	—	—	-lā
	etalīm	—	-lī	-lī
	rahaim	—	—	rai
	nīpajaim	—	—	-ai
	nahīm	nahī	—	—
	tanau	—	—	-aum
	isaum	—	isyau	-au
	tanai	—	—	-im
	āpanau	—	—	-aum
	phālaum	—	—	-au
	thāi	—	—	-im
	nahīm	nahī	nahī	—
	tīmham	—	tīham	tīham

	B	Bh	L	P
§ 113	trihum	—	—	-hu
	tīmham	—	—	teham
	karatā	—	—	-ām
	tīmham	—	—	tīham
	jeha	—	—	-am
	tanau	—	—	-um
	parim	-ri	-ri	-ri
	karatā	—	—	-ām
	tīmham	—	—	tīham
	pāchaum	—	—	-au
	bhanai	—	—	-aim

The instances given above are taken from a few pages only, but they do not contradict the general impression given by the rest of the mss. It is evident from above that B and Bh, our best mss., do not differ much, nor do the scribes write nasal signs capriciously. Apart from slips, they followed a definite scheme of marking nasal signs, rather than copy their ādarśā (exemplar) —

A few words are not spelt consistently: nahim, kāmim, saim, -aum (past part), tīmham (These words nahim, kamim etc are not spelt consistently in modern Gujarati also)

Loc/inst sg termination varies in nasal sign in some cases. L generally nasalises the termination. It also writes nahī for nahim (In modern Gujarati, dialectally nasalisation in pronouncing loc/inst sg varies)

P largely varies from the other mss., but it has its own scheme. It does not nasalise isau, and past part ending īu, it nasalises māhi, tanau tanai, and frequently, 3rd sg -ai

35 The variation of -a/ u ending in dir sg of unextended a-stems is noted in these mss. The same word in one ms. occurs often in the same page with or without the -u ending, a fact which cannot be explained except as an orthographic variation

Already in later Ap texts, mss. vary between the bare stem and the -u termination in dir sg (Jacobi SC p xxviii, Shahidulla CM p 38, Master JRAS 1940 p 68, Muni and Bhayaw SR § 52). In these late vernacular-coloured Ap the increasing occurrence of the bare stem (esp in SR) appears to be a reflection of the then current dialects. Thus in dealing with termination of the a stem in dir sg we should consider that the bare stem was already in use, but u ending was retained in orthography as a scribal habit. Apart from dir sg of the a stems scribes make a general mistake about writing -u where there is -a, on the other hand, writing o where there is u latter may be due to graphic similarity of the two letters -u and o in mss. and also due to Pk influence e.g. JASB vol x no x 1914 p 406-7 Pala Inscription of Kalhanadeva of Naḍḍula written in Sk in 1241 V S, where Gunadhara stands for Gana also see Barnett BSOS vol iii p 671 Inscription of Sthiratattva at Kharjun, where celu and celo vary, examples can be multiplied

Ap influence in this case, mainly Western Ap influence, on the scribes appears to be chiefly responsible for bringing in many u endings. The influence of Ap scribal habits prevailed upon our scribes to such an extent that sometimes -u is appended to a Sk word in a Sk couplet¹

36 Other general scribal tendencies may be noted here. A consonant following a medial r- is doubled, e.g. karmma, vargga, dharmma, etc

-v- is written for -b. Usually B and Bh do not confuse the two, while the other two mss. write -v- frequently

s is written for kh Here also B does not confuse it It carefully writes kh In fact, it is so careful that it writes kh even when it is not attested historically, e g mūkhaka for mūsaka (this word is found in B folios 143 recto) Also note a peculiar confusion of reading at § 526 mukhya, where P reads manusya But this does not mean that B writes kh for s, instances are available where it also writes s e g sarisau, m-ru-śisari, samḍa But, generally B does not interchange them to a great extent Bh follows generally the same practice L and P write s for kh to a much greater extent The following are some instances where B and Bh have kh while L and P have s pāsai, desai, desi, lāmsai, pāsatiyam, paśāna, disali, olaīya, rase, olasi, mursu, harīyā It may be noted here that Dave's statement that "roughly Sk loanwords are written with kh and OG words are written as s (GL p 2), does not hold good in our text

37 Thus far scribal habits But there is another factor in the structure of the text Jain narrative literature in general and our text in particular, derive their inspiration from the popular Pk tale The author has Pk narrative before him, as found in Āvassaya literature, and he writes them in bhāsā for the comprehension of the ordinary householders who do not understand Pk Thus, Pk words and idioms find their way into our OG text It may not be out of place to mention here that as Sk in the Hindu families, Pk in the Jain families is alive even to-day An imperative sg with -ha ending words like puttu, mittu, for putru, mitru, (sometimes unable to decide orthographically) are evidently Pk influences What is more interesting is, that our author has forgotten at some places whether he is writing Pk or bhāsā, and thus in § 142 49 Pk and bhāsā combine in a peculiar mixture, It is difficult to say when Pk ends and OG begins, and this unique piece of prose explains how much popular Pk had influenced early Gujarati prose style

38 Consideration of Orthography in Critical Apparatus

The text as a whole is preserved faithfully in these mss Our earliest ms is only one year later than the composition of the text, the other mss are not much later They all generally agree except on the point of spelling or in some cases of dialectal variation. It is unlikely that scribes would copy minor differences in spelling from their ādarśa, they would rather follow their own habits, as we saw in the nasal signs or the dir sg of a-stems, especially in the bhāsā texts where spelling was not considered so seriously as in the classical texts such as Sk or Pk It was, therefore, futile to speculate about the exact spelling of the 'archetype' i e Codex Tarunaprabha, and I have not attempted it What I have attempted is to present the text which appears to be nearest to the archetype, with its roughness of spelling I have not tried to normalise the text with a uniform system of spelling as I think, this would have given a wrong picture of the orthography of the text

To note each variation of spelling would have burdened the text with unnecessary details, so I have followed the following scheme —

- (a) For the paragraphs 38 73, 85, 86, 94, 108 113 142 149 365 and 386 complete collations of all mss are given in all details in order to give an idea of the orthography Thereafter —
- (b) L is completely omitted because it is a direct copy of Bh (3 12)
- (c) B is followed with respect to nasal signs deviations from which are not recorded
- (d) Occasional spelling mistakes e g final i u ū of the mss other than B are not recorded
- (e) B is followed with respect to v kh and v b variations deviations from which are not recorded
- (f) As P consistently writes -tau for -stau and thakā thakau, for thukā, thukau its deviations on these readings are not recorded

It will be evident from a glance at the text that this scheme has effectively lightened the text without depriving it of crucial material

39 Relations of the Mss

As seen above, the text largely deals with popular narrative, thus the scribes could have taken more liberty with the text without altering its structure but this is not done. The text is preserved in one coherent version, all the mss. agree generally, apart from scribal idiosyncracies. These slips of the scribes, minor omissions and agreements provide a clue to the relations of the mss. I have classified below agreements and omissions indicating the relations of the mss.

3 10 Peculiar agreements —

paragraph number	B	Bh	L	P
38	bharivā	bharivā	(same as) Bh	Bh
38	gamanāgamanaum	-gamanu	Bh	Bh
38	jiva raham	jivaham-	Bh	Bh
73	sammu	samuhau	Bh	sāmahau
74	-kanī	-taṇī	Bh	B
74	hūmtī	hūmtā	Bh	Bh
85	rājādī	rajādīka	Bh	Bh
86	rājādīka loka	-ke -loke	Bh	B
86	kīm vā	B	yadī vā	B
86	imhuku	ihaku	ihā hū	Iha loka
94	baisīlī	baisārī	Bh	B
94	pūrvabaddhu	pūrvabhava-	Bh	B
		-baddhu (marginal)		
109	ūpahārā	Upaharā	Bh	Bh
110	sagala	sagalā	Bh	-lā
144	amta samai	āpanai pāṭī	Bh	B
	āpanai pāṭī	amta samai (marginal)		
145	bhanai	pābhanaī	Bh	Bh
146	virayacariyam ca	vīrayassa-	Bh	virayacariyam
	kulam nisāmeha			kulam ca-
146	pajjalayam	pajjanayam	Bh	pajjanayam
149	tayā	tayā	Bh	B

3 11 And a surer test is from omissions. Following are the instances of the omissions —

Para No	B	Bh	L	P
38	bāhura	(same as) B	omits	B
38	karī	B	.	B
73	isai	omits	..	B
73	tuham		..	.
73	apanī	B	.	.
74	eka	B	.	.
74	pāmca	omits	.	..
74	ekī	B
74	dekhi	omits
74	isī pari	B	.	.
85	-guna	omits	..	.
85	ityāha	omits
85	jāi	omits	..	.
94	citta	omits	.	..
109	omits	muktamimīta	Bh	..
113	isau	omits	omits	..

Para No	B	Bh	L	P
113	karī	omits	"	"
113	tāpasa	B	"	"
142	karī	omits	"	"
147	bhayavam	B	"	"

Instances noted above are based on partial collations, but the general impression of the mss does not go against the conclusions drawn from these collations

3 12 The relation between Bh and L is obvious. Agreements are many, and the omissions a surer test of genetic relationship. They have common faulty readings, e.g. pajjamiyam (for pajjaliyam), and common innovations like pabhanaī (for bhanaī), pūrvabhavabaddhu (for pūrvabaddhu) etc., what is more important is that L has many more omissions than Bh. These can be explained only if L is inferior to Bh in transmission. Moreover, marginal corrections in Bh (which may have been made by someone who revised the text) are included in the text in L. All this indicates that L is a copy, most probably a direct copy, of Bh because L is an early ms and there is little chance of another exemplar intervening between it and the archetype. Bh thus, should be placed between 1411 V S and 1419 V S.

Bh is a very neatly and carefully written ms, while L is carelessly written, sometimes has blunders which any sensible scribe would avoid, e.g. dharmmaksau for karmmaksau, luddhenam for tuṭthenam, and has a number of haplographies e.g. 94, 110-111, 113, etc., which are not found in other mss.

Evidence from L, therefore, is neglected in giving the critical apparatus.


It is difficult to decide the position of P. It agrees sometimes with Bh, sometimes with B, though its affinities are more with B - as the omissions given above indicate-, and its minor agreements with Bh are general rather than peculiar to itself.

What is peculiar to P is its tendency to correct a wrong reading (which is a general tendency of late mss) and sometimes the correction is very suitable, as in the case jna-pradhāna-ham (for jma-pradhānaham). But frequently its corrections are unnecessary and unwarranted. P is nearer to B rather than to Bh, though not a direct descendent of either. Its exemplar may be a ms nearer to B.

B, on the other hand, stands by itself according to the long praśasti at the end, its date of copying, 1412 V S, is very near to the date of composition, 1411 V S, and its careful writing make it the most authentic ms of the text. B is perhaps as near to the archetype as Bh, but it is more reliable.

3 13 Existence of a written archetype cannot be doubted. Haplographies and dittographies in B and Bh, and various marginal corrections and additions cannot be explained unless they are copied from some original source. Moreover, some evident eye-mistakes in Bh, or a common blunder like jma pradhānaham for jna pradhanaham in B and Bh, together with their general uniformity indicate a common source.

3 14 The relations of the manuscripts can thus be explained by the following diagram where A is the archetype and *P is the exemplar of P.



I have followed B generally, and preferred it to Bh or Bh and L. When P and Bh were against B the case is dealt with individually. I have not preferred Bh to the joint evidence of B and P.

- Bhīma sarasau Sīmhu calāvai, § 488
 jibha kart pāpu bamdhai, § 527
 sāra parivāra sahitu, § 528
 Loc —
 jana māhu, § 109
 isaum mana mābi citavatau, § 25
 maharai pādī mahim, § 526
 rāti rāti su coru, § 526
 bi putra lesāla padhaim, § 432
 Gen —
 samdhya samai dev agrha bāhīri, § 110
 mahimā mahatmā tanau chat, § 112
 dhana tanau adānu, § 481
 jāgiu humtau bhārya āgai, § 482
 saūdha upari āvatau, § 483
 mū rahaim rājya māhu karyu, § 48
 jina dharma nai ekātapatri, § 483
 parigraha parimānakarara vīrai, § 484

Declension

4 18 Direct

sg a-stems

bare stems e g dhana, samjama, putra, āmtra, locana, bhūkha, hātha, paga

-u ending e g nimittu, viveku, dānu, aju, kālu, bilu, rājya

-au enlarged stems e g māulau, melāvau, varasālau, vacharau
 vāniyau, pāraṇau n, visāhanaum n

(i) For -a/-u variation in a-stems see 3 5

(ii) Other vowel stems i e ā, i, i, u and ū have no special terminations

(iii) In enlarged au endings neuter is marked by nasalisation

(iv) Dave (GL) does not record any case of -u ending in unenlarged a stems
 (GL p 7 34) It is also absent in Dingal (NPS p 146)

pl unenlarged Bare stem is used e g shira, oḍa, ūtara, kapāra, kāpaḍa
 khanaka varasa, bhāneja, pahara

enlarged stems e g ūbha, kusā, kūḍā

(i) Other vowel stems have no special plural terminations

(ii) Once we get balāka in which is an archaism only enlarged a-stems have a
 distinct pl form [which is the same as the oblique termination]

(iii) Of the Ap texts SR (§ 51) gives aha for nom pl, which is not found in
 other Ap texts BK (§ 26, Gune and Dalal) gives some instances of -ā
 ending of m pl which occur " in passages of mixed language and changed
 metre

(iv) Dingal (NPS p 146) has ā for both—enlarged and unenlarged—stems

4 19 Oblique

sg unenlarged a stems The bare stem is used e g 417

enlarged a-stems -ā e g bhādā, lahuḍā, vaḍa, kusa, sagalā, luyā, pādā,
 galā, aśakatā

pl unenlarged a stems

(1) The bare stem is used e g 417

(2) -ham e g kṣanakaham, janaham, netraham, payakaham, supātraham, tāpasaham, āhrahām, varrtamānaham

enlarged a-stems -am e g kaudām

(i) In the case of other vowel stems, the bare stem is used in sg and pl

(ii) In the oblique, the sense is conveyed by the postpositions

(iii) Ḍiṅgal (NPS p 147) gives -ha for oblique sg

4 20 Instrumental

sg a-stems (1) The bare stem, followed by postposition is used e g 417.

(2) -i, -im (a) followed by postposition e g tapī kari, namī kari, abhāvi kari

(b) not followed by postpositions e g karani, mohi, namī, abhūnavi, jnadatti

(c) other vowel stems e g khadgaghāi, pattimātrai, srestim, maulai (enlarged a-stem)

(3) -e (a) a-stem e g gure, kalase, sūpakāre, acārye, pulimde

(b) other vowel stems e, g makhie

pl (1) -e e g paumtāre, bhīle, tehe, bāre varase, upavāse, kṣanake, srāvake

(2) -ham (a) followed by postposition e g

dāksinyādīkaham gunaham kari, § 425

nāmaham kari, § 426

komāsaham kari, § 85

jamgamanīdhāna jnāpradhīnaham prāsukesariyāham pānānna-
ham kari, § 85

vīkārādīkaham laksanaham kari, § 554

pagaham kari § 545

(b) not followed by postposition e g

pāthakaśīsyaham tathā sūtrārthavācchakaham, § 94

mūlita subhataham vana mahi, § 446

teha tanām bāmdhāvaham bhūllaham mariu, § 448

putrahām puchataim kusa § 386

isaum bhānatām bhāṭṭaham parivitu ghara hūmtau pratiharū
rājāmadīra ūpari calū jetalai tetalai daivajoga itau kinī hūm
ekaham subhataham nīkṣiptāsīdamdaham kūti kari padju § 537

(i) All stems are treated alike i e normalised to a stem in sg and pl

(ii) -e in sg and pl is rarer than -i and -ham respectively

(iii) As the illustrations given above indicate, inst pl ending ham is followed or not followed by a postposition irrespective of instrumental or agentival function (see however, Tessitori § 60) This is true in sg also

(iv) ham as an oblique termination is followed by a postposition (4 19, ii), while, here I am inclined to consider it as termination of instrumental pl because of its frequent use with the inst, and it conveys the inst sense without the help of any postposition. Moreover, we find ā as inst pl in Ḍiṅgal (NPS p 146) which appears to be a development of -ahā

(v) Ḍiṅgal has -i or -ii for inst. sg (NSP p 146)

Bhīma śarasau Simhu calāvai, § 488

jibha kari pāpu bamdhai, § 523

sāra parivāra sahītu, § 528

Loc —

jana māhi, § 109

isaum mana mahi citavatau, § 25

māharai pādī mahim, § 526

rāti rāti su coru, § 526

bi putra lesāla paḥhaim, § 432

Gen —

samdhā samai devagrha bāhri, § 110

mahumā mahatma tanau chai, § 112

dhana tanaum adānu, § 481

jāgiu humtau bharya āgai, § 432

saudhā upari āvatau, § 483

mū rahaim rājya mahi karju, § 484

jina dharma nai ekātapatrī, § 483

parigraha parimānakarana vi ai, § 484

Declension

4 18 Direct

sg a-stems

bare stems e g dhana, samjama, putra, āmtra, locana, bhūkha,
hātha, paga

-u ending e g nimittu, viveku, dānu, āju, kālu, bilu, rājyu

-au enlarged stems e g māulau, melāvau, varasālau, vacharau
vanjyau, pāranaum n, visāhanaum n

(i) For -a/-u variation in a stems see 35

(ii) Other vowel stems i e a, i, u and ū have no special terminations

(iii) In enlarged au endings neuter is marked by nasalisation

(iv) Dave (GL) does not record any case of -u ending in unenlarged a-stems
(GL p 734) It is also absent in Dīngal (NPS p 146)

pl unenlarged Bare stem is used e g ahira, oḍa, ūtara, kapāṭa, kāpaḍa
khanaka varasa, bhaneja pāhara
enlarged stems e g ubhā kusā, kūda

(i) Other vowel stems have no special plural terminations

(ii) Once we get balaka im which is an archaism only enlarged a stems have a
distinct pl form [which is the same as the oblique termination]

(iii) Of the Ap texts SR (§ 51) gives aha for nom pl, which is not found in
other Ap texts BK (§ 26, Gune and Dalal) gives some instances of -ā
ending of m pl which occur " in passages of mixed language and changed
metre

(iv) Dīngal (NPS p 146) has ā̃ for both—enlarged and unenlarged—stems

4 19 Oblique

sg unenlarged a-stems The bare stem is used e g 4 17

enlarged a-stems -ā e g bhādā, lahuḍa, vaḍā, kusa, sagalā, huyā gāḍa,
galā, aśakaṭā

- pūrvī him tihām 1 jī rahiyā, loc sg § 109
 jstī pūrvī him pāche tīstī ya jī, loc sg § 143
 kadākālī him, loc sg § 432
 tīmī him jī nagarī, loc sg § 445
 jīma pūrvī him tī bhūla jāyatā humtā tīma him jī gayā, loc sg § 454

As the illustrations given above indicate, -him has ceased to be a particular case-ending in our text, but operates as an emphatic particle. This is further supported by the fact that it is frequently coupled with jī, another emphatic particle. For the history and derivation of this termination see Turner JRAS 1927 § 15, Chatterji BL § 499 Bloch LM § 182, Saksena EA § 207, IA lu 1923 § 22, Tessitori § 60, 64, 65

4 34 Numerals The following numerals are used in the text —

eka (also ega, eku), bī/be, trinī/trinī, cīyārī (also cyārī), pāmca, sāta, ātha, nava, dasa, bāraha, tera, sola, vissim, ekavisam, cauvisa, pancavisa, chavvīsa (also chavīsa), sattāvīsa, atthavīsa, batrīsa, chatrīsām, cautālīsa, bāvāna, sātha, causatthī, athasatthī, ekahuttarī, bahuttarī (also bahattarī), satahuttarī (also satahattarī), satyāsī, sau (also saya), sahassa, lakha, kodī, koḍākodī

4 35 Ordinals The following ordinals are used in the text —

pahūlaum bījau, cauthaum, sātāmī, dasamāī, ekādaśamāī
 These are declined as adjectives

Conjugation

4 36 The Present Indicative

1st pers sg	-aum	e g āpaum, karaum, dekhaum, mānaum, parībaraum, sakaum
pl	-ām	e g, ūparjām, vecām, nīpajāvām
	-aum	e g sodhaum
2nd pers sg	-aī	e g see 3rd person sg
pl	-au	e g jāu, karau
3rd pers sg	-aī	e g āpai, kahai, gunai, ghaṭai, nācai, marai, lamkharī
pl	-aim	e g karaim, khūpaim, teḍaim, nīpajaim

- (i) Very often present indicative conveys a future sense (see index) Same is the case in Dingal (Velī p 115, footnote)
 (ii) Instead of the second person sg, the third sg is often used to indicate respect
 (iii) 1st person pl in -ām is notable for its early usage. The instances noted above exhaust the present selections. Tessitori (§ 117) considered this ending to be comparatively recent. It is a regular pl termination in Dingal (NPS p 168) It is also used as a termination for 3rd pers pl in Velī (p, 115)
 (iv) Thematic roots take the same endings. Roots ending in -ī have -y- glide, in 3rd pers sg and pl, e g sg liyai, diyai, pl liyaim, diyaim. Roots ending in -ā e g sg thāī pl thāim

4 37 The Future

1st person sg	-isu	e g karisu, pravarttisu, rahisu, bhānisu, mksipāvīsu, thematic roots lesu, desu
pl	-istiyām	e g paḍīsiyām, vīlīsiyām, utānīsiyām

- (iii) There is no distinction of gender, except *kā* in indef nom sg, which is, again, an archaism
- (iv) Dave (GL p 34) mentions distinct forms for n
- (v) obl pl of indef is generally followed by *eka*

4 29 Reflexive Pronoun *āpanau, āpana paum* It is declined as a noun

4 30 Compound Pronouns *ji ke, koi eka, ketalā eka*

4 31 Pronominal forms The following are the pronominal adjectives formed from the pronouns

showing manner *isaui/isaum, kisau/kisaum,*
jisau, tisau

showing quantity *jetalaum, tetalau*
etalaum, ketalu

These are declined as nouns, and the latter, showing quantity, are followed by *eka* to indicate indefinite sense

The following are the stereotyped pronominal forms, used adverbially

showing place *jiham, tihām jahim kahim ihām, kihām* (sometimes *kahām*)

showing time *jetivara, tetivara,*

showing condition *jam tām*

showing manner *ima, kīma jīma, tīma*

4 32 Postpositions The following postpositions are used in the text

-tau itau, vaśaitau *kanhā, karī, vadai, tanau, nau, thikau/thakau, māhi, saum,*

rahaim

(1) *tanau, nau* and *thikau* are declinables

(ii) *-itau* occurs alone or as *vaśaitau*

4 33 Emphatic Particles

i/ī to *i aviyam* § 94

te i § 142

sagala i karau § 433

pache i bhavisim, § 433

coupled with *ji parimita i ji,* § 74

havada i ji avisi § 142

tihām i ji § 427, 448

ji anarthadayaka ji iya riyarddh. 74

him sava hum jiva rahaim, dir pl § 38

pānca him rahaim, dir pl § 108

srestī him tanaum dir pl § 386

putra hum kanha, dir sg § 446

kīmi hum inst sg § 73 94 112

bhavi hum ji, inst sg § 430

kīmi him marai, inst sg § 446

labhi hum atrptu, inst sg § 447

tīmi hum ji citrakī, inst. sg § 448

teti hum ji vara, loc sg § 86

pūrvī him, loc sg § 428

4 42 The Present Participle

- (a) Unenlarged This is used in the sense of *kriyātipatti*, i e conditional It is indicated by unenlarged and uninflected stem of the present participle e g upadata, sām̄balata, lyata This is used in Dīngal as a present participle (see Velī p 110)
- (b) Enlarged The participial suffix is tau It is declined as a noun e g karatau, dharatau, nāsatau, bhanatau, tarjatau, joyatau, paḍatau, bhīhatau, upajāvatau

4 43 The Past Participle

- (a) -au type e g sg dād̄hau, trāḥhau, nāthau, gayau
pl dithām, nāthā, baiṭhī, līgām, bhāgam, khūṭī
- (b) -dhau type e g sg lidhaum, kidhaum
pl lidhā, lidhām, kidhā
- (c) -iu type e g sg dhālu, cadīu, ghātu, āpiu, pañchaviu, lamkhiu, lahu, ūgiu, ūḥhiu, ūchālu, ūpaśamum, paḍiu
pl māriya, veciya, cāliyām, teḍivā, kahiyā, ūpārjuyām, apiyā, dikhāliyā, vasiyā

4 44 The Gerundive

This has a potential and an imperative sense It is mainly used as a predicate e g

- sg -ivaum e g m rākhivau, vipratāivau,
n lopivaum, karivaum
f vyavasthāpivi

pl -ivā e g purivā

Oblique of the gerundive This is used as the infinitive of purpose e g cālivā, kādhivā, cadivā, joyvā, dhāhvā dharivā, padhvā, parimvā, prakṣivā, phodivā, prārthivā, mulivā, rākhivā, vikivā bhativā, vāmdiva viharivā (thematic roots) deva, levā

- (1) To convey the sense of the infinitive of purpose, we find postpositions in Dīngal (NPS p 169) e g raksana kāḅ, jivana kāḅ

4 45 The Absolute

- e g avalambī, āpi, ūḥhī, ūtarī, ūpajāvī, kari, kūṭi, cadī cavī, dasī dhāmkī tāḍī, tūṣī, teḍī, dekhī, dikhāṭī, nāsī, pāṭī, pratibodhī sūjhavī vesasī (thematic roots) khāṭ, de (v l def), le, leṭ
- (1) The Absolute is also used with verbs of ability such as sakat, janat, where it is not followed by kari

5. Historical Phonology of Gujarati vowels *

5 46 Classical Prakrit vowel system has been chosen as a starting point to study the history of the vowel system of Gujarati The evidence for the intervening stages is supplied by documents, and it is proposed to show how many phonemic systems have to be postulated for the intervening stages These changes in the phonemic systems have, in

* The chronology should be interpreted as relative i e OG refers to the data of the period 12th-13th century and MG refers to the data of the period 15th-18th century but it is quite probable that the data represent a more earlier archaic form of the language, thus pushing the OG period by three or four centuries earlier and thus shifting the span of each period on either side (Proto-Gujarati on the one side and Middle Gujarati on the other)

Though diacritics are not used the transcription (after MIA stage) is phonemic as far as the vowels are concerned Abbreviations OIA = Old Indo-Aryan MIA = Middle Indo-Aryan NIA = New Indo-Aryan OG = Old Gujarati, MG = Middle Gujarati NG = New Gujarati.

2nd person sg	-isi	e g	pratibujhi, lahi
pl	—	—	—
3rd person sg	-isu	e g	āpisi, cadisi, dekhisu, rāhisi
pl	-isum	e g	karisum, bhāvisum, devārisum, thematic roots thāisum, lesum.

(1) Thematic roots drop the theme -i-

(2) Instances of the 1st pers pl are few (those quoted above exhaust the present selections), and occur mainly in the passages which are either popular sayings or quotations

4-38 The Imperative

2nd person sg	-i	e g	āpi, āvi, kari, cadi, dhūki, nivāri, pahuci, dikhāi, thematic roots thā, lai, dai
pl	-au	e g	kahau, joyau
3rd person sg	-au	e g	āvau, dekhau, bolau, pahucāu, vecāu, vāvau, thematic roots thāu, diyau

(1) The 3rd pers is used many times for the 2nd pers to show respect

(2) Once -hi occurs for 2nd pers sg e g kahehi, once -a,
e g. bujha. Both are archaisms

4 39 The Precative

1st pers sg	-ijum	e g	hoijum
2nd pers sg	-jau	e g	dejau
pl	-iju	e g	kariju,
3rd pers sg	-iju	e g	karāviju, jāiju, hoiju

(1) The whole paradigm, thematic as well as athematic, as it is evident from above, has amalgamated to one pattern (see Tessitori § 120)

(2) The following sentences elucidate the usage of this tense —

"eha mahātmā taṇi bhālī parī seva karīju," § 426, may you serve that mahātmā in a proper way

"viveku eku sarva samīhita sampādaku tumha kanhā ma jāiju," § 481 may not discrimination, bringer of all desired felicity, go away from you

"mithyatvi kuli rājemdru ma hoijum, § 516 may I not be (even) a king in a non-believer's family

Thus precative is used as a respectful imperative (for derivation and further discussion see Chatterji BL § 644)

4 40 The Passive

sg	tyai	e g	nīgrahiyai, palyai, bhañiyai, lāmkhiyai, also kījai
pl	-iyām	e g	ūpāiyām, kāhyām, kāḍhiyām, bījhiyām, sakīyām, also kīyām

(1) Compare Ḍiṅgāl forms dījai kījai (NPS p 170)

4 41 The Causal

There are three types of causal formation —

(a) a type e g balai, mārai, pādai, utāraum

(b) āva type e g karāvai, caḍāviu manāvai pārāviu, nīgrahāviu, rahāvai

(c) āda, āla, and āra type

e g lagādat, nāsāḍiu, pamāḍiu
barsāhu, dikhālu
divānu

() Once sūjhavī abs. is used as causal

4.42 The Present Participle

- (a) Unenlarged This is used in the sense of *kryātpatti*, i. e. conditional. It is indicated by unenlarged and uninflected stem of the present participle e. g. *upādāta, sāmhalata, liyata*. This is used in *Ḍiṅgal* as a present participle (see *Veli* p. 110)
- (b) Enlarged The participial suffix is *-tau*. It is declined as a noun e. g. *karatau, dharatau, nāsatau, bhanatau, tarjatau, joyatau, padatau, bihatau, upajavatau*

4.43 The Past Participle

- (a) -au type e. g. sg *dād̄hau, trāṅhau, nāthau, gayau*
pl *dīthām, nāthā, baithā, lāgām, bhāgām, khūtā*
- (b) -dhau type e. g. sg *lidhau, kidhau*
pl *lidhā, lidhām, kidhā*
- (c) -iū type e. g. sg *dhalū, cadū, ghātū, āpiū, parichaviū, hm̄khiū, lahu,*
ūgiū, ūthū, ūchalū, ūpaśamū, paḍiū
pl *māriya, veciya, cāliyām teḍiyā, kaḥiyā, upārjyām, āpiya,*
dikhāḥiyā, vasiyā

4.44. The Gerundive

This has a potential and an imperative sense. It is mainly used as a predicate e. g.

sg *-ivaum* e. g. m *rakhivau, vipratānvau,*
n. *lopivaum, karivaum*
f. *vyavasthāpivi*

pl *-ivā* e. g. *purivā*

Oblique of the gerundive This is used as the infinitive of purpose e. g. *cālvā, kādhvā, cadivā, jōvā, dhālvā, dharivā, padhvā, parivā, prakativā, phodivā, prārthivā, mihvā rākhivā, vikivā, bharivā, vāmdivā, viharivā,* (thematic roots) *deva, levā*

- (1) To convey the sense of the infinitive of purpose, we find postpositions in *Ḍiṅgal* (*NPS* p. 169) e. g. *raksana kāḅi, ḅvana kāḅi*

4.45 The Absolutive

- e. g. *avalambī, āpī, ūḥī, ūtari, ūpajāvī, kari, kūti, cadi, cavi, dasi, dhamki, tādi, tūsi, teḍi, dekhī, dikhāḅi, nāsi, pāri, pratibodhi, sūjhavi, vesasi* (thematic roots) *khāi, de* (v. l. *de*), *le, lei*

- (1) The Absolutive is also used with verbs of ability such as *sakati, jānati*, where it is not followed by *kari*

5. Historical Phonology of Gujarati vowels *


5.46 Classical Prakrit vowel system has been chosen as a starting point to study the history of the vowel system of Gujarati. The evidence for the intervening stages is supplied by documents, and it is proposed to show how many phonemic systems have to be postulated for the intervening stages. These changes in the phonemic systems have, in

* The chronology should be interpreted as relative i. e. OG refers to the data of the period 12th-15th century and MG refers to the data of the period 17th-18th century but it is quite probable that the data represent a more earlier archaic form of the language thus pushing the OG period by three or four centuries earlier and thus shifting the span of each period on either side (Proto-Gujarati on the one side and Middle Gujarati on the other)

Though diacriticals are not used the transcript on (after MIA stage) is phonemic as far as the vowels are concerned. Abbreviations OIA = Old Indo-Aryan, MIA = Middle Indo-Aryan, NIA = New Indo-Aryan, OG = Old Gujarati, MG = Middle Gujarati, NG = New Gujarati.

turn, been followed by significant changes in the grammatical systems, thus providing us with more reliable data on the stages in the history of the Gujarati Language. Statements about changes in the consonants have been excluded mainly because they are relatively few, and they do not play a significant role in the changes in the grammatical system. Where the changes in consonant and vowel systems are interdependent, statements about consonant changes have been made.

547 Transition from OIA to MIA has been already described by Pischel, Bloch, Chatterji and others. The most significant features of this change are merging of OIA *r* to MIA *a*, *i* or *u*, reduction of OIA diphthongs *ai* and *ou* to MIA *e* and *o* and shortening of vowels under certain conditions. These changes (excluding *r* > *a*, *i*, *u*) can be presented as follows:



Dotted line indicates a later MIA stage

There are some cases where OIA *i* and *u* in closed syllables > MIA *e* and *o* in closed syllables. They merge with the *e* and *o* phonemes of MIA. These *e* and *o* have been regarded as short, but since vowel quantity is conditioned by syllable structure, no contrast between short and long *e* and *o* is visible anywhere. Hence it is not necessary to set up long *e* and *o* as separate phonemes.

548 Apparently, the changes from OIA to MIA are very few. Some long vowels have become short vowels, diphthongs have become monophthongs and some *i* and *u* of OIA have merged with *e* and *o* of MIA. But, the distribution of vowels in MIA is significantly different from OIA. Vowel length in OIA is distinctive, while in MIA it depends largely on syllable structure. Vowels in closed syllables are always short. Final vowels are mainly short. Thus we get a system where quantity of vowels is mainly conditioned by the syllable structure, while in OIA the quantity of vowels is contrastive irrespective of the nature of the syllable. A simple stop consonant did not occur intervocally in MIA; it could occur only as a homorganic geminate. Thus, in non-final position the contrast of length is reduced to cases of vowels occurring before *m*, *n*, *s*, *l*, *ṣ*, *r*, *y* and *v*.¹

¹ It is possible to interpret length of the stop consonants as allophonic in MIA, i.e. initially they occur as single and intervocally they occur geminated. For the suggestion see N. S. Troubetzkoy, *Principles des Phonologie* (French Translation 1949) Pp. 235. If this suggestion is followed then the consonants length would be phonemic only in cases of those nasals and spirants which can occur as single or geminated intervocally. *m*, *n*, *ṣ*, *l* and *v* do not occur geminated, *ṇ* and *ṅ* do not contrast, since the former occurs initially and latter intervocally, but *nn* and *nn̄* both occur intervocally and hence contrast. Length will be a significant in the case of the retroflex voiced stop *ḍ*, since it occurs initially as a single but intervocally it can occur single and geminated.

Loss of intervocalic stops in classical Prakrit creates new vowel sequences, many of which are contracted to unit vowels in the New Indo Aryan languages. This change plays a significant role in the development of the NIA languages. This also makes possible, for the MIA dialects to borrow words from Sanskrit with the diphthongs *aɪ* and *au*, for which the grammarians have made a separate class (viz *ḍaiyādi gana*) of words which retain OIA diphthongs. Skt diphthongs *aɪ* and *au* which became monophthongs in Pkt, as *e* and *o*, are retained in Modern Guj, while those which were borrowed later, and those which were formed in Pkt by loss of intervening consonants develop to *ɛ* and *ɔ* in certain positions in modern Gujarati.

549 In the later MIA (mainly Apabhramsa) the dependence of vowel quantity on the syllable and the word becomes more manifest. All word-final long vowels are shortened, and final *-e* and *o* change to *-i* and *-u* respectively.

In some of the early documents of MIA also, this tendency is manifest though it is worked out fully in later MIA. Shortening of some final vowels is already noticeable in Asokan Inscriptions and Pali (e.g. *-ā > -a*, *-ī > -i*). In Dutreuil de Rhins documents there are instances of final *-e* of loc sg *> -i*, and *-o* of nom sg *> -u*.² Moreover, the distinction of active and middle in Sanskrit is mainly dependent on distinction between *-e* and *-i*, i.e. act 3rd sg *-ati* 3rd pl *-anti* mid 3rd sg *-ate*, 3rd pl *-ante* only the active survives in MIA which may suggest an earlier merger of *-e* with *-i*.

550 Development of final vowels with nasalisation is the same as that of simple vowels, i.e. they lose their nasalisation and are shortened. There is one exception. In the case of final *-am* (*m* = the *anusvāra*) there are two developments: either the nasal is lost or *-am* develops to *-u* the second being more predominant in late MIA. This isogloss divides Midland languages from the Western languages. Gujarati falls within the Western group, (i.e. *-am > -u* in old Gujarati).

551 In OIA, the quantity of vowel is distinctive in all positions. Moreover, the morphophonemic alternations of *gunavṛddhi* present a significant relationship between *i e ai, u o au* and *ā*; these relationships are lost in MIA (just as the change of *īr *ai* and **au* to OIA *e* and *o*, *īr *ai* and **au* to OIA *aɪ* and *au* considerably blurred the morphophonemic relationships between the vowels in OIA).

MIA vowel system consisting of a set of short vowels and a set of long vowels³

$\left[\begin{array}{cc} i, u, & \bar{i}, \bar{u} \\ a & \bar{a} \\ e & o \end{array} \right]$, therefore, is a significantly different vowel system, where the quantity of

the vowel is mainly dependent on the structure of the syllable and the word.

552 The oldest Gujarati documents (i.e. dated mss. of 13th-14th century) presuppose certain developments after the MIA vowel system described above. To explain these changes we have to assume a stage in which the vowel clusters of MIA

(C. Minard, *fr. m. page 11*)

If MIA consonant system is re-constructed by the reconstruction of NIA languages, it may be possible to refine the above interpretation. Then, possibly intervocalic *c [j] [d]* may be assigned to different phonemes *[[j] [r]]* while intervocalic gem. nasals *[[l], [r]]* may be considered alloph. *res. of [l] and [r]*. Initial *[n]* and intervocalic *[n]* and *[ŋ]* may be assigned to the same phoneme *[n]*. Similarly, re-interpretation may be possible about *m* and *n* also so that intervocalic *m, n, -d, -l* and *n* would be assigned respectively to *[[r] [l] [r]]*, *[[b] [w] [b]]* while initial *m, n, d, l* and *n* or intervocalic gem. nasals *m, n, r, [r], [l]* and *n* would be assigned to *[[m] [n] [d] [l] [r]]* and *[[s]*. This interpretation is only very tentative and could only be profitably discussed if various stages of the *sp. 1* of Indo-Aryan dialects are specified.

² Jules Bloch, *I. Ind.-Aryen de Veda aux temps modernes*, pp. 41 (1934).

³ For assigning MIA vowels to the set of long vowels see Chatterji, A. M., *Phonetics and Phonemes in Bengali*, *Ind. An. Ling. Stud.*, Turner J. Soc. Vol. pp. 15 (1954).

(result of loss of intervocalic stops) have (i) contracted and (ii) resulted as diphthongs. These changes are conditioned by the position of vowels in the word. Thus some vowel clusters which contract to a single long vowel in final position do not contract in the non-final position. The general direction of change can be summarized as follows:

(A) Sequences of the type ai, āi and au, āu remain uncontracted in all positions, final as well as non-final

(B)* In the final position, the following sequences contract to a long vowel

īa, īu, īi > -ī

ea, eu, ei > -e

ūa, ūu, > -ū

oa, ou, oi > -o

āa, > -ā

Final vowels -ī, -ū and -a are shortened in MIA. Though in a few of the OG words MIA -ā is retained, we have assumed that the change has worked out in late MIA, and so all final -ā, -īā are interpreted as final -a, -īa.

In these sequences the final vowel behaves as a length allophone and the sequence results in a long vowel.

In the non-final position some of the above sequences do not contract to a long vowel but remain as sequences. They are īā, ūā, oi, ie

5.53 A few examples of each type are given below

(A) Uncontracted ai, ai and au, au in final and non final positions

(i) -ai > -ai 3rd pers sg of the present indicative such as karai 'acts', jānai 'knows'

loc sg of extended nouns such as (Sk mastake) matthae > māthai 'on the head'.

(ii) -āi > -āi 3rd pers pl of the present indicative such as karāi ' (they) act', jānāi ' (they) know'.

Development of 2nd pers sg of the imperative is not regular karahi kari (you) act

(iii) ai - > -ai paisai 'enters', *maillāi > mailāu 'dirty'

(iv) -ai > āi 3rd pers sg of the present indicative of -a stems such as khai eats, jāi goes

3rd pers sg of the passive base bhārāi 'is filled', jānāi 'is known'

(v) -āi > -āi 3rd pers pl of the a stems khāi, jāi. The treatment of -āi > ā in the nom and acc pl of neuter nouns gharāi > gharāi > ghārā 'houses' is different either due to a different sequence -āi or due to a dialect difference. This pl is preserved in the dialects of Northern Gujarat⁴

⁴ Final nasalisation develops as a special case in some terminal oval elements. Thus b and m > ~ MIA inst sg -epa > late MIA -ē OG -ī

MIA nom acc pl n. Egi > late MIA -ēi > OG -ēi

MIA present indicat ve 1st person sg and pl -ēmi -ēmō > late MIA -āu > OG -āu (dialectally -ēmo > -ā, see 5.55).

- (vi) -ai- > -ai- Gerundives such as jāvaũ 'should go' khāivaũ 'should eat'
- (vii) -au > -au Nom sg of extended m nouns ghoḍau 'horse' also voc pl herakaho > herakau 'o spies' Imp 2nd pers pl -abu > -au karau, 3rd pers, sg karau > karau
- (viii) -au- > -au- dhaulau 'white', daudai 'runs'
- (ix) -āu > -āu vāu 'wind', ghāu 'wound'
rāu 'king' Imp 2nd pers pl and 3rd pers sg of -a stems thāu, jau
- (x) āu- > -āu- (Sk pāda-ext) pāudia > *pāuḍi 'a wooden footwear'
- (B) (1) ia, iu ii > i

-ia > -i karia > kari 'having done' all absolutes, thus, end in-ī
All (-iā >) ia ending feminine nouns end in-ī (makkhiā) > *makkhiā
mākhi > 'fly', (past participle f) (appiā >) *appiā > āpi 'gave'
iā > -ī mottia > moti 'pearl', ghā > ghi 'ghee' biā > bi 'seed'
-iā > -ī- diha > diha 'day',
sīalā > *sīalū 'cool'

when the passive suffixes ia, ia (MIA and late MIA passive suffixes are varied, -ia- and -ia- are among them⁵) are followed by the Proto-Gujarati present participial suffix -ta- (MIA -anta, -āta loss of nasalisation in Proto-Gujarati is not regular), the resulting present passive participle is-ita-which is extended by gender suffixes and inflected as a participle

khanītau 'being dug', jānītau 'being known'

Similarly, the expected contraction of the passive in present indicative is also -i, but in Old Gujarati texts passive present indicative forms are written as jāniyai, kahiyai, which retain the MIA -ia- (as -iya-) without contraction

In Later texts,⁶ (about 16th century) however, the same forms are transcribed as 'jānu, kahī We can, therefore, interpret, the Old Gujarati forms with-ia-as continuation of MIA scribal habits

-iu > -ī dhanu > dhanī 'master',
(Sk bhratr - Pa bhātiko) *bhāu > bhāi 'brother'
(Sk vāmyah Pa vāmyo) *vānu > vāni 'merchant'

-iū > -ī The Sk infinitive -itum develops to -iū in Pk
thus, -iū > -ī- gives forms like kariū > kari, pucchiū > puchi

(Continued from page 26)

Loss of final nasalisation of -ō > -i is early, since inst sg -i is regular in OG Loss of nasalisation of -ai (inst sg of extended nouns ghoḍakena > ghoḍēna > ghoḍai and 3rd pers pl of present indicative e.g. karai 'they do') is later (it falls in the MG period. In OG inst sg -i is sometimes suffixed by another -ī e.g. rūpa form rūpi by form and rūpi by form the second -ī is an important part of the inst sg of the extended nouns to other nouns which are already inflected with an instrumental suffix. Dialectally (in Western and Southern Saurashtra) the nasalisation in inst sg is retained

Loss of the final nasalisation of -āu > -u is noticed only in New Gujarati and that is only dialectally attested, there is a considerable dialectal variation in the New Gujarati dialects, and the treatment is therefore, -āu > -u or -u. Moreover OG -āu > MG -o, while -āu > -ū indicates that the nasalisation of -āu was significant in MG

5. Pischel, 1535, Chatterji 153.

6. K. H. Dhruva's annotated edition of Bhāṭaṅga's Kādambarī pt. 203 2nd edn (1933). Also T. N. Davar, A study of the Gujarati language in the 16th century, etc., with special reference to the Me. BHAVABHŪTI to Upaśamāṅga (1935).

In one case, however, -ia - > -i- These are the occurrences of the past participles in OG. In OG, past participles of the type -iu m and -iū n are common they have developed from the late MIA -iau and -iaū

Historically, there is no explanation for -iau, -iaū it can only be explained as Sk -itah m, -itam n, Pk -ia m and -ia n further extended in late MIA period with -u and -ū to conform to the ending of m and n nouns, with which these participles agree in gender, number and case. Proto-Gujarati participles -iau and -iaū are, therefore, analogically formed

-ī > i (Sk kānicit, Pa kānici) kāi 'some',
(Sk aṣṭi) aṣī 'eighty'

-īī- > -i- (Sk vicinoti)* vīnai > vinai 'gathers',
(Sk dvitīyakah) bījau > bījau 'second'

(ii) ea, eu, ei > -e

-ea > -e (*du-veda-) duvea > duve 'one who belongs to the group of the two vedas, a surname
(Sk esā, Pk esā) ea > e 'that-f'

-ea - > -e- (Sk vedanā) veana > vena 'pain',
(Sk devara-) *dearu > *deru

-eu > -e Loc pl of nouns, such as (Sk devesu Pk devehu) devetu > deve (Sk bhāreya-) bhāreu > bhāre 'heavy' (Sk dve khalu, Pk be kkhū behu) beu > be 'two' (Sk meghah, Pk meho) meū > me 'rain'

-ei > -e (Sk *devebhūh Pk devehū)
*devei > deve inst pl suffix is -e

(iii) -ūā > -ū (Sk yūka, Pk juā) jūa > jū 'louse',
(Sk kaṭuka-) kaṭua > kaṭū

-ūā- > ū- (Sk śukah-) suaḍau > sūḍau 'patrol',
(Sk śūpam-) śūḍau > sūḍau 'prayer'

ūū- > ū (Sk udumbarah) uumbara > ūbara-'Ficus glomerata'

(iv) oa > o (Sk jalauka) jaloa > jalo 'leech'

oa > -o- (Sk stokam) thoḍau > thoḍāū 'little'

ou > -o (Sk anudyogah)* anujou > anojo 'day of rest'

-oi > -o (Sk kocit) koi > ko 'some one'

(v) āa > -a (Sk mata) *māa > ma 'mother'

aa > a (Sk bhājanam-) *bhānaū > *bhānū 'receptacle'

āā- > a- (Sk bhaṇḍāgara-) *bhaṇḍāara- > bhaṇḍāra 'store'.

Non-final groups of the type iā- and -ui- are not contracted in OG hatharu weapon suārī 'having caused to sleep'. Similarly oi- is not contracted josi 'astrologer'. Groups such as -ie- which are permissible only non-finally, remain uncontracted in OG, nahera 'coconut'. Of these, -oi- is contracted to -o- in the later period, while others remain uncontracted till present day Gujarati.

554 Clusters such as -*īai* > -*īi*, contracted after the contraction of the final -*īi* > *i*, has worked out. So, the chronology of these changes should be

$$\begin{aligned} -\bar{i} &> -i \\ -\bar{i}ai &> -\bar{i}i \end{aligned}$$

555 With a change in the syllable structure of the MIA, vowels which were in closed syllables are now changed to vowels in open syllables, coupled with this, under certain conditions, vowel quantity is altered, *i e* short vowels become long. These changes could be classified in the following major types

- (A) (c) $\check{v}cc\check{v} - > (c) \bar{v}c\bar{v} -$
 (Sk *karyam*) *kajja* - > *kāju* 'use'
 (Sk *saptan*) *satta* > *sāta* 'seven'

(B) There are two sub-types

- (i) If -*a* -*īn* in the first closed syllable is followed by a long syllable (*i e a* long vowel in the second syllable) then, the -*a* -*ī* is not lengthened, but remains as -*a* -*ī* in an open syllable

- (c) $\check{v}cc\bar{v} - > (c) \check{v}c\bar{v} -$
 (Sk *karpūram*) *kappūra* - > *kapūra* 'saffron'
 (Sk *prastārah* -) *patthārau* > *pathārau* 'spread'

- (ii) If -*i* -*o* -*u* - in the first closed syllable are followed by a long vowel in the second syllable, then -*i*, -*o* -*u* - are lengthened in the resulting open syllable

- (c) $\check{v}cc\bar{v} - > (c) \bar{v}c\bar{v} -$
 (Sk *duskalah*) *dukkāla* > 'famine'
 (Sk *nispādayati*) *nippāi* > *nīpāi* 'bring forth'

In Old Gujarati literature length of these *i* and *u* is not consistently marked. Some of these are marked as long, some as short. Proto Gujarati short *i* and *u* in open syllables > middle Gujarati *a*. This change helps us to determine the length of some vowels in the above group. Since these vowels retain their quality in Middle Gujarati, we have reason to believe that they were long vowels in Old Gujarati period.

- (C) Of the vowels in the two successive closed syllables, the first is lengthened, the other remains unaltered and the consonants are simplified

- (c) $\check{v}cc\check{v}c - > (c) \bar{v}c\bar{v}c -$
 (Sk *utpannah-*) *uppannau* > *ūpanau* 'produced'
 (Sk *nīpannah-*) *nīpannau* > *nīpanau* 'brought forth'

- (D) If the first open syllable has a short vowel and if the second closed syllable has a short vowel then the short vowel in the second syllable is lengthened and the consonants are simplified

- (c) $\check{v}c\check{v}c - > (c) \bar{v}c\bar{v}c -$
 (Sk *vimarsati*) *vimarsai* > *vimāsai* 'thinks over'
paḷāṣhīā > **paḷāṣhī* (NG *paḷāṣhī*) 'sitting cross-legged'

There are some cases of verbs where the lengthened vowel *ā* is replaced by the short vowel *a* - This replacement is based on the transitive-intransitive pairs, such as

mar- 'to die' (intrans), *mār-* 'to kill, cause to die' (trans)
car- 'to move' (intrans), *cār-* 'to cause to move' (trans)

Thus in the following examples

(Sk *vilagyate*) *vilaggaḥ* > **vilagaḥ* (NG *valge*) intrans 'attaches'.

(Sk *vināśyate*) *vināśaḥ* > **vinasaḥ* (NG *vanse*) intrans 'corrupts'
tadapphaḍaḥ > *tadaphaḍaḥ* (NG *tadaphḍe*)

intrans 'trembles (in agony)'

The expected *-ā-* in the second syllable has been replaced by *-a-*, on the model of other intransitives

(E) Vowels in closed syllable with nasals show two types of development

(1) (c) $\check{v}NC\check{v}c$ — > (c) $\check{v}c\check{v}c$ —

(Sk *manjūsā*) *manjūsa* > *majusa* 'box'

This treatment is similar to B (1) above here the nasal behaves like any other consonant Elsewhere, the nasal remains and the vowel remains, both unaltered

(II) (c) $\check{v}NC\check{v}c$ — > (c) $\check{v}NC\check{v}c$ —

(Sk *saṃstāra-*) *saṃstārau* > *saṃstārau* 'bed'

(Sk *samsārah*) *samsāru* > *sansāru* 'world' It should be noted that in all the examples of this type the syllabic in the first syllable is - a -

These alternations may also be due to dialect mixture, since in present Gujarati dialects similar treatment of nasals is noticeable

In one example, which is of high frequency, the nasal is lost without any lengthening of the preceding vowel, all the present participles

(Sk *karanta-*) *karantau* > *karatau*.

This change belongs to an early stage the isogloss of $-nt- > \begin{smallmatrix} \sim t \\ \sim d \end{smallmatrix}$

(nasal + unvoiced stop > nasal + voiced stop) separates Assamese, Bengali, Hindi, Gujarati, Oriya, Marathi and Singhalese from Kashmiri, Panjabi, Sindhi and Nepali (see Turner, *Nepali Dictionary* p. XIII) Loss of nasalisation is peculiar to this participial form, but it is also shared by other Indo-Aryan languages of the - t - group

556 The vowel system of this Proto Gujarati period, though similar to MIA vowel system, has significantly different distributional features

i	u	ī	ū
a		e	ā
		o	

Short and long vowels now contrast in all positions in the final position there are two types of diphthongs *ai, ai* and *au, au* In non-final positions, other vowel sequences are *eu, iu, oi, ui, iā, uā* Words do not end in consonants

557 Some significant grammatical changes resulting from the above phonological changes may be noted here

558 In the nominal declension the m sg termination is - u, (apart from the few exceptional cases where the MIA termination was not - o) and the pl termination is - a The inst and loc terminations fall together as sg - i and pl - e A noun like *devu* (SK *devah*) would thus be declined as

	sg	pl
nom/acc	<i>devu</i>	<i>deva</i>
inst/loc	<i>devi</i>	<i>deve</i>

Extended nouns like ghoḍau (Sk ghoṭakah) as		
nom /acc	ghoḍau	ghoḍā
inst /loc	ghoḍai	ghoḍe

The oblique (evolutive of the genitive) termination is -ā, i.e. ghoda which is identical with nom acc pl

The declensions of the extended and unextended nouns have fallen together, and the terminations of this set are analogically extended to other noun stems ending in -i, -ū, and -ā

559 In the pronouns, number and gender distinctions are lost in the declension of the demonstrative e which is the result of contraction (Sk eṣah m > eu Sk eṣā f > eā, Sk etad n > -ea) of different vowel sequences

In the declension of Sk yah m yā f and yat n, (Pk jo, jā, ju) m and n fall together, and the sg and pl of m and f (Sk ye, Pk je) fall together, which then is extended to n. Thus the resulting declension is.

	sg	pl
m n	ju	ju
f	ja	

Similarly Sk saḥ m sā f and pl tē develop to

m	su	
		ti
f	sa	

In both the above sets one pl form is extended for all genders. In the first set, by regular phonological change f sg and f pl would have become identical (Sk yāh f pl > *ja) and the f sg-pl contrast would have been lost, it is preserved by extending m pl ju, however, the gender contrast is lost in plural. In the second set also, m pl is extended to f pl where the regular f pl would have been *ta. Through the intervening stages of Old and Middle Gujarati, New Gujarati gender and number contrasts are lost in these pronouns, the forms being e, je and te

560 A significant change in the conjugation of verb is falling together of the pres ind 2nd and 3rd pers sg both developing to -a: 2nd pl develops to -au and 3rd pl to āi. Thus, this contrast between 1st sg, 1st pl and 2nd pl on the one hand, and the contrast between 2nd sg, 3rd sg and 3rd pl on the other, is marked by nasalisation only. Thus a stem like kar- would be inflected as

	sg	pl
1st	karāũ	karāũ
2nd	karai	karau
3rd	karai	karāi

Loss of final nasalisation has been discussed above

The development of 1st sg and 1st pl āi is not regular. This is a special development of MIA m- (MIA 1st sg -mi, 1st pl -mo) ⁷

It may be noted, however, that in Old Gujarati along with -āi, another termination for 1st pl is noticed -ā so, dialectally 1st sg and 1st pl terminations may have been different. Thus -ā does not occur frequently in Old Gujarati, -āi being the more frequent one. In New Gujarati dialects of North West Gujarat, -āi is a common 1st pl termination

561. Final -iu and -ia have contracted to -i as a result, the infinitive ending in -iũ and the absolutive ending in -ia fall together. OIA potential participle suffix

-itavya > MIA -iavva, -iva > OG -iva, e.g. OG karivāũ (NG karvũ) This is used as infinitive of purpose. The short -i- in the OG potential participle -iva cannot be explained. That it was short in OG is supported by its later development viz. change to -a- in MG and to zero in NG. OG, karivāũ > MG, karavũ > NG karvũ. But -ivva-, ravva- > -iva- is the expected form, while we get -iva in OG. In the Western Hindi Group, Braj bhasha and Kanauji show -ib-, in the Magadhan group, Eastern Magadhan (Bengali, Assamese, Oriya) shows -iba- and Western Magadhan (Maithili, Bhojpurī) shows -ab- (see Chatterji § 697) iva ~ iva alternation, therefore, may belong to an early period.

562 Language of the Old Gujarati texts (about 12-15 centuries) has passed through this stage of Proto Gujarati. Proto Gujarati is invented to show that Old Gujarati texts can be explained properly if it is assumed that certain changes worked out prior to the changes noticed in the Old Gujarati texts. That prior stage is Proto Gujarati.

563 Some instances of this type have been noticed above (see 554)

MIA		Pro Guj		OG
-ii	>	-i	>	-i
		-i + ī	>	ī ⁸
		iai	>	īi

A few other significant changes in Old Gujarati warrant the assumption of an intervening stage.

564 With the -o > -u as a general m noun termination, in OG m and n -u and -ū are analogically extended to nouns where it is not a historical development of -o > -u. Thus there are OG nouns such as⁹

hāthiu (Sk hastin MIA hastiko > hāthiu, OG hāthī)

vānu (Sk vānījah MIA vānījo > vānu, OG vānī)

kaḍū (Sk kaḍu MIA kaḍuko > kaḍū, OG kaḍū)

pānū (Sk pānīyam MIA pānīa > pānu, OG pānī)

Sk loanwords in OG are also extended with this -u e.g. prasiddha -u 'famous'

Thus

-iu	>	-i		
		i + u	>	iu
		-i + ū	>	īū
-ūu	>	-ū		
		ū + u	>	ūu
		-u + ū	>	ūū

Thus, final vowel sequences such as *iu*, *-iu* *ūu* which had contracted to unit vowels *-i* and *-ū* in Proto Gujarati are readmitted in Old Gujarati by analogical extension.

⁸ This refers to the instrumental ending *-ī* which is sometimes suffixed to nouns already having an instrumental suffix *-i* + *-ad* dates analogical extension.

⁹ Now these *iu* *īū* become common noun forming suffixes, and they are suffixed to nouns which do not have historical *-ī* also (See Dave—A study of the Gujarati Language p 1935) e.g. maraṅgiu 'ready to die', palāngiū 'butterfly', etc. In a later stage when *au* > *o* and thus *o* becomes a predominant m sg. termination, this *iu* is replaced by *o* and the m noun forming suffix is *io* (in this subsequent period vowel length is not distinctive). In New Gujarati all the neuter nouns ending *iu* *io* are results of this analogical change. Sk. *ī* words such as Sk. *sukhin*, *sukhī*, borrowed in OG as *sukhiu*, *sukhiū* develop in the same pattern, i.e. as MG *-io* *sukhiū*. Even if the OG graphic form varies about the vowel length, i.e. *iu* the vowel should be interpreted as long OG short *iu* would develop as *yu* (see 56⁷) in MG.

565 In the Middle Gujarati period (15th to 18th century) short *i* and *u* in open syllables merge with *a* *ai* - > *ɛ*-, *au*- > *ɔ*- in initial syllables, while elsewhere *ai* > *e*, *au* > *o*. A few examples of this change are given below

i > *a* *mīlai* 'meets' > *male*,
 rāti 'night' > *rāta*
 viḍhai 'quarrels' > *vaḍhe*

u > *a* *mānusa* 'man' > *mānasa*
 ājū 'today' > *āja*

while OG *i* and *ū* retain their quality

mākhi 'fly' > *mākhi*, *dhanī* 'master' > *dhanu*, *pūrai* 'fills' > *pure*,
chūtai 'is released' > *chuṭe*

ai > *ɛ* *paisai* 'enters' > *pēse*,
 baisai 'sits' > *bēse*, *lai* (*lu*, analogically altered)
 'takes' > *lē*

au > *ɔ* *mauḍau* 'late' > *mɔḍo*,
 kaudau 'cowrie' > *kɔḍo*,
 bhau 'fear' > *bho*

566 *-āu-* > *-ɔ* in initial syllables, but in final position *-āu* > *-ū* (Sk *samargha-*, *saughau* > *sɔ* *ghu* 'cheap'. In monosyllabic words *e* - *ɛ* and *o* - *ɔ* contrast is distinctive

567 Final vowel sequences with *-i*, *-ī* and *-u*, *-ū* develop differently. The changes are

-āi > *-āi* e g *bhāi* 'brother' > *bhāi*
 khāi 'chasm' > *khāi*
-āi > *-āy* e g *bharāi* 'is filled' > *bharāy*
 gai 'cow' > *gāy*
-āū > *-āu* e g *gāū* 'two miles' > *gāu*
-āu > *-ā* e g *rāu* 'king' > *rā*
 ghāu 'wound' > *ghā*
-iu > *-yu* e g *kariu m* 'did' > *karyu m*
 āvīu m 'came' > *āvīu m*
-iu > *-yu* e g *kariu n* > *karyu n*
 āvīu n > *āvīu n*
-iā > *-yā* e g *kariā m pl* > *karyā*
 āvīā m pl > *āvīyā*
-iā > *-yā* e g *kariā n pl* > *karyā*
 āvīā n pl > *āvīyā*

In the script of this period (and upto the beginning of the 20th century) there is no distinction in writing *e* - *ɛ*, and *o* - *ɔ*.

568 As short *i*, *u* in open syllables merge with *-a-* (and since the length contrast of *i* and *u* was localised in open syllables) length contrast of *i* - *ī*, *u* - *ū* does not remain significant in this period.¹⁹

5 69 Thus, the vowel system of this period is

		u
e		o
	a	
ε	a	o

Some significant features of distribution may be mentioned. The non-final sequence -oi- > -o- OG josi > jōsi 'fortuneteller'. Some i and u in immediate nasal environment are allophones of long i, u, and are retained, instead of merging with a dhunaḥ > dhune 'is in a trance'. Nasalised [ĩ] and [ũ] (khecaḥ, phēkaḥ) of the preceding period were lowered allophones of /e/ and /o/ respectively (lowering being conditioned by nasalisation), now they become allophones of ε and o, these ĩ and ũ can occur in the non-initial syllable.

We have noted above that the e-ε and o-o contrast is localised only in the initial syllable and in monosyllabic words. In New Gujarati also, the contrast is localised in the initial syllable, and in monosyllabic words. In final position the contrast is neutralised phonetically, the range of variation in tongue height covers the regions of e-ε and o-o respectively. We have, however, transcribed the finals as -e and o.

5 70 In the dialects of Western and North-Western Saurashtra however, ai and au > e and o in all positions and these dialects have a six vowel system

i	a	u
e	a	o

5 71 Consequential changes in the grammatical system are far reaching. With final -i and -u > -a, contrast between nom acc sg and inst loc sg is lost in the case of unextended nouns while sg pl contrast of inst and loc of the extended nouns is lost (In the nom acc of the unextended nouns there is no sg pl contrast while there is a contrast between nom acc sg and pl of the extended nouns). All this imbalance results in only two distinctions in the noun declension dir and obl e g dir deva ghoḍo obl deva, ghoḍa, e as the general inst sg pl suffix -o as the general pl suffix both occur after oblique -e dialectally occurs after the noun stem ghoḍ -e which is the reflex of old instrumental form ghoḍai -e after oblique i e ghoḍa e is analogical. All these changes are worked out in the New Gujarati period (See below). Thus the declensions are

unextended nouns	sg	pl
nom acc	deva	deva
inst loc	deva	deve
extended nouns		
nom acc	ghoḍo	ghoḍa
inst loc	ghoḍe	ghoḍe

Inst sg of unextended noun is not marked but frequently, by analogical extension it has also been marked with -e probably analogical extension may have been from both the sides inst pl -e and inst sg e of the extended nouns though it is more likely to be influenced by inst pl e because the contraction of final ehi > -e is much earlier than the contraction of final -ai > -e.

Other nouns ending in a i or u also have the same analogically extended -e for inst sg pl.

In New Gujarati, however, e of the extended nouns survives only dialectally, in the standard - of the mainland - e comes after the oblique of the extended nouns (like all other postpositions).

5 72 The change of -i, -u > -a obliterates the gender-number distinction in the paradigms of the relative and the demonstrative pronouns (already in the earlier period

Sk esah m esā f, etc pl, changing through MIA have fallen together in OG e Other Old Gujarati demonstrative pronouns are ju m sg, ja f sg, ju m pl su m and sa f. ti m pl

All these pronouns are re formed on the analogy of e, and gender number contrast is lost The three pronouns are, now, e, je and te

573 Similarly, the numeral bi > ba, which is preserved in formations like bīmanāũ > bamanũ, while Middle Gujarati be is the result of contraction of MIA behu, beu (Sk dve khalu) be > be alternation in New Gujarati may be dialectal

OG jau-tau¹¹ (Sk yadī, tatah, MIA jai, tau) > jo and to in New Gujarati Differential treatment of -au in jo and to may have been probably a result of the emphasis on the conditional meaning 'if - then

574 With the change of -ai > -e, -au > -o and -āũ > -u, the inflection of verb in the present indicative changes as follows

		sg	pl
kar - 'to do'	1st pers	karũ	karũ
	2nd pers	kare	karo
	3rd pers	kare	kare

The above e of the 2nd sg and 3rd sg pl is analogically extended to 2nd sg (and 3rd sg pl) of the future and to the 3rd sg pl of the passive The above -o of the 2nd pl is analogically extended to 2nd pl of the future and the polite imperative Thus, the paradigms of the older stage are mainly altered analogically in the present stage

(The replaced forms are underlined)

		Old Guj		Middle Guj	
		sg	pl	sg	pl
Fut	1st pers	karisu	karisũ	karisũ ¹²	karasũ
	2nd pers	karisũ	karisũ	karise	karasũ
	3rd pers	karisũ	karisũ	karase	karase
Passive	3rd pers	karũ	karũ	—	karie
Polite Imp	2nd pers	—	karjũ	—	karajo

The passive karie replaces active 1st pl karũ (passive construction aiding the process e g OG amhe (MIA amhehũ) karũ 'by us, it is done MG amhe karie 'we do it'), thus the present indicative paradigm is

	sg	pl
1st pers	karũ	karie
2nd pers	kare	karo
3rd pers	kare	kare

575 In some dialects of Gujarati (West and North-West Saurashtra) the old passive, without the analogical influence of -e, is used as 1st pl of present indicative karũ In some dialects of North-West Gujarat the old active 1st pl ā (MIA -āmo) is used karā in some dialects of central Gujarat fut 1st pl is karā (which is an evolute of *karasā, with present indicative 1st pers pl -ā extended to fut 1st pers pl) is used this indicates that the territory of the older -ā (MIA -āmo) could have been central and northern Gujarat

11. OG jau is analogical Sanskrit yadī and tatah > Late MIA jai, tau. In OG there is a considerable variation between the pairs jai-tau and jau-tau ('jau on the analogy of tau) and a few examples of later je-te are also noticeable But, in OG jau tau dominated the rest, and develop to jo-to For different developments in other NIA languages See Turner R. I., *Nepali Dictionary under ta* 118 Turner's derivation Sk tāt tād' or tātāh cannot be accepted in light of the above evidence from OG

12 Retention of OG i in open syllable cannot be explained For some special changes in the terminations of the future, see Turner R. L. *Future stem in Aśokan* B303 VI 2, 1931

Another passive (which is already recorded in OG) with -ā- (probably derived from old causal) becomes more current in Middle and New Gujarati karāi, ganāi > karāy, ganāy

576 Extended nouns which ended with -au or -iu now end with -o or -io, -au > -o is regular, while -iu > -io is due to the replacement of -o for -u thus is due to -o being generalised as a masculine marker. Thus, chokarau > chokaro vāñū > vanio (it has been mentioned before that -iu > -io has become a formative suffix and numerous Gujarati nouns are formed with this suffix)

577 The New Gujarati inherits this vowel system. The vowel phonemes are the same, but there is a significant change in the distribution if the final vowel is other than -a in a word, then the penultimate -a- > zero if the final vowel is -a, then the final -a > zero. This change brings considerable change of morphemic shapes. Words can now end in consonants. Thus

aṭake > aṭke 'stops', rāta > rāt 'night',
bhatake > bhātke 'wanders', āvata > āvat 'if he came',
chokaro > chokro 'boy', calāvata > calavat 'if caused to work',
calāvato > calavto 'causing to work', sarasa > saras 'excellent',
karatā > kartā > 'doing'

But -a- is retained (if it is pre-penultimate)

atakie > aṭakie, bhatakie > bhāṭakie
baladiu > baladio 'bull', vadaliu > vādaliu 'cloudy'

578 The final -iu of the m past part > yu, is now replaced by -yo, as -o has already been generalised as a m marker. Thus caliu > calyu > cālyo, āpiu > āpyu > apyo. Now -y- is generalised as a past marker, and is also extended analogically to such verbs as niṣṣyo 'came forth' upjyo 'produced' (while the older forms were ūpanau, niṣpanau. Sk utpannah, niṣpannah)

579 A new plural suffix -o appears in this period. It is uniformly suffixed to all nouns m f n, and also to those nouns which were already inflected as pl in the previous stage. The Middle Gujarati noun-declension could be outlined as follows

unextended m n nouns, and extended or unextended f nouns (since they do not show any difference in the declensions) such as the following are marked by the following suffixes

				sg	pl
	hātha	m	'hand' dir	—	—
	ghara	n	'house' inst loc	-e	e
	kanyā	f	girl, obl	—	—
	tali	f	'clap'		
Extended m n nouns such as				sg	pl
	ghoḍo	m	'horse' dir	ghoḍo	ghoḍa
			inst loc	ghoḍe	ghoḍe
			obl	ghoḍā	
and mathū n 'head'					
			dir	mathū	māthā
			inst loc	māthe	mathe
			obl	mathā	

The new pl -o is suffixed to these sets. All the pl forms of the above sets could be followed by this pl suffix, in New Gujarati m pl forms such as *ghodā-ō*, (and also the general feature of all post-positions that they could occur after the obl form or the pl form) led to the extension of oblique -ā- to inst loc also, and the inst loc sg pl altered to *ghodā-e*.

It should be noted that the usage of double plural like *ghodā o*, *māthā-ō* is more literary and has not spread much. pl -o is a newly spreading innovation and is limited to parts of Northern and Central Gujarat here also it alternates freely with its absence. Similarly, the extension of oblique -ā- to inst loc is also restricted to the above class and region here also, it alternates freely with its absence.

This new pl -o is replacing the -ā pl from Northern Gujarat (originally a n pl -ā_n > -ā but extended to m pl also) and ū pl from the dialects of Saurashtra (the source of this pl is doubtful it may be an original f pl, extended later to other genders of Pk f nouns ending -ā with pl inflection would be -āo > āu but the nasal in New Guj cannot be explained -ū pl is also shared, along with the dialects of Saurashtra by Kacchi-Sindhi and Panjabi).

580 The entry of pl -o can be well settled by internal evidence from New Gujarati. In new Gujarati, the alternation of a~zero is morphologically conditioned (This -a- which was penultimate -a- in the earlier stage has now become -a- in the final closed syllable). The alternation is

-a- > zero if it is followed by a vowel

-a- > -a- if the following vowel is the pl morpheme -o

Thus *magan* 'proper noun', *magno* 'derogatory form of that proper noun', *magano* pl of *magan*

nāṭak 'drama', *nāṭki* 'dramatic', but *nāṭako* 'dramas', *bālak* '(male) child', *bālkī* 'female child' but *bālakō* 'children'

Moreover, prepenultimate -a- in the earlier stages is retained, thus, in the verb paradigm *aṭke*, *aṭakīe* the alternation *aṭk-aṭak* is phonologically systematic. But now there are pl forms such as *garbī* f sg *garbīo* (OG **garabau* > *garabo* > *garbo* m 'a ceremonial dance'), *vāṭkī* f sg *vāṭkīo* (OG **vāṭakau* > *vāṭako* > *vāṭko* m 'cup'). In some cases of pl there is an alternation between -a- ~ zero *chokro* m, *chokrī* f but *chokrīo* ~ *chokarīo*, *vādro* m, *vādrī* f but *vādrīo* ~ *vādarīo*. This alternation suggests the analogical influence of nouns with -io suffixes which belong to the earlier stage in these instances of nouns with -io -a- is regularly retained because it is pre-penultimate *simal* 'darkish', *śamālīo* 'one who is dark', *e* 'lord Kṛṣṇa', *murat* 'auspicious hour', *muratīo* 'bridegroom'.

This evidence indicates that the pl -o is introduced after the penultimate -a > zero has worked out. Moreover, literary evidence also shows the usage of -o pl after 18th century.¹³

13. The source of this -o is not clear. It could have been an extension of a late MIA voc pl. -āo, so which would develop in Proto Guj. to -o. It is used as a voc. pl. in Old Guj. in the following sentence *aho herakau! bhūṅgarī garvīṅ chāl bhūpati o* 'speak the king is proud due to the strength of his arms'. In New Guj. voc. pl. (though rarely used) is -o thus -o may have extended to other case suffixes. This extension, then must take place after the penultimate a > zero has worked out (cf. Teggler, I., P. Notes on Old Western Rajasthan, Indian Antiquary 56: 67).

581 It may be noticed that the major analogical changes during the last three centuries (during and after the Middle Gujarati period) start from the Central and Northern Gujarat, i. e. mainly the region between Ahmedabad and Pāṭan, and spread to Saurashtra and Southern Gujarat. NW and Western Saurashtra dialects may have separated earlier (with a six vowel system $\begin{matrix} \text{ɨ} & \text{a} & \text{u} \\ \text{e} & \text{ā} & \text{o} \end{matrix}$, and present indicative 1st pl as $-\tilde{\text{i}}$), forms with pl $-o$ are still more restricted to the northern mainland. This suggests that modern standard Gujarati is based on the dialect of this region. This is also supported by the political history of Gujarat, that, during the last five hundred years this region has dominated over the rest of the Gujarati speaking area.

ष ड व श्य क बा ला व बो ध वृ त्ति

॥ ६० ॥ अहं श्रीगौतमस्वामिने नमः ॥

सुरासुराधीशमहीशनम्यं प्रणम्य सम्यग् जिनराजवीरम् ।
'सुबोधमर्थं दिनकृत्यसत्कं लिखाम्यबुद्धिप्रतिबोधनाय ॥ १ ॥

§1) पढमं नाणं तओ दया एवं चिट्ठइ सच्चसंजए ।

अन्नाणी किं काही किं वा नाही छेय-पापयं ॥

[दशवैकालिक सू० अ. ४ गा १०]

[१]

पहिलउ ज्ञानु 'तउ' पाछइ 'दया', जीव विषइ कृपा । 'एव' इणि क्कमि । 'चिट्ठइ'-किसउ अर्थु ?
रहइ, कउण रहइ ? गुणभेणि इसउ आपधे जाणितउ । कउण माहि ? 'सच्चसजए' सच्च ही सजत माहि । 10
'सजओ दुविहो-सच्चसजओ साहू, देससजओ सावओ ।' सच्चसजत ही माहि । देससजत ही माहि ।
'अन्नाणी किं काही किं वा नाही छेयपापयं ति' अज्ञानु 'किं करिण्यति' किसउं करिसिइ । 'किं वा
ज्ञान्यति' अथया किसउ जाणिसिइ । 'छेउ' पुण्यु । 'पापयं' पापु इति ।

§2) सु पुणि ज्ञानु योग्य रहइं दीनइ । अयोग्य रहइं न दीजइ । योग्यु सुआवकु जेइ माहि
एकवीस गुण हुयइ ।

15

धम्मरयणसस जुगो अक्खुओ १ रुववं २ पगइसोमो ३ ।

लोग्गिओ ४ अकूरो ५ भीरू ६ असढो ७ सदक्खिण्णु ८ ॥

[२]

लज्जालुओ ९ दयाळू १० मज्झत्यो ११ सोमदिट्ठि १२ गुणरागी १३ ।

सक्कहु सपक्कजुओ १४ सुदीहदंसी १५ विसेसज १६ ॥

[३]

जुहाणुओ १७ विणीओ १८ कयल्लुओ १९ परहियत्यकारी य २० ।

20

तह चेव लद्धल्लकरो २१, इगवीसगुणो हवइ सढो ॥

[४]

§3) धम्मं जु रल्ल समल्ल समीहित दानइतउ चिंतामणि धम्मरल्लु तेह रहइं योग्यु अधिकारी
'हपइ सङ्गो' इसउ छेहलउं पढु इहां जोडियइ । 'सङ्गु' आयकु हुयइ । किसउ ? 'इगवीसगुणो'
एकवीसगुणजुहु । मिसा ति एकनीस गुण ? इत्याद-अन्याइ करी परत्रन्यापदाळु कुठ इसउ न होइ । किं
तु न्यायोपार्जितवित्तसतोपी जु होइ सु 'अक्खुडु' अल्लुडु १ । 'रुवव' रूपयतु । अल्लतपंचेद्रिउ नीरोगु 25
रूपयान् २ । स्वमाविहिं स्वस्वचिउ प्रकृतिसीम्यु ३ । सामान्यननइनु अथया राजादिलोकसंमतु
लोकमित्रिउ ४ । परंपंचानापुदिरहितु अक्कू ५ । भयरहितु अमीरु । किसउ अर्थु-धम्मं करतउ धम्मं मम्मं
विषइ अन्नाण जि विट्ठमावप्रमुख लोक तीदं हृतउ पीहइ नहीं । यदुक्-

होह समत्थो धम्मं कुणमाणो जो न वीहइ परेसिं ।

मायपियसामिगुरुमाइयाण धम्माणभिन्नाणं ॥

[५]

अथवा ससारदुकत्रस्तु मीरु इत्ती परि पुणि ६ । मायारहितु अशतु ७ । दाक्षिण्यवंतु 'सद-
क्खित्तु' धोदइसइ आपणपा रहइं छेदकभाविहिं वहुतर परोपकारकरणस्वभातु 'सदक्खित्तु' ८ । लोक-
५ लोकोत्तर मार्गं विरुद्ध चोरिका परदारगमनादिक पापकार्यं तीहं तथा करण नइ विपइ लज्जाजुक्तु 'लज्जाइ' ९ ।
थावर जंगम जीवरक्षाकारकु दयाइ १० । अति प्रबल रागद्वेषरहितु मध्यस्थ ११ । यदुक्तं-

रत्तो दुट्ठो मूढो पुंविं बुग्गाहिओ य चत्तारि ।

। एए धम्माणरिहा अरिहो पुण होइ मज्झत्यो ॥

[६]

दर्शनमात्रिहिं जि सकलजनमनोनयनरजकु सौम्यदृष्टि १२ । गुण-पक्षपात कारकु ज्ञान-दर्शन-चारित्र-

10 पात्र सुगुरुवचनकारकु न पुणि निर्गुण-कुलकमायात-गुरु-कदामह-भस्तु जु सु गुणरागी १३ । सतप्रधान कथा
कीर्ति जेह रहइं हुयइ सु सत्कथु । अथवा सत शोभन कथा सिद्धात रहइ अविरुद्ध धर्मदेशना जु करइ
सु सत्कथु । समप्राप्त्यगुणजुगत्तु हीनजातिदुल्लु धर्मदेशनायोग्यु न हुयइं इणि कारणि पितृमातृलक्षणा-
भय-वंशविशुद्धु 'सुपक्खु' ईही जि माहि गणिउ १४ । कार्यारंभि भविष्यत्काल प्रलोकनशीलु, न पुणि
अविमर्शितकारी जु सु सुदीहदंशी १५ ।

15 यदुक्तं-

सुगुणमपगुणं वा कुर्वता कार्यजातं परिणतिरवधार्या यत्ततः पंडितेन ।

अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्तेर्भवेति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपारुः ॥ [७]

५४) गुणागुणविभागद्वहु 'विसेसत्तु' १६ । धर्मज्ञ दृढलोकमति उपजीवकु दृष्टान्तुगु १७ । उक्तं च-

यदि सत्संगरतो भविष्यसि भविष्यसि । उतासजनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ [८]

20 पितृमातृगुरुप्रमुख पूज्यजन विपइ अभ्युत्थानासनदानादि विनयकारकु 'विणीउ' १८ । जिणि
कारिणि विणयमूलु जु जिणसासणु । यथा-

विणओ सासणे मूलं विणीओ संजओ भवे ।

विणयाउ विणयुक्कस्स कओ धम्मो कओ तरो ॥

[९]

विणओ आवहइ सिरिं लहइ विणीओ जसं च किचिं च ।

25 न कयावि दुच्चिणीओ सकजसिद्धिं समाणेइ ॥

[१०]

मूलं धर्मद्वमस्य सुपतिनरपतिश्रीलताकल्पवंदः

सौन्दर्याह्वानविद्या निखिलसुखनिधेर्वैश्वतायोगचूर्णम् ।

सिद्धाज्ञामध्वतप्राधिगममणिमहारोहणाद्रिः समस्ता-

नर्थप्रत्यर्थितर्षं त्रिजगति विनयः किं न किं साधु घृते ॥

[११]

30 इत्यादिकु केतलउ एकु विनय तणउं फलु निरियइ । अन्यद्वतोपकार अविसारकु न पुणु क्वत्तु
जु सु क्वत्तु १९ । आत्मन्यतिरिचनन रहइं अमीष्टार्पसपादइ अथवा राजचौरादि भयरजहु, अथवा
धर्मोपदेश दानि कपी संसारसागर समुत्तारकु 'यद्विद्यत्यकारी' २० । राजादिसमा माहि सकळ दर्शन
विचारद्वहु 'लदलहु' २१ । इति एकविंशति गुण विवरणु सद्येपिहिं जाणिरउ । विस्तरइतठ कथापुण्य-
इतउ जाणिरउं ।

[३] 2 note the short-u in उदाक्खित्तु; In the second line Bh. has a long &

[४] 1 Bh. विसेसत्तु; 2 Bh. omits. 3 Bh. omits.

§5) अथ प्रस्तुत प्रतिज्ञातू जु कहियइ ।

साहूण सत्त वारा होइ अहोरत्तमज्जयारंमि ।

गिहिणो पुण चियवंदण तिय पंच सत्त वा वारा ॥ [१२]

इसा परमागम वचनइतउ साधु अहोरात्र माहि सात चैत्यवदना करइ, गृही पुणि त्रिन्दि अर्थवा पाच अथवा सात चैत्यवदना करइ यथाशक्ति । अत्र प्रस्तावइतउ पहिलउ दसत्रिक^१ विचारु लिखियइ । 5

तिन्नि निसीही १ तिन्नि पयाहिणा २ तिन्नि चैव य पणामाई ३ ।

तिविहा पूया ४ य तथा अवत्थ तिय भाणणं ५ चैव ॥ [१३]

तिदिसि निरिक्खणविरइ ६ तिविहं भूमिपमज्जणं चैव ७ ।

वन्नाइ तियं ८ मुद्दा तियं ९ च तिविहं च पणिहाणं १० ॥ [१४]

ईयदह तियसंजुत्तं वंदणयं जो जिणाण तिकालं ।

कुणइ नरो उवउत्तो सो पावइ सासयं ठाणं ॥ [१५] 10

जिनभवनादि प्रवेसि, आदि पदइतउ पौषधशाला प्रवेसि, मन वचन-कायकृत पापव्यापार निषेध विपइ^२ त्रिन्दि निसीही कीजइ । मन-वचन कायमाहि जिनु छइ तिणि कारणि त्रिन्दि प्रदक्षिणा दीजइ पइ जु अर्थु भणित ।

जिणभवणाइपवेसे निसेहविसया निसीहिया तिन्नि ।

मण-वय-त्तणूमंते जिणु चि ति पइक्खिणा तेण ॥ [१६] 15

मन-वचन-कायभेदि करी त्रिन्दि प्रणाम जिननिवदर्शनि माथइ हाथ चढावी करी जय जय जयेति भगता कीजइ पुणपूजा नेवज्जपूजा स्तुतिपूजेति त्रिविधा पूजा । पुणपूजा सर्वसुरभिद्रव्यपूजा रहइ उपलक्षण । नेवज्जपूजा सर्व दातव्य द्रव्यपूजोपलक्षण । स्तुतिपूजा सर्व भावपूजा रहइ उपलक्षण । तदुक्तं-

तिपणामकरणमेयं जुत्तं मण-वयण कायभेएणं ।

पुण्फामिसधुइमेया तिविहा पूया इमा होइ ॥ [१७] 20

§6) छद्दास्यावस्था, समवसरणावस्था, मोक्षावस्था लक्षण त्रिन्दि अवस्था । तत्र-

स्तोत्रे तोत्रे च सारे सुरभिसुमनसां सत्तरे प्रस्तरे वा

स्वर्णे पर्णे च जीर्णे सुरुचिषु बहुषु स्त्रीषु शस्त्रीषु वा पि ।

अन्धौ बन्धौ च साम्यप्लुतहृदयदृशो योगधौतात्ममूर्च्छ-

रहंनहंनमस्ते इति हृदि मनुतो मे कदा यान्त्यहानि ॥ [१८] 25

'स्तोत्रे' स्तुतिकारक भक्तजननिमित्तु । 'सारे तोत्रे' आरसयुक्त तोत्रु पिराणउ तेह विपइ । 'साम्यप्लुतहृदयदृशो' इसउं पटु सवहीं परह सरसउ जोडियइ । साम्यु' रागद्वेषरहितता । तिणि करी सुत सहित जेह तथा -मननयन हुयइ सु साम्यप्लुतहृदयदृश कहियइ तिसा हुता । तथा 'सुरभि-सुमनसा सत्तरे प्रस्तरे वे' ति । सुरभि कुसुमशय्या विपइ । अथवा प्रस्तरे ररशिला कठिन पापाण 30 शय्या विपइ । तथा 'स्वर्णे' सुवर्णराशि विपइ । 'पर्णे च जीर्णे' पुरातन पर्णसमूह विपइ । तथा 'सुरुचिषु बहुषु स्त्रीषु शस्त्रीषु वा पि ।' चपककलिकादीभेदइकाति बहु प्रभूत छइ स्त्री तीह नइ विपइ । शस्त्री नवोत्तेजित छुरी तीह नइ विपइ । तथा 'अन्धौ' कूप नइ विपइ । 'बन्धौ' अमीष्टजन विपइ । 'साम्यप्लुत-

हृदयदृशो' समचित्तलोचन वृ रहइं । 'अहंनई' इसउं मूलिगउं विशेप्यु पत्तु । तेद र्हइं संवोषतु हे अहंन
अहंन । 'योगधौतात्ममूर्त्तिः' योग्य भणियइं समाधि तिणि करी धौत पवित्रीकृत आत्ममूर्त्ति जेह तणी हुयइ
सु योगधौतात्ममूर्त्ति, तेद तू र्हइं नमस्कार हुयउ । इसउं 'हृदि' हिया माहि 'मनुतो' मनता हुंवा
'कदा' केतीवार मू र्हइं दिन जाइं । इसी चिंता छद्मस्यावस्था चिंता' कहियइ ।

5। १ ५७) तथा-

सर्वज्ञः सर्वदर्शी सभवसृतिगतः प्रातिहार्यैरहार्थैः
रोचिष्णु, श्रीभविष्णुर्ध्वनजनतमोहर्तुमत्पुस्तहिष्णुः ।

वर्तिष्णुर्द्वादशानामुपरि परिपदां तत्त्वसिद्ध्यै प्रमाणं

स्याद्वादं सप्तमख्य्याभिमदधदिह मुदे मेस्तु देवाधिदेवः ॥ [१९]

10 सर्व्व सूक्ष्म जीवपुद्गलनिगोदादिकु वस्तु, कालव्यवहितु देशव्यवहितु विशेषरूपि करी जाणइ
इणि,कारणि। सर्व्वहु । सर्व्वदर्शी सगळं पूर्व्वभणितु वस्तु सामान्यरूपि करी देखइ इति सर्व्वदर्शी ।
सामान्य-विशेषात्मक वस्तु विपइ विशेषात्मक बोधु ज्ञातु । सामान्य-विशेषात्मक वस्तु विपइ सामान्यत्मक
बोधु दर्शतु । इसा ज्ञान दर्शन व्याख्यानइतउ । तथा च भणितं-

संभिन्नं पासंतो लोगमलोगं च सच्चओ सच्चं ।

15 तं नरिय जं न पासइ भूर्यं भव्वं भविस्तं च ॥ [२०]

'संभिन्नं' संपूर्ण लोक् चतुर्दशरत्न प्रमाण पंचास्तिकायमठ । अलोक् फेयलाकाशरूप अनंतानंतु ।
'सच्चओ' सविहुं दिसि । 'सच्चु' मध्यामध्यविभागलक्षणु पासतउ देउतउ । दर्शन र्हइं ज्ञानोप-
लक्षणत्वइतउ जाणतउ हतउ सर्व्वहु सर्व्वदर्शी । सु नयी भूत अतीतु, मन्वु वर्त्तमानु, भविष्णु आगामि
कालभाविउं वस्तु, जु न पासइं न जाणइं इति गाथार्थः ।

20 'समवसृतिगतः' समवसरणु रूप्य-सुवर्ण-रजमय धलयत्रयरूपु देवविनिर्मितु तिहां गतु वर्त्तमानु ।
प्रातिहार्यै हेवविनिर्मित अशोक वृक्षादिक अष्टसख्य । तथा हि-

अशोकरुद्रुक्षः सुरपुष्पवृष्टिर्दिव्यो ध्वनिधामरमासनं च ।

भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥ [२१]

सुवर्ण-रत्न-विनिर्मितु योजनविस्तारि अनमच्छायु अशोक वृक्षु चैत्यद्वगापरनामप्रसिद्धु पंचलक्षानो-

25 त्वचित्तमयानंतरु जिनमखवि देव नीपाइं ।

तिन्नेव गाउपाइं चेषरुद्रो जिणस्म पढमस्म ।

सेसाण चारमगुणो वीरे वत्तीमय धणुणि ॥ [२२]

शिष्यु भणइ- 'मगनम्' आयदयवचूर्णि माहि श्रीवीरश्रीपट्टवडं पुणि चारमगुणु अशोक
भणितु । यथा-

30 अमोन्नरपापवं जिणउच्चत्ताओ चारमगुणं मनो विउच्यइ ।

वीरसमोसरणप्रस्तापि ए चूर्णि । तउ वत्तीम धणुइ किम चउइ ? । गुरु भणइ, फेयलउ अनेकु
भीनीरही र्हइं चारस गुणउ धणुइ २१ छइ । तेद उपरि वीजउ धणुइ ११ माल वृक्षु छइ । विहुं भणइ
प्रमाणि सेलेइ धणुइ ३२ हुयइ । प्रवचनमारोद्धारसिद्धांत माहि ए वृच्छा अतइ इतरु मयिधारु छइ ।

'आजानुमान अघोर्तुव मन्परिमल पंचवर्णपारिजातकुमुमवृष्टि ममत्रमणभूमित्रलि देव परइं । २ ।

‘मालवकैशिकी रागगर्भितु सर्वभाषानुकारी’ सर्वसशयापहारी योजनविस्तारी सकलदृशेषसारी
अमृततरसावतारी दिव्य ध्वनि देशानानाद् स्वभावविहिं केवलज्ञानोत्पत्तिसमयानंतरं जिनमुखहृतउ विस्तरइ ।
तथा च भणितं—

वासोदगस्स च जहा वन्नाइं हुंति भायणविसेसा ।

सव्वेसिं पि सभासा जिणभासा परिणमइ एवं ॥

[२३]

देवा देवीं नरा नारीं शवराश्चापि शाबरीम् ।

तियञ्चोऽपि हि तैरश्चीं मेनिरे भगवद्दिग्गम् ॥

[२४]

रंगद्वारंगतरंग चंग चामर अमर त्रिहु गमे वीजइं । ४ ।

सुवर्णरत्नमय सपादपीठ चडहुं दिसि चत्तारिं सिंहपीठ देव थापइं । ५ ।

केवलज्ञानानंतरसमइ जिम सूर्यविवरसि करी जूननयन रहइं प्रतिघाउ हुयइ तिम जिनेंद्रतनु-10
कांति करी पुणि हुयइ तिणि कारणि देहकाति संपिंडित करी सूर्यमंडल परिमंडलु मामंडलु पृष्टिप्रदेशि
देव करइं । ६ ।

आकाशसथित देव देवदुदुभिनिनादु जिननादपुष्टिकारकु करइं । ७ ।

त्रैलोक्याधिपत्यससूचिका श्वेतातपत्रत्रयी जिनमस्तकि देव धरइं । ८ ।

‘सत्रातिहार्याणि जिनेश्वराणां सति’ किसउ अर्थु त्रिभुवनतिसायिया । प्रातिहार्य पूजाप्रकार 15
जिनेश्वरहुं तथा ति पुणि किसा ? अहार्य अनेरां देवहुं हरिया प्रापिवा शक्य नहीं, तीहं करी ।

§8) ‘रोचिष्णु श्रीभविष्णु’ त्रिभुवनजनकाम्यलक्ष्मीभविष्णु भवनशीलु । तथा च भणितं—

पडिचन्नचरमतणुणो अइसइं लेसं पि जस्स दड्डुणं ।

भव-हुत्त-मणा जायंति जोगिणो तं जिणं नमइ ॥

[२५]

‘भुवनजनतमो हर्षुमत्युरसहिष्णु’ भुवनजन रहइ तम अज्ञान हरिया कारणि अति उत्साहकरण-20
शीलु । ‘धर्त्तिष्णुर्द्वादशानामुपरि परिपदा’ आग्नेयदिसि गणधरेंद्र, वैमानिकदेवी, साध्वी लक्षण’ त्रिन्हि
स्मर । नैस्सि दिसि ज्योतिर-अयस्वर-अवत्सपति देरी स्मर त्रिन्हि । व्याख्य दिसि तीहंसा देयहुं तणी
सभा त्रिन्हि । ऐशानदिसि वैमानिक देव, नर नारी समा त्रिन्हि । इसि परि चडहुं विदिसि जि छइं
वारह सभा तीहं माहिं सात हाय ऊंची मणिपीठिका तेह ऊपरि कटीप्रमाण सिंहासनु तिहां समुपवेश-
भावइतउ ‘उपरिधर्त्तिष्णु’ उपरि वर्त्तमानु । ‘तत्त्वसिद्धौ’ जीवाजीवादि नवतत्त्व सिद्धिनिमित्तु प्रमाण 25
स्वाद्वाभिघालु सप्तमगीप्रमाणमार्गप्रसिद्ध, तिणि करी अमिद्धघतउ उपदिशतउ हूतउ, ‘मुदे’-परमानंदनि-
मित्तु, ‘भे’ भू रहइं ‘अत्तु’ हुउ । देवाधिदेवप्रस्तावइतउ श्रीमद्वावीरु । इसी चिंता समयसरणावस्याचिंता ।

§9) अथ मोक्षावस्था लिखियइ—

संठाण-वन्न-रस-गंध-फास-वेयंग-संग-जणिरहियं ।

दृगतीसगुणसमिद्धं सिद्धं बुद्धं जिणं नमिमो ॥

[२६] 30

दीपे, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, परिमंडल नामक पाच सस्थान । कृष्ण, नील, लोहित, हारिद,
सुफिल नामक पाच वर्ण । तिक्त, वडुक, कणाय, आम्ल, मधुर नामक पाच रस । सुरभि, दुरभि नामक
वि गंध । गुरु, लघु, मृदु, कठिन, स्निग्ध, रूक्ष, उष्ण, शीत नामक आठ फरस । पुरुषवेद, स्त्रीवेद,

नपुंसकवेद रूप त्रिन्दि वेद । अंगु फायु, संगु रागु, जनि जन्मु, ईहं पकत्रीशहीं तणा अभाय एकत्री-
शगुण । तीहं करी समिद्धु संजुक्तु । अथवा पंचविधु ज्ञानावरणु । नवविधु दंसणावरणु । दंसणमोह,
चारित्रमोह रूप वि मोहनीय भेद । पांच अंतराय भेद । चत्तारि आयु भेद । शुभाशुभरूप वि नाम-कर्म
भेद । उच्चनीच लक्षण वि गोत्रकर्म भेद । सात-असातरूप वि वेदनीयकर्म भेद । सर्वइ मिलिया एक-
6 ग्रीस, ईहं सबहीं तणा अभाव एकत्रीस गुण । तीहं करी 'समिद्धु' सहितु । 'सिद्धु' किसउ अर्थु ?
पंचेतालीस लक्ष्योजन प्रमाण जिसउ ऊत्ताणउं छत्रु हुयइ इसइ आकारि स्फटिक रत्नमय छइ
सिद्धिशिला, तेह ऊपरि एक्कु जोयणु आकाशदेसु तेह नइ उपेखइ चञ्चीसमइ भागि त्रिन्दिहसइ सत्रिहा
त्रेग्रीसा' धनुइ प्रमाणि आकाशदेसि चरमदेह त्रिभागन्यून अमूर्त्तजीव ज्योतिःस्वरूप संप्राप्तु नित्यु जिहां
एक सिद्धज्योति तिहां अन्योन्य समवगाढ परस्पर प्रविष्ट अनंत सिद्धज्योति छइ । तथा च भणितं-

10 जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्खयविमुक्का ।
अनुन्नसमोगाढा चिद्धंति तहिं सयाकालं ॥ [२७]
बुद्धु ज्ञातवत्तु । 'जिनं नमिमो' अग्हे एवं गुणविशिष्टु जित्तु नमउं नमस्करउं । इसी चिंता
मुक्तावस्था चिंता ।

§10) नरक गति तिर्यंच गति अकर्मभूमि गति यर्जननिमित्तु ऊर्ध्व, अधो, घाम, दक्षिण,
15 ष्टष्टि लक्षण तिर्यंगलक्षण । त्रिन्दि विसि तिहां, निर्दोषणविरति जोइवा तणउ निपेधु । तथा च भणितं-

छउमत्थ समोसरणत्थ तहं य मुक्खत्थ तिन्नि वत्थाओ ।
तिदिसि निरिक्खणविरई तिरि निरया कम्मभूमिओ ॥ [२८]

मन-वचन-कायलक्षण त्रिन्दि जोग तीहं नइ विपइ भेदि करी जिहां ऊभो रहियइ तिहां पक्षांचलि
करी त्रिन्दि धार प्रमार्जेनु कीजइ । एउ त्रिविधु भूमिप्रमार्जेनु कहियइ ।

20 जिणपडिमाणमवग्गहु निदिट्ठो होइ पुच्चग्रीहिं ।
उक्कोस सट्ठिहत्यो जह्वं नव सेसु मज्झिमओ ॥ [२९]

जिनप्रतिमा हंता षट्कष्ट पदि साठि हाये थिकां देव थांदियइ । जघन्य पदि नवे हाये थिकां देव
थांदियइ । अनेरउ नव हाथ ऊपरहउ, साठि हाथ माहि सगळ् जघन्यु अवमहु कहियइ । संबीर्ण थानकि
पुणि अति दूकटां जिनविंथ कन्हइ थाई चैल्यंदना न कीजइ । अक्षर अर्थ प्रतिमा जिहुं तणउं करणु
25 विधिरत्त सूचवेवउं । यथा-अहत्तमात्रा विंदुसंयुक्तादि भेद' छुट्ट उचरिथा । अर्थु गुरूपदेशानुसारि मन
माहि चितवेवउ । प्रतिमा-जिनविंनु तिहां दष्टि करेयी । जिनमुद्रा, योगमुद्रा, मुष्ठाशुक्तिमुद्रा लक्षण
मुद्रा-त्रिक्कु' चैल्यंदनासूत्र-व्याप्यान माहि कहीसिइ । कायनिरोध, मनोनिरोध, वचननिरोध लक्षणु प्रणिधान-
त्रिक्कु' । अप्रतिलेपिति, दुःप्रतिलेपिति, अप्रमार्जिति, दुःप्रमार्जिति थानकि कायव्यापारनियारणु । विधिपूर्व
क्षमाभ्रमण-प्रदान प्रमार्जेनादि विपइ कायव्यापारप्रयोजनु । आर्त्त-तौहय्यान विपइ मनोव्यापारनिपेधनु
30 चैल्यंदनार्थचिंतन विपइ मनोव्यापारप्रयोजनु । राजक्यादि विपइ वचनव्यापारनिपेधनु । मधुरध्वत्त-
लापकोषारण संपदास्त्रन विपइ वचनव्यापारप्रयोजनु । प्रणिधानत्रिक्कु' कहियइ । तथा च भणितं-

अक्खर अत्थो पडिमा भणियं वक्काइ तियमेयं ।
जिणमुद-जोगमुदा मुच्चासुचीप तिन्नि मूदाओ ॥ [३०]
कायमणोत्रपणविरोहणं च पणिहाण तियमेयं ।

ए दश त्रिक सूचवतउ हंतउ सावधानचितु जु चैत्यवंदना करइ सु पुण्यात्मा शाश्वतस्थानु परमा-
नंदपदु लहइ । इसां दश त्रिक मन माहिं धारवां । चैत्यवंदनावसरि सूचववां ।

§ 11) अथ परिहारयोग्यता करी चउराशी आशातना लिखियइं ।

खेलं केलिं कलिं कलां कुललयं तंबोलं मुगालयं

गालीं कंगुलियां सरीरधुवणं केसें नहें लोहियं ।

भत्तोसं तयें पित्तं वंतें दसणें विस्सामणं दामणें

दंतें अच्छीं नहं गंडं नासियं सिसो सुत्तं च्छवीणं मलं ॥ [३१]

मंतं मीलणं लिक्खियं विभज्जणं मंडारं दुट्ठासणं

छाणीं कप्पेदं दौलीं पप्पेदं वंडीं विस्सारणं नासणं ।

अकंदं विकंदं सरत्थेघटणं तेरिच्छं संठावणं

अग्गीसेवणं रंधणं परिल्लं निस्सीहियं मंजणं ॥ [३२]

छत्तोवाण्हं सत्थं चामरं मणोणेगत्तं मब्भंगणं

सच्चिन्नाणमच्चोय चार्यमजिए दिट्ठिइ नो अंजलीं ।

साडेगुत्तंसंगमंग मउंढं मोलिं सिसो सेहरं

हुंढा जिंदुहं गिट्ठियाइरमणं जोहारं भंडकियं ॥ [३३]

रिक्कारं धरणं रणं विवरणं बालाण पल्लत्थियं

पाउं पायपंसारणं पुंडपुडी पंकं रओं मेहुणं ।

जूवा जेमणं गुज्जं विज्जं वणिजं सिज्जं जलुम्मज्जणं

एमाईमणवज्जकजमुजुओ वजे जिणिं दालए ॥ [३४]

§12) 'खेलु' प्लेपमां । 'केलि' क्रीडा हास्यादिके । 'कलि' कलहू । 'कला' धनुर्वेदादिके । 20

'कुललयं' मुद्रशुद्धिनिमित्तु गंदूपकरणुं । 'तंबोल' प्रसिद्धुं । 'मुगालयं' तंबोलसंबंधित मुखस्थितु जु छइ

अथयतु तेह नउं चर्वणु अथवा त्यजतुं । 'गाली' मकार चकारादिकं । 'कंगुलिया' लघुनीति । 'सरीरधुवणं'

इस्तभादादि प्रक्षालतुं । 'केसे' केशलंघनतुं । 'नहे' नखलंघनतुं । 'लोहियं' रुधिरलंपनतुं । 'भत्तोसं' अद्रु

धान्यु चणकादि तेह तणउं चर्वणुं । 'तय' व्रणादि चर्मुं । 'पित्तु' नीलउं मुखनिर्गतु जहूं । 'वंतु' लड्ढं टि ।

'दसण' वंत तीहं तणउं त्यजतुं । 'विस्सामणं' सरीरमर्दनादि । 'दामणं' गोघृषमादि बंधतुं । 'दंत' दंतमल्लुं । 25

'अच्छी' आंखिमल्लुं । 'नह' नखमल्लुं । 'गंड' गालमल्लुं । 'नासियं' नाकमल्लुं । 'सिसो' मस्त्रकमल्लुं । 'सुत्त'

कर्णमल्लुं । 'च्छवि' चर्ममल्लुं । 'मंतु' भूतनिग्रहादि निमित्तु अथवा राजादि कार्यालोचतुं । 'मीलणु'

झगदादि मंजननिमित्तु वृद्धलोकमेलतुं । 'लिक्खियं' गृहलेखकं करणुं । 'विभज्जणं' गोत्रियहं रहइं गृहसार

विभाग करणुं । 'मंडारं' वस्तुगोपतुं । 'दुट्ठासणं' पादोपरि पादचाटनादिकुं । 'छाणीं' छगणकं सूचवणुं ।

कप्पेदं दौलीं पप्पेदं वंडीं तीहं नउं विस्सारणु सूचवणु । 'नासणं' गर्भग्रहादि प्रवेशतुं । 'अकंदं' शोक्रोदरतुं । 30

'विकंदं' राजादिकथा करणुं । 'सरत्थघटणं' शरशस्त्रघटनतुं । 'तेरिच्छ संठावणं' गवादिस्वापतुं । 'अग्गीसे-

वणु' शीतादौ अग्निवापतुं । 'रंधणं' धान्यपाककरणुं । 'परिल्लणं' नाणकपरीक्षणुं । 'निस्सीहिया मंजणं'

निस्सीही नउं अकरणुं । 'छत्तोवाण्हं' छतु आवपवारणु तेह नउं धारणुं । उपानह खासठां तीहं तणउं

परिघातुं । 'सत्थं' खट्वादिघरणुं । 'चामरं' तीहं नउं चीजावणुं । 'मणोणेगत्तु' नानाविध पापविकल्पना

- कल्पन्तु । 'अच्छभंगणं' सरिर चोपहर्षु । 'सञ्चित्तानमचाय' सचित्त पुष्प तांबूलादिक तीहं तणउं अलाउं । 'चायमजिए' अजीघ-सुवर्ण रत्न मुद्रादिक तीहं तणउं त्यागु मेहिवउं । तीहं नइ त्यागि अहो भिक्षाचरहं तणउ, धम्मं इसा अवर्णवाद वसइतउ आशातना । 'दिट्ठीइ नो अंजली' जिनदर्शनानंतरु हस्त जोडी मस्तकिक अकरणुं । 'साडेगुत्तरसंगभंग' एकलपट-
 5 वस्त्र उत्तरासंग अकरणुं । 'मउडं' मुकुट परिधानुं । 'मौलिं' वस्त्रि करी मस्तक वेष्टुं । 'सिरो सेहरं' हुसुममय मस्तकसिहर करणुं । 'हुडा' होडपारुं । 'जिदुह' दबक रमणुं । 'गिडियाइ रमणं' नेडी रमंति । 'जोहारकरणं' देव जुहारिया इति भणनपूर्वकु अपूर्वपुरूप प्रति प्रणमंनु । 'भंड-
 कियं' भंड चेष्टी । 'रेफारं' 'रे आवि' 'रे' जो इत्यादि भारणुं । 'धरणं' लब्धयधननिमित्तु पर तणउं ओहडणुं । 'रणं' शस्त्रि करी युद्धकरणुं । 'विनरणं' घालाणं मस्तक ओछायणुं । 'पहत्थियं' पालठीकरणुं ।
 10 'पाऊ' काष्ठचाखडी परिधानुं । 'पायपसारणं' पादप्रसारणुं । 'पुहपुडी' ढीकडी प्रदापणुं । 'पकं' कादम लहंनु । 'रओ' धूलिक्षेपणुं । 'मेहुणं' मैथुनसेवेणुं । 'जूवा' चुतकीडें । 'जेमनं' भोजनकरणुं । 'गुज्जं' पुरुपचिह्न प्रकाशणुं । 'विज्ज' वैद्यकरणुं । 'यणिजं' व्यवसायकरणुं । 'सिज्जं' शय्याकरणुं । 'जलुम्मज्जणं' जलभृत कुंडिका माहि जलकेलिकरणुं हीलणुं । ए चउरासी आशातना । 'एमाईमणज्जकज्जमुजो वज्जे जिणिदालये' एवमादिक आशातना अनवयकार्य धर्मकार्य तीहं नइ विपइ 'उजुओ' उचतु उचमवंतु
 15 भल्लु जीछु जिणिदालय माहि देवगृह माहि 'वज्जे' यर्जिजिउं परिहरिजिउ ।

§13) चउरासी आशातना परिहार पूर्वकु देवगृहि देव आगइ चैत्यवंदना करेवी । पोसाल माहि पुणि स्थापनाचार्य आगइ चैत्यवंदना करेवी । गुरु आगइ चैत्यवंदना न करेवियइ । गुरु आगइ चैत्यवंदना करिया तणा अधिकार तणा अभाषइतउ इसउ अर्थु चैत्यवंदनार्थं हुंतउ पुणि जाणियइ । गुरु परंपराभाय हुंतउ पुणि जाणियइ । स्थापनाचार्य माहि पंचपरमेष्टि स्थापना कीजइ । तिणि कारणि अहंत उद्दिही तिहां 20 चैत्यवंदना कीजइ । तथा वंदनकु गुणवंतगुरुप्रतिपत्तिनिमित्तु भयमिधुपूळि गुरुपादमूळि उभयकालिदिं दीजइ । तथा सर्वातिचार विशुद्धिनिमित्तु उभयकालि दिं साधु जिम श्रावक हीं प्रतिक्रमणु करेवउं । तथा च भणितं—

समणेण सावणण वि अवस्स कावप्ययं हुइ जम्हा ।

अंतो अहोनिस्सिम तम्हा आरस्सयं नाम ॥

[३५]

- 25 सु चैत्यवंदनादिकु इयांपयिची पडियमी पासइ सुइइ नही । जिहां माहात्वारि गुरु हुयइ तिहां गुरु आगइ हरियाउही पडिकमियइ । जिहां गुरु न हुयइ तिहां स्थापनाचार्य स्थापना करी सेह आगइ पटिकमियइ । यदाह—

जिनशासनप्रवाशनदिनमणिजिनमद्दगणि क्षमाभ्रमणशिरोमणिः ।

गुरुविरहंमि य टणणा गुरूणमो व दंमणत्थं च ।

जिणविरहंमि य जिणविं च टणणा वंदणं महलं ॥

[३६]

रओ वि परक्खस्स वि जहा सेवा मंत देवयाए वा ।

तहा चेव परक्खस्स वि गुरुणो सेवा विणयहेउं ॥

[३७]

अक्खे बराटए वा कट्ठे पुत्थे य चित्तरुम्मे य ।

सम्मारममग्गमावं ठवणाकणं विषाणाहि ॥

[३८]

इत्यागमवचनानुसारि करी अक्ष कपर्दक काष्ठादिमर्य वस्तु विपद् स्थापनाचार्य स्थापना कीजइ । पंच परमेष्टि स्थापनानिमित्तु स्थापनाचार्य आगइ मन वचन-काय रहइं सावधानतानिमित्तु त्रिन्हि पंच परमेष्टि नमस्कार कहियइं । अथवा जिनशासने जि के कार्य कीजइं ति सर्वे त्रिन्हि नमस्कार भगनपूर्वक कीजइ । इणि कारणि पुणि त्रिन्हि नमस्कार भणियइं ।

§14) सकलजिनशासनसारु चतुर्दशपूर्वसमुद्धारु त्रिदिवशिव श्रीवशीकारु श्री पंच परमेष्टि- 5 नमस्कारु । तिणि कारणि मांगलिक्यनिमित्तु पहिलुं तेह नउ अर्थु संक्षेपिहिं लिखियइं ।

(१) नमो अरहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं । नमो उवज्झायाणं । नमो लोए सव्वसाहूणं । एसो पंच नमुक्कारो । सव्वपावप्पणासणो । मंगलाणं पि सव्वेसिं पढमं ह्वइ मंगलं ॥

'नमो' नमस्कार हुयउ, कीहं रहइं ? 'अरहंताणं' अरहंत रहइं । किसा कारण लगी अरहंत ? देव 10 देवेंद्र कृतवंदन नमस्करण सत्कारपूजा अरहइं लहइं, अथवा सिद्धिगमनु अरहइं तिणि कारणि अरहंत ।

तदुक्तं-

अरहंति वंदनमंसणाइं अरहंति पूयसकारं ।

सिद्धिगमणं च अरहा अरहंता तेण बुचंति ॥

[३९]

'नमो सिद्धाणं' । सिद्ध रहइं 'नमो' नमस्कार हुयउ । किसा कारण लगी सिद्ध कहियइं ? अष्ट 15 प्रकारु कर्म्यु प्रभूतकालबद्धु सितु कहियइ । सु कर्म्यु शुद्धध्यानामि करी जेहे ध्मातु दाघउं ति सिद्ध निरुक्ति वसइतउ कहियइं । तथा च भणितं-

दीहकालरयं जं तु कम्मं से सियमट्टहा ।

सियं घंतं ति सिद्धस्तु सिद्धत्तमुवजायए ॥

[४०]

'नमो आयरियाणं' । आचार्य रहइं नमो, नमस्कार हुयउ । किसा कारण लगी आचार्य कहियइं ? 20 आपणपइं पंचविधु आचारु पालइं अनेराइं रहइं उपदिसइं इति आचार्य कहियइं । यथा-

नाणंमि दंसणंमि य चरणंमि तवंमि तह य विरियंमि ।

आयरणं आयारो इय एसो पंचहा भणियो ॥

[४१]

पंचविहं आयारं आपरमाणा तहा पयासिता ।

आयारं दंसिता आयरिया तेण बुचंति ॥

[४२] 25

'नमो उवज्झायाणं' । उपाध्याय रहइं नमो, नमस्कार हुयउ । उपाध्याय किसा कारण लगी कहियइं ? जीहं कन्हइ आवी द्वादशांगु शिष्यहं पडियइं ति उपाध्याय कहियइं । यथा-

चारसंगो जिणक्खाओ सज्जाओ कहियो इह ।

तं उवइसंति जम्हा उवज्झाया तेण बुचंति ॥

[४३]

'नमो लोए सव्वसाहूणं' । नमो, नमस्कार हुयउ । कीहं रहइं ? 'लोए सव्वसाहूणं' । लोक्क 30 भयुप्यलोक्क, तेह माहि जि के स्वविरकल्पिकादि भेदि^१ भिन्न सर्व समस्त मुनि छइं ति ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप मोक्षमार्ग साधनइतउ साधु कहियइं । अथवा सर्व प्राणिवर्ग विपद् जि सम ति साधु कहियइं, तीहं रहइं । तथा च भणितं-

निष्वाणसाहए जोए जम्हा साहंति साहुणो ।

समा य सव्वभूएसु तम्हा ते सव्वसाहुणो ॥

[४४]

इहं पांचही रहइं नमस्कार कीजतउ किसउ हुयइ इत्याह—‘एसो पंच नमुकारो’—एउ पंच नमस्कार ।
‘सव्व पावप्पणासणो’—सवही पापहं रहइं प्रणासकु फेडणहार । ‘मंगलणं च सव्वेसिं’—सयही मांगलिक्यहं
5 माहि । ‘पढमं हुयइ मंगलं’—पहिलउं मांगलिक्यु हुयइ ।

§15) एह माहि जिनशासनप्रवर्तनादिकहं कारणहं करी अहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु-
लक्षण पांच नमस्कार करणहं । यथा—

मग्गे अविप्पणासो आपारे विणयया सहायत्तं ।

पंचन्ह नमुकारं करेमि एएहिं हेऊहिं ॥

[४५]

10 ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप मोक्षमार्ग्ये, तेह तणउं प्रवर्तनु अहंतहं तणउ धम्मं । ‘अविप्पणासो’ विणास
तणउ अभावु, सु सिद्धहं तणउ धम्मं । आचारु ज्ञानाचारादिकु सु आचार्यहं तणउ धम्मं । ‘विणयया’
विनयभावु, द्वादशांगपाठशिक्षा सु उपाध्याय तणउ धम्मं । ‘सहायत्तं’ धम्मं सांनिध्यकरण, सु साधु
तणउ धम्मं । ए पांच हेतु कारण, तीहं करी पांचही अहंतादिकहं रहइं नमस्कार प्रणामु ‘करेमि’ करउं ।

§16) नमस्कारपाठ विपइ इहलोक परलोक फलसूचक दृष्टांत लिखियउं ।

15 इहलोयंमि तिदंठी सादिव्यं माउलिंगणमेव ।

परलोय चंदपिंगलु हुंडियजकसो य दिहंता ॥

[४६]

त्रिदंठी परियाजकु तेह संबंघित शिवनामु श्रावकपुत्रु त्रिदंठी । ‘सादिव्यं’ श्रावकपुत्रिया रहइं
देवता सांनिध्यसि सर्पस्थानि पुष्पमालाभन्तु सादिव्यु । मातुलिंगवनु कीजत्ता नउं आरामु तिहं उ
गयउ श्रावकु सु मातुलिंगवनि करी सूचविउ । ए त्रिदि इहलोकफल विपइ नमस्कार तणा दृष्टांत ।
20 चंदपिंगलु चौरु हुंडिकु यस्तु ए वि परलोकफल विपइ नमस्कार तणा दृष्टांत । पुलिंदियुगल कथानकइतउ
इहं नउं विशेषु स्वरूपु जाणियउं ।

§17) स्थापनाचार्य स्थापनानंतरु चैत्यवंदना कीजइ । स पुणि चैत्यवंदना त्रिविध हुयइ । ‘जपम्या
मथ्यमा उत्तृष्टा च ।’ तथा च भणितं—

नमस्कारेण जहन्ता दंडगपुइ जुगल मज्झिमा नेया ।

संपुज्जा उक्कोसा विहिणा सलु वंदणा तिविहा ॥

[४७]

25 हाय जोडी मायइ चढानी शिरोरत्नाममाधु । अयथा पंचांगप्रणामु सु धीतरण एहं कीजइ म
जघन्य चैत्यवंदना । ‘दंडगपुइजुगल ति’—‘अरहंत चेटयाणं’ इत्यादि दंडकु करी काठमग्गु, स्तुति
‘जयवीरराये’त्यादिस्वरूपु दंडगस्तुतिजुगलु कहियइ । एतलइ मध्यम चैत्यवंदना कहियइ । शत्रुमत्य स्तपन
‘जयवीरराये’त्यादि कहियइ स पुणि मध्यम चैत्यवंदना । ‘संपुज्जा उक्कोसिति’—पंच शत्रुमत्य चैत्यवंदना
30 अयथा द्विशत्रुस्व चैत्यवंदना वत्तृष्टा चैत्यवंदना कहियइ ।

वंदंतो सम्मं चेटयाइं मुहत्ताणपगरिसं रुहइ ।

तत्तो य कम्मनासं पणट्टरुम्मो य निव्वाणं ॥

[४८]

मिच्छद्दंसणमहणं सम्मद्दंसणविसोहीकरणं च ।
 चियवंदणाइ विहिणा पन्नत्तं वीयराएहिं ॥ [४९]
 वंदणाअत्थमनाऊण जइवि तं कुणइ तहवि न वि सम्मं ।
 सम्मं करणाभावे न होइ कम्माण निज्जरणं ॥ [५०]
 सम्मदिद्विस्साज्जंसवज्जिणो सुत्तभणियविहिणाओ ।
 उवउत्तस्स य धणियं सम्मं करणं न सेसाणं ॥ [५१]
 पयं पएणं परिसंठवंतो पयत्थमच्चत्थमणुस्सरंतो ।
 संवेपनिव्वेयरसं फुसंतो चियवंदणं इय विहिणा करिज्जा ॥ [५२]

§18) ईहां दिनकृत्यविवरण लिखीसिइ । इसइ अर्थि प्रतिज्ञा तिहिं हूंतइ 'परं इरियावहियाए अपडिकंताए न कप्पइ किंचि चेइयवंदण-सज्जायाई।' इसा आगमवचनइतउ पहिलउं इरियावही पडिकमि-10 यइ । यथा 'इच्छामी'त्यादि भणी, 'रत्तासमणु' एकु देई 'इच्छाकारेण संदिसइ भगवन् इरियावहियं पडिकमामि ।' पाळइ गुरि 'पडिकमइ' इसइ कहियइ हूंतइ, 'इत्थं' इसउं, भणी करी, 'इच्छामि पडिकमिउं' इत्यादि पडियइ ।

§19) तिणि कारणि पहिलउं इरियावही सूत्र तणउ अर्थु लिखियइ ।

(२) इच्छामि पडिकमिउं १ । इरियावहीयाए २ । विराहणाए ३ । 15

पहिली संपदा । ईर्यापधु भणियइ मार्गु, तिहां ज हुयइ स ईर्यापथिकी विराधना जीवयाथा । अथवा ईर्यापधु साधु तणउ आचारु । तथा च भणितं-

ईर्यापथो ध्यानमौनादिकं साधुव्रतं ।

तिहां अतीचारकरणीरूप विराधना । तेइ हूंतउ पडिकमिया निवर्त्तिवा 'इच्छामि' वांछउं । किसइ हूंतइ विराधना हुयइ ? इत्याह- 20

(३) गमणागमणे ४ ।

बीजी संपदा । गमनु अनइ आगमनु गमनागमनु तिणि हूंतइ । गमनागमनि किसी परि विराधना ? इत्याह-

(४) पाणाकमणे ५ । वीचकमणे ६ । हरियकमणे ७ ।

एतलइ बीजी संपदा । प्राण भणियइ-वे इंद्रिय त्रे इंद्रिय चचरिंद्रिय जीव, तीहं नइ आक्रमणि 25 संपट्टनि हूंतइ । तथा बीज नइ आक्रमणि हरिय नइ आक्रमणि इहं विहुं आलापकइ करी बीजहं रइइ हरियहं रइइ सजीवपणउं कहिउं ।

(५) ओसा उत्तिग पणाग दग मटी मक्कडा संताणा संक्रमणे ८ ।

चउथी संपदा । 'ओसाउ' ग्रेहु पइ नउं महणु सूक्ष्म ही अफ्काय रइइ रक्षार्थु, 'उत्तिग' भूमि मादि मंडलाकार विवरकारक गर्दमाकार जीव, अथवा कीटिकानगरं । पनक पंचवर्णाकूलि, 'दगमृत्तिका' 30 अब्यापारममि चीखिळु कहियइ अथवा दरु अपफ्काउ, मृत्तिका पृथिवीकाउ । मर्कटसंतान कोलिका जालक । तउ पाळइ ओसादिकहं सगदी तणइ संक्रमणि हूंतइ । किसउं पणउं व्हियइ ।

(६) जे मे जीवा विराहिया ९ ।

एतलइ पांचमी संपदा ।

§ 20) जि के जीव 'विराहिया' मईं दुहेला कीधा ति पुणि जीव कउणि ?

(७) एणेंदिया १०। वेइंदिया ११। तेइंदिया १२। चउरेंदिया १३। पंचेंदिया १४।

एतलइ छही संपदा । एकु फरसनरूपुं जीहं रहइं हुयइ ति एणेंद्रिय, यथा पृथिवीकाय, अष्काय, तेउकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय । तत्र पृथिवीकाय यथा खडी, घाहुडी, फिटिकडी, पाघरी, तूरी, अरणेटउ, पाहणु, सीधु, सूंचलु, हरियालु, हींगलो, माटी, परवालउं, अनेरुं जुं कांइ खाणि माहि ऊपजइ सु पुढविकाउ । तथा हिउ, फरा, ऊसु, पाणिउ, धूरि, धनोदधि, अनेरुं जु को जलभेदु सु अष्काउ । तथा आगि, बीज, उल्का, अंगार, मुर्मुंरु, ज्वाला, अनेरुं जु को अग्निभेदु सु तेउकाउ । तथा गुंजाशहु करतउ जु वाइ सु गुंजावातु, भूमि ओकली करतउ जु वाइ सु उल्कलिवातु, भूतोलिउ मंडलाकारु जु वाइ सु मंडलिकावातु, शिलारूपुं जु सु घनवातु, सूक्ष्मरूपुं जु सु तनुवातु, अनेरुं जु को वातभेदु सु वाउकाउ । तथा साधारण वनस्पति अनंत फायभेद प्रत्येक वनस्पति अपर सर्व वनस्पतिभेद ।

§ 21) तथा फरसन-रसनारूप वि इंद्रिय जीहं रहइं हुयइं ति वेइंद्रिय । यथा कृमि, गंडोला, तंबोलिया, गाडर, यालउ, पूंयरा, शंख, कपर्देक, जलो प्रमुख । फरसन रसना प्राणरूप त्रिन्दि इंद्रिय जीहं रहइं हुयइं ति वेइंद्रिय यथा-कीडी, मंकोडी, कुंधुया, गोगीडा, जू, जऊया, ऊदेही, पांचुड, मांकुण एवमादि । तथा फरसन रसना प्राण चक्षुर्लक्षण चत्तारि इंद्रिय जीहं रहइं हुयइं ति चउरेंद्रिय, यथा-माखी, धींछी, पतंग, तीढ, भ्रमर प्रमुख । फरसन रसना प्राण चक्षु श्रवणलक्षण पांच इंद्रिय जीहं रहइं हुयइं ति पंचेंद्रिय, यथा-देव, माणुस, नारकी, तिर्यंच, जलचर मत्स्यादिक, थलचर गोमहिषी सिंह व्याघ्रादिक, खचर हंस सारस शुक्र काक वग ढीक चटकप्रमुख ।

§ 22) अथ विराधनाभेद लिखियइं-

(८) अभिहया १५, वत्तिया १६, लेसिया १७, संधाहया १८, संधट्टिया १९,

परियाविया २०, किलामिया २१, उइविया २२, ठाणाओ ठाणं संकामिया २३, जीवियाओ ववरोविया २४, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं २५ ।

एतलइ सातमी संपदा । अभिसंनुदा आपता हुंता पाइ करी हणिया, 'अभिहया' । अथवा ऊपाडी करी लांखिया 'अभिहया' । 'वत्तिया' पुंनि कीधा, अथया धूलि ओटहिया । 'लेसिया' भूमि भित्ति धंभादिकहं लगाडिया अथया थोडउं सउं भीडिया । 'संधाहया' परस्पर सरीरे करी पिंढ कीधा । 'संधट्टिया' थोडउं सउं फरसिया । 'परियाविया' घणउं दूहविया । 'किलामिया' गिलानि पमाडिया अथया जीवियसेसु पमाडिया । 'उइविया' व्रसाडिया । 'ठाणाओ ठाणं संकामिया' एक धानऊं हुंता बीउइ धानि संक्रामिया । 'जीवियाओ ववरोविया' मिटोल गारिया । 'तस्स मिच्छा मि दुक्कडं' 'अभिहया' इत्यादि प्रकारु माहरउं दुष्कुरु मिच्छा विफलु हुयउ ।

§ 23) मिच्छा मि दुक्कड पद नउ अर्थुं सिद्धांत माहि कहिउ । यथा-

मि चि मिउमह्वचे छ चि य दोमाण छापणे होइ ।

मि चि य मेराइ ठिओ दु चि दुगंछामि अप्पाणं ॥

[५३]

क चि कडं मे पावं ढ चि य डेवेमि तं उवनामणं ।

एसो मिच्छादुक्कड पपक्खरत्तो समासेणं ॥

[५४]

§ 24) अत्र प्रस्तावइतत् मिथ्यादुष्कृतपदसंख्या लिखियइ ।

देवा अडनउयसयं १९८, चउदस नेरइय १४, तिरिय अडयाला ४८ ।

तिन्निसयाइं तिउत्तर भेया पुण सच्च मणुयाणं ३०३ ॥ [५५]

परमाहम्मिय पनरस १५, तिन्नि य किच्चिसिय इ, जंभिया १० य दस ।

लोगंतिया य नवहा ९, दस भवणा १०, सोल वंतरिया १६ ॥ [५६] 6

चरथिर जोइसिया दस १०, वारस कप्पा १२, अणुत्तरा पंच ५ ।

नव गेविजा ९, एए अपज्जत्त-पज्जत्तओ दुविहा ॥ [५७]

इय सत्त वि नेरइया ७, विगला ३, एगिंदिया २१, जलयलया ।

खय-उर-भूय-परिसप्पा गभय संमुच्छ अडयाला ४८ ॥ [५८]

छप्पवंतरदीवा ५६, अकम्मभू तीस ३०, इयर पन्नरस १५ ।

गन्धय दुहा वि मुच्छिय इगजुयसय १०१, ति जुय तिन्निसया ३०३ ॥ [५९] 10

अभिहयावत्तिय-लेसियपमुहेहिं एएहिं ते गुणिजंति ।

छप्पन्नतया तीसा मिच्छादुक्कडपया' हुंति ॥ [६०]

§ 25) देवजातिभेद १९८ । यथा 'परमाहम्मिय पनरसे' ति—परमाधार्मिक देवहं तथा पनर
भेद, यथा—अंवे १ अंबरीखी २, श्याम ३, शवल ४, रौर ५, उपरौर ६, फाल ७, महाकाल ८, 15
असिपत्र ९, धणु १०, कुंभ ११, वालुक १२, चेतणी १३, खरखर १४, महाघोष १५ । तत्र जु
परमाधार्मिक देवु नारकहं रहइं निदणइ पाडइ थांधइ अंबतरुतलि ले मेत्तइ सु अंबु इसी परि कहियइ ।
जु निदहं नारकहं रहइं रंहंरंहं करी अंबरीखु भाठु तिणि पचइ पचनायोग्य करइ सु अंबरीखी
कहियइ २ । जु रज्जुहस्तप्रहारादिकहं करी शातन-पातनादिक कम्मं नारकहं रहइं करइ वर्णि करी श्यामु
सु श्यामु ३ । जु अंब-यशा-हृदय-कालेयकादिक अवयव नारकहं तथा शरीर हुंता ऊपाडइ वर्णि करी 20
शवलु फावरठ तिणि कारणि सु शवलु कहियइ ४ । जु शक्ति-कुंतादिकहं नारकी पोवइ' सु रौरध्यानता
करी रौरु कहियइ ५ । जु तीही जि तणं आंग भोजइ' सु अतिरौरध्यानता करी उपरौरु कहियइ ६ ।
जु कुंडी कुंमी माहि घाती नारकी पचइ वर्णि करी कालउ सु कालु कहियइ ७ । जु नारकी तगा नान्हा
मांसमंड करी रसाइ वर्णि करी महाकालउ सु महाकालु कहियइ ८ । असि रइगु तेद तणइ आकारि
पत्र तीहं करी सहितु यनु जु विडुगीं करी तेद हेठइ नारकी घाती प्रयातादि यसि पाडी करी नारकी 25
रंहंरंहं जु करइ सु असिपत्रु कहियइ ९ । धणुइ हुंता मेत्तिहां छं जि अर्द्धचंद्रादिक बाण तीहं करी
नारकी तणं कर्णादिकहं अवयवहं रहइं जु च्छेदन-भेदनादिक भाव करइ सु धणु कहियइ १० । जु
कुंमादिकहं माहि घाती नारकी रहइं पचइ सु कुंमु कहियइ ११ । जु कदंय कुमुमाकार अथवा यक्काकार
यैत्रिय वालुजातत्र विडुगीं करी चणकहं जिम तटकटनां हुंता नारकी रहइं तेद माहि भूंजइ सु वालुक
कहियइ १२ । जिमउं गालिउं त्रिपउं' तिमी पिरु, जिमउं गालिउं प्रायउं निमउं लोटी तीहं तणी नदी 30
विडुगीं करी जु तेद माहि नारकी फलकलना हुंता परुइं परि वारइ निमि कारणि सु चेतणी कहियइ १३ ।
अथवा परुयउं तणु जेद तणउं स चेतणी नदी तेद रहइं जु वरइ सु चेतणी १३ । जु पन्नरसवाणु
शास्त्रनीयुं विडुगीं करी तेद ऊपरि नारकी मूली करी खरखर आराठि करना आकर्षउं सु खरखर

[24] 1 B. Bh. विणुत्तर- [25] 1 Bh. केय । 2 B. repeats मंत्र । 3 Bh. has originally the same reading or दिव, but corrected as वरइ ।

कहियइ १४ । जु भयमीत नारक पलायमान हुंता पशु जिम याडइ घाती महाघोषु करतउ हूंतउ निहंघइ सु महाघोषु कहियइ । इति पनरइ परमाघार्मिक भेद यमलोकपाल तथा जिसा पुत्र हुयइ तिसा छई एक पत्योपसु आयूपउं इहं रहइ छइ । समयायांगवृत्ति हूंतउ एउ अर्थु लिखियउ^१ ।

§ 26) 'तिन्नि किन्त्रिसिया' किलियपिक नीचप्राय देव ति पुणि तीर्यकर गणधरहं त्रिहुं थानकहं^१ भणिया । यथा-

तिन्नि पलियातिमारा तेरससारा य किन्त्रिसा भणिया ।

सोहम्मीसाण सणकुमार-लंतस्य दिट्ठाओ ॥

[६१]

तत्र सौधमेशान देरलोकहं हेठइ जि किलियपिक ति त्रिपत्थोरपमायुष्क, जि सनत्थुमार हेठइ ति त्रिसागरोपमायुष्क, जि लंतक हेठइ ति तेरह सागरोपमायुष्क, इति त्रिधि किलियपिकदेव ।

10 § 27) जि सौधमैत्रादेशि जिनजन्मादि महोत्सवसमइ पुप्पवृष्टि सुवर्ण-रत्नादिवृष्टि महिमा करइं ति धनद-सेवक-जुंभक-देवभेद दश ।

§ 28) दीक्षासमइ जिन रहइं जि संबोधइं ति लोकांतिक देव, ति पुणि नरविध । यथा -

सारस्सय १ माइचा २ विन्ही ३ वरुणा ४ य अगितोया ५ य ।

तुसिया ६ अब्बावाहा ७ अगिवा ८ चैव रिहा य ९ ॥

[६२]

15 सारस्वत १, आदित्य २, वृष्णि ३, वरुण ४, अमितोय ५, तुपित ६, अब्बावाध ७, आग्नेय ८, रिष्ट ९, इति नवधा लोकांतिक देव ।

पढमजुयलंमि सत्तउ सयाणि विरंमि चउदस सहस्सा ।

तइए सत्त सहस्सा नव चैव सयाणि सेसेसु ॥

[६३]

20 सारस्वत-आदित्य रूपि प्रथमयुगलि सातसइं लोकांतिक देव विमान छइं । वृष्णि-वरुणरूपि वीजइं युगलि चउदससहस्स विमान छइं । त्रीजइ अमितोय-सुपितरूपि युगलि सातसहस्स विमान छइं । अब्बावाध आग्नेय-रिष्टरूपहं सेसइं निरुयहं नवसइं छइं ।

§ 29) तथा 'दसभवणे' ति - भवनपति दसे भेदे यथा-

असुरा नागा विञ्जु सुवन्न अग्गी य वाय थणिया य ।

उदही दीव दिसा वि य दस भेया भवणवासीणं ॥

[६४]

25 असुरकुमार १, नागकुमार २, विञ्जुकुमार ३, सुवर्णकुमार ४, अग्गिकुमार ५, वातकुमार ६, स्तनितकुमार ७, उदधिकुमार ८, द्वीपकुमार ९, विकुमार १०, इति दसविध भवनपति नामानि ।

§ 30) 'सोलवंतरिये' ति - सोल व्ंतरभेद यथा-

पिसाय १ भूया २ जक्खा ३ य रक्खसा ४ किंनरा ५ य किंपुरिसा ६ ।

महोरगा ७ य गंधव्वा ८ अट्टविहा वाणमंतरिया ॥

[६५]

30 अणपन्निय १ पणपन्निय २ इसिनाइय ३ भूयवाहए ४ चैव ।

कंदिय ५ तह महकंदिय ६ कौदंडी ७ चैव पणगे य ८ ॥

[६६]

इति सोल व्ंतर भेद^१ ।

§24) 4 Bh. लिखित । §26) 1 Bh. मानक । §27) 1 Bh. has a later addition विवेक before जुंभक । §30) 1 B. omits the sentence.

§ 31) 'चरथिर जोइसिया दसे'ति । चंद्र-सूर्य-ग्रह-नक्षत्र-सारकलक्षण पांच जोइसी देव तणा भेद । मनुष्यलोक माहि चर मनुष्यलोक बाहिरि थिर पांच भेद । सवइ मिलिया दस जोइसी देव तणा भेद ।

§ 32) 'वारस कपे' ति-वारह देवलोक तणा वारह देवभेद । 'अणुत्तरा पंचे' ति विजय, वेजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थसिद्धलक्षण पांच अनुत्तर विमान देव । 'नव गोविजे' ति-प्रैवेयक नव, यथा-हिट्टिम-हिट्टिम पहिल्ल प्रैवेयक रहइं सुदर्शतु नामु १ । हिट्टिम-मज्झिम वीजा प्रैवेयक रहइं सुप्रसुद्धु नामु २ । हिट्टिम-उवरिम त्रीजा प्रैवेयक रहइं मणोरसु नामु ३ । मज्झिम हिट्टिम चउथा प्रैवेयक रहइं सर्वतोमद्दु नामु ४ । मज्झिम-मज्झिम पांचमा प्रैवेयक रहइं सुविसालु नामु ५ । मज्झिम-उवरिम छट्ठा प्रैवेयक रहइं सुमनसु नामु ६ । उवरिम-हिट्टिम सातमा प्रैवेयक रहइं सौमनसु नामु ७ । उवरिम-मज्झिम आठमा प्रैवेयक रहइं प्रीतिकरु नामु ८ । उवरिम-उवरिम नवमा प्रैवेयक रहइं आवित्सु नामु ९ । तिहां जि देव ति नव प्रैवेयक देव । धुर लगी सवइ मिलिया नव नवति देव तणा भेद हुयइं । 10

§ 33) तथा जीवहं रहइं छ पर्याप्ति हुयइं यथा-आहारपज्जत्ती १, सरीरपज्जत्ती २, इंद्रियपज्जत्ती ३, आणपाणपज्जत्ती ४, भासापज्जत्ती ५, मणपज्जत्ती ६ । तत्र आहारग्रहणशक्ति आहारपर्याप्ति १ । सरीररूपि करी आहारपरिणामन शक्ति सरीरपर्याप्ति २ । इंद्रियरूपि सरीरपरिणामनशक्ति इंद्रियपर्याप्ति ३ । आन-पानवर्गणा पुद्गलग्रहण आनपान भणियइं । ऊसास नीसास तीहं नइ रूपि आनपानवर्गणा पुद्गलपरिणामन व्युत्सृजन लक्षण आनपानपर्याप्ति ४ । भापावर्गणा पुद्गलग्रहण भापारूपि परिणामन व्युत्सृजनलक्षण 16 भापापर्याप्ति ५ । मनोवर्गणा पुद्गलग्रहण मनोरूपि परिणामन व्युत्सृजनलक्षण मनःपर्याप्ति ६ । तीहं माह चत्तारि पर्याप्ति पहिली एकेंद्रियजीवहं रहइं हुयइं । विकलेंद्रिय अनइ असत्री रहइं पांच पर्याप्ति हुयइं । सत्री रहइं छ पर्याप्ति हुयइं । तथा च भणितं-

आहारसरीरिंद्रिय पज्जत्ती आणपाण भास मणे ।

चत्तारि पंच छप्पि य एगिंदिय विगलसन्नीणं ॥

[६७] 20

इणि कारणि जि जीव पर्याप्ति पूरी करइं ति पर्याप्त कहियइं । जि पर्याप्ति पूरी करइं नहीं अथवा करिसिइं ति अपर्याप्त कहियइं । इणि कारणि भणितं ति पर्याप्तापर्याप्तभेदद्वय करी गणिया हूंत अहनऊय सउ अट्टाणऊ सउ देवभेद हुयइं ।

§ 34) चऊद नेरइय सात नरक । यथा-घर्मा, वंसा, शेला, अंजना, रिष्टा, मघा, माघवती नामक तीहं तणा सातइ नारकी पर्याप्तापर्याप्त भेदद्वय करी चऊद नारकीभेद । 25

§ 35) 'तिरिय अब्याला' इति-तिर्य्य अट्टेतालीस भेद । यथा विकलेंद्रिय-बेइंद्रिय १ त्रेइंद्रिय २ चउरिंद्रिय ३ भेदइतउ त्रिविध । पृथिवीकाय ४, अष्काउ ५, तेउकाउ ६, चाउकाउ ७, अनंतघन-स्पतिकाउ ८, सूक्ष्मचादर भेदद्वय करी १३, प्रत्येक घनस्पतिकाउ १४, जलचर १५, थलचर १६, खचर १७, उरपरिसर्प १८, मुजपरिसर्प १९, गर्भज-संमूर्च्छिम भेदद्वय करी जलचरादिक पांचइ दसभेद हुयइं इति चउवीसभेद २४, ति सवइ पर्याप्तापर्याप्त भेदद्वय करी तिर्य्य अट्टेतालीस भेद ४८ । 30

§ 36) 'तिन्निसया य तित्तरभेया पुण सव्वमणुयाणमि'ति मनुष्यभेद ३०३ । यथा-अंतरद्वीप-मनुष्य छप्पन्न भेद, यथा-क्षुद्धहिमवंत पर्वत नी दाढ पूर्वसमुद्र माहि अनइ पश्चिमसमुद्र माहि कोणे विस्तरी छइं । तिहां सात सात अंतरद्वीप छइं । एयंकारइ अट्टावीस अंतरद्वीप 1 क्षुद्धहिमवंति छइं । इसी

. §33) I.B. has dropped the line betweenव्युत्सृजनलक्षण..... । §36) 1 Bll. omits अंतर ।

हिं जि परि अट्टावीस अंतरद्वीप शिररी पर्वति पुणि छंदं । ति सनइ मिलिया हुंता ५६ अंतरद्वीप हुयइ । तिहां युगलिया मनुष्यभेद ५६ हूया । अकर्मभूमि ग्रीस, यथा-जंबूद्वीप माहि छ, धातुकी रंड माहि वारह, पुष्परवरद्विपार्द्धे माहि वारह, एवंकारइ ग्रीस अकर्मभूमि । तिहां युगलियां मनुष्यभेद ग्रीस । कर्मभूमि १५, यथा-पांच भरत, पांच ऐरयत, पांच मद्राविदेह तिहां पनर मनुष्यभेद । ५६, ३०, १५ सनइ मिलिया १०१ ति पर्याप्तापर्याप्त समूर्च्छितम भेदत्रय करी गणिया हूता त्रिन्हिसई त्रिदोत्तर मनुष्यभेद हुयइ ।

§ 37) तउ पाछइ अट्टाणऊसउ देव भेद । चऊद नारकी भेद, अट्टेतालीस तिर्यंच भेद, त्रिन्हिसई त्रिदोत्तर मनुष्यभेद । सयइ मिलिया पाचसइ तिसइ ति सगलाई जीवभेद । ससार माहि फिरतइ जीवि अभिघातादिकहं करी विराधिया सभरइ । इणि कारणि भणिउं अभिघातादिकहं दसह पदहं १० करी गुणिया हुंता तिसोत्तर मिध्यादुष्कृतपद हुयइ ।

§ 38) इसी परि जु मिथ्या दुष्कृतपद सूचवतउ इरियावही पडिक्कमइ सु तेतीहीं जि वार केवलज्ञानु ऊपाडइ । यथा-

गच्छि एकि लघु क्षुल्कु एकु वरसालइ वाहिरि^१ वालकहं माहि बाहलइ त्रेपणउं पेट हेठइ दे अनइ तरिवा लागउ । महात्मा आविया, चेला तरता देखी करी^२ विठइ^३ । तेतलइ गुर आविया^४ । गुरे^५ कहिउं-‘महात्माउ^६ । चेला लहुलउ भोलउ भागइउ म चडयडावउ^७’ तेतीगार चेला परहंसिउ । गुरे भणिउ-‘म वच्छ^८ । उगउ रहि को काई नहीं कहइ^९’ । तउ चेलाउ घणेउरउं परहंसिउ । गलसरण भरिवा लागउ । गुरे माथइ हाथ दे^{१०} करी आपणवा आगइ कीधउ । बसति आविया । गुरे इरियावही थिर थिका^{११} आखरि आखरि अर्थु चीतवता हूता पडिक्कमी । गमणागमणउ आलोइउ^{१२} । तउ पाछइ वर्त्तिए पुणि आलोइउ । चेला आगइ गुरे कहिउ^{१३}-‘वच्छ^{१४} । इरियावही पडिक्कमता छप्पन्नसइ ग्रीसा मिथ्या २० दुष्कृत पद जाणी करी सबहीं जीव^{१५} रहइ मिच्छामि दुक्कु दीजइ ।’ तउ पाछइ चेलाउ गुरुवचन तणइ अनुसारि इरियावही नउ अर्थु चीतवतउ सगही जीवह रहइ मिच्छामि दुक्कु देयतउ इरियावही पडिक्कमतउ शुक्कध्यानाधिरोइइतउ केवलज्ञानु ऊपाडी^{१६} अनेक भविक लोक प्रतिबोधी करी सिद्धि गयउ ।

§ 39) तथा कालिकाचार्य पुणि इरियावही मात्र प्रतिकमणि मिथ्यादुष्कृत प्रदानि शुद्धा इसउं साभलियइ । तथा उपदेशमाला माहि पुणि भणिउं-

२५ पडिवज्जिण दोस नियए सम्मं च पायवडियाए ।

तो किर मिगावईए उप्पन्नं केवलं नाणं ॥

[६८]

तथा अनेरइ धानकि भणिउ-

नियदोसे गरहंती गुरुणीपाए सिरेण पणमंती ।

भवरूवं भावंती मिगावई केवलं पचा ॥

[६९]

३० § 40) इसी परि आलोई पडिक्कमी करी सुद्धचित्तु हुयउ हूतउ पुनरपि काउसग्ग पायच्छित्ति करी सुद्धिविशेषनिमित्तु इसउं पडइ-

§38) 1 L omits 2 L omits 3 Bh वडइ ति । P वडइ । 4 L आग्या । 5 Bh गुरि । 6 Bh अडयडावउ । L दडवडावउ P दडवडावउ । 7 B भनिता । 8 Bh देई । 9 P. पदा । 10 L आलोउ । P आलोउ । 11 L गुरि चेला आगइ कहिउ । 12 Bh J, P जीवई । 13 L. उतावादी ।

(९) तस्मुत्तरीकरणेणं २६, पायच्छित्तकरणेणं २७, विसोहीकरणेणं २८, विसल्लीकरणेणं २९, पावाणं कम्माणं ३०, निग्घायणट्ठाए ३१, ठामि काउसग्गं ३२। एतल्लइ आठमी संपदा । तेह आलोचित प्रतिक्रमित अतिचार रहइं उत्तरीकरणदि हेतु काउसग्ग 'ठामि' करउं इसी परि क्रियासंबंधु करेवउ ।

§41) अनुत्तरु अप्रधानु, उत्तरु प्रधानु, पाछइ अनुत्तरु हूंतउ उत्तरु कीजइ, उत्तरीकरणु 5 कहियइ । पुनरपि संस्कार वसइतउ सुद्धतरकरणु जेह अतिचार तणउं पूर्वहिं आलोचनादिक्क कीधउं, तीहिं जि रहइं वली सुद्धिविसेस करणनिमित्तु काउसग्गकरणु । सु पुणि उत्तरीकरणु पायच्छित्तकरणि करी हुयइ इत्याह—'पायच्छित्तकरणेणं' प्राइहिं वाहुल्लि करी चित्तु जीवु अथवा मनु सोधइ इणि कारणि प्रायश्चित्तु; अथवा पापु छेदइ इणि कारणि पायच्छित्तु । तेह करणि हेतु करी सु पुणि प्रायश्चित्तु । विमुद्धि करी हुयइ इत्याह—'विसोहीकरणेणं' विसोधनु विमुद्धि, अतिचारनिवर्त्तनि करी आत्मा रहइं 10 निर्मलता । तिणि हेतु करी तेऊ विसोधिकरणु विसल्लताकरणि हूंतइ हुयइ इणि कारणि भणइ 'विसल्ली-करणेणं' मायाशल्य, निदानशल्य, मिध्यादर्शनशल्यरूप त्रिन्हि शल्य तीहं करी रहित आत्मा तणउं करणु विसल्ली करणु तिणि हेतु करी । किसइ कारणि ? 'पावाणं कम्माणं निग्घायणट्ठाए' भव रहइं हेतु छइं पापकर्म, तीहं रहइं निर्घातननिमित्तु समुच्छेदनिमित्तु काउसग्ग कायव्यापारपरिहारु 'ठामि' करउं ।

* (१०) अन्नत्थ ऊससिएणं नीससिएणं खासिएणं छीएणं जंभाइएणं उड्डुएणं, 15 वाय-निसग्गेणं, भमलीए पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंग-संचालेहिं, सुहुमेहिं खेल-संचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठि-संचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउसग्गो । जाव अरिहंतानं भगवंतानं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं मोणेणं ज्ञाणेणं अप्पाणं चोसरामि ।

§42) किसउं सर्वथा ? नेत्याह—'अन्नत्थूससिएणं इच्चाइ' ऊससिउं सासगहणु, नीससिउं सास-20 मोचनु, कांसिउं खांसकरणु, क्षुतुं छीकरणु, जंमित्तु बगाइकरणु, उद्दारित्तु उड्डुकारकरणु, वायनिसग्गु अधोवातनिसरणु । ईहं हूंतइ अनेरइ व्यापारि करेवइ काउसग्गु । ऊसासादिक अशक्यपरिहारता करी मोकला संपातिम जीवरक्षा कारणि कासितादिक मुखि मुत्तयत्तिका हस्त्रप्रदानादि जयणा करी करेवा । अत्र 'आकारभमलिए पित्तमुच्छाए इच्चाइ' असंभावितु देहभ्रमणु भमलि । पित्तमूर्च्छां पित्त क्षोभइतउ थोडी मूर्च्छां तीहं नइ संभवि हूंतइ धइसिवउं । सहसा पतिनि हूंतइ संजम अनइ सरीर विहं रहइं 25 विराधना हुयइ । 'सुहुमेहिं इच्चाइ' । सूक्ष्म अंगसंचार रोमकंपादिक, सूक्ष्मतेलसंचाल धूकगिलनादिक, सूक्ष्मदृष्टिसंचार निमेषादिक । ईहं तउ अनेरइ व्यापारि करेवउ काउसग्गु । ए सउइ मोकला । 'एवमाइएहिं' ति । एवमादिकहं आकारहं अपपादहं करी । आदिशब्द इतउ अप्पि वीज उद्योत तणइ फूसणइ हूंतइ, प्रावरणप्रहणि पादधूंटी हूंतइ, पंचेंद्रियजीवि आगइ ऊतरतइ हूंतइ, तेह पहिलउं, आगइ गमनि हूंतइ, चोरसंभ्रमि आपणया रहइं, अथवा अनेरा रहइं सर्पहंकि हुयइ हूंतइ, पंचवीस 30 ऊमास तणइ अपूर्णहिं, नमस्कार तणइ अभगनिहिं, काउसग्गु पारताइ भंगु न हुयइ । इसउ अर्थु जाणिवउ । अभग्गु सर्वथा अरंहेतु । अविराधित्तु, थोडोइ' अविनपट्टु 'भे' माहरउ काउसग्गु 'हुज्ज' हुउ ।

§41) * Ms. have omitted this portion of the sūtra here, but they have cited it in § 75. §42) 1 Bh omits. 2. Bh. पुत्तमल्लनारिक । 3 Bh. adds व्ययः । 4 B. omits, retaining only—इ । 5 B. has (probably) long—इ and Bh.—इ । 6 Bh. —इ ।

केतलउ 'कालु' ? 'जावे' त्यादि । जेतलइ 'नमो अरहंताणं नमुकारेणं न पारेमि' जां 'नमो अरहंताणं' इसउं भणी 'न पारेमि' पारिजाउं नही । ताव किं इत्याह—तेतलउ कालु 'कायं' काउ देहु, 'ठाणेणं', ऊर्ध्वस्थानादि करी, 'भोणेणं' वचननिरोधि करी, 'ज्ञाणेणं' मनःसुप्रणिधानि करी, 'अप्याणं' आपणउ, 'बोसिरामि' बोसिरउं परिहरउं ।

5 §43) अथ इरियावही संपदापदादि' अवयव लिखियइं—

इच्छ १ गम २ पाण ३ ओसा ४ जे मे ५ एगिदि ६ अभिहया ७ तस्त ।

अडसंपय वत्तीसं एयाइं वच्चाण सहसयं ॥ [७०]

'वच्चाण य सहसयं' दउडसउ आरपर इरियावही इणि मति 'तस्सुत्तरी' त्यादि पाखइ आठ संपदा । वत्तीस पद जिम हुयइं तिम कहियइं—

10 चउ १ रेग २ तित्ति ३ पंचि ४ ग ५ पण ६ दस ७ तित्ति ८ त्य हुंति आलावा ।
इरियाए नायव्वा तस्सुत्तर एवमाइ विणा ॥ [७१]

संपदाक्षर प्रमाणु लिखियइं—

वीसं १ छ २ सोल ३ बावीस ४ अट्ट ५ इगवीस ६ इगुणवन्न ७ ड ८ ।

अडसंपय पयवन्ना इरियाए दिवढसयमाणे ॥ [७२]

15 अथ मूलमत्तु लिखियइं—मूलमतिहिं संपदापदादि अवयव पूर्वोक्त इ जि जाणिया ।

अथ अंतपद लिखियइं ।

पढमा विराहणाए गमणागमणंमि तह भवे वीया ।

हरियकमणे तइया, संकमणे तह चउत्थीया ॥ [७३]

जीया विराहिया पंचमी य पंचिदिया भवे छट्ठी ।

20 मिच्छामि दुकडं सच, अट्टमी ठामि उस्सग्गं ॥ [७४]

इणि मति 'ओसा' इत्यादि एणु पदु । 'तरस मिच्छा मि दुकडे' ए त्रिन्दि पद सातमी संपदा माहि गणियइं । 'तस्सुत्तरीकरणेणं' इत्यादि 'ठामि काउस्सग्गं' एती सीम आठमी संपदा । इणि मति आठही संपदा तणां पद कहियइं—

चउ १ रेग २ तित्ति ३ इग ४ पण ६ तेरस ७ दसग ८ हुंति आलावा ।

25 अट्टत्तीस पमाणा अडनउयसयं च वच्चाणं ॥ [७५]

अथ संपदाक्षरप्रमाणु लिखियइं—

वीसं १ छ २ सोल ३ बावीस ४ अट्ट ५ इगवीस ६ सच वच्चा ७ य ।

अट्टेतालीस ८ तहा अडवीसामाण अक्खरया ॥ [७६]

§44) अथ जाणाविवा कारणि प्रसवइत्तउ काउसग्ग तथा दोप लिखियइं । यथा—

30 घोडय १ लया २ य थंमे कुट्टे ३ माले ४ य सवरि ५ वहु ६ नियले ७ ।

लंउत्तर ८ थण ९ उट्ठी १० संजय ११ खलणे १२ य जायस १३ कविट्टे १४ ॥ [७७]

§43) 1 B. omits पद । 2 B. omits between गाममी चरग • आठमी संपदा (inclusive)

3 Bh. आठमीही ।

सीसोकंपिय १५ मूई १६ अंगुलिभमुहा १७ य वारुणी १८ पेहा १९ ।

एगूणवीस दोसा काउस्तसग्गस्स वज्जिजा ॥ [७८]

घोटक जिम विपमचरणता घोटकु १, वातचालित लता जिम कंपमानकायता लता २, धांमइ भीति ओठंभी करी रहणु थंभकुट्टु ३, ऊपरि माथउं लगाडी करी स्थानु मालु ४, शबरी पुलिंदी तेह जिम गूउन्न देसि हाथ दे करी स्थानु सनरी ५, वधू जिम माथउं नीचउं करी रहणु वधू ६, निगडित जिम पाद वे मेली करी अथवा मोकला करी रहणु निगडु ७, नामि ऊपरि गोढा हेठइ प्रलंबमानु चोलपट्टउ करी स्थानु लंबुत्तरु ८, दसादिरक्षार्थुं अथवा अज्ञानवसि हियउं आच्छादी करी स्थानु थणु ९, शरुट ऊधि जिम अंगुठा अथवा पान्ही मेली करी स्थानु सगडुडी १०, साध्वी जिम प्रावरी करी स्थानु संजता ११, खलणि कडियाली तेह जिम रजोहरणु आगइ करी रहणु खलणि १२, वायस जिम चक्षुगोलउं चलावतउ हंतउ रहइ वायसु १३, कविट्टु कउट्टु तेह जिम परिवानु पिंडु करी स्थानु १० कविट्टु १४, भूताधिष्ठित जिम माथउं कंपावतउ रहइ सीसोकंपियु १५, मूक जिम हू हू शब्दु करतउ रहइ मूकु १६, आलापक गणिग्या निमित्तु आंगुलि अथवा भोपणि चलावतउ रहइ अंगुलिभमुहा १७, वारुणी सुरा तेह जिम बुडवुडा रबु करइ वारुणी १८ वानर जिम लोगस्सुज्जोयगरे चीतवतउ होठमुट चलावइ पेहा १९, ए ओगुणीस दोस काउसग्ग तथा जाणिग्या । जाणी करी वरिंवा ।

§45) काउसग्ग माहि 'चंदेसुनिम्मलयरा' सीम 'लोगस्सुज्जोयगरे' चीतवेवी, पारिइ हंतइ समस्तइ १५ 'लोगस्सुज्जोयगरे' भणेनी । इसी परि इरियावही पडिक्की करी गोडिहिलियां थाई महांत सवेग निर्वेद रस संसूचक नमस्कार करी । तउ पाठइ

अनुभंतर अंगुलि कीसागारेहिं दोहिं हत्येहिं ।

पिट्ठोवरि कुप्परसंठिएहिं तह जोगमुइ ति ॥ [७९]

§46) इसी जोगमुद्रा वर्त्तमानु प्रणिपातदब्बु पढइ । सु पुणि पढु-

(११) नमोत्थुणं, अरहंताणं, भगवंताणं । सं० १ ।

नमस्कारु हुउ, 'णं' वाक्यालंकारि अर्थि, यवा-

नम इति एस पणामो अत्थु चिय मे भवउ नमुवारो ।

विंदुसहिओ णयारो वयणस्स विभूत्तणे भणिओ ॥ [८०]

वीहं रहइ नमस्कारु ? 'अरहंताणं', 'अरिहंताणं', 'अरुहंताणं' इति त्रिहु परि पाठु । 25

अरिहंति चंदण नमंगणाइं अरहंति पूयसकारं ।

सिद्धिममणं च अरहा अरहंता तेण युचंति ॥ [८१]

इसा वचनइतउ देउदेउदइत पंदण नमस्करण सत्कारपूजे अरहइ अथवा सिद्धिममणु अरहंतिणि कारणि अहंत वदियइं ।

अट्टविहं चिय कम्मं अरिभूयं होउ सत्त्व जीयाणं ।

तणम्म अरिहंता अरिहंता तेण युचंति ॥ [८२]

इसा वचनइतउ अष्टप्रकारु ज्ञानावस्थासिउ पम्मं भावरियु समानु दणइ तिणि कारणि अरिहंत वदियइं । 30

दग्धे वीजे यथाऽत्यन्तं न रोहति यवांकुरः ।

कर्मवीजे तथा दग्धे न रोहति भवांकुरः ॥

[८३]

इसा मणनइतउ वली संसारि नहीं रहइं नहीं ऊपजइं तिणि कारणि अरुहंत कहियइं । तीहं निमित्तु नमस्कारु ति पुणि किसा छइं ? भगवंत भगु छप भेदे । तथा हि-

5 ऐश्वर्यस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः श्रियः ।

✓ धर्मस्याथ प्रयत्नस्य पण्णां भग इतीह्नुता ॥

[८४]

सु समम ऐश्वर्यादिलक्षणु भगु जीहं रहइं हुयइ ति भगवंत ।

(१२) आइगराणं, तित्थगराणं, सचंसंबुद्धाणं । सं० २ ।

10 §47) आपणइ २ तीर्थं सर्वनीति हेतु धुतधर्म तणउ आदि करइं तिणि कारणि आइकर । तीर्थु चतुर्विधु संघु अथवा प्रथमु गणधरु करइं तिणि कारणि तीर्थकर । स्वयं आपहे परोपदेस पापइ संबुद्ध हाततत्व तिणि कारणि स्वयंसंबुद्ध । तीहं निमित्तु नमस्कारु ।

(१३) पुरुसोत्तमाणं पुरुससीहाणं । पुरुसचरपुंडरीयाणं । पुरुसचरगंधहृत्पीणं । सं० ३ ।

15 §48) पुरुष विशिष्टसत्त्व तीहं माहि तथा स्वभावता लगी असाधारण गांभीर्यादिरुण जोगइतउ उत्तम पुरुषोत्तम । कर्मशत्रु प्रति सूखा करी सिंह सरीसा इति पुरुषसिंह । पुरुषवर पुंडरीक सरीसा । जिम पुंडरीक पंक माहि ऊपजइ, जल माहि वाषइं, पंकु जलु वे मेल्ही करी ऊपरि रहइं, तिम अरुहंत पुणि कर्मरंकि ऊपना, भोगजलि वाषिया, वेऊ मेल्ही करी ऊपरि रहइं इति पुरुषवर पुंडरीक कहियइं । पुरुषवर गंधहृत् सरीसा, जिम गंधहृत् नइ गंधि धुद्र गज भाजइं ऊभ न रहइं तिम तीर्थकर-विहार-वातगंधि करी ईति दुर्भिक्षादिक उपद्रव गज भाजइं इति पुरुषवरगंधहृत् कहियइं । तीहं निमित्तु नमस्कारु ।

20 (१४) लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपईवाणं लोगपज्जोयगराणं । सं० ४ ।

25 §49) इहां लोकु भव्यसत्त्वु कहियइं । तेह माहि सकलकल्याणता करी जु छइ तथा भव्यसत्त्व-भायु तिणि करी उत्तम लोकोत्तम । लोग विशिष्ट भव्यसत्त्व तीहं रहइं सभ्यकत्वर्थाजदानि करी रागादि चोर उपद्रव रक्षणि करी, अलब्धलाभ लक्षणु योगु लब्धपरिपालन लक्षणु क्षेमु करइं इति लोकनाथ । लोकु सकल एकेंद्रियादि प्राणिवर्गु, तेह रहइं रक्षणादि करी हित इणि कारणि लोकहित । लोकु विशिष्ट-संहि प्राणिसमूहु, तेह रहइं उपदेस किरणइं करी मिध्यात्त तिमिर निवारण भावि करी लोकदीप । लोकु गणधरादिक, तेह रहइं प्रयोगु तत्वप्रकासु करइं इति लोकप्रद्योतकर । तीहं रहइं नमस्कारु ।

(१५) अभयदयाणं चक्रवुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं वोहिदयाणं । सं० ५ ।

30 §50) 'इहपरलोयादानमकम्हा आजीवमरणमसिलोग' इति सप्तविधु भउ कहियइ । तथा हि- स्वजाति तणउ भउ इहलोक भउ १, परजाति तणउ भउ परलोक भउ २, चोरराजादिकइं तणउ रिद्धिरण तणउ भउ अदानभउ ३, वीजपतनादि बसइतउ अचीतवीउ भउ अकस्माद्धउ ४, दारिद्रिउ इउं किम जीविसु इसउ भउ आजीविकाभउ ५, मरिवा तणउ भउ ६, अपकीर्त्ति तणउ भउ अश्लोक भउ ७, इति सप्तविधु भउ । तेह नउ अभावु दियइं इति 'अभयदय' । तत्त्वावधोधरूप हानट्टि दियइं इणि कारणि

'चक्रबुदय' । ज्ञानदर्शन चारित्ररूपु मार्गु दियइं तिणि कारणि 'मग्गदय' । रोगादि भयमीत प्राणि श्राणदायकत्वइतउ 'सरणदय' । सम्यक्त्वदायकत्वइतउ बोधिदय । तीहं निमित्तु नमस्कारु ।

(१६) धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर-
चाउरंतचक्रवट्टीणं । सं० ६ ।

§51) यथोचित गृहधर्मदायक इति 'धम्मदय' । धम्मदायकत्तु धम्मदेशना करी हुयइ इति 5 धर्मदेसग धर्मकयक । धर्मकरणइतउ, धर्मफलोपभोगइतउ, धर्मवर्द्धनइतउ, नायक ठाकुर इति 'धम्म नायग' । धर्मरथ भव्यरथ रहइं सम्यग् दर्शन प्रवर्त्तन पालन जोगइतउ सारथि 'धम्मसारही' तीहं सरीरसा इति 'धम्म सारहिणो' । तथा च भगवंति श्री महावीरि श्रेणिकुधारिणीपुत्रु मेघकुमारु साधुचरण-संघट्टयाथितु प्रभाति संजमु मूकी घरि जाइसु इसइ अमिप्राइ वांदिवा आविउ, पूर्वभव सुमेरुप्रभ हस्ति नाम कथनि संवोधी करी संजममार्गि थिरु कीधउ । धम्मसारथि भाव विपइ संक्षेपिहं मेघकुमार कथा । 10

धम्म जु वरु प्रधानु चउगति अंतकरणइतउ चाउरंतु जिसउं चक्रु हुयइ तिसउं चक्रु¹ तिणि वरुइं 'धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टिणो,' तीहं रहइं नमस्कारु ।

(१७) अप्पडिह्य चरनाणदंसणधराणं विपट्टछडमाणं । सं० ७ ।

§52) अप्रतिहतु अरुणलितु वरु प्रधानु विशेषबोधरुपु ज्ञानु सामान्यबोधरुपु दर्शनु धरउं इति अप्रतिहतवरुज्ञानदर्शनधर । व्यावृत्तु निर्वर्त्तितं छडु ज्ञानावरणीयादिकु कम्मं जीहं रहइं ति 'वियट्टछम्म', 16 तीहं निमित्तु नमस्कारु ।

(१८) जिणाणं जाचयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं चोहगाणं मुत्ताणं
मोयगाणं । सं० ८ ।

§53) रागादि जयकारिया जिण । अनेराइं रहइं रागादि जघ करावणहार जायग । भवसमुद्र पारगत तीणं 'तिन्न' । अनेराइं रहइं भयमिधु पारदायक तारक 'तारय' । ज्ञाततत्व 'बुद्ध' । तत्त्वावबोधक 20 बोधक' । कम्ममुक्त 'मुत्त' । कम्ममोचापक 'मोयग' तीहं रहइं नमस्कारु ।

(१९) सच्चवट्टणं सच्चदरिसीणं सिवमयलमरूयमणंतमक्खयमव्वाधाहम-
पुणरावित्तिं सिद्धिगइ नामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जियभयाणं । सं० ९ ।

§54) सर्ववस्तु सामान्य विशेषात्मकु हंतउ केवलज्ञान प्रयमसमइ विशेषरुपता करी जाणउं तिणि कारणि सर्वत कहियउं । तउ पाछइ वीत्रइ समइ सर्ववस्तु सामान्यात्मकता करी देरउं तिणि कारणि 25 सर्वदर्शी कहियउं ।

§55) अय जइ किमइ को कहइ - एक समइ जाणइ वीत्रइ समइ देरउइ - तउ ज्ञानसमइ देरउ नरीं, दर्शनसमइ जाणइ नही इमउ दोपु मरुत रहइं आवइ, इसउं न कहियूं । ज्ञानदर्शनलब्धि तथा मदा संभरइतउ सर्वगु सर्वदर्शी च मदा कहियइ । जीव तणउ इसु जु म्यभाउ छइ । जु ज्ञानोपयोगु अनइ दर्शनोपयोगु प्रतिनिं जि करी हुयउ । जिम लोक माहि पाचकादिकु विनाणी केतीदी वार पाकादिकु 30 कम्मं करइ, पुणि पाचकादि-लब्धि-सद्भावइतउ मदा पाचकु पाचकु इत्यादि प्रकारि बोलावियइ निम प्रति करी जाणू देणू हंतउ, मदा लब्धिमद्भावइतउ सर्वगु अनइ सर्वदर्शी मदा कहियइ । अथवा जेतीवार ममस्त वस्तु सामान्यधम्मं उपमरुंतु गीणु प्रतिभासइ तथा ममस्त वस्तु विशेषधम्मं मुच्चु

§51) 1 Bb. adds पारदायकाउरंतचक्रु । §53) 1 Bb. omits. §54) 1 निवम्-अरुणम्-अभयम्-
अणम्-अरुणम्-अरुणम्-अनुगमिंति ।

प्रतिभासइ 'तेतीवार सर्वज्ञु' कहियइ । जेतीवार विशेषधर्मुं गौणु प्रतिभासइ सामान्यधर्मुं मुख्यु प्रतिभासइ 'तेतीवार सर्वदर्शी' कहियइ । दोषु को न होयइं । ईहां बहु कहियउं छइ । पुणि विस्तरता कारणि लिखिउं नहीं । जु को विस्तरु जोयइ तिणि नंदिवृत्ति हूंतउ जाणिवउ । ईहां मुग्धजन तर्कवाडु परीछइं नहीं तेह कारणइतउ पुण लिखिउं नहीं । 'सिबु' निरुपद्रवु । अचलु चलनक्रियारहितु । अरजु रोगविवर्जितु । अन्तु अनंतज्ञातव्यवस्तु ज्ञानमंजोगइतउ । अक्षउ क्षयहेतु तणा अभावइतउ । अव्याघाषु अमूर्त्तभावइतउ^१ ।

§56) अपुनरावृत्ति आवृत्तिहेतु कर्म तणा अभावइतउ । जइ किमइ संसारहेतु कर्म तणइ अभाविहिं बौद्धमत जिम जिन रहइं संसारि अवतारु कहियइ तउ दोषु बोद्ध रहइं कहियइ सु जिन रहइं पुणि आवइ । तथा हि-

10 जइ किमइ अकारणु संसारु कहियइ तउ सदा संसारु जीव रहइं हुयइ । मोक्षु कदाचित् न हुयइं । संसारकारणाभाव रहइं मुक्कहं रहइं सदा भावइतउ । अथवा सदा संसाराभाषु मोक्षु जु जीव रहइं हुयइ, न पुणि कदापिहिं संसारु । सकारणही जि वस्तु रहइं कारणसंभवि भावु, कारण तणइ असंभवि अभाषु हुयइ । तथा च भणितं-

नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वाऽहेतोरन्याननपेणात् ।

15 अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वनिश्चयः^१ ॥

[८५]

इति संक्षेपिहिं अपुनरावृत्तिस्यापना । विस्तरइतउ ललितविस्तरावृत्ति हूंतउं अपुनरावृत्ति स्थापना प्रकारु जाणिवउ ।

'सिद्धिगइनामधेयं ठाणं' ति, । 'सिद्धिगइ' इसउं नामधेउ नासु जेह स्थान रहइं सु सिद्धिगतिनामधेउ स्थातु कहियइ । तिहां जि संग्राप्त पढता जिन राग-द्वेष मोह जयकारक । 'जियभय' पूर्वोक्त 20 सप्तविध भयरहित । तीहं निमित्तु नमस्कार ।

पुनरपि अंति नमो इसउं पदु सवहीं मध्यपदहं नमस्कारपदसंबंध निमित्तु फीचउं । यली यली नमस्कारपदभणनि कीजतेई पुनरुक्ति दोषु न हुयइं । स्तुतिसद्भावइतउ । तथा च भणितं-

सज्जाय-ज्ञाण-तवो-सहेसु उवएस-धुइ-पयाणेरु ।

संतमुणकिचणासुं न हूति पुणरुचदोसाथो ॥

[८६]

25 जिन रहइं जन्ममहोत्सवादि समइ गळु इसी परि स्तरइ इणि कारणि एउ शकस्तवु कहियइ इसउं नहीं, शकि एउ कीधउ इणि कारणि शकस्तवु कहियइ । श्रीगणवरदेवहं श्रीगीतमस्वामि श्रीमुधर्मम्यामि-भ्रष्टतिकहं कृतत्वइतउ 'मुचं गणइरइयं' इति वचनात् ।

§57) अथ प्रणिपात दंडक तणी नवसंपदादिपदावयव तथा अंतिम पद फहियइं ।

नम्यु^१ १ आइग २ पुरिमो ३ लोगो ४ मय ५ धम्म ६ अप्य ७ जिण ८ मच्च ९ ।

30 सकथय संपयाणं पढमुहिंज्ञाणपया नेया ॥

[८७]

भगवंताणं पढमा मयंसंबुद्धाणं तह भवे वीया ।

पुरिसरगंधइत्थीणं तइया चउत्थिया लोयपज्जोए ॥

[८८]

बोहिदयाणं पणगा चक्रवट्टीण तह भवे छट्ठी ।

सत्तमिया छउमाणं अट्टमिया मुक्कमोयाणं ॥

[८९]

जियभयार्णं चरमा तिन्नि य पूया पया य निदिट्ठा ।

जे अईया सिद्धाई संवरणे होइमा गाहा ॥

[९०]

अथ नवसंपदा पद तणउं प्रमाणु कहियइ-

दो १ तिन्नि २ चउर ३ पंच ४ य तह पंच ५ य पंच ६ दुन्नि ७ चउ ८ तिन्नि ९ ।

सकथए नवसंपय आलावा हुंति तिचीसं ॥

[९१]

अथ नवसंपदा वर्णप्रमाणु कहियइ-

चउदस १ सोल २ बत्तीसे ३ गुणतीसं ४ सत्तवीस ५ छत्तीस ६ ।

बावीस ७ ऽट्ठावीसं ८ अडवन ९ नवसंपया वन्ना ॥

[९२]

अथ सर्व वर्णप्रमाणु कहियइ-

सव्वेसिं संकलणे तह वन्ना हुंति दुसय वासट्ठा ।

भावजिणत्थय रूवे अहिगारे इत्थ पढमंमि ॥

[९३]

§58) अयानंतरु त्रिकालवर्ति जिनवंदनानिमित्तु पूर्वसूरिभिरचित ए गाह कहइ-

जे अईया सिद्धा जे भविस्संति अणागए काले ।

संपइ य वट्टमाणा सव्वे तिविहेण वंदांमि ॥ सुगमा ।

[९४]

न वरं भावि जिन अनइ अतीत जिन द्रव्यजिन कहियइं । वर्त्तमान जिन भावजिन जाणिया ।

अथ अतीत सिद्धजिन कहियइं । यथा-केवलज्ञानी १, निर्वाणी २, सागरु ३, महायश ४, विमल ५, सर्वानुभूति ६, सुतेजा इसउं बीजउं नामु केई एकि कहइं, श्रीधर ७, दत्तु ८, दामोदरु ९, सुतेजा १०, स्वामी ११, सुनिसुव्रतु १२, अनेरा शिवासी इसउं नामु कहइं, सुमति १३, 20 शिवगति १४, अस्तागु १५, निमीश्वरु १६, अनिलु १७, यशोधरु १८, कृतार्थु १९, जितेश्वरु २०, धर्माश्वरु इसउं बीजउं नामु, शुद्धमति २१, शिवकरु २२, खंदनु २३, संग्रति २४, इति अतीत चउवीस जिन 'जे अईया सिद्धा' इणि पदि करी जाणिया ।

§59) 'जे भविस्संति' जि भविष्य चउवीस जिन यथा-पद्मनाभु १, सूरदेवु २, सुपार्थ ३,

स्वयंप्रभु ४, सर्वानुभूति ५, देवश्रुतु ६, उदउ ७, पेढालु ८, पोदिल्ल ९, शतकीर्ति १०, सुव्रतु ११, 25 अमसु १२, निष्कपायु १३, निष्पुलाकु १४, निर्मसु १५, चित्रगुमु १६, समाधि १७, शंवरु १८, यशोधरु १९, विजउ २०, मल्लु २१, देवु २२, अर्नंतवीर्यु २३, भद्रकृतु २४ । इति भविष्य चउवीस जिन नाम । समवायांग माहि भावि जिन इसी परि दीसइं यथा-महापउमु १, सुरादेवु २, सुपार्थु ३, स्वयंप्रभु ४, सर्वानुभूति ५, देवगुमु ६, उदउ ७, पेढालपुतु ८, पुदिल्ल ९, भयदु १०, सुनिसुव्रतु ११, अमसु, १२, निष्कपायु १३, निष्पुलाकु १४, निर्मसु १५, 30 चित्रगुमु १६, समाधि १७, शंवरु १८, अनिवृत्ति १९, विवाडु २०, विमल २१, देवोपधाकु २२, अनंतु २३, विजउ २४ । तथा च भणितं-

महापउमे १ सुरादेवे २ सुपासे ३ य सयंपमे ४ ।

सव्वाणुभूइ अरिहा ५ देवुगुत्ते य हुक्खइ ६ ॥

[९५]

उदये ७ पेढालपुत्ते ८ य पुट्टिले ९ भयए १० इय ।
मुणिसुघए ११ य अरिहा सव्वभावविउ जिणे ॥ [९६]

अममे १२ निष्कसाये १३ य निष्पुलाए १४ य निम्ममे १५ ।
चित्तगुत्ते १६ समाहि १७ य आगामिस्सेण हुक्खइ ॥ [९७]

5 संवरे १८ अनियट्टि १९ य वित्राए २० विमले इय २१ ।
देवोवघाए २२ अरिहा अणंत २३ विजए २४ इय आगामिस्सेण हुक्खइ ॥ [९८]
इति आगामियइ कालि 'हुक्खइ' होइसइ इसउ अर्थु ।

§60) 'संपइ य वट्टमाणा' ऋपभादिक चउवीस जिन लोगस्सुजोयगरे माहि कहिया छइं ति
'संपइ य वट्टमाणा' जाणिया ।

10 §61) अथवा जव्वन्य पद वर्त्तमान जित यथा—

सीमंधरो जुगंधरु बाहु सुवाहु महाविदेहंमि ।
सुजाय सर्यपहो य रिसहाणण णंतविरिओ य ॥ [९९]

सुरप्पहो विसालो वज्जहर चंदाणणा जिणा ।
अवरे तह चंदवाहु भुयगा ईसर नेमिप्पहा य जिणा ॥ [१००]

15 सिरि वीससेण महभइ देव जसरिद्धि तित्थयरा ।
पढमाणुओगदिट्ठे वीसं वंदामि तित्थयरे ॥ [१०१]

प्रथमानुयोग नामि सिद्धांतु तेह माहि जघन्य पद वर्त्तमान वीस जिन नाम इसी परि
सांभलियइं । यथा श्रीसीमंधरस्वामि १, श्रीजुगंधरस्वामि २, श्रीबाहुस्वामि ३, श्रीसुनाहुस्वामि ४,
श्रीसुजातस्वामि ५, श्रीस्वर्यप्रसुस्वामि ६, श्रीऋपभाननस्वामि ७, श्रीअनतवीर्यस्वामि ८, श्रीसुर-
20 प्रभस्वामि ९, श्रीविशालस्वामि १०, श्रीवज्जधरस्वामि ११, श्रीचंद्राननस्वामि १२, श्रीचंद्रबाहु-
स्वामि १३, श्रीसुजातस्वामि १४, श्रीईश्वरस्वामि १५, श्रीनेमिप्रभस्वामि १६, श्रीविश्वसेनस्वामि १७,
श्रीमहाभद्रस्वामि १८, श्रीदेवस्वामि १९, श्रीयशऋद्धिस्वामि २० ।

§62) अथ प्रस्तावइतउ जिस्सी परि वीम जिन विहरमाण छइं तिसी परी लिपियइ । जंबूद्वीप
माहि पूर्व विदेह तणइ उत्तरार्द्धिं पूर्व लयणमसुद्र समीपि आठमउ पुट्टलावती नामि विजउ । तिहां
25 पुंडरीकिणी नामि नगरी । तिहां श्री सीमंधरस्वामि इमइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । १ । तथा अवरविदेह
माहि उत्तरार्द्धिं पश्चिम लयणमसुद्र समीपि पंचरीममउ वसु इसइ नामि विजउ तिहां विजया नामि नगरी
तिहां श्री जुगंधरस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । २ । पूर्वविदेह माहि दक्षिणार्द्धिं पूर्व लयणमसुद्र
समीपि नमउ वसु इसइ नामि विजउ तिहां सुसीमा नामि नगरी तिहां श्री घाहुस्वामि इमइ नामि
तीर्थंकरु विहरइ । ३ । अवरविदेह माहि दक्षिणार्द्धिं पश्चिम लयणमसुद्र समीपि पंचरीममउ नलिणावती
30 नामि विजउ तिहां अयोध्या नामि नगरी तिहां श्री सुवाहुस्वामि इमइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । ४ । तथा
घातुकी संड द्वीप माहि ति महाविदेह छइ । एकु पूर्व दिसि एकु पश्चिम दिसि । तउ पूर्व महाविदेह
तणइ पूर्व विदेहि उत्तरार्द्धिं काळोद समुद्र समीपि आठमउ पुट्टलावती नामि विजउ तिहां पुंडरीकिणी
नामि नगरी तिहां श्री सुजात इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । ५ । तथा अवरविदेह तणइ उत्तरार्द्धिं लवण-
समुद्र परपार समीपि पंचरीममउ वसु इमइ नामि विजउ तिहां विजया इमइ नामि नगरी तिहां

स्वयंप्रभु स्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । ६ । तथा पूर्वविदेह तणइ दक्षिणादिं कालोदसमुद्र समीपि नवमउ वत्सु इसइ नामि विजउ तिहां सुसीमा इसइ नामि नगरी तिहां श्री ऋप्रभाननस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । ७ । अवरविदेह तणइ दक्षिणादिं लवणसमुद्र परपार समीपि चउवीसमउ नलिणावती नामि विजउ तिहां अयोध्या नामि नगरी तिहां श्री अनंतवीर्यस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । ८ । तथा पश्चिम महाविदेह तणइ पूर्वविदेहि उत्तरादिं लवणसमुद्र परपार समीपि आठमउ पुष्कलावती नामि १० विजउ तिहां पुंडरीकिणी नामि नगरी तिहां श्री सूरप्रभस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । ९ । तथा अवरविदेह तणइ उत्तरादिं कालोदसमुद्र समीपि पंचवीसमउ वभु इसइ नामि विजउ तिहां विजया नामि नगरी तिहां श्री विशालस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । १० ।

§63) तथा पूर्वविदेह तणइ दक्षिणादिं लवणसमुद्र परपार समीपि नवमउ वत्सु इसइ नामि विजउ तिहां सुसीमा नामि नगरी तिहां श्री चञ्चरस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । 10 ११ । तथा अवरविदेह तणइ दक्षिणादिं कालोदसमुद्र समीपि चउवीसमउ नलिणावती नामि विजउ तिहां अयोध्या नामि नगरी तिहां श्री चंद्राननस्वामी इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । १२ । तथा पुष्करवर द्वीपार्द्धे माहि वि महाविदेह छई । एकु पूर्वदिसि एकु पश्चिम दिसि । तत्र पूर्वमहाविदेह तणइ उत्तरादिं मानुपोत्तर पर्वत समीपि आठमउ पुष्कलावती नामि विजउ तिहां पुंडरीकिणी नामि नगरी तिहां श्री चंद्रबाहुस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । १३ । तथा अवर 15 विदेह तणइ उत्तरादिं कालोदसमुद्र परपार समीपि पंचवीसमउ वभु इसइ नामि विजउ तिहां विजया नामि नगरी तिहां श्री मुजगस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । १४ । तथा पूर्वविदेह तणइ दक्षिणादिं मानुपोत्तर पर्वतसमीपि नवमउ वत्सु इसइ नामि विजउ तिहां सुसीमा नामि नगरी तिहां श्री ईश्वरस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । १५ । तथा अवरविदेह तणइ दक्षिणादिं कालोदसमुद्र परपार समीपि चउवीसमउ नलिणावती नामि विजउ तिहां अयोध्या नामि नगरी तिहां श्री नेमिप्रभस्वामि इसइ नामि 20 तीर्थंकरु विहरइ । १६ । तथा पश्चिम महाविदेह तणइ पूर्वविदेहि उत्तरादिं कालोदसमुद्र परपार समीपि आठमउ पुष्कलावती नामि विजउ तिहां पुंडरीकिणी नामि नगरी तिहां श्री विद्यसेनस्वामी इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । १७ । तथा अवर विदेह तणइ उत्तरादिं मानुपोत्तर पर्वत समीपि पंचवीसमउ वभु इसइ नामि विजउ तिहां विजया नामि नगरी तिहां श्री महाभद्रस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । १८ । तथा पूर्वविदेह तणइ दक्षिणादिं कालोदसमुद्र परपार समीपि नवमउ वत्सु इसइ नामि विजउ तिहां 25 सुसीमा नामि नगरी तिहां श्री देवस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । १९ । केई एकि देवयशास्वामि इमउं नामु फहई । तथा अवर विदेह तणइ दक्षिणादिं मानुपोत्तर पर्वत समीपि चउवीसमउ नलिणावती नामि विजउ तिहां अयोध्या नामि नगरी तिहां श्री यशरुद्रिस्वामि इसइ नामि तीर्थंकरु विहरइ । २० । केई एकि अमितवीर्यस्वामि इसइ नामि फहई ।

§64) वीसदिं जिन तगउं तनुमानु आयुष्कमानु वण्णं छांउन श्री युगादिजिन समान जाणियां । 30 तेह तेह विजयनायक श्री युगपाहु, श्री महापाहु प्रमुख यासुदेवसंसेवितपाद वीसइ जिन छई ।

§65) तथा पूर्वविदेहोत्तरादिं अवरविदेहोत्तरादिं पूर्वविदेह दक्षिणादिं अवरविदेह दक्षिणादिं संस्थिन छई आठ आठ विजय विदेह तींदिं माहि जपन्वयद विहरमाग फेयल्लानिसंख्या सासुसंख्या च एक एक तीर्थंकर रइई परिवारना कती कइियई । इस २ छाग फेयल्लानिया । एक २ फोदिमउ सु मापु तणउं तींदिं तणइ परिवारि जानियउं । साप्पी-भाषक-भाषिकागाणु सांमलियई नदी । गीतार्थं 35

समयानुसारि जाणिवउं । जि नगरी कही ति मूलभूत भणी कही छइं । अन्यत्रहिं योग्यि देसि वीसइ जिन विहरइं इसउं पुणि जाणिवउं । ति पुणि वीसइ जिन 'संपइय वट्टमाणा' इणि करी जाणिया ।

§66) 'सव्वे तिविहेण वंदामि' ति अतीत अनागत वर्त्तमान सगलाई जिन 'तिविहेण' मनि वचनि कायि करी 'वंदामि' वांउं । अथ द्रव्याहंत अतीत-अनागत, भावाहंतइं जिम किसउं वंदनयोग्य ? अतिशय करी वंदनयोग्य सर्वत्र नाम-स्थापना-द्रव्याहंत भावाहंत नी अवस्था चित्ति धरी करी नमस्करणीय ।

§67) भरतचक्रवर्ति तिसीही जि परि नमस्करिया । तथा हि-

एकदा श्रीश्रमभदेवः श्रीअयोध्यानगरीपरिसरे समवसतः । भरतो वंदितुं समागतः । वंदित्वा अवसरे पृष्टवान्-भगवन् ! किं कोऽपि परियदि जीवोऽस्ति योऽस्यामवससिष्यिष्यां जिनो भविष्यति ? । 10 भगवानाह-तव पुत्रः परिवाजकमतप्रवर्त्तको मरीचि नामा भरते भावी त्रिष्टुष्टाभिधः प्रथमो वासुदेवः । विदेहेषु सुकापुर्यां प्रियमित्रनामा चक्री । भरते अत्र श्रीवीरश्रुतुर्विंशो जिनः । इति श्रुत्वा भरतचक्री मरीचिं वचंदे । आह च-न ते पारिव्राज्यं वंदे, न चक्रित्वं वंदे, आर्हन्त्यं त्रिजगद्धं यत्ते भविष्यति तदधुनाप्यहं वंदे । ततः प्रदक्षिणात्रयं दत्त्वा भक्तिनिर्भरो भरतचक्री तं वंदित्वा शृहं गतः । एवमन्यज-नैरपि भावाहंतपदवीं मनसि धृत्वा नामाहंतो द्रव्याहंतः स्थापनाहंतश्च वंदनीयाः ।

§68) इसी परि द्रव्याहंतइं रहइं नमस्करणीयत्वइतउ पूर्वसुरि आचीर्णता भावइतउ 'जे अईया' गाहा जुगत हुई । द्रव्याहंतंदनारूपु बीजव अधिकारु । इति प्रथम दंडकु संपूर्णु ॥

§69) तउ पाछइ ऊठी करी-

चत्वारि अंगुलाई पुरओ, ऊणाइ जत्य पच्छिमओ ।

पायाणं उस्सग्गो एसा पुण होइ जिणयुद्धा ॥

[१०२]

एवंरूप जिनमुद्रावर्त्तमानु चैत्यस्यदंडकु पढइ ।

(२०) अरहंत चेइयाणं करेमि काउस्सग्गं सं० १ ।

अरहंत भावाहंत तीहं ना चैत्य चित्तममाधिजनक प्रातिमालक्षण अरहंत चैत्य तीहं रहइ वंदनादिक प्रत्यउ काउस्सग्गु फरउं इति क्रियासंघु करियउ । काय नु उस्सग्गु स्थान मौन ध्यान क्रिया पाक्षइ अपर क्रियांतर परिहारि करी त्यागु काउस्सग्गु कहियइ । नु फरउं किसइ कारणि ?

§69) (२१) वंदणवत्तियाए पूयणवत्तियाए सकारवत्तियाए सम्माणवत्तियाए पोहिलाभवत्तियाए निरुयसग्गवत्तियाए । सं० २ ।

§70) वंदनु प्रशस्त मनोवाक्यायप्रवृत्ति लक्षणु । 'तत्प्रत्ययं' तेह नइ कारणि । जिमउं पुण्यु वंदनि कीयइ हुयइ तिसउं पुण्यु काउस्सग्गि करी हुउ इमा अर्थ नइ कारणि । पूजनु गंधमाल्यादिकउं करी, तत्प्रत्ययं पूर्ववत् । 'सकारवत्तियाए' सत्कार वस्त्राभरणादि दानु तत्प्रत्ययं पूर्ववत् । पूजामत्कार द्रव्यस्वत्वइतउ ।

§70) छडीवकयसंजमो दव्ययए सो विरुज्झइ कसिणो ।

तो कसिणसंजमविऊ पुप्फादपं न इच्छंति ॥

[१०३]

पह्विध जीव निकाय संजमो दया परिणामो, 'द्रव्यस्त्वै' द्रव्यस्वय विदइ सु दयापरिणामु 'कसिणो' सगळ 'विरुप्यते' विरुद्धउ हुयइ, तिणि कारणि 'कसिणसंजमविऊ' समस्त मंत्रमपंडित

पुष्पादिकु हायेई लेवा न वांछइ इति गाथार्थः । 'इत्यादि' वचनइतउ साधु रहइं द्रव्यस्तवु किसी परि' उचितु हुयइ । तथा श्रावकि पुणि साक्षात्कारि पूजासत्कार कीघाई जि छइं इणि कारणि श्रावकहीं रहइं किसी परि उचितु हुयइ । इसउं जेतीवार को भगइ तेतीवार कहियइ । साधु रहइं द्रव्यस्तव निपेधु करणरूपता करी छइं । कारणु अनइ अनुमति मोकलिय जि साधु रहइं छइं ।

अकसिणपवचमाणं विरयाविरयाण एस खलु जुत्तो ।

5

संसारपयणुकरणे दन्वत्यए कूवदिहंतो ॥

[१०४]

'अकसिण पवत्ता' देसविरत, 'विरयाविरय' काई विरत काई अविरत विरताविरत, श्रावक श्रमणोपासक तीहं रहइं एउ द्रव्यस्तवु खलु निश्चइं जुगलु करिवा समुचितु । 'संसारपयणुकरणे' संसारलघुकरणे द्रव्यस्तवे 'कूव दिहंतो' द्रव्यस्तव विपइ कूपु छट्ठांतु । अथ भावार्थः—जिम कूपि खणीतइ सहू धूलि भरियइ जलि नीसरियइ हूंतइ सगळु मलु जलपखालि करी जाइ तिम द्रव्यस्तवि कीजतइ 10 जदपि हिं जीवविनासु संभवइ तथापि हिं द्रव्यस्तवि कीघइ कीजतइ अनेकहं जीवहं रहइं संबोधु ऊपजइ । तउ पाछइ जि संयुजहं ति सगलाई जीव जां जीवइं तां अथवा जां संसार तां हिंसा न करइं । तथा च भणितं—

पुढवाईयाण जई वि हु होइ विणासो जिणालयाहितो ।

तविसया वि सदिद्विस्स नियमओ अत्थि अणुकंपा ॥

[१०५] 15

एयाहितो बुद्धा विरया रक्खंति जेण पुढवाई ।

इत्तो निव्वाणगया अवाहया आमवमिमाणं ॥

[१०६]

इत्यादि उपदेस दानि करी करावणु जइ रहइं संभवइ । भगंत तणइ विशिष्टपूजा दर्शनि प्रमोदानुभवादिहं करी अनुमति पुणि संभवइ । इणि कारणि 'पूयणवत्तियाए' 'सकारवत्तियाए' इसउं साधु रहइं भणिजा जुक्तउं ।

20

§71) तथा हि—

सुव्वइ य वयररिसिणा कारवणं पि य अणुद्वियमिमस्स ।

वायगगंघेसु तहा एयगया देसणा चेव ॥

[१०७]

'श्रयते घअस्वामिना' सांभलियइ जु वयरस्वामि रिपि 'इमस्स' एह द्रव्यस्तव तणउं करावणु 'अणुद्विउं' कीघउं । यथा—माहेश्वरी नामि नगरी, तिहां श्री घअस्वामि पर्युपणा पर्वि संघ नइ उपरोपि 25 जलनप्रभ नाम व्यंतरेव फन्हा अनइ श्रीदेवी फन्हा पुष्पलक्ष अनइ सहस्रपत्र फमलु आणी करी देवपूजा करावी प्रभावना गरुई कीधी बौद्ध नी मानग्लानि रची । तथा चोक्तं—

जलणगिहाओ माहेशरीइ कुसुमाणि जेणमाणित्ता ।

तच्चत्रियाण माणो मलीओ संघुनई विहिया ॥

[१०८]

'तच्चत्रिया' बौद्ध तीहं नउ मानु अहंकार मलिउ ऊत्तारिउ । शेवं स्पष्टम् । वायगगंघेसु चमा-30 स्यातिवाचकविरचित प्रथमरत्यादि प्रकरणहं माहि 'एयगया देसणा ।' द्रव्यस्तव करावणु विपइ नी देसना उपदेस पद्वति छइं । जउ इमी परि साधु रहइं द्रव्यस्तव विपइ करावणु अनइ अनुमति छइं तउ जिणि भायकि पूजासत्कार कीघा हुयइं तेह रहइं भायपूजारूपता करी भणि अतिसयसंपत्ति निमित्तु पूजासत्कार प्रार्थनालक्षण एह नउं भगलु अधिकपुष्पनिबंधनु भगनीऊ जु हुयइ ।

§72) किं च भगवंत तीर्थंकर अति आदरि चांदीता ई पूजीता ई हूंतः पुणि तो ई सर्वया चांदिया पूजिया न हुयई । अनंतगुण भगवंत, पूजा पुणि परिमित इ जि । तिणि कारणे एह अर्थं विपइ कांइएकु कहियइ-

§73) दशाण्णपुरु इसइ^१ नामि नगर, तिहां^२ दशाण्णभद्र नामि^३ राजा, तिहां^४ दशाण्णु नामि^५ गिरि । अनेरइ दिनि श्री महावीरु तिहां^६ समोसरिउ । उद्यानपालकि श्री महावीरसमागमनि करी दशाण्ण-भद्र^७ राउ ववाविउ । अतिहर्षप्रकर्ष वसइतव राउ सिंहासन हूंतउ ऊठिउ, श्री महावीर संमत^८ सात आठ पग जाइ उत्तरासगु करी तिहां^९ ई^{१०} जि थिकउ विधिसउं^{११} वांइइ । सिंहासनि वइसी उद्यानपालक रहइं पारितोपिक्कु दातु दे^{१२} करी चित माहि चीतयइ । प्रभाति तिम किमइ श्री महावीरु वांइसु जिम अनेरइ किणिहिं^{१३} न वांइउ । इसउं ध्यायतइ^{१४} हूतइ नगरसोभा करावी प्रभातसमइ स्फारु शृंगार करी अतिसार 10 अलंकार पहिरी सर्वसमृद्धि सहितु सामंत मंत्रिमंडलेश्वर^{१५} परियरिहूँ सांतःपुरु हस्तिरक्षंधसमारुहु चतुरंग कटकसमेतु आपणइ^{१६} लक्ष्मीमदि करी त्रिभुवनु नृण^{१७} जिम मनतउ^{१८} हूंतउ श्री महावीरदेव वांदिया चालिउ । पदि २ गीत नृत्य नाटक कौतुक करायतउ कनकदानं रूपदान वस्त्रादिदान^{१९} दियतउ हूंतउ दशाण्णमूधर कन्हइ आविउ । गंधसिंधुर हूंतउ उतरी करी समयसरण माहि त्रिन्दि प्रदक्षिणा दे करी श्री महावीरु प्रणमी करी यथास्थानि घइठउ ।

§74) एतलइ प्रस्तावि सौधमेंद्र अवधिज्ञानिं^१ करी तेहं तणउ चितु जाणी करी चीतविवां लागउ । अहो ! दशाण्णभद्र रहइं विश्वपूज्य पूजन विपइ फेरहउ रागु ! अहह ! परं सु रागु ऋद्धिमददूषण कणिं^२ करी कलुपितु । सर्वं मुरामुरनरनायक जइ आपणीं^३ सर्वसमृद्धि विसारी करी तीर्थंकर रहइं समकालु पूजइं तथापि हिं सर्वप्रकारिं करी पूजितु न होइ । अमानरणु भगवंतु, पूजा मरंप्रकर्षतइ परिमित इ जि । इणि कारणे एह नईं मानु ऊतारउं । आपणी शक्ति अतइ भक्ति दिखालउं । तई पाछइ 20 आभितोगिक एरावणै देव कन्हा जिसा जंगमपर्वत हुयइं^४ तिसा चउसट्टिसहस्स हाथिया बराथिया । एकै एक हाथिया रहइं पांचसईं^५ बारोचर मुस तीहं तणी सख्या त्रिन्दि^६ कोडि सत्तवीसलाय अठसट्टिसहस्स २,२७,६८००० । एकै एकै^७ मुखि आठ आठ दात तीहं तणी सख्या छब्बीस कोडि एववीसलाय चउतालीससहस्स २६,२१,४४०००^८ । दाति दाति आठ आठ बावि तीहं तणी सख्या बीसईं नथोत्तकोडि बहुत्तरिलाय वषमसहस्स २७९,७१,५२००० । बावि बावि आठ आठ^९ वमल 25 तीहं तणी सख्या सोलसइ सतहुत्तरकोडि बहुत्तरिलाय सोलसहस्स १६७५,७२,१६००० । वमलि वमलि एकु एकु लालु पन तीहं तणी सख्या सोईं कोडाकोडी सतहुत्तरिं^{१०} कोटिलाय बहुत्तरिकोडिमन्सईं एकुसउसईं कोडि १६७५,७२,१६०,०००००००^{११} । पत्रि पत्रि वम्रोसयहु नाटहु । वमलि वमलि

§73) 1 Bh L omitt, 2 Bh, L omitt P तिहं; 3 Bh, L P एतइ नामि; 4 Bh L सतुहउ; P नामइउ; 5 L तिहाइ; 6 L विधिउठि; 7 L रई; P, omitts 8 Bh तिहंइ; L कुगइ; 9 L प्यायतई; P प्याणइ; 10 L मन्डेयइ; P मन्डेयइ; 11 L परिकारिनु; 12 L आगण P आपणइ; 13 P त्रिण; 14 P मानतउ; 15 Bh L वर्याचदान; §74) 1 Bh अवधिज्ञानि; 2 P तेहं; 3 Bh L चीतकीवा; P चितरिया; 4 Bh L दूषण तनि; 5 L omitts 6 Bh L एइं; 7 L तरे प्रकृत; 8 L नईं; P, एहं नईं; 9 P, ति; 10 Bh P, एरावण; 11 B हुनइ; 12 B दइ; L omitts 13 B P, वच वच सइ; 14 P, तिनि; 15 L omitts 16 P, २७,०००, which is a correction over original २७,०००; 17 L अठ अठ; 18 P सेइइ; 19 L बहुत्तरि-1 P सट्टिक; 20 P, बहुत्तरि-1 21 L सट्टि; 22 L १६०००.

एक एक कर्णिका तीहं तणी संख्या सोलसइं सतहुत्तरकोडि बहुत्तरिलखीं सोलसहस्स १६७७,७२, १६००० । कर्णिका कर्णिका ऊपरि एकु एकु प्रासादु तीहं तणी संख्या सोलसइं सतहुत्तरकोडि बहुत्तरि^{२३} लार सोलसहस्स १६७७,७२,१६००० । प्रासादि प्रासादि आठ आठ अग्रमहिपी सहितु श्री सोधमंदु वइठउ इंद्ररूपसंख्यां सोलसइं सतहुत्तरकोडि^{२४} बहुत्तरिलखीं सोलसहस्स १६७७,७२,१६००० । इंद्राणी-रूपसंख्या तेह कोडिसहस्स चियारिसइं एकवीसां कोडि सतहुत्तरिलखीं अष्टावीस सहस्स १३,४२१, ७७,२८००० । नाटकसंख्या पांचसइं छत्रीसां कोडाकोडी सत्यासीलाख कोडि^{२५} नव कोडिसहस्स एकु सउ वीसउं कोडि ५३६,८७०,९,१२०,००००००० । एतलां नाटक जोयतउ हूंतउ एतले रूपे श्री सोधमंद्दु एतली ऋद्धि विस्तारी करी दशाण्णपुर नगर समीपि दशाण्णपर्वति भावित । इसउं कथनु दशाण्णमद्दु आगइ देवे कहिउं । त्रिभि^{२६} प्रदक्षिणा दे करी गजाधिरूडि श्री सोधमंद्दि नमतइ हूति^{२७} गज तणा अग्रपाद जिम भूमि माहि खूपइं तिम पापाण माहि खूता । तिणि कारणि गजाग्रपदु इसइ नामि तेउ तीर्थु उच्चु १० लोकविख्यातु हूयउं । दशाण्णमद्दु राजा इंद्र तणी ऋद्धि देखी करी ऋद्धिमद रहितु हूंतउ चित्ति चीतवइ । अहो रूपं ! अहो रूपं ! अहो लक्ष्मीः ! अहो लक्ष्मीः ! अहो अंतःपुरं ! अहो अंतःपुरं ! अहो भक्तिः ! अहो भक्तिः^{२८} ! अहो शक्तिः^{२९} ! अहो शक्तिः^{३०} ! कूपमंद्दुक जिम मइं आपणी ऋद्धि देखी^{३१} करी लाघवु लाघउं, तिणि कारणि मू रहइं अनर्थदायक ज इय राज्यऋद्धि^{३२} तेह पाखे मू रहइं सरिउं ! इसउं^{३३} ध्याइं करी पंचमुष्टिकु लोचु करी श्री महावीर समीपि दीक्षा लीथी । तउ इंद्र आपणपउं जीतउं^{३४} मानतउ हूंतउ दशाण्णमद्दु राजऋद्धि ने पाए पडिउ । धन्यु धन्यु तउं जिणि तइं^{३५} दुःपूर प्रतिक्षा पूरी कीथी । जिणि मोहि हउं जीतउ, तेउ^{३६} मोहु पंचमुष्टिकु लोचु कतइ हूंतइ तइं पंचावत्यु करी खसिउ^{३७} । पुनरपि पुनरपि इसी परि^{३८} इंद्र दशाण्णमद्दु रहइं संस्ववी संस्वरी देवलोकि पहतउ । दशाण्णमद्दु राजऋद्धि केरलक्षानु ऊपाडी सकल कर्ममंद्दु^{३९} करी मोक्षि गयउ ।

इसी परि पूजासत्कार भावस्वरूपत्वइतउ भणनीय जि । 'सम्मानवत्तियाए' सम्मानु स्तननादिकहं^{४०} २० करी गुणोत्कीर्त्तनु 'तत्प्रत्ययं' पूर्ववत् । ए वंदनादिक आशंसा किसइ कारणि इत्याह—'बोधिलाभरत्तियाए' बोधिलाभु भवांतरि जिनपरमं नी प्राप्ति, 'तत्प्रत्ययं' बोधिलाभप्राप्ति पुणि किसइ कारणि इत्याह—'निरु-धससग्यरत्तियाए' निरुधसग्यु जन्मादिकहं उपद्रवहं रहितु मोक्षु 'तत्प्रत्ययं' । एउ काउसग्यु श्रद्धादिकहं पाएइ बहुफलु न हुयइ इत्याह—

(२२) सद्दाए मेहाए धीए धारणाए अणुप्पेहाए चद्धमाणीए ठामि काउसगं ।^{४१} सं० । ३ ।

§75) 'श्रद्धया' वासना करी आपणइ भावि न पुणि धलाभियोगि । 'मेधया' हेयोपादेयरूप बुद्धिभावि करी न पुणि जडभावि करी, अथवा 'मयोदया' मेराभावि न पुणि असमंजसभावि करी । 'यूया' मनः सुखताभावि न पुणि रागादिदोष कळपित भावि करी । 'धारणया' अर्हतगुण अविग्रहरणरूप मतिस्थिरता तिणि करी, न पुणि शन्य भावि करी । 'अनुप्रेक्षया' अर्हत ना जि गुण तीही जि नउं पुनरपि^{४२} पुनरपि चिंतनु तिणि करी, न पुणि तेह नइ अभावि करी । 'वर्द्धमानया' श्रद्धादिकहं सयरी पदहं 'वर्द्धमानया' इमउं पदु संबंधियइ । पद्धमान श्रद्धा करी, वर्द्धमान मेधा करी इत्यादि । एयमारिपद्धं हेतुहं करी 'ठामि काउसगं' ।

23 P. वरि । 24 L. सोलसइं सतहुत्तरि बहुत्तरि कोडि । P. सोलसइं सतहुत्तरि कोडि बहुत्तरि । 25 Bh. P. इंद्राणी-रूपसंख्या । 26 L. गजाग्रपदु । P. गजाग्रपदु । 27 P. वरि । 28 Bh. L. गजाग्रपदु । P. गजाग्रपदु । 29 P. गजाग्रपदु । 30 P. शक्तिः । 31 Bh. L. P. इंद्र । 32 P. omits. 33 P. शक्तिः । 34 P. omits. 35 Bh. L. omit. 36 L. राज्यऋद्धि । 37 L. इमउं । P. इमउं । 38 L. omit. P. इमउं । 39 P. इमउं । 40 P. omits. 41 L. omits. 42 L. पद्धमान ।

§76) पूर्वहिं 'करोमि काउस्सगं' इसउं भणिउं छइं । किसइ कारणि वली 'ठामि काउस्सगं' इसउ कहिउं ? कहियइ । वरुनसमीपु भविप्यु वरुत्तमानु जिम हुयइ विकल्पि तिणि कारणि पूर्वहिं 'करोमि' वरिसु इसउ अर्थु छइ, क्रियाभिमुखता कही छइ । ह्ववां पुणि अतिसमीप भावइतउ करणु लु कहिउ इति 'ठामि काउस्सगं' 'करोमि काउस्सगं' । किसउं सर्वथा काउस्सगु ? इत्याह-

5 (२) अन्नत्थूससिएणं नीससिएणं खासिएणं चीएणं जंभाइएणं उड्डुएणं चायनिसग्गेणं भम्मलिए पित्तमुच्छाए । सं० ४ ।

सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं । सं० ५ ।

एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गे अविराहिजो हुज्ज मे काउस्सगो । सं० ६ ।

जाव अरहंतानं भगवंतानं नमुक्कारेणं न पारेमि । सं० ७ ।

10 ताव कायं ठाणेणं भोणेणं द्वाणेणं अप्पाणं वोसिरामि । सं० ८ ।

बीजउ ददकु सपूर्णु ।

§77) एह नउ अर्थु जिम इरियायही नइ काउस्सगि कहिउ तिमहीं जि जाणियउ । काउस्सग माहि नभस्कारु अणोद्धामु चीतवेवउ । 'सव्वरथस्तुति' वद्यमान जिन तणी कहियइ । तदनंतरु 'लोगस्सुज्जोगारे' भणइ ।

15 78) अथ सपदादिपद लिखियइं -

अरिहं १ वदण २ सद्दा ३ अन्नत्थू ४ सुहुम ५ एव ६ जा ७ ताव ८ ।

अरहंत चेइय थए वीसामाणं पया पढमा ॥ [१०९]

तथा अतपद लिखियइ-

पढमा काउस्सगं करेमि निरुवसग्गवचिया वीया ।

20 तइया ठामि सगं मुच्छाइ चउत्थिया नेया ॥ [११०]

तह दिट्ठीसंचालेहिं पंचमी हुज्ज काउसगु मे छट्ठी ।

पारेमि वरुंभी सच वोसिरामिचि अट्टमिया ॥ [१११]

अथ आलापकप्रमाणु लिखियइ-

तिग १ छच २ सच ३ ननगं ४ तिय ५ पंच ६ य चउर ७ छच ८ चोपव्वा ।

25 तेपालीसालावा तेसिं वचेवि बुच्छामि ॥ [११२]

एग्गुवीस १ चउयालीस २ अट्टावीस ३ तेयालीसा' य ४ ।

तीस ५ पणवीस ६ इग्गीस ७ वीस ८ सव्वे दुसयतीसा ॥ [११३]

'अरहत चेइयाण' इइहा विसइं छवीसा । 'सव्वलोए अरहत चेइयाण' इइहा विसइ वीसा अक्षर जाणिया ।

30 §79) स्थापनार्हंतस्तन नामु बीजउ अधिकारु 'लोगस्सुज्जोगारे' इत्यादि । लोक्कु पचास्तिवायनउ ।

पंचास्तिवाय पुणि धम्मस्तिवाय, अधम्मस्तिवाय, आकाशास्तिवाय, पुद्गलास्तिवाय, जीजास्तिवाय नामक ।

नन्मय लोक रहइ उद्योतकारक लोकोद्योतकर । नदी सरोवरादिकइ तणउ तीर्थु अयतार पाणी नउ उयाउडे ।

अथवा परदर्शनीय बौद्धादिकदेवतारूप द्रव्यतीर्थे तीह विदु तीर्थं नइ निषेधि करी ससारोच्चारकारक सपादिरूप तीर्थे तेह रहइ करणशील धर्मतीर्थकर । निन रागादिनकारक । अहंत इसउ विशेष्यपद मूलपदु धीना पद एह ना विशेषण । 'कीर्तिसु' नामे करी स्तविसु । 'चतुर्विंशतिमपि केरलिन' चववीसई केरली भावाहंत इसउ अर्थु नामइ जि कहइ ।

§ 80) उसमे' त्यादि नामार्थु सामान्यहिं विशेषिहिं करी कहियइ ।

5

उसमु समस्त सयमभरोद्धरणइतउ वृषभ जिम वृषभु । अथवा वृषु धर्मु तिणि करी, अथवा वृष इद्र तीह करी भाति शोभइ तिणि कारणि वृषभु । इसी परि सर्वइ अहंत वृषभ कहियइ । प्रथम जिन विपइ किसउ विशेषु ? इणि कारणि कहियइ । ऊरुदेसि वृषभु छालनु, अथवा चतुर्विंशत्यप्र-
लाम समइ माता पहिलउ स्वप्नि दीठउ तिणि कारणि वृषभु इति विशेष नामु । 'वदे' नामि करी स्तवउ इसी परि सर्वत्र त्रिया जाणिवी । १ । इसी परि सर्वत्र सामान्यु अनइ विशेषु अर्थु भयाडेउ । तथा हि—

10

परीपहादिवइ करी जीतउ नहीं इति अन्वितु सामान्यार्थु । इणि गर्भि थिकइ माता विजयादेवी जितशयु राइ रमती हूती जीती नहीं इति अजितु विशेषनामु । २ ।

सभयइ चउत्रीम अविषय ईहा इति सभयु । अथवा श सुखु हुयइ इणि स्तवीतइ हूतइ इति गभयु, प्राकृति सभयु इति होइ, इति सामान्यार्थु । इणि गर्भि हूतइ वृथिवी माहि अधिकु धान्यादिसभयु हूयउ, इति सभयु, इति विशेषार्थु । ३ ।

15

इसी परि सर्वत्र पहिलउ सामान्यार्थु बीजउ विशेषार्थु जाणियउ । अभिनविपउ देवदेवेन्द्रादिकह इति अभिनदनु । ४ । गर्भे छापी इद्रि शक्ति अमीक्षणु निरतरु अभिनदिउ इति अभिनदनु । ४ ।

शोभनमति एह रहइ इनि सुमति । ५ । गर्भस्थिति हूतइ इणि माता रहुइ सुनिश्चित निश्चलमति हूइ इति सुमति । ५ ।

नि पकना आश्रयी करी पद्म निम प्रभा एह रहइ इनि पद्मप्रभु । ६ । गर्भस्थिति हूतइ इणि माता 20 रहइ पद्मप्रभादोहदु देवता पूरिउ, अथवा पद्म निम रक्त प्रभा सरीरकाति हूइ एह तणी इति पद्मप्रभु । ६ । शोभनु पार्थु समीपु एह नउ इति सुपार्थु । ७ । गर्भि थियइ इणि माता सुपार्थु दीप्रपार्थु हूइ इति सुपार्थु । ७ ।

चंद्र निम सौम्य प्रभा एह नी इति चंद्रप्रभु । ८ । चंद्र जिम श्वेत प्रभा एह नी इनि काराणि चंद्रप्रभु ८ । अथवा गर्भस्थि इनि माता रहइ चंद्रपानदोहलउ हूयउ इति चंद्रप्रभु । ८ ।

25

§ 81) शोभाविधि आचारु एह नउ इनि सुविधि । ९ । गर्भस्थि इनि माता विधि विपइ कुजठ हूइ इनि सुविधि । ९ । तथा पुष्पद्रनु इमउ वीचउ नातु । पुष्प मरीसा दत जेह गणा सु पुष्पद्रनु ९ कहियइ । पुष्पद्रनु विगणु कहियइ । तेह सरीरकर गनु तिणि गर्भि थिकइ माता स्वप्नि दीठउ इति पुष्पद्रनु । ९ ।

गर्भत्रीपमगार वरनामकरवइतउ सीतनु १० । इनि गर्भि थिकइ पिना गणउ द्वापग्यर अनेरइ 50 ओगपि अतिरेषु माताकरपरग वगइतउ वगनाउ इति सीतनु । १० ।

विद्यार्थे रहइ भेदान् दितकरणु इनि भेयानु ११ । इनि गर्भि वार्थुमाणि हूतइ विधि आचरिना अज्ञकर गणादेवताभिहित माता अविष्मरी दुष्पदाना जाराटि करी नाटी । भेउ हूयउ इनि भेयानु ११ ।

वसुदेव तीर्हं रहई पूज्य इति वसुपूज्य, वसुपूज्य जु वासुपूज्य १२ । निरुक्त्विसइतउ नीपजइ इति सामान्य अर्थु । वसुपूज्यराय नउ दीकिरउ वासुपूज्य इति विशेषनामु । १२ ।

विमलज्ञानादिक गुण एह रहई अथवा विमलु निर्मलु एउ इति विमलु १३ । इणि गर्भि स्थिति हुंतइ माता नी मति मलरहित हुई, तनु पुणि विमल हुई इति विमलु । १३ । ;

५ अनंतकर्म ना अंश जीता इणि इति अनंतजितु । अथवा अनंतज्ञानादिक गुण एह रहई ह्या इति अनंतु १४ । इणि गर्भि वचमानि अनंतु रत्नदासु माता स्वप्ति दीठउ इति अनंतु वि० १४ ।

दुर्गति पढता जंतुसंघात रहई धरइ इति धर्मु १५ । गर्भस्थिति स्वामी हुंतइ माता दानादि धर्मपर हुई इति धर्मु । १५ ।

शांतिक्षमातन्मयत्वइतउ शांति १६ । गर्भस्थिति इणि पूर्वजात अशिय नी शांति हुई इति १० शांति । १६ ।

§ 82) कु प्रथिवी तेह माहि थिउ रहिउ इति निरुक्त्विसइतउ कुंथु १७ । इणि गर्भि स्थिति हुंतइ माता रत्नविचिनु^१ कुंथु जीनु दीठउ । अथवा अरि कुंथु सरीखा पिता रहई ह्या इति कुंथु । १७ ।

भग्य जीवहं रहई संसारपातकारि रागादि मति न राति न दियई इति अरु १८ । गर्भि थिकइ इणि सर्वरत्नमउ अरउ चक्रावयतु माता स्वप्ति दीठउ इति अरु । १८ ।

१५ परीपहादि मलजयकरणइतउ मल्लि १९ । आर्पत्वइतउ इकारु । इणि गर्भि स्थिति हुंतइ माता रहई सर्वकतु कुसुममालाशयनीय दोहलउ देवता पूरिउ इति मल्लि । १९ ।

जग रहई त्रिकालावस्थानु मनइ इति मुनि शोभनव्रत एह नां इति सुव्रतु । जु मुनि पुणि सुव्रतु पुणि हुयइ सु मुनिसुव्रतु २० । इणि गर्भि वचमानि माता मुनि जिम सुव्रत हुयई इति मुनिसुव्रतु । २० ।

परीपहादि नामनु करइ इति नमि २१ । गर्भस्थिति हुंतइ इणि प्रत्यंतराय नगरविरोधक भगवंत २० मारुदर्शनवसइतउ उपशमिया नमिया इति नमि । २१ ।

धर्मिषु दुरितु तेह थिपइ नेमि चक्रधारा जिसी हुयइ तिसउ इति अरिष्टनेमि । २२ । गर्भस्थिति हुंतइ परमेश्वरि माता रिष्टरत्नमउ नेमि स्वप्न माहि दीठउ इति रिष्टनेमि २२ । एह हुंतउ अनेरउ रिष्टनेमि नही इति अरिष्टनेमि । २२ ।

सर्वभाव देखइ इति निरुक्त्विसइतउ पार्थु २३ । इणि गर्भि स्थिति हुंतइ रात्रि समइ अंधकारि^२ २५ कालदाष्टणु सपुं रायहस्त पार्थि जायतउ माता दीठउ इति पार्थु । २३ ।

उत्पत्ति लगी ज्ञानादि गुणहं करी वाधइ इति वर्द्धमानु २४ । इणि^३ गर्भि स्थिति हुंतइ ज्ञातकुळ धनधान्यादि भावि वाधिउं इति वर्द्धमानु २४ । तथा महावीरु इसउं पीजउं नासु प्रसिद्धं । जिम महांतु वीरु सुभउ आपणा बइरी एकलउ थिकउ जिणइ तिम अंतरंग बयरी आठकर्म जीतां तिणि कारणि महावीरु २४ । जन्मज्ञान समइ इंद्रसंसय फेडिया कारणि महांतु अवि पवंतु मेरु जिणि ३० धामपादांशुष्टि चांपी करी ईरिउ कंसाविउ सु महावीरु । २४ ।

§ 83) इसी परि कीर्ती करी चित्तशुद्धिनिमित्तु प्रणिधानु कहइ । 'एवं मए' इत्यादि । 'एवं' पूर्वोक्तप्रकारि 'मए' मई 'अमित्तुया' अभिष्टुता नामे करी कीर्त्तिया कहिया । जि किंसा 'विह्वयरत्नमल' जु थांधियइ छइ, कर्मुं सु रजु, पूर्विदि जु वाधउं सु मलु । अथवा जु वहु सु रजु निकायितु जु सु मलु ।

अथवा ईर्यंपंथकर्मु रजु संपराय कपाय तीहं करी जु कीघउं सु मलु कर्मु । ति वे रजु अनइ मलु जीहं विधूत विनष्ट कीयां ति विधूत रजोमल । इणिहिं जि कारणि 'पहीणजरमरणा' जरामरण रहित चतुर्विंशतिरुपि जिनवरा । उपशंत मोहादि जिन हुंता वरजिणवर, तीर्यकरा 'पसीयंतु' मू रहइं प्रसादपर हुयउं । जइ वीतराग तउ प्रसन्न किम हुयइं ? जिम चिंतामणि कामधेनु कल्पद्रुमादिक पदार्थ अहानइ हुंता रागु अनइ द्वेषु कही ऊपरि न करइं । तथापि हिं आराधक रहइं वांछितकारक हुयइं । इसी परि तीर्यकर पुणि आराधिता हुंता प्रसादपर वांछितपूरक हुयइं । चित्तशुद्धि करी पुण्यबंधु हुयइ । पुण्य-वसइतउ सर्वसमीहितसिद्धि हुयइ । तेह रहइं कारण तीर्यकर परंपरा करी इति प्रसादपरा भवंति ।

§84) तथा 'किच्चिण'त्यादि । कीर्त्तिया' नामहीं जि करी भणिया वंदिया कांय-चित्त-वचनहं करी स्तविया, महिया पुष्पादि सुरभिद्रव्यहं करी पूजिया 'जि ए' ऋणभादिक 'लोगसस उत्तमा', लोकु प्राणिवर्गु तेह माहि कर्ममलाभावि करी उत्तम 'लोगसस उत्तमा' । 'सिद्धा' निष्ठितार्थ कृतकृत्य सांसारिक' कार्य तथा 10 अभावइतउ । अरोगु नीरोगु तेह नउ भावु आरोग्यु मोक्षु तेह निमित्तु बोधिलामु जिनधर्म नी प्राप्ति सु दियउं । बोधिलाभाशंसनु निदानु न हुयइं । उत्तरकालि मोक्षपरिणामइतउ बोधिलाभनिमित्तु कहइ । 'समाहिवरं' वरसमाधिं सुस्थतारूपभाव समाधि । सु समाधिगुणुं वहु बहुतर बहुतमादिकहं भेदहं करी अनेकप्रकारु हुयइ इत्याह 'उत्तमं' सर्वोत्कृष्टु ।

§85) भावसमाधिगुण प्रकटीकारकुं जिनदत्त श्रेष्ठि कथानकु लिखियइ । इत्याह— 14
वेशालि नामि नगरी । तिहां छद्यत्यु श्री महावीरु एकवार उद्यानवनि वर्षाकालि देवकुल माहि काउस्सगि रहिउ । तिणि नगरी परमश्रावकु जिनदत्तु नामि हुंतउ श्रेष्ठिपद भ्रष्ट हुंतउ जीणुंश्रेष्ठि इसइ नामि सुविख्यातु हुयउ । भिक्षाभ्रमण तणइ अभावि करी श्री वीरु उपोषितु जाणी करी वांदी करी घरि आविउ । इसी परि नितु नितु करवइ वरसालउ तिणि लांधिउ । आपणा मन माहि चीतवेवां लागउ । 'जइ किमइ आजु माहरइ घरि श्री महावीरु पारणउं करइं तउ हउं तारिउ हुयउं' । इसउं ध्यायतउ हुंतउ विशुद्धभावि 20 हर्षितचिउ घरवारि रही करी चीतवइं । 'जइ ईहां श्री महावीरु आवइ जंगम कल्पद्रुम जिम, तउ हउं मस्सकि बद्धांजलि हुंतउ भगवंत रहइं संमुखु जाउं । त्रिन्हिं प्रदक्षिणा दे करी सपरिवारु थिकइं वांदउं । तउ पाछइ घर माहि पाउ धारावउं' । जंगम निधान जिन-प्रधानहं¹⁰ प्रासुकेपणीयहं पानात्रहं करी भक्तिरसइतउ भवसिंधु सारणउं पारणउं करावउं । पुनरुपि नमस्की करी केतलाई एकि पग भगवंत रहइं अनुगमनु करउं । पाछइ आपणपउं¹¹ धन्यु मनतउ हुंतउ आपणपउं शेषु ऊगरीउं¹² धान्यु, हर्षितु¹³ थिकउ जीमिसु' ।

इसी परि मनोरथमाला जिनदत्त रहइं मन माहि करवा हुंता, अभिनवश्रेष्ठि नइ घरि भिक्षा-निमित्तु श्री महावीरु आविउ । अभिनवश्रेष्ठि चेडी¹³ हस्तगत कोमासहं करी पाराविउ । सुपात्रदान प्रभावि पंच दिव्य तिहां ह्यां, तिहां राजादिलोक¹⁴ मिलिया । अभिनवु श्रेष्ठि प्रशंसिउ¹⁵ । भगवंतु श्री महावीरु पारणउं करी अनेरइ थानकि बिहरिउ । जिनदत्तु देवदुंदुभि निनादु सांभली करी चीतविवा¹⁶ लागउ, 30 'धिगु मू रहइं । अधन्यु हउं जु माहरइ घरि भगवंतु न आविउ' । इसी परि महाविपाहु करतउ जिनदत्तु लोकि जाणिउ । किं बहुना ? राजेंद्रि पुणि जाणिउ धन्यु जिनदत्तु जु¹⁷ इसी परि भावना भावइ ।

§84) 1 B. omits. 2 Bh. संवारिक. 3 Bh. omits शुभ । §85) 1 Bh. L. omits नाव- । 2 Bh. L. omit. 3 L. चीतवेवा । P. चीतविवा । 4 P. वर. 5 L. P. चीतवइ । Bh. चंतवइ । 6 Bh. L. omit. 7 P. तिहिं । 8 Bh. वकउ । P. omits. 9 P. घाउं । 10 B. Bh. L. जिम प्रधानहं । 11 P. omits पुनरुपि.....आपणपउं । 12 P. ऊगरिउ । 13 L. तेवी । 14 Bh. L. P. राजादिक लोक । 15 L. प्रशंसउ । 16 Bh. L. P. चीतविवा । 17 P. omits.

§86) तदा तिणि नगरी केवली आविउ । राजादिके' लोक' वांदी पूछिउ, 'भगवन् ! जिनदत्तु पुण्यवंतु किं' वा अभिनवु पुण्यवंतु ?' केवली कहइ, 'जिनदत्तु पुण्यवंतु' । लोकु कहइ, 'भगवन् ! भगवंतु अभिनवि पाराविउ जिनदत्ति न पाराविउ ।' केवली तेह नी भावना मूळ लगी कही करी कहइ, 'भावइतउ जिनदत्ति पाराविउ । द्रव्यइतउ' पुणि अभिनवि । अच्युतदेवलोकयोग्यु पुण्यु उपाजिउं, 5 जइ देवदुंदुभिनिनादु सांभलउ' नही तउ तेतीही जि वार केवलज्ञानु उपाडत' । सावरहिति अभिनवि' पुणि सुपात्रदान प्रभावि. सुवर्णवृष्टयादिकु फलु लाभउं । समाधिरहितु जीवु इंहिई जु फलु लहई, समाधिसहितु पुणि स्वर्गमोक्षादिकु फलु लहई' । तउ पाछइ जिनदत्त नी प्रशंसा करी राजादिक लोक धरे गया । समाधिविषइ, जिनदत्त कथा ।

तथा च भणितं—'चउवीसत्यएणं भंते किं जणइ ।

10 गोयमा, चउवीसत्यएणं दंसणविसोहीं जणइ' ।

§87) तथा 'चंदेसु' निम्मलयर' कर्ममलकलंक तणा अपगमइतउ चंद्रही हूता निर्मलतर विसुद्धतरं । केवलालोकि करी लोकालोकप्रकाशकारकत्वइतउ । आविलही तउ अधिकप्रकाशकर । तथाहि—

चंदाइच्चंगहाणं पहा पयासइ परिमियं खित्तं ।

केवलियनाणलंभो लोपालोयं पयासेइ ॥

[११४]

15 'सागरवर' स्वयंभूरमणु समुद्र, तेह जिम 'गंभीर', परीपहादि शोभ अभावइतउ । 'सिद्ध' क्षीण अशेष कर्मसिद्धि परमपदप्राप्ति' मू रहइ 'दिसंतु' दियउं ।

§88) अटवीसपयपमाणा इह संपयवन्न दुसयछप्पजा ।

नाम जिणत्थवरूवो चउत्थओ एस अहिगारो ॥ त्रीजउ वंडकु । [११५]

1 एवं चतुर्विंशतिस्तु भणी करी सर्वलोक अहंत चैत्यवंदननिमित्तु काउरसग्गु करिवा कारणे इसउं 20 पठइ । 'सव्वलोए अरहंतं चैद्याणं' इत्यादि 'वोसिरामी'ति यावत् । अर्थु पूर्व जिम ।

§89) न वरं 'सव्वलोए' अधोलोक तिर्यग् लोक ऊर्ध्वलोकरूपि सर्वलोकि, तउ अधोलोकि चमरादिभवनहं माहि सातकोडि बहुत्तारि' लाख संख्यहं, तिर्यग्लोकि असंख्यातहं व्यंतरनगरहं माहि, नंदीश्वरादिद्वीपहं' माहि बाबननंदीत्तारि, चत्तारि मानुषोत्तारि चत्तारि कुंडलि चत्तारि रुचकि' तथा 25 वर्षधरादिपु तथा अष्टापदसंभैवशिवरि श्री उज्जयंतगिरि श्री शयुंजय धर्मचक्र गजामपद प्रमुख चैत्यहं तथा असंख्यात ज्योतिष्कविमानहं माहि ऊर्ध्वलोकि सौधर्मादि देवलोकि विमान माहि चउरासीलाख सत्ताणं वइसहस्र तेवीस' संख्यहं चैत्यहं वंदनादि प्रत्यउ काउरसग्गु करउं । इणि हिं जि कारणे स्तुति सर्वजिनसाधारण कहियइ । एउ सर्वलोकस्थापनाहंतस्सन नामु पांचमउ अधिकारु ।

§90) सांप्रतु जिणि करी अहंत जाणियइं, जीवाजीवादिकतव पुणि जाणियइं, तेउ भुतु स्तग्गहारु 30 हूंतउ पहिलउं तेह धुन रहइं कारक तीर्थंकर सवइ । 'पुप्फरवरे' त्यादि । पुप्फरवरु द्वीपु त्रीजउ द्वीपु । तेह नइ अर्द्धि मानुषोत्तर पर्वतु तेह हूंतउं उलिउं अर्द्धपुप्फरवरद्वीपाहुं । तिणि अनइ धातुकी गंडि धीजइ द्वीपि अनइ जंबूद्वीपि प्रथमद्वीपि जि भरत ऐरवत महाविदेह, एकवचनु प्राकृतयसइतउ । तउ पाछइ

§86) 1 Bh. L. राजादिके । 2 Bh. L. लोक । 3 L. यदि । 4 Bh. इत्यतः । and puts पुणि after अभिनवि । 5 P. सांभलउं । 6 P. उपाजंत । 7 L. omits. 8 Bh. इंहि । L. इंहइ । P. ल लोक । 9 L. हुयइ । 10 हुयइ । §87) 1 Bh. —प्रकाशकर— । 2 Bh. हंतउ । 3 B. adds मन । §88) 1 Bh. —चंदना— । 2 B. Bh. अरहंत । §89) 1 B. Bh. बहतरि । 2 B. स्वकि ।

पांच भारत, पांच ऐरावत, पांच महाविदेहरूप पंचदशसंख्यहं क्षेत्रहं माहि । धर्म्मं श्रुतधर्म्मं तेह रहइं आदिकर, धर्म्मादिकर तीर्थकर ति 'नमंसाभि' नमस्करउं स्तवउं । एउ पन्नरह कर्म्मभूमिगत भावाहंत-स्तवभिधानु छट्टउ अधिकार ।

§ 91) अथ श्रुतधर्म्मं स्तवइ । 'तमतिमिरे' त्यादि । तमु दर्शनमोहनीयकर्मोदयरूपु' अज्ञानु तेऊ जु तिमिर अंधकारु तेह नउं पढलु वृंदु तेह रहइं 'विधंसइ' विनामइ इति तमतिमिरपढल विधं-सणु । तेह रहइं वांदउं । सु पुणि किसउं छइ इत्याह—'सुरगणे' त्यादि सुरगणनरेंद्रमहिनु । तथा 'सीमाधरे'ति सीमा धर्ममर्यादा तिणि जीव रहइं धरइ इति सीमाधरु । तेह रहइं 'वंदे' वांदउं स्तवउं । अथवा तेह नउं जु माहात्म्यु सु 'वंदे' वांदउं स्तवउं । तेऊ जु कहइ—'पप्फोदिये' त्यादि । प्रकर्षि करी फोडिउं विणासिउं मोहजालु चरित्रमोहनीयकर्मोदयलक्षणु अज्ञानपटलु सहज बोधवंतहं जीवहं रहइं जिणि सु पुप्फोदिय मोहजालु तेह रहइं वांदउं । 10

§ 92) अनी किसउं छइ ? 'जाइजरे' त्यादि । जाति जन्मु जरा बहपणु मरण परलोकीभवनु शोक विपादु ईहं सवहीं जात्यादिकहं रहइं 'पणासइ' विणासइ इति जाइजरामरण सोगपणासणु तेह रहइं नमस्करउं । अनी किसउं छइ ? 'कहाणे'ति । कल्यु आरोग्यु तेह रहइं 'अणइ' ढोलइ अथवा 'आणइ' पमाहइ इति कहाणु । पुक्खलु संपूर्णु । तेऊ अरुपु नहीं किंतु विशालु विस्तीर्णु इसउं विशेषणयसहितु सुखु निरुपमानंद रूपु 'आवइइ' करइ इति कहाणपुक्खलविसालसुहावहु, तेह रहइं वंदे । अनी किसउं छइ ? 'देवे' त्यादि । देवदानवनरेंद्र गणहं करी आर्चितु पूजितु । तेह रहइं वंदे । पूर्वहिं सुरगणनरेंद्रमहिनु इसइ भणिइ को जाणिसिइ ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोकीं जि माहि पूजितु त्रैलोक्य माहि पूजितु नहीं इणि कारणे कहिउ 'देवदानवनरेंद्रगणधियस' । ईहां दानवपदि करी त्रैलोक्यपूज्यता कही । अथवा एवं विशेषण सहित धर्म्मं श्रुतधर्म्मं तणउं सारु सामर्थ्यु उपलभी' जाणी करी 'करे पमायं' प्रमादु कउणु करइ अपि तु को न करइं । 20

§ 93) एह अर्थ विपइ संप्रदायः—

एकिं गच्छि गंगातटि वास्तव्य वि भाई संयमधर हंता विहरइं । तीहं माहा' एकु बहुश्रुतु हंतउ सुरि ह्यउ । पाठकशिष्यहं तथा सूत्रार्थवांडकहं सदा सेच्यमानु हंतउ विश्रामु कदाचित् लइइ नहीं । रात्रि समइ पुणि सूत्रार्थ-चितन-प्रखनादिकहं करी विश्रामु न लइइं । तेह नऊ बीजउ भाई मूर्खु सदा सुखि रहइ । आचार्यु तेह नउं सुखु देखी दुर्बुद्धिवाधितु हंतउ चित्ति चितवइ, 'अहो माहरउ भाई' सुखिउ । ज्ञानविज्ञानहीनता करी किणिहिं ऊदेगियइ नहिं । हउं पुणि' पलासकुसुम जिम' तिष्कलि ज्ञानि करी दुक्खिउ ह्यउ । तथा च किणिहिं तेह सरीखइ पंडिति पडिउं—

मूर्खत्वं हि सखे ममापि रुचिरं तस्मिन् यद्यौ गुणाः

निश्चितो १ बहुभोजनो २ ऽत्रपमना ३ नक्तं दिवा शायकः ४ ।

कार्याकार्यविचारणेष्वध्वधियो ५ मानापमाने समः ६

प्रायेणामयवजितो ७ दृढवपु ८ मूर्खः सुखं जीवति ॥

[११६]

इसउं पुणि न चीतवइं—

नानाशास्त्रसुभाषितामृतसरैः श्रोत्रोत्सवं कुर्वतां

येषां यांति दिनानि पंडितजनव्यायामरिचात्मनाम् ।

तेषां जन्म च जीवितं च सफलं तैरेव भूर्भूषिता

शेषैः किं पशुवद्विषेकविकलैः भूभारभूतैर्नरैः ॥

[११७]

इसी परि ज्ञानप्रद्वेपवसइतउ तिणि ज्ञानावरणीउ कर्मु निवहु प्रमाद लगी वाधउं । सु ज्ञानातिचारु
अणआलोई चारिखु पाली मुयउ । चारित्र प्रभावि देवलोकि देयु हुयउ । चवी करी भरतक्षेत्रि^१ किणिहिं
५ आहीरकुलि पुनु हुयउ । अनुरूप कन्या परिणिउ । तेह नइ दीकिरी^२ जाई । सुरूप तरुणपुरुपलोचन
मनोहरिउं जूयनु^३ संप्राप्त हुई । गाढा नइ घुरि^४ स दीकिरि^५ वइसाली^६ तेह नउ पिता नगरि चालिउ ।
आहीरहं सरसउं^७ धी विक्रय करिवा कारणि । तेह नउं रूप देवतां हूता अनेरं आहीरहं^८ तणां मनहं
जिम गाढां पुणि अपमार्गि जायतां भागां । धी रेढायां^९ । तउ विलक्ष यिका^{१०} आहीर तेह ना पिता
आगइ कहइ । 'अशकटा शकटा-पिता' । इसउं उपहासयचनु वली २ कहइं । एह नउ किसउं^{११} अर्थु ?
१० जेह नइ शकटु न हुयइं स अशकटा, अथवा ए कन्या नामि करी शकटा नहीं इति अशकटा । तथा
अशकटापिता अशकटा नउ पिता जनकु अशकटापिता । अथवा शकटापित शकटप्रापित हूता अम्हे
इणि अशकटापित शकटरहित कीधा । इसउ अर्थु सांभली करी लघुकर्मता लगी वैराग्यप्राप्तउ हूतउ
दीकिरी^{१२} कही सउं^{१३} परिणावी करी धनु तेह रहइं दे करी ध्रतसंप्राप्तु हुयउ । कहिं^{१४} आचार्य कन्हइ
योग बहता हूता आदरपरायण पढता हूता जहिंवार उचराप्ययनसिद्धांत नउं चउथउं अध्ययनु 'असंखउं'
१५ इसइ^{१५} नामि पढिवा आरंभिउं तेतीवार पूर्ववद्धु^{१६} ज्ञानारणु कर्मु उदइ आविउं । वि दीह आंखिल
करी पढतउ थाकउ तेह रहइं^{१७} वृत् तो ई आवियां नहीं । कि बहुना ? एक पदु आविउं नहीं । कीजइ
दिनि अनुज्ञा समइ गुरु कहइ, 'किसा नी अनुज्ञा तू रहइं दीजइ ?' सु कहइ, 'भगवन् । किसउ तपु
एह नउ ?' गुरु भणइ, 'जां आवइ नहीं' तां आंखिल तपु' । तउ सु भणइ 'भगवन् मू रहइं अनेरइ
तपि करी सरिउं^{१८}, सिद्धांति पुणि अनेरइ सरिउं । जां एउ नहीं आवइ तां आंखिल इ जि करिसु ।' तउ
२० पाछइ निखल चिचि हूतइ वारह वरस^{१९} आंखिल चित्तसमाधिपूर्वक^{२०} कीधां । तउ तेह कर्म नउ क्षउ
हुयउ^{२१} । सुखिहिं सगळं ध्रुतु पढिउं । ध्रुतभक्ति करी इहलोकि सुरभोजनु हुयउ । जिणि कारणि
ध्रुतभक्ति इसी इत्याह ।

§94) 'सिद्धे भो पयओ' इति । सिद्धु किसउ अर्थु ? अर्थश्रुति करी नित्यु अथवा अविस्वादा-
इतउ प्रसिद्धु प्रमाणप्राप्तु । तेह सिद्ध जिनमतनिमित्तु प्रयतु सावधानु हउं । 'भो' इसउं अतिशय ज्ञानवंतई
२५ रहइं आमंत्रण । अतिशयज्ञानवंत जाणउं हउं सिद्ध जिनमत निमित्तु प्रयतु सावधानु थिकउ 'जमो' इति
नमस्कारु करउं । सिद्ध जिन प्रवचन नमस्कारि कीधइ हूतइ मू रहइं 'सया' सदा संयम चारित्रु तेह

§93) 1 P. एक. 2 L. माहि. P. माहिं. 3 P. पुण. 4 P. omits. 5 L. रुचिरे. 6 L. प्रमाद लगी निविद्ध वाधउं. Bh. निवद्ध प्रमादु लगी वाधउं. P. निवद्ध प्रमाद लगी वाधउ. 7 L. मूओ. 8 L. भरति- 9 P. दिक्ती. 10 L. यौवन. P. यौवन. 11 L. वरि. 12 Bh. L. दीकिरी. P. दिक्ती. 13 Bh. L. बइसाली. 14 Bh. हरिसउ. L. सरसउ. 15 L. आहिरं. P. अहिरहं. 16 P. वरे गया. 17 Bh. P. यद्वा. 18 L. विस्यउ. 19 P. दीकरी. 20 Bh. इसउं. L. सिउं. P. तउ. 21 All the mss. have वही which has no meaning here, and which may be a result of वही in the preceding line 22 L. इसइ. Bh. इसइ. 23 Bh. (in the margin); L. पूर्ववद्धु. 24 B. Bh. तेह. L. तेह. 25 L. omits. 26 P. सरिसउ. and adds a sentence; सिद्धांतु पुणि अनेरइ तपि वरी सरिसउं. which is, evidently, a false repetition. 27 Bh. P. वरिस. 28 Bh. L. omit चित्त. P. -पूर्वं ज. 29 L. reads तउ तेह नउ कर्मन्वय हुयउ and omits श्रुतिहिं.....हुयउ. This second line is added in the margin of B.

नइ विपइ नंदी वृद्धि हुयउ इसउं आपहे जाणिवउं । 'पढं नाणं तओ दया' इत्यागमवचनइतउ श्रुतज्ञान ही जि तउ चारित्रवुद्धिदयारूप हुयइ । इति गुच्छु श्रुतधर्मं हंतउ चारित्रधर्मं वृद्धि आशंसु । सु संयसु किसउं छइ ? 'देवे'त्यादि । देव वैमानिक नागधारणादिक सुवर्णज्योतिष्ककुमार किंनर-व्यंतरविशेष तीहं ना गणहं समूहहं सद्भूतभावि करी सत्यभावि' करी' अर्चितु पूजितु सु 'देवं नागसुवन्न-किंनरगणस्सन्भूयभावच्चिओ' कहियइ । तेह निमित्तु नमस्कारु । 'देवं' ईहां अनुस्वारु, 'स्सन्भूय' ईहां वि ६ सकार प्राकृतत्वइतउ । अथवा अपर्णत्वइतउ । पुनरपि श्रुत विशेषियइ विशिष्टउं कीजइ । 'लोगो जत्ये'ति । लोकियइ दीसइ वस्तु इणि करी इति लोच्छु ज्ञानु सु लोच्छु ज्ञानु जेह माहि प्रतिष्ठिउं, जेह वशि आयत्तता करी वत्तइ, इसउ अर्थु । तथा 'जगमिणमि'त्यादि । जगु त्रैलोक्यु ऊर्ख्वं अध तिर्यग्लोकलक्षणु 'इदं' इउ, ज्ञेयता करी बोद्धव्यरूपता करी प्रतिष्ठिउं, जिहां किसउं सु छइ । 'मच्चासुरं' मनुष्यदेवरूपु 'आवेउ' धरणीउ जेह त्रैलोक्य माहि छइ सु 'मच्चासुर' कहियइ । 'मच्चासुर' उपलक्षणु नारकतिर्यगुरुपु पुणि 10 जाणिवउं । एउ इसउ धर्मु श्रुतधर्मु वड्डु वृद्धि जाउ । सासउ शाश्वतु अर्थवृत्ति करी नित्यु, 'विजयओ'⁸ विजयतः परवादिविजइतउ' । 'धम्मुत्तरं' चारित्रधर्मं प्राधान्यु जिम हुयइ तिम श्रुतधर्मु 'वद्धतां' बाधउ ।

§95) एकवार 'धम्मो चड्डुउ सासओ' ईहां वृद्धि । वीजीवार 'धम्मुत्तरं चड्डुओ' ईहां वृद्धि किणि कारणि कीवी ? मोक्षसुखवांछकहं जीवहं दिनि दिनि ज्ञानवृद्धि करेवी इसा अर्थ नइ कारणइ 'सुयस्स भगवओ' श्रुतभगवंत रहइ वंदनादि प्रत्यउ काउस्सगु करिवा निमित्तु पढइ, 'सुयस्स भगवओ' 15 करेमि काउस्सगं' योसिरामीति यावत् । अर्थु पूर्वं जिम । न वरं श्रुतु सामायकादि चतुर्दशपूर्वपर्यंतु भगवंतु समप्रैश्वर्यसंयुक्तु किणिहिं पराभवी न शकियइ इणि कारणि परमैश्वर्यवंतु तेह रहइ काउस्सगु वंदनादिप्रत्यउ करउं, इसउ क्रियासंबंधु करिवउ । स्तुति पुणि ईहां श्रुत तणी कहेवी ।

§96) सुयनाणत्थय रूवो अहिगारो एस सत्तमओ ।

इह पयसंपय सोलस नवुत्तरावन्न दुन्निसया ॥

[११८] 20

चउथउ वंडकु संपूर्णु ।

§97) अधानंतर सर्वाणुज्ञानफलभूत सिद्ध नमस्करिवा निमित्तु इसउं पढइ 'सिद्धाणं बुद्धाण-मि'त्यादि । सिद्ध निष्ठितार्थं किसउ अर्थु ? दग्ध कर्म ति पुणि लोक माहि-

कम्मे १ सिप्पे २ य विज्जाए ३ मंते ४ जोगे ५ य आगमे ६ ।

अत्थ ७ जत्ता ८ अभिप्पाए ९ तवे १० कम्मक्खए ११ इय ॥

[११९] 25

इसा भणनइतउ अनेकविध । यथा-कम्मसिद्ध १, शिल्पसिद्ध २, विद्यासिद्ध ३, मंत्रसिद्ध ४, योगसिद्ध ५, आगमसिद्ध ६, अर्थसिद्ध ७, यात्रासिद्ध ८, अभिप्राउ बुद्धि तिणि करी सिद्ध अभिप्राय-सिद्ध ९, तपःसिद्ध १०, कर्मक्षयसिद्ध ११, इति । इणि कारणि भणइ बुद्ध ज्ञाततत्व, पारगत संसारप्राप्त, अथवा सर्वसंसारकार्य पारगत । परंपरागत चतुर्दशगुणस्थानाधिरोहलक्षण परंपरा, अथवा क्षयोपशमादिभावइतउं सम्यक्ज्ञानचारित्रक्रमरूपपरंपरा स गया तेह संप्राप्त हंता किंसा हूया इत्याह-30 'ओगमपुवगया' सिद्धिश्चेत्ति संप्राप्त हूया ।

§98) इसां विशेषणहं करी विशिष्ट जि सर्वसिद्ध तीर्थसिद्धादि पंचदसभेद मिन्न ते ईं जि लिखियइं-जिण १ अजिण २ तित्थ ३ अतित्थ ४ गिहि ५ अन्न ६ सलिंग ७ थी ८ नर ९ नपुंसा १० । पत्थेय ११ सयंजुडा १२ युद्धवीहि १३ क १४ णिका १५ य ॥ [१२०]

§94) 1-2 Bh. omits. 3 Bh. विन्नओ । 4 Bh. -विजयतउ । §97) 1 Bh. कर्मक्षयो-

§98) 1 Bh. मोक्ष । 2 B. omits.

- इहां सिद्धशब्दु सवहीं पदहं सनंधियइ । यथा ऋषभादिकहं जिम जि तीर्यंकर हंता सिद्धि गया ति तीर्यंकरसिद्ध १ । गौतमादिकहं जिम सामान्य वेचलज्ञानिया थिका जि सिद्धि गया ति अतीर्यंकर-सिद्ध २ । तीर्यं चतुर्विधु, चतुर्विधु सधु तिणि प्रयत्नमानि हंतइ जि मुक्ति गया जंवूस्वामीप्रमुखदं जिम ति तीर्यंसिद्ध ३ । तीर्यं अप्रवृत्ति हंतइ मरुदेवीस्वामिनी जिम जि मुक्ति गया ति अतीर्यंसिद्ध ४ ।
- 5 गृहलिंगि वरत्तमान हता मरुदेवी जिम जि मोक्षि गया ति गृहलिंगसिद्ध ५ । सम्यक्तय परिणामइतउ खलिंगसप्राप्त हंता आयुःक्षयि हंतइ जि मुक्ति गया ति अन्यालिंगसिद्ध ६ । रजोहरण मुखवस्त्रिकारूपु द्व्यलिंगु । ज्ञानदर्शनचारित्रप्रकर्षपरिणामरूपु भावलिंगु द्विविधु स्वलिंगु कहियइ । तिणि हंतइ जि मुक्ति गया ति स्वलिंगसिद्ध ७ । मरुदेवी जिम जि स्त्री थिका मुक्ति गया ति स्त्रीसिद्ध ८ । नर थिका जि मुक्ति गया ति नरसिद्ध ९ । नपुंसक विहु भेदे । जातिनपुंसक, कर्मनपुंसक भेदतउ । तत्र जातिनपुंसक
- 10 चारित्रपरिणाम तणा अभावइतउ मुक्ति न जाइं, कर्मनपुंसक पुणि चारित्रपरिणाम सद्भावइतउ मुक्ति जाइ, तिणि वारणि जि नपुंसक थिका मुक्ति गया ति नपुंसकसिद्ध १० । करकंडु द्विमुख नमि नगगति प्रमुखइ जिम वृषभ आन्रद्रुम एकउलय महेंद्रध्वजादि एकैकवस्तु सारासारउ विचारइतउ जातिस्मरणइतउ प्रतिशोधु लही चारिणु प्रतिपाली वेचलज्ञानु ऊपाडी जि मुक्ति गया ति प्रत्येकबुद्ध सिद्ध ११ । सर्वतीर्यंकर सिद्ध १२ । गुरु कन्हा प्रतिशोधु लही करी जि मुक्ति गया ति बुद्धबोधित सिद्ध १३ । श्री महावीर
- 15 जिम जि एकटा सिद्धि गया ति एकसिद्ध १४ । श्री ऋषभ जिम अनेकहं सउं एक समइ जि सिद्धि गया ति अनेकसिद्ध १५ । तथा च भणित-

उसहो उसहस्त मुया भरहेण विराजिया य नवनवई ।

भरहस्त य अट्टमुया सिद्धा एगंमि समयंमि ॥

[१२१]

तीह निमित्तु माहरउ सदा नमस्कारु हुउ । एउ सिद्धस्तवरूपु आठमउ अधिकारु ।

- 20 §99) अथानंतरु आसन्नोपकारिता लगी श्री वीरनुति भणइ । 'जो देवाण वि देवो' इत्यादि । जु देवभयनपत्यादिक तीह नउ पूज्यतइतउ देवु 'य देवाः प्रांजलयो नमस्वन्ति' । जेह रहइं हाये जोडे देव नमस्कारु करइं सु देव देवमहितु शन्नमहितु' । 'शिरसा' मत्तकि परी महावीरु चरमतीर्यंकरु हउ 'वदे' वादं ।

- §100) नमस्कार फलदर्शननिमित्तु भणइ । 'इकोवी' त्यादि । एकु नमस्कारु घणा नमस्कार सु
- 25 परहउ छउ । वे हि नउ एकु नमस्कारु 'जिणपरवसहस्त वद्धमाणस' जिन उपशात मोहादिक तीह माहि वर वेचलज्ञानी तीहं माहि तीर्यंकर नाम कर्मोदयवसइतउ वृषपु प्रघातु जिनवरवृषपु' । तेह नउ नमस्कारु । सु कउणु वद्धमाणु ? तेह नउ किसउ करइ ? इत्याह-'ससारै' त्यादि । ससारसागरु भवसमुदु तेह नउ तारइ उतारइ । कहि रहइ ? 'नर वा नारं वा'-नरु पुरुषु नारी स्त्री तीहं विहुं रहइ धर्मं रहइ पुरुषोत्तमत्य भणिवा कारणि नरमहणु । स्त्री रहइ तिणि हिं जि भवि मुचिसभन
- 30 निमित्तु नारीमहणु कीघउ, न पुणि किहा ईं स्त्री रहइं मुक्तिगमनु निपिडु छइ । मुक्तिगमनकारणु ज्ञानदर्शनचारित्रप्रकर्षु सु जिम पुरुष रहइ छइ तिम स्त्री रहइं पुणि छइ इति सपूर्णकारणभावइतउ पुरुष जिम स्त्री रहइ पुणि मुक्ति ।

§101) 'छट्ठिं च इत्थियाओ' इसा वचनइतउ उत्कर्षहीतउ स्त्री रहइ छट्ठी नरक श्रुथिनी सीम गति छइ । न सप्तम नरकभूमिगमनु । तिम ऊपरि मुक्ति गति पुणि नहीं हुयइ इसउ न कहियु,

नहि इसउं कांई छइ । जेह रहइं हेठइ धोडी गति तेह रहइं ऊपरि पुणि थोडी गति हुयइ । भुजि करी परिसर्पइं हिंइइं इति भुजपरिसर्प गोह नकुलादिक जीव, ति हेठइ धीजी नरकभूमि सीम उत्कर्षइतउ जाइं । पांरिया गृध्रादिक उत्कर्षइतउ व्रीजी सीम । सिंह चबथी सीम । उरि हियइ करी हिंइइं इति उरग साप, पांचमी सीम जाइं, 'न छट्टि, न सत्तमि या' जाइं, तथाविध कर्मबंध तणा अभावइतउ । ऊपरि पुणि सगलाई भुजपरिसर्पादिक जीव सहस्रारु आठमउ देवलोकु तेह सीम जाइं । तिम स्त्री 5 पुणि हेठइ छट्टी सीम जाइं ऊपरि पुणि मुक्तिइं जाइं तिसइ गति विपमता भावि हूंतइ स्त्री पुरुष कर्म-नपुंसकरूप सर्वजीवहं रहइं मुक्तिगमनु सीधउं ।

§102) एउ श्री सिद्धार्यस्तवरूपु नवमउ अधिकारु ।

ए त्रिन्हि स्तुति गणधरेंद्रहं कीधी तिणि कारणि निश्चइसउं पढियइं । आयइयकचूर्णिण माहि कहिउं- 'सेसो जहिच्छाए' ति । 10

§103) उज्जितसेलसिहरे दिक्खानाणं निसीहिया जस्स ।

तं धम्मचक्रवर्द्धिं अरिदुणेमिं नमंसांमि ॥

[१२२]

उज्जयंत शैल शिखरि दीक्षाज्ञान नैपेधकी मुक्ति तद्दक्षणे त्रिन्हि कल्याणिक जेह रहइं हूयां, सु धर्मचक्रवर्ति अरिष्टनेमि 'नमंसांमि' नमस्करोमि नमस्करउं । एउ नेमिस्तवरूपु दसमउ अधिकारु ।

§104) अत्राभ्रायवचनु कांई एकु लिखियइ । पूर्वहिं श्री उज्जयंत महातीर्थु दिगंबरे अधिष्टिउं 15 हूंतउं संघ कन्हा ऊदालिया आरंभिउं । संघ काउससगानुभावि आकंपिता श्री शासनदेवता राजसभा माहि दूराकृष्ट कन्यामुखि 'उज्जितसेलसिहरे' इत्यादि गाया चेलवंदन सूत्रमध्यगत करी आपी । तेह दिवस लगी संघि पढियइ । इणि कारणि ए गाह पुणि आगमरूप हुई ।

§105) तथा 'चत्तारि' इत्यादि, 'परमट्ट निद्वियट्टा' इति परमार्थि करी तत्ववृत्ति करी, न पुणि कल्पना करी निष्ठित संपूर्ण अर्थ, संसारप्रयोजन जीहं रहइं हूयां ति परमार्थनिष्ठितार्थ कहियइं । 20 वीजउं सुगमु । एउ इगारमउ अधिकारु ।

§106) इहां आभ्रायगलु कांईएकु लिखियइ-

चत्तारि अट्ट दस दो वंदिवा जिणवरर चउव्वीसं ।

नवगं चउवीसीणं विवरणमिह किंचि निसुणेह ॥

[१२३]

चउ अट्ट गुणा वचीस हूंति दस दुगुण हूंति वीसा य ।

25

एवं जीणवानन्नं वंदे नंदीसरे दीवे ॥

[१२४]

चत्ताअरिओ जेहिं चत्तारि पयस्स होइ अत्योपं ।

अट्ट दस दो य मिलिया जहन्नपय वीस वंदांमि ॥

[१२५]

चत्तारि जहापुब्बि दस अट्टगुणा असी हवइ एवं ।

पुण वि असी दोगुणिया सट्टिसपं नमह विजएमु ॥

[१२६]

30

चउ अट्ट भवे बारस दसगुणा सयं वीसं ।

सो दोहि गुणिअंतो दुमि सया हूंति चालीसा ॥

[१२७]

भरह-एरवएमु जिणा दस चउवीसी य वट्टमाणाओ ।

मण-वय-फाएण तिहा तेसि वंदांमि भचीए ॥

[१२८]

चउवीसं पडिमाणं अट्टावयमेहलासु वंदामि ।

चत्तारि १ अट्ट २ दस दो ३ उवरिप-मज्जेसु हिट्ठेसु ॥ [१२९]

चउ उट्टल्लोयपडिमाऽणुत्तर १ गेविज्ज २ कप्प ३ जोइसिए ।

अट्टेव वंतरंसुं दस पडिमा भवणवासीसु ॥ [१३०]

घरणियलम्मि य दुन्नि य सासयरूवा असासया ते उ ।

इय चउवीसं पडिमा वंदे तियलोयमज्जम्मि ॥ [१३१]

अट्ट दस दो वि अट्टरस ते अट्टरस चउगुणा बहुचरियं ।

भूय-भविस्सा संपय तिय चउवीसीण वंदामि ॥ [१३२]

चउ चउगुणिया सोलस अट्ट अट्टगुणां य हंति चउसट्ठी ।

दस दसगुणिया य सयं एवं हुयइ इगुसउ असीओ ॥ [१३३]

पुण एउ दुहा सउ सत्तरी^१ य पन्नरस कम्मभूमीसु ।

भरह-एरवए दस जिण समकालुप्पभ वंदामि ॥ [१३४]

इति नवचउवीसीकुलकं समाप्तम् ॥

§107) तथा चंपा विहार करतइ श्री महावीरि साल महासाल राजश्रपिइं सरसउ^१ श्री गौतम-

15 स्वामिगणधरेंहु घृष्टचंपां मोकलिउ । तिहां गागलि राजा । पिठरु गागलि तणउ पिता । यशेमती माता । निज मातुल साल^२ महामाल^३ । अनइ श्री गौतम वांदिवा आविउ । वांदी धर्मुं सांभली पुचु राजि बइसालि^४ मायवाप सहिति गागलि श्री गौतम कन्हइ दीक्षा लीधी । श्री महावीर वांदिवा चंपा आवतां भावना भावतां मार्गि पांचही रहइं केवलज्ञानु ऊपनउं । समवसरणि श्री गौतमस्वामि त्रिंदि प्रदक्षिणा दे करी पाछउं जोयइ, तउ पांचइ केवलिसभा ऊपरि जायता देखइ, तउ भणइ,—‘ओरहा आवउ श्री महावीरु 20 वांदउ’ । भगवंतु भणइ, ‘गौतम ! केवलि आशातना म करि’ । तउ गौतमि खमाविया ।

§108) अथ श्री गौतमस्वामि जन माहि भगवंत श्री महावीर तणउं वचनु सांभलिउं—

उसहस्स भरहपिउणो तियलुकपयासनिग्गयजसस्स ।

जो आरुहुं वंदइ चरमसरीरो य सो साहू ॥ [१३५]

जु तपोलब्धि^१ करी अष्टापदि चडी श्री श्रपम जिन रहइं वांदइ सु चरमसरीरी तिणिहिं नि

25 भवि मुक्तिगामी हुयइ । तउ जेतलइ अष्टापदयात्रा मनोरथु गौतमस्वामि मन माहि करइ तेतलइ भगवंति यात्रा विपइ आदेसु दीघउ । तउ गौतमु अष्टापदि चालिउ । जिनवचनु पूर्णभणितु सांभली करी अनेराई कौंठिन्य दिन्न सेवालि नाम पांच पांच सइं तापस^२ तिहां चालियां । तीहं माहि कौंठिन्य-कुलपति पांचसइं तापस सहितु एकोपवासकारी^३ पारणइ आर्द्र मूल फलाहारी पहिली मेरलां^४ गयउ । दिनु कुलपति पांचसइं तापस सहितु विहुं^५ उपवासकारी^६ पारणइ शुष्क^७ मूलफलाहारी वीजी मेरला 30 चडिउ । सेणाली कुलपति पांचसइं तापस सहितु त्रिउं^८ उपवासकारी^९ पारणइ^{१०} शुष्क^{११} सेणालाहारी वीजी मेरलां^{१२} गयउ^{१३} । त्रिंदिहं^{१४} कुलपति ऊपरिह^{१५} चडिया असकता हुंवा पूर्वहिं विहांइं नि रधिया छइं । तीहं रहइं तिहांं रधियां हुंतां श्री गौतमस्वामि मूर्तिमंतु जिसउ पुण्यरासि हुयइ^{१६} तिसउ उपचितसर्वदेहावयवु कायकांति करी दीपित दसदिसावकामु आविउ ।

§106) 1 B. Bh. सत्तेरो ; §107) 1 L. सरिसउ 2 P. सानि 3 P. omits अनइ ; 4 L. पद्गामी ।

§108) 1 L. तपोलब्धि । 2 Bh. L. add मुक्तिनिमित्तु । 3 L. करी । 4 P. मेरला । 5 Bh. L. त्रिं । P. विहरउ । 6 L. करी । 7 P. शुष्क पारणइ । 8 L. P. त्रिहु । 9 L. उपवासि करी । 10 P. omits. 11 L. P. मेरला । 12 L. चडिउ । 13 P. त्रिंदिहं । 14 Bh. L. P. ऊपरिह । 15 P. रोह ।

§109) ति^१ तापस सयइ गौतम रहइं देखी करी चित्ति चीतवइं^२, 'अम्हे तपि करी सोसिय-काय ईहां चडी नहीं सकता, एउ इसइ उपचित^३ देहि करी यथाकामभोजी^४ संभावीतउ किसी परि चडिसिइ ?' इसउं तीहं त्रिहुं तापसहं रहइं^५ चीतवतां^६ हुंतां श्री गौतमु गणनायकु रविकिरण अवलंबी करी अष्टापदि पर्वति चडिइ । तीहं नइ मनि महांतु विस्मउ^७ ऊपनउ । तउ पाछइ मन माहि चीतवइं 'जइ किमइ पाछउ बलतउ अम्ह माहि आविसिइ तउ अम्हे एह ना शिष्य होइसिउं'^८ ।

§110) श्री गौतमस्वामि दक्षिणद्वारि संस्थित संभय अभिनन्दन सुमति पद्मप्रभ नाम चत्तारि जिन वांदइ । पश्चिमद्वारि संस्थित सुपार्श्व चंद्रप्रभ सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमल अनंत नाम आठ जिन वांदइ । उत्तरद्वारि संस्थित धर्म शांति कुंथु अर मल्लि मुनिसुव्रत नमि नेमि पार्श्व वीर नाम दस जिन वांदइ । पूर्वद्वारि संस्थित ऋषभ अजित नाम वि जिन वांदइ । चउवीसइ जिन निज निज वर्ण-प्रमाण-लांछनसहित देव-दानव-विद्याधर-नरोधरमहित^९ विधिसउं वांदतउ संस्त्रवतउ^{१०} हुंतउ विशिष्ट भावना 10 भावतउ सगल^{११} दिवस^{१२} सीम देवगृह सिंहनिपद्यायतन नाम प्रसिद्ध माहि रहिउ । संघ्या समइ देवगृह^{१३} बाहिरि शुद्ध शिलातलि बइठउ समाधिसउं प्रतिक्रमणु करी स्वाध्याउ करइ ।

§111) तेतलइ प्रस्तावि चैत्यवंदना निमित्तु समागतु धनदु यक्षु श्री गौतमस्वामि देखी करी भावइतउ^{१४} वांदी^{१५} आगइ बइठउ^{१६} । श्री गौतमस्वामि तदाकालि साधुगुणस्तवसंसूचकु^{१७} पांचसइं ग्रंथप्रमाणु पुंडरीकाभ्ययतु वखाणिउं । धनद तणउ इंद्रसामानिकु पुंडरीकाभ्ययतु सांभली करी मुखि अणावइ ।^{१८} अर्थु हिया माहि धरइ । सम्यक्खु तदाकालि तिणि उपाजिउं । सु आयुःक्षयि मरी करी दशपूर्वधरु^{१९} श्री वज्रस्वामि हुयउ^{२०} ।

§112) वीजइ दिनि प्रभातसमइ पुनरपि चउवीस जिन वांदी करी श्री गौतमस्वामि तिणिहिं जि मार्गि आवतउ हुंतउ तापसहं माहि आविउ । तापसे वांदी करी वीनविउ, 'भगवन्! पसाउ करी अम्ह रहइं दीक्षा दिवउ' । गौतमस्वामि योग्यता जाणी करी सर्वे दीक्षिया । पारणावसरि पूछिया,^{२१} 'वच्छउ ! किसी इच्छा तुम्ह रहइं छइ ?' तेहे चीतविउं, 'अम्हारी आत्र भूख करी दाधी छइ । जइ मार्गिउं भोजनु लाभइ तउ मनोवांछितु काइं न मार्गियइ' । इसउं चीतवी^{२२} करी परमानु भोजनु मार्गिउं । श्री गौतमस्वामि पात्रु प्रतिलेखनापूर्वु ले करी विहरिया पहुतउ । किणिहिं संनिवेसि कुणही कुटुंबी^{२३} तणइ आपणइ भावि परमानु नीपनउं हुंतउं तेतलइ प्रस्तावि तेह तणइ धरि श्री गौतमस्वामि आविउ । तिणि कुटुंबी^{२४} आपणपउं घन्यु मनतई हुंतइ भावि करी श्री गौतमु परमानु पात्रपूरि^{२५} विहराविउ । 'खीरि^{२६} थोडी, टीलां पुणि एतलीं खीरि अम्ह रहइं^{२७} नीपजइं नहीं । अथवा अर्चितनीय महिमा महात्मा तणउ छइ' । इसउं चीतवी^{२८} करी पारणा करिया गौतमि अनुज्ञात हुंता बइठा । अक्खीणमहाणसी लच्चिध तणइ प्रभावि जां सीम आपणउ अंगूठउ बाहिरउ काढइ नहीं तां सीम पात्रु टालउं थाइ नहीं, तिणि कारणे

§109) 1 L. ते. P. प्रति. 2 Bh. चीन. 3 Bh. L. उपचिति. 4 P. -भोजी. 5 L. हइं. 6 L. P. चीत. 7 L. विस्मय. 8 P. होइतइ. §110) 1 Bh. instead of नाम दस, it has दस नाम. 2 L. changes the order as-प्रमाण वर्ण- 3 P. -सहली. 4 P. सय्वतउ. 5 Bh. L. सणइ. P. सगला. 6 Bh. दिवसु. 7 P. -रहि. §111) 1 P. भावतउ. 2 P. omits. 3 L. उउ. 4 L. न सस्रवइ. P. सस्रव संस्रवइ. The confusion of -स्र- and -सृ- is obvious. 5 Bh. omits -व-. 6 P. हुअउ. §112) 1 P. प्रयु. 2 L. P. चीत. 3 L. वीनवी. P. चीत. 4 L. इउंवी. P. कुंउंवी. 5 L. कुंउंवी. P. कुंउंवी. 6 P. मानतइ. 7 P. adds करी. 8 P. रइ. 9 L. इखउ. 10 L. P. चीत-।

भगवंतु गौतमु तीहं रहइं परीसइ । तउ पाछइ जि त्रिहुं उपवासे^१ करी पारणउं करता सेवाली तापस तीहं रहइं पारणउं करतां । गौतमगुण अनुमोदतां शुक्लध्यानधारा वर्त्तमानहं हुंता केवलज्ञानु ऊपनउं ।

§113) जि विहुं उपवासे पारणउं करता दित्र तारस तीहं रहइं मार्गि आवतां 'जेह तणउ गौतमु इसउं शिप्पु इसउ लविघपायु छइ सु गौतम तणउ गुरु किसउ छइ' 'इसी परि' चीतवतां^२ शुक्लध्यान धाराधिरोहइतउ केवलज्ञानु ऊपनउं । जि एकि उपवासी पारणउं करता कौडिन्य तापस तीहं रहइं समवसरणु देखी श्री महावीरदेशनाध्वनि सांभली करी शुक्लध्यान लाभइतउ केवलज्ञानु ऊपनउं^३ । श्री गौतमस्वामि श्री महावीरु बांदी करी पाछउं जोयइ^४ तउ^५ सबइ तापस^६ केवलिसभा ऊपरि जायता देखी भणइ^७, 'बच्छउ! आवउ, श्री महावीरु बांदउ' भगवंतु भणइ 'गौतम, केवलि आशातना म करि' । तउ गौतमस्वामि स्वमावी करी^८ यथास्थानि पहुतउ । श्री महावीरि मुक्ति पहुतइ हुंतइ गौतमस्वामि छिन्नगुरुलोहवंधण हुंतउ 10 केवलज्ञानु ऊपाडी धारे^९ बरसे^{१०} पाछइ मुक्ति पहुतउ ॥

चत्तारि १ अट्ट २ दस ३ दो ४ य वंदिया जिणवरा चउच्चवीसं । एह विपइ श्री गौतमकथा ।

§114) एवं अनेरेई^१ चउवीस जिनवंदना इणि गाह करी करेवी । तथा नव चउवीसी जिनवंदना पुणि करेवी । तथा चैत्ववंदना करतां बारस पूजापद जाणियां । यथा—

अईयाइ तिन्नि सकत्थयम्मि चेईण वंदणं वीए ।
इह खिचसंभवाणं उसमाहजिणाण तईयम्मि ॥ [१३६]

सत्तरिसयं जिणाणं सुयधम्मो तह चरित्तधम्मो य ।
हुंति नमंसणजोगा तिन्नि वि एए चउत्थम्मि ॥ [१३७]

सिद्धा सिद्धत्थसुओ सुरइवरविसयभूसणी नेमि ।
नवगं चउवीसीणं पंचमए दंडए चउरो ॥ [१३८]

20 अतीत-अनागत-वर्त्तमान जिनलक्षण त्रिंहि पूजापद शकस्ववि प्रथमि दंडकि कहियइं । स्थापनाअहं-तलक्षण एकु पूजापद 'अरहंतचेईयाणं' वीजइ दंडकि कहियइ । इह क्षेत्रसंभर भरतक्षेत्रजात ऋषभादिजिन चउवीसीलक्षण एकु पूजापद 'लोगसुजोगयरे' वीजइ दंडकि कहियइ । सत्तरिसउं जिन धृतधर्म-चरित्र-धर्मलक्षण त्रिंहि पूजापद 'पुक्करपरदीवट्टे' चउयउ दंडकि कहियइं । सिद्ध सिद्धार्थसुत नेमि तउ चउवीसी-लक्षण चत्तारि पूजापद 'सिद्धाणं सुद्धाणं' पंचमइ दंडकि कहियइं ।

25 संपय-पपप्पमाणा इह वीस छहुत्तरं च वधमयं ।
पणिनायदंडगाइसु पंचमओ दंडओ य इमो ॥ [१३९]

§115) इसी परि पचसु दंडकु पदी करी उपचित्तपुण्यसंभार हुंतउ भव्यु जीवु चैत्ववंदनांतउ उचित विषइ उचितवृत्तिनिमित्तु इमउं पढइ 'वेयानसगराणं' इत्यादि । वेयावृत्तवर गोसुर यइ च्चेत्तरी यक्षिणी प्रमुय चउवीस यइ यक्षिणी लक्षण श्री वीरशासन प्रतिबूठ जि मिथ्याट्टि तीहं रहइं निवारक 30 शांतिकर-अदिवनिषेधक, सम्पक्व धारक लोक रहइं ममापिखर आर्त्त-पैट्रध्यानरक्षक तीहं संयधिउं धधया तीहं नइ विपइ काउस्तगु 'करेमि' करउं । इहां 'वंदणवत्तियाए' इत्यादि न पडियइं । वेया-

§112) 11 P. उपवासि ; §113) 1 Bh. L. omit. 2 B. परि ; 3 Bh. चीत- ; 4 L. on the whole sentence. 5 B. जोयत तउ । P. had the same but a later correction ma it जोयइ तउ ; L. जोयइं ; 6 L. omits. 7 P. भणी ; 8 Bb L. omit. 9 -वाक्यि ; 10 बरहे । 11 P. बरसे । §114) 1 Bh. omits. 2 Bh. सारउउ ।

वृत्तिकर^१ अविरतसम्यग्दृष्टिनामकि चउथइ गुणठाणइ वत्तइं । श्री संघु पुणि साधु साध्वी तणी अपेक्षा करी अप्रमत्तनामकि सातमइ, प्रमत्तनामकि छट्टइ गुणठाणइ वत्तइं । श्रावक श्राविका नी अपेक्षा करी विरताविरतनामकि पांचमइ गुणठाणइ वत्तइं । तिणि कारणि वेयावृत्त्यकरहं कन्हा साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकालक्षणु संघु गुणे करी अधिकु । तिणि कारणि तीहं रहइं सम्यग्दृष्टिता करी साधर्मिक भावइतउ तथा महद्धकवइतउ काउस्सग्गु मानु कीजइ गीतार्थीचीर्णाभावइतउ । 'अन्नत्थूससिएणं' इत्यादि 5 पूर्ववत् । एउ वेयावच्चगर काउस्सगरूपु वारमउ अधिकारु ।

तथा च अधिकारआदिपदावयवसूचा-

नमु १ जे २ अरहं ३ लोगो ४

स ५ पुक्ख ६ तम ७ सिद्ध ८ जो ९ उ १० चत्ता ११ चे १२ ।

पढमा पइकदेसा अहिगारणं मुणेयव्वा ॥ [१४०] 10

दुन्ने १ गं २ दुन्नि ३ दुगं ४ पंचेव ५ कमेण हुंति अहिगारा ।

सकत्थयाइसु इहं थोयव्वविसेसविसयाओ ॥ [१४१]

पढमम्मि य अहिगारे भावऽरिहंताण वंदणा भणिया ।

दव्वऽरिहाणं वीए तइए ठवणाऽरिहाणं तु ॥ [१४२]

नामऽरिहाण चउत्थे ठवणाऽरिहाणं च पंचमे तह य ।

भावऽरिहाणं छट्टे सत्तमए वारसंगस्स ॥ [१४३] 15

अट्टमए सिद्धाणं नवमम्मि य वद्धमाणसामिस्स ।

दसमम्मि य तित्थाणं चउवीसजिणाणमिगदसमे ॥ [१४४]

वेयावच्चगराण य उस्सग्गो वारसम्मि अहिगारे ।

अरिह १ सुय २ सिद्ध वेयावच्चगरा संथुया एवं ॥ [१४५] 20

इह नव अहिगारेहिं चउविह जिण संथुया सुभत्तीए ।

सुय सत्तम सिद्धऽट्टम वेयावच्चा य वारसमे ॥ [१४६]

उजोयाइसु तिसु दंढएसु पयसंपयाउ तुल्लाओ ।

छंदाणुसारओ चिय नायव्वा बुद्धिमंतेहिं ॥ [१४७]

§116) अथ पंचपरमेष्ठि नमस्कार ईर्यापथिकी सूत्र तथा चैत्यवंदन सूत्र तणी जि पूर्वदिं संपदा 25 कही ति सगलीय इ एकगाथा माहि कहइ-

अट्टऽट्ट नवऽट्ट य अट्टवीस सोलस य वीस वीसाम्मा ।

मंगल इरियावहिया सकत्थयपमुहदंडेसु ॥ [१४८]

अट्टेव संपयाओ मंगलगे नव पयाण तह पढणं ।

पयतुल्ल सत्त संपय दुपयल्ला होइ अट्टमिया ॥ [१४९] 30

अरहंत सत्त अक्खर पंच य सिद्धाण धरिणो ।

सत्त उवज्जाय सत्त अक्खर नव अक्खर संथुया साह ॥ [१५०]

अंतिम चूलाण तियं सोलस अट्ट नव अक्खरजुयं च ।

इय अट्टसट्ठि अक्खर परिमाणो होइ नवकारो ॥

[१५१]

§117) उपधान विधान पाउइ पंच परमेष्ठि नमस्कार ईयांपथिकी चैत्यवंदनसूत्र विधियत् समाराधित न हुयइं, तिणि कारणि प्रस्तावइतउ उपधान तपोविधान विधि पुणि लिखियइ ।

5 पंचमंगल महाश्रुतस्कंधि पांच वीसामा पांच अध्ययन कहियइं । धीजा त्रिन्हि वीसामा त्रिन्हि चूलिका कहियइं । तत्रापि विउं वीसामे एक चूलिका, एक वीसामइ वि चूलिका हुयइं । शक्ति हूंती एकनिरंतरे पांचे उपवासे कीचे पहिली वाइणि पांच अध्ययन लाभइं । तथा एकनिरंतरे आठे आंखिले त्रिहुं उपवासे कीचे वीजी वाइणि त्रिन्हि चूलिका लाभइं । शक्ति असंभवि एकांतरे पांचे उपवासे वाइणि पहिली । एकांतरे साते उपवासे वीजी वाइणि । एवंकारइ पहिलइ पंचमंगल महाश्रुतस्कंध तणइ उपधानि 10 उपवास १२ कीजइं ।

§118) धीजइ ईयांपथिकी श्रुतस्कंधि आठ वीसामा आठ अध्ययन कहियइं । तत्र शक्तिसंभवि एकनिरंतरे उपवासे पांचे कीचे, शक्तिअसंभवि एकांतरिते पांचे उपवासे कीचे पहिली वाइणि पांच अध्ययन—

(२४) इच्छापि पडिक्कमिउं हरियावहीयाए विराहणाए १। गमणागमणे २। 15 पाणक्कमणे वीयक्कमणे हरियक्कमणे ३। उसा उत्तिंग पणग दग मही मक्कडा संताणा संकमणे ४। जे मे जीवा विराहिया ५।

एवंरूप लाभइं । तथा शक्तिसंभवि एकनिरंतरे आठे आंखिले त्रिहुं उपवासे कीचे हूंते, शक्ति-असंभवि एकांतरि साते उपवासे कीचे हूंते—

(२५) एगिंदिया वेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचिंदिया ६। अभिहया 20 वत्तिया लेसिया संघाया संघट्टिया परिआबिया किलामिया उइविया ठाणाओ ठाणं संकामिया जीवियाओ ववरोविया तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ७। तस्सुत्तरीकरणेणं पायच्छित्तकरणेणं विसोहीकरणेणं विसह्ठीकरणेणं पाचाणं कम्मणं निग्घायणट्टाए ठामि काउस्सगं ८।

ए त्रिन्हि अध्ययन धीजी वाइणि लाभइं । एवंकारइ धीजइ ईयांपथिकी श्रुतस्कंध तणइ उपधानि 25 उपवास १२ कीजइं । तथा धीजइ भावाइंसस्य श्रुतस्कंधि नव वीसामा नव अध्ययन कहियइं । शक्तिसंभवि एकनिरंतरे त्रिहुं उपवासे कीचे हूंते, शक्तिअसंभवि एकांतरिते त्रिहुं उपवासे कीचे हूंते—

(२६) नमोऽत्थुणं अरहंताणं भगवंताणं १। आइगराणं तित्थगराणं सयं-संबुद्धाणं २। पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहत्थीणं ३।

ए त्रिन्हि अध्ययन पहिली वाइणि लाभइं । तथा शक्तिसंभवि एकनिरंतरे मोले आंखिले कीचे 30 हूंते, शक्तिअसंभवि एकांतरिते आठे उपवासे कीचे हूंते—

(२७) लोयुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपर्ईवाणं लोगपज्जोयगराणं ४। अभयदयाणं चक्खुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं थोहिदयाणं ५। धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्खवहीणं ६।

ए त्रिन्हि अध्ययन धीजी वाइणि लाभइं । तथा शक्तिसंभवि एकनिरंतरे मोले आंखिले कीचे 35 हूंते, शक्तिअसंभवि एकांतरिते आठे उपवासे कीचे हूंते—

(२८) अप्पडिह्यवरनाणदंसणघराणं वियट्टुडमाणं ७ जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं ८। सव्वन्नूणं सव्वदरिस्सीणं सिचमयलमरुयमणंतमक्खयमव्वायाहमपुणरावित्ति सिद्धिगइनामयेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जियभयाणं ९।

ए त्रिन्दि अध्ययन श्रीजी वाइणि लाभं ।

§119) 'जे अईया' गाहा पुणि गीतार्याऽऽचीर्णता करी श्रीजी वाइणि दीजइ । एयंकारइ श्रीजइ भायाऽहंतस्त्व धुतस्कंध तणइ उपधानि उपवास १९ कीजइ । चउयइ स्थापनाऽहंतस्त्व धुतस्कंधि आठ वीसामा आठ अध्ययन कहियइ । उपवासु १ आंमिल त्रिन्दि कीजइ । एकही जि वाइणि—

(२९) अरहंतचेइयाणं करेमि काउस्सग्गं १। वंदणवत्तियाए पूयणवत्तियाए सक्कारवत्तियाए सम्माणवत्तियाए बोहिलाभवत्तियाए निरुवसग्गवत्तियाए २। 10 सद्दाए मेहाए धीए धारणाए अणुणपेहाए चहुमणीए ठामि काउस्सग्गं ३। अन्नत्थूससिएणं नीससिएणं खासिएणं छीएणं जंभाइएणं उड्डुएणं दिट्टिसंचालेहिं एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो ६। जाव अरहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि ७। ताव काथं ठाणेणं मोणेणं ज्ञाणेणं अप्पाणं वोसिरामि ८। 15

ए आठ अध्ययन लाभं ।

§120) एयंकारइ चउयइ स्थापनाऽहंतस्त्व धुतस्कंध तणइ उपधानि उपवास २ कीजइ । पांचमइ नामाऽहंतस्त्व धुतस्कंधि अट्ठावीस वीसामा अट्ठावीस अध्ययन कहियइ शक्तिसंभवि एकनिरंतरे त्रिहूं उपवासे कीये हूते, शक्तिसंभवि एकांतरिते त्रिहूं उपवासे कीये हूते पहिली वाइणि 'लोगस्सुज्जोगारे' गाहा । चत्तारि अध्ययन लाभं । तथा शक्तिसंभवि एकनिरंतरे तेरेइ आंघिले कीये हूते, शक्ति असंभवि 20 एकांतरिते छए उपवासे अनइ एकि आंघिलि कीधइ हंतइ 'उत्तम' इत्यादि गाहा । त्रिन्दि अध्ययन चारइ श्रीजी वाइणि लाभं । तथा शक्तिसंभवि एकनिरंतरे चारइ आंघिले कीये हूते, शक्तिसंभवि एकांतरिते छए उपवासे कीये हूते 'एवं मए अभित्तुया' इत्यादि गाहा त्रिन्दि अध्ययन चारइ श्रीजी वाइणि लाभं । एयंकारइ पांचमइ नामाऽहंतस्त्व धुतस्कंध तणइ उपधानि उपवास पनइ आंघिलु एहु कीजइ । तथा छट्टइ धुतस्त्व धुतस्कंधि सोल वीसामा सोल अध्ययन कहियइ । एहु उपवासु 25 आंमिल पांच कीजइ ।

§121) 'पुक्खरपरदीयणु' इत्यादि गाहा । चत्तारि अध्ययन सोल एक्की जि वाइणि लाभं । एयंकारइ छट्टइ धुतस्त्व धुतस्कंध तणइ उपधानि उपवास त्रिन्दि आंघिउ एहु कीजइ ।

§122) मातमइ सिद्धस्त्व धुतस्कंधि वीम वीसामा वीम अध्ययन कहियइ । त्रिणि दिपसि मालामदुधु कीजइ त्रिणि दिपसि एहु उपवासु कीजइ । 'सिद्धाणं मुद्दाणं' इत्यादि गाहा पांच अध्ययन 30 वीम एक्की जि वाइणि लाभं । सातमइ सिद्धस्त्व धुतस्कंध तणइ उपधानि उपवासु एहु कीजइ । एणइ अहइ नवइ व' इति गाहा तथा अयं तणइ प्रसंगि उपधानि उपकरणविपाह पुनि त्रिगिव । मण्डी उपधानं वणउ तपु मेळिउ हंतइ उपवास पांचवीम आंघिल ८१ द्ययं । मयं संख्या दिन १०६ मण्डी उपधानं लागई ।

§123) अथ प्रस्तावइतउ वाइणि देवा तणी रीति लिखियइ । एक खमासमणि वाइणि 'मुहुपत्तियं पडिलेहेमि' कहावियइ । वीजउं खमासमणु दिवारी मुहुंती पडिलेहावियइ वांनणां वि दिवारियइ । पाछइ एक खमासमणि 'पंचमंगल महाश्रुतस्केंध वाइणि पडिगाहणत्थं काउस्सगं करावेह' कहावियइ । वीय खमासमणि 'पंचमंगल महासुयक्खंध वाइणि पडिगाहणत्थं काउस्सगं करेमि' कहावियइ । तइय खमासमणदाणपूर्वक्क 'अन्नत्थूससिएणं' इत्यादि कहावी काउस्सगु करावियइ । काउस्सग माहि 'सागरवरंमीरा' सीम, सत्तावीस ऊसास 'लोगस्सुज्जोगरे' चीतयावियइ । पारियइ हूंतइ 'लोगस्सुज्जोगरे' संपूर्ण भणावियइ । पाछइ एक खमासमणि 'पंचमंगल महासुयक्खंध वाइणि पडिगाहणत्थं चेइयाइ वंदावेह' भणावियइ । वीय खमासमणि 'पंचमंगल महासुयक्खंध वाइणि पडिगाहणत्थं वासक्खेवं करावेह' भणावियइ ।

10 §124) तइय खमासमणु दिवारी वासक्षेपु कीजइ । शक्रस्तवु भणावी एक खमासमणि 'पंचमंगल-महासुयक्खंध वाइणि संदिसावेमि' कहावी वीय खमासमणि 'पंचमंगलमहासुयक्खंध वाइणि पडिगाहैमि' कहावी पहिलउं त्रिन्हि नमस्कार कहावियइ, पाछइ पूर्व भणित' वाइणिक्रमि वाइणि दीजइ ।

§125) अथ प्रस्तुतु कहियइ । काउस्सगि पारियइ 'वैयावृत्त्यकरस्तुति' कही करी पूर्व जिम गोडिहिलिया होई करी शक्रस्तवु कहीयइ । 'जावंति चेइयाइ' इत्यादि गाह पढइ । जावंति जेतलां, 16 चैत्य ऊर्ध्वलोकि अधोलोकि तिर्यग्लोकि छइं, 'सव्याइ' सगलाइं, 'ताइं' ति वांदउं 'इह संथो' ईहां थिकउ 'तत्थ संथाइ' तिहां थिकी । तउ पाछइ ऊठी करी क्षमाश्रमणु विधिवत् दे करी 'जावंति के वि साहू' इत्यादि गाह पढइ । 'जावंति के वि' जेतलां केई, 'भरह-परवय-महाविदेहे य' पांच भरत पांच परवत पांच महाविदेहरूप पनरह कर्मभूमि माहि, मायु ज्ञान-दर्शन चरित्ररूप रत्नत्रय साधक छइं, 'सव्वेसु तेसु पणओ' सवही तीहं विपद प्रणतु हउ छउं । ति पुणि किमा छइं ? 'तिविहेण' मनि 20 वचनि कायि' करी, 'तिदंडविरयाणं' जीयघात करण-कारण-अनुमतिरूप त्रिन्हि दंड तीहं हुंवा विरत निवर्त्तिया, तीहं रहइं हउं प्रणतु छउं ।

§126) पाछइ 'नमोऽर्हत्-सिद्धा' इत्यादि पंच परमेष्ठि नमस्कार पढइ । तउ पाछइ उदासगंमीरस्सुरि हर्षतोमांचरंनुक्किनागु हर्षांशुभिंदुट्टिपुट्टि' हूती करतउ हूंतउ मद्दतमुणगग्भिंतु श्रीवीतरागस्तवु पढइ ।

25 §127) तउ पाछइ

मुत्तासुत्तियमुद्दाममा जहिं दो वि गन्धिया हत्था ।

ते पुण निळाडदेसे लग्गा अणे अलग्ग ति ॥

[१५२]

परंरूप मुक्तासुत्तियमुद्दाममा जहिं दो वि गन्धिया हत्था । 'जय वीयराय' इत्यारि । 'जय' विमउ अर्थु । सवही देव दानव मानव माहि उत्कर्षि करी वरिं, हे वीतराग ! रागरहित, 'जगसुह' जगद्गुरो ! 30 विमुक्कनतत्त्वोपदेशदायक परमेश्वर श्री वीतराग रूइ बुद्धिसनिधाननिधाननिमित्तु आमंप्रणु सयोपयु, 'भयव' भगवन् ! ताहुरा प्रभावइतउ, 'मम' मू रहइ, 'भरनिंवेओ' भरनिंवेओ समारविरागु 'दोउ' हुइ, 'भयव' ! इतउं वली सयोपयु भक्ति अतिशय जाणाविया निमित्तु वीचउं ।

§128) तथा 'मग्गानुसारया' मार्गानुसारिता कदाग्रह परिहारि करी तच्चप्रतिपत्तिलक्षणु मुक्ति-
मार्गं अनुसरणु हुउ । इसी परि सवहीं पदहं सउं 'हुउ' इसउं पदु संवंधियउं । तथा 'इहफलसिद्धी'
इहलोकफलप्राप्ति जिणि हूंती जीव रहइं समाधानु हुयइ ।

§129) 'लोगविरुद्धचाओ' सर्वजनगर्हितवस्तु तणउ त्यागु परिहारु । तथा चाह-

सच्चस्स चेव निंदा विसेसओ तह य गुणसमिद्धाणं ।

उज्जुधम्मकरणहसणं रीढा जणपूयणिज्जाणं ॥

[१५३]

बहुजणविरुद्धसंगो देससमाचारलंघणं चेव ।

उच्चणलोगो य तहा दाणाइ वि पयउं अन्ने उ' ॥

[१५४]

साहुवसणम्मि तोसो सयसामत्थम्मि अपडियारो य ।

एमाइयाइं इत्थं लोगविरुद्धाइं नेयाइं ॥

[१५५] 10

'सच्चस्स' इति । सामान्यहिं सर्वजननिंदा लोकविरुद्ध । 'विसेसओ तह य गुणसमिद्धाणं' तथा गुण
ज्ञान दर्शन चारित्रलक्षण तीहं करी जि समृद्ध महर्दिक तीहं तणी निंदा विशेषि करी लोकविरुद्ध । 'उज्जुधम्म'
धम्मं नइ विपइ शरलचित्त जि हुयइं तीहं तणउं हसणु उपहासकरणु लोकविरुद्ध । 'रीढा जणपूयणिज्जाणं'
ति सामान्यजनपूजनीय जि हुयइं पात्रदेवता-गोत्रदेवतादिक अथवा हरि-हर-ब्रह्मा-आदित्यादिक देव तीहं'
तणी रीढा निंदा लोकविरुद्ध । 'बहुजणविरुद्धसंगो' इति बहु प्रभूत जण साधुलोक तीहं रहइं विरुद्ध 15
अछोपावि भावि करी विवर्जित छइं, चंडाल खाटकी सुरापालादिक तीहं सरसउ संगु परिचउ लोकविरुद्ध ।
'देससमाचारलंघणं' ति जिणि देसि जु अर्थु अतिनिपिद्धउ हुयइ अनइ धम्मविरुद्धउ हुयइ तहीं तिणि
देसि तेह तणउं करणु देससमाचारलंघणु लोक्रविरुद्ध । 'उच्चणलोगो' इति उव्रतु व्रणु जेह रहइं सु उच्चणु
सच्छिद्ध लोक्रु तेह तणउ लोक्रु दर्शतु, उच्चणलोक्रु । जिम निद्रादिप्रमादपर मृगादिकु जंतुवर्गु देखी करी
छलपरायणु नाहरादिकु जीवबधक्रु लोक्रविरुद्धु तिम परच्छिद्धु चोरकादिकु देखी करी जु राजनिग्रहादिकि 20
अनर्थि चातिवा' विपइ समुद्यतु हुयइ सु लोक्रविरुद्धु अथवा तेह तणउं कम्मु लोक्रविरुद्धु । 'दाणाइ
वि' राजदेव भागु दाणु तेह तणउं अदानु दाणचोरिकादिकु लोक्रविरुद्धु । 'पयउ' प्रकटु सकललोक
विख्यातु कहियइ' । 'अन्ने उ' अनेरा पुणि । 'साहुवसणम्मि' इति । साधुलोक रहइं व्यसनि राजनिग्रहादिकि
उपनइ हूंतइ जु तेह व्यसन तणइ विपइ तोसु हर्षु कीजइ सु लोक्रविरुद्धु इसउ कहइं तथा व्यसन
फेडिया विपइ सामर्थ्यभावि शक्तिभावि हूंतइ 'अपडियारो य' इति । अग्रतीकारु व्यसन तणउं अफेडणु 25
लोक्रविरुद्धु इसउं कहइं । एवमादिक लोक्रविरुद्ध 'नेयाइं' जाणिथां । इति गाथात्रय तणउ अर्थु ।

§130) तथा गुरुजनपूजा जननीजनकादिजनु गुरुजनु तेह नी पूजा गुरुजनपूजा पितर सन्मानना ।
परार्थकरणु परु साधुलोक्रु तेह रहइं हितकरणु वांछितार्थसंपादनु जीवितव्य तणउं सारु परमु पुरुषार्थु,
पुणि परहितार्थकरणु जु जिणि कारणि कहियइ । तथा च भणितम्-

दानं विचाइ, ऋतं वाचः, कीर्ति-पुण्ये तथाऽऽयुषः ।

परोपकरणं कायाइ असारात् सारमुद्धरेत् ॥

[१५६]

30

§131) 'शुभगुरुजोगो' इति । विशिष्टशुचचारित्र सहित आचार्य तणी प्राप्ति शुभगुरुजोगु ।
'तद्वरणसेवणा' इति तेह नउ उपदेसु तद्वचनु तेह तणी सेवना गुरुसमादिष्ट धर्मानुष्ठानकरणु । शुभगुरु

§129) 1 B. Bh. अन्ने ओ । 2 Bh. तहीं 3 Bh. नहीं । 4 Bh. अयम्मे चोरिकदिकु । 5 Bh.
पातवा । 6 Bh. कहइं ।

फदाकालिहिं अहितु उपदिसइ नहीं इणि कारणि आभवु संसार सीम तेह गुरु तणी आण मूरहइं अरंडं अविराधित हुड । एउ प्रणिधानु नियानउं नहीं, जिणि कारणि प्राइहिं निस्संगाभिलापू जु कीधउं छइ ।

§132) जु पुणि गुरुजणपूया ससंगाभिलापु फो कहिसिइ सु न कहियो, जिणि कारणि जननी-जनकमानना श्री महावीरदेवि^१ आपणपइं कीधी छइ । तथा च भणितम्-

5 अह सत्तमम्मि मासे गम्भत्यो चेव उग्गहं गिन्हे ।
नाऽहं समणो होहं अम्मापियरेहिं जीवंतो ॥ [१५७]

कृतकृत्यता पुणि तोई जि हुयइ जउ भावीत्र मानियइं । तथा हि-

पित्रोः आनृष्यभाग् नाऽहं भवाम्येकेन जन्मना ।
यकाम्यां सोढकष्टाम्यां पृतरः कुंजरीकृतः ॥ [१५८]

10 ॥ इति बालावबोधचैत्यवंदनासूत्रवृत्ति संपूर्णं हुई ॥

॥ शुभं भवतु ॥

*

§133) अथ वंदनक तणउ अर्थुं लिखियइ ॥

मुहणंतय २५ देहा २५ ऽऽवस्सएसु २५ पणवीस हुंति पत्तेयं ।
छट्ठाणा ६ छच्चगुणा ६ छच्चेव ६ हवंति गुरुवयणा ६ ॥ [१५९]

15 अहिगारिणो य पंच ५ य इयरे पंचेव ५ पंच ५ पडिसेहा ।
एगोवग्गहु १ पंचाभिहाण ५ पंचेव ५ आहरणा ॥ [१६०]

आसायण तिचीसं ३३ दोसा वचीस ३२ कारणा अट्ट ।
वाणउयसयं ठाणाण वंदणए होइ नायच्यं ॥ [१६१]

‘मुहणंतयं’ मुहुंती कहियइ, तेह नी पंचवीस पडिलेहण । देहु सरिरु तेह तणी पंचवीस पडिलेहण ।

20 आवश्यक अवश्यकरणीय व्यापारविशेष ति पुणि पंचवीस ‘पणवीस हुंति पत्तेयं’ एह नउ अर्थुं ह्यउ ।
एयंकारइ धानक पंचहुत्तरि हूयां ।

§134) तथा हि-

दिट्ठिपडिलेहं एगा पप्फोडा तिन्नि तिन्नि अंतरिया ७ ।
अक्खोडा पक्खोडा नव नव २५ इय पुत्ति पणवीसा ॥ [१६२]

25 पायाहिणेण तिय तिय बाहुसु सीसे मुहे य हियए य १० ।
पिट्ठीइ हुंति चउरो ४ छप्पाए ६ देह पणवीसा ॥ [१६३]

आवश्यक पंचवीस यथा-

दोणयं २ अहाजायं १ किइकम्मं वारसावयं १२ ।
चउसिरं ४ तिगुचं २ दुपवेसं २ एगनिक्खमणं १ ॥ [१६४]

30 §135) विअचनाम जिणि हुयइं सु ‘दोणयं’ कहियइ । तथा हि-‘इच्छामि सत्ताममणो वंदिउं जायणिजाए निसीहियाए’ इसउं भणी गुरुच्छंद अणुजाणाविधा कारणि एकु अवनामु, एवं बीजी वार बीजउ अवनामु २ । यथाजातु निम जातु जन्मु हुयइ तिम थिकं वांदणउं बीजइ तिणि करणि यथाजातु

कहियइ, विहुं जन्म नी अपेक्षा करी यथाजातु हाथे जोडिए जामइ इणि कारणि हाथे जोडिए वांदणउं दीजइ, तथा ओघइ मुहुंती लीषी यति हुयइ इणि कारणि ओघइ मुहुंती लीषी वांदणउं दियइ, इसउ 'जहाजायं' एह नउ अर्थु । 'किइकम्मं' कृतिकर्म इसउं वांदणा रहई नामु 'वारसावयं' वारह आवत्तं फरोछासरूप हुयइ इणि वांदणइ इणि कारणि 'वारसावयं' कहियइ १२ । तीह नउं स्वरूपु जेतीवार 'अहोकायं काय' इत्यादि आलापक तणउ अर्थु लिखीसिइ तेतीवार कहीसिइ । चत्तारि शिर जिणि हुयइ सु ५ 'चउसिरं' कहियइ । यथा—'खामेमि खमासमणो' एह आलापक तणइ भणनसमइ एकु अवनमतउं शिष्य तणउं सिरु, वीजउं अवनमतउं गुरु नउं शिरु, एव वीजइ वांनणइ पुणि वि शिर एवं शिर ४ । अथवा 'कायसफास' एह आलापक भणतां एकु अवनमतउं शिरु । 'खामेमि खमासमणो' एह आलावा भणतां वीजउं शिरु । एवं वीजइ वांनणइ पुणि वि शिर । एवं चत्तारि शिर शिष्यही जि संबंधियां हुयइ ४ । 'तिगुत्तं' मनोगुमु वचनगुमु कायगुमु ३ । 'दुपवेसं' वि प्रवेश जिणि हुयइ सु दुपवेसु कहियइ । अवमह 10 माहि एकु प्रवेशु एक वांनणइ, वीजउ प्रवेशु वीजइ वांनणइ २ । 'एगनिक्खमणं' एकु निःक्रमु जिणि हुयइ सु एगनिक्खमणु कहियइ । पहिलइ वांनणइ अवमह हूतां नीसरियइ वीजइ वांनणइ न नीसरियइ इणि कारणि एगनिक्खमणु कहियइ १ । एवंकारइ-पंचवीस आवश्यक हुयइ । छ स्थान ६, छ गुरुवचन ६, अवमहु एकु १ । आशातना ३ त्रेत्रीस ए छइतालीस थानक सूत्र सरसाई जि वर्याणीसिइ । एवंकारइ एकवीसउं सउ थानक कहियां । 15

§136) अथ शेषथानक कहियइ—

विणओवयारु १ माणस्स भंजणा २ पूयणा गुरुजणस्स ३ ।

तिथ्यराणा य आणा ४ सुयधम्माराहणा ५ अकिरिया ६ ॥ [१६५]

विनउ अमुत्थाना-ऽऽसनदानादिकु तउ जु उपचारु वशीकरणु विणओवयारु १ । 'माणस्स भंजणा' मारु अहंकारु तेह तणी भंजना खंडना २ । 'गुरुजणस्स पूयणा' गुरुजनु ज्ञानदानकारकु लोक्कु तेह तणी 20 पूयणा पूजा ३ । 'तिथ्यराणा य आणा' तीर्थकर तणी आजा ४ । 'सुयधम्माराहणा' श्रुतधर्म तणी आराधना ५ । अकिरिया मोक्ष ६ । ए छ वांनणा तथा गुण । वंदनदानयोग्य पांच अधिकारिया ।

यथा—

आयरिय १ उवज्जाए २ पवत्त ३ धेरे ४ तहेव राइणिए ५ ।

एएसिं किइकम्मं कायच्चं निजरट्टाए ॥ [१६६] 25

आयरिय उवज्जाया पूर्वहिं जिम नमस्कार माहि कहिया तिम जाणिया । प्रथर्तक तणउ स्वरूपु कहियइ—

तव—संजमजोएसु जो जुगो तत्थ तं पवत्तेइ ।

असहं च नियत्तेई गणतत्तिल्लो पवत्तीए ॥ [१६७]

अथ शचिरस्वरूपु कहियइ—

थिरकरणा पुण धेरो पत्तवानारिएसु अत्थेसु ।

जो जत्थ सीयइ जइ संतपलो तं थिरं कुणइ ॥ [१६८]

अथ रत्नाधिकस्वरूपु कहियइ-रत्नाधिक रहइं गणावच्छेदकु इसउं वीजउं नामु-

उद्धावणा-पहावण-खिचोवदिमगणासु अविसाई ।

मुत्तत्य-तदुभयविऊ गणावच्छेओ एरिसो' होइ ॥

[१६९]

उद्धावणा उच्यतविहारु, पहावणा तीर्थोन्नतिकरणु, खित्तु क्षेयु वसति, उपधि माधूपकरणपरंपरा
5 तीह नी मार्गणा दोपरहितगावेपणा तीहं नइ विपइ अविसाई आलस्वरहितु, एकु सूयु धरइ अर्थु न धरइं,
एकु अर्थु धरइ सूयु न धरइ, जु वे धरइ सु सूवार्य तदुभयविऊ कहियइ इसउ जु हुयइ सु गीतार्थु
रत्नाधिकु कहियइ । 'गणावच्छेओ एरिसो' होइ' सु इसउ गणावच्छेदकु कहियइ-रत्नाधिकु कहियइ ।
चूर्णिं माहि कहिउं यथा "अन्ने भणति-अन्नो वि जो तहाविहो राइणिओ सो वंदियव्यो" । "राइणिओ
सो जो नाण-दंसण-चरणसाहणेसु अइउज्जुओ" अतिउत्साहयंतु ।

10 §137) अथ कारण तणइ धमावि जि वांदिवा योग्य न हुयइं पांच अनधिकारिया ति
कहियइं-

पासत्यो' १ ओसन्नो २ होइ कुसीलो ३ तहेव संसचो ४ ।

अहच्छंदो ५ वि य एए अवंदणिजा जिणमयम्मि ॥

[१७०]

ज्ञानादिकहं तणइ पार्थिं समीपि तिष्ठइ रहइ इणि कारणि पार्थ्यु कहियइ ।

15 सो पासत्यो दुविहो सव्वे देसे य होइ नायव्यो ।

सव्वम्मि नाण-दंसण-चरणणं जो उ पासम्मि ॥

[१७१]

देसम्मि य पासत्यो सिज्जायरअभिहडु रायपिंडं च ।

नीयं च अग्गपिंडं भुंजइ निकारणे चैव ॥

[१७२]

20 सिज्जायरु वसतिसामी' तेह तणइ परि जु विहरइ असनादिकु सु सिज्जायरभिहडु' । जु राजपिंड
जु भोगवइ । तथा 'नीयं च' नीच अच्छोपकुल रजकादिक तीहं संबंधिउं पिंडु नीचपिंडु कहियइ सु नीचपिंड
जु भोगवइ । तथा अमपिंडु अमवलि शिखाधान्यु नैवेचु कहियइ, जु अमपिंडु भोगवइ सु एवंविधु साधु
देशपार्थ्यु कहियइ ।

कुलनिस्साए विहरइ ठवणकुलाणि य अकारणे विसइ ।

संखडिपलोयणाए गच्छइ तह संयवं कुणइ ॥

[१७३]

25 ए माहरा कुल इसी परि जु कुलनिश्चा करी विहरइ, आचार्यादिकहं निमित्ति स्थापित जि छई
कुल तेहे कुले कारण पाखइ जु 'विसइ' भिक्षानिमिति पइसइ' । 'संखडिपलोयणाए' संखडि विशेषमक्त
व्यापारगुहू तेह तेणी अवलोकना करी जु विहरइ तथा गृहस्यसंस्तु जु करइ गृहस्य सउं मैत्री जु करइ
सगल्ल देशपार्थ्यु कहियइ ।

§138) क्रिया नइ विपइ थाकइ इति अवपणु' किसउ अर्थु ? शिथिलता करी मोक्षमार्ग

30 श्रांतु अवपणु । यथा-

ओसन्नो वि य दुविहो सव्वे देसे य तत्य सव्वम्मि ।

उच्चद्वपीठफलगो ठवियगभोई य नायव्यो ॥

[१७४]

आवस्सय-सज्जाए पडिलेहण-ज्ञाण-भिक्षुमत्तद्धे ।

आगमणे निग्गमणे ठाणे य निसीयणे तुयद्धे ॥

[१७५]

आवस्सयाईं न करे अहवा च करेइ हीणमहीयाईं ।

गुरुवयणं च विराहइ भणिओ एसो य ओसन्नो ॥

[१७६]

§139) कुत्सितु ज्ञानादिविराधकु शीलु स्वभावु जेह रहइ हुयइ सु कुशीलु कहियइ । यथा- 5

कालविणयाइरहिओ नाणकुसीलो य दंसणे इणमो ।

निस्संकियाइविजुओ चरणकुसीलो इमो होइ ॥

[१७७]

कोउय-भूईकम्मे पसिणापसिणे निमित्तमाजीवी ।

कक्कुरुयाइलक्खण उवजीवइ विज्जमंताई ॥

[१७८]

§140) असंविग्गसंगइतउ जु तद्भावु जाइ सु संसक्कु कहियइ । यथा- 10

पासत्थाईएसुं संविग्गसुं च जत्थ मिलिओ उ ।

तहिं तारिसउ होईं पियधम्मो अहव इयरो य ॥

[१७९]

§141) 'गुरु-आगमनिरविक्षो' जु गुरुनिरपेक्षु¹ आगमनिरपेक्षु¹ थिकउ सर्वकार्य विपइ आपणी इच्छा तणइ अनुसारी प्रवर्तइ सु यथाच्छंदु कहियइ । यथा-

उत्सुत्तमणुवइइं सच्छंदविगप्पियं अणुणवाई ।

परतत्तिपवत्ते तंतिणे य इणमो अहाच्छंदे² ॥

[१८०]

पासत्थाई वंदमाणस्स नेव किची³ न निज्जरा होइ ।

कायकिलेसं एमेव कुणइ तह कम्मबंधं च ॥

[१८१]

दृष्टांत पांच यथा-

दच्चे भावे वंदण १ रयहरणे २ वत्त ३ नमण ४ विणएहिं ।

सीयल १ खुडुय २ कन्हे ३ सवय ४ पालय ५ उयाहरणा ॥

[१८२]

§142) द्रव्यभाववंदन विपइ शीतलाचार्य दृष्टांतु ।

एषा राय नउ पुत्रु सीतलु इसइ नामि हंतउ । ए पुणि कामभोगइ हंतउ¹ नवीनउ एक² आचार्य समीपि दीक्षा प्रपन्नु ह्यउ । तेह नी एक वहिन अनेरइ राइ एकि³ परिणी । तेह ना चियारि⁴ पुत्र ह्या⁵ । तीहं आगइ तीह नी माता कथांतरालि कहइ 'तुम्हारइ⁶ माउलइ दीक्षा लीथी छइ' । इसी परि कहती⁷ 25 तेह रहइ घणउ कालु गयउ । तेईं अनेरइ दियसि गुरुषादमूलि दीक्षा लेईं गीतार्थ ह्या⁸ । चत्तार वि बडुसुया जाया । आचार्य पृथी करी मातुल बांदिया गया । एकि⁹ नगारि माउलउ सांमलितु तिहां गया । विकालो जाउ त्ति काउं नगरपाहिरि रहिया । श्रावकु एकु नगारि जायतउ तेईं भणिउ, 'सीतलाचार्य¹⁰ आगइ कहेहि, तुम्हारा भाणेउ तुम्ह बांदिया आवइं छइं, विकाल भणी राति न आवियाईं, प्रभाति आवि-सिइं¹¹ । आचार्य तीहं नी आगमन पाउ सांभली करी हरपिया¹² । तीह चउइं¹³ रहइं राति समइ शुभ-30 ध्यानयसइतउ केवलज्ञानु ऊपनउं । प्रभाति आचार्य दिसानलोक्नु करइं । इयदाईं¹⁴ जि मुहूर्ति एकि

§139) 1 Bh -अनीरा; §141) 1 B. drops-र; 2 B Bh. वसुपु-; 3 Bh -च्छेरो; 4 B. Bh. शीतो; §142) 1 Bh. ह्यउ; L ह्यउ; 2 P. एकि; 3 P. omits; 4 L च्यारि; 5 P. ह्या; 6 Bh. तुम्हारइ; 7 Bh. कहति; 8 L ह्या; P. ह्या; 9 Bh. एक; 10 L शीतला-; 11 L. आविस्पर्; 12 P. हरिया; 13 Bh विहं; 14 Bh L दानं; Bh -इ;

आविसइ,¹³ पोरिसीसूत्रि¹⁴ काट्टिइ हूंतइ आविसइ,¹⁵ पहरिहि जउ न आवियाई तउ देवकुलि आचार्य आविया । ति वीतराग हूया इति आदरु आचार्य रहइ करइ नहीं, आचार्य¹⁶ दंढकु ठकी¹⁷ करी¹⁸ इरियावही¹⁹ पडिक्कामिया, आलोइ हूंतइ कइइ-कइं वंदेमि ? ते भणंति-जहिं ते रोयइ । तउ आयरिओ चितेइ, अहो दुट्टसीसा एए जओ भणिया वि उज्जुयं न भणंति न य लजंति, तहां वि रोसवसगओ अंतरा 5 जलंतो वि वंदेइ, चउसु वि वंदिएसु बहुपरं पजलेइ । केवली किल पुण्यपडिवत्ति न लोवेइ, जाव न नजइ एस केवलि चि । तेसु पुण पुण्यपडिवत्ती नत्थि परुपरं दंसणअभावइतउ । तओ भणंति, 'दव्ववंदणेणं वंदिया, इयाणिं भाववंदणेणं वंदइ' । 'किसी परि तुम्हे जाणह किं अइसओ को वि. अत्थि' ? ते भणंति, 'वाढं²⁰ अइसओ अत्थि' किं छाउमत्थिओ अथ केवलिओ ? ते भणंति, 'केवलिओ' ।

§143) तओ आयरिया आणंदपरियहियया जाया¹ चित्ते चितंति, 'अहो ! मंदभगेण मए केव- 10 लिणो आसाइया' इति संवेगमागओ संतो भावओ संभंतलोयणो वंदणं दाउं पउत्तो । वांदणउं देयता हूता इसउं कांई एकु ध्यातु हूयउं जिसइ अपूर्वकरण गुणस्थान समारोहण क्रमि करी चउथा² साधुवंदनकु³ देयता हूता केवलज्ञानु उपनउं । काइया चेत्ता जिसी पूर्वहिं, पाछे तिसीय जि । परं भावविसेसउ फलविसेसो महागहूओ । 'एगसस वंधहेतु एगसस मुखहेतु' । पढमं दव्ववंदणं वीयं भाववंदणं । पढमो दिट्ठंतो जाओ ।

§144) अह अणंतरं धीओ भन्नइ¹ । द्रव्यवंदनि रजोहरणाधिधारणि भाववंदनि ज्ञानाधिधारण- 15 रूपिं झुल्लाचार्यकथा । तथा हि-

एकु झुल्लु लक्षणजुक्तु जाणी करी आचार्य एकि अंतसमइ² आपणइ पाटि³ वइसालिउ । सन्वे साहुणो तस्स झुल्लागयरियस्स⁴ आणानिदेसपरा⁵ जाया, तेसिं गीयत्थाणं येराणं⁶ पायमूले पढइ । अन्नया मोहणिज्जेणं वाहिज्जमाणो भिक्खागएसु साहूसु अप्पवीओ सन्नामित्सेणं विगयचरणपरिणामो वाहिं 20 नीहरिओ । एगदिसाए गच्छइ परिसंतो संतो⁷ वणसंडे कम्हिं⁸ परियसइ । तस्स पुण्णिकयफलियस्स वणसंडस्स मच्चे एगसस समीरुक्खस्स पीढं वढं । लोणो तस्स पूयं पकरेइ⁹ । तिलक-बहुलाईयं¹⁰ न किंचि वि करेइ । तं दइणं सो चितेइ 'एयस्स पीढस्स गुणेणं एयस्स समीरुक्खस्स'¹¹ पूया किज्जइ । ताहे सो भणइ लोणं 'एए किं न अचेह ?' लोणेणं भणियं 'पुण्वेहिं एयस्स चेव पूयणं कयं तेणं एयस्स केर जणो पूयं करेइ' । तस्स वि झुल्लागयरियस्स¹² चित्ता जाया 'जारिसो समीरुक्खो तारिसो अहं, अज्जे 25 वि तव्य रायपुत्ता इचभपुत्ता बहुसुया आसि । ते न आयरिएहिं¹³ नियए पए ठविया अहं ठवियो, ममं पूयंति । कत्तो ममं¹⁴ समणत्तं¹⁵ ? रयदरणगुणेणं वंदंति' पडिनियत्तो । साहुणो भिक्खायरियाओ आगया । आयरियं न लहंति, सुइ¹⁶ वा पत्तिं¹⁷ वा न लहंति ताव आयरिओ आगओ । आलोएइ, 'जहा अहं सन्नाभूमिं गओ, तत्थ सूळवेगेणं पडिओ रहिओ, इयाणि उवसंते सूले¹⁸ आगओ' । सन्वे साहुणो हरि-सिया जाया । तओ पाछइ आपणउं अभिप्राउ,¹⁹ गीयत्थाणं आलोइत्ता पायच्छित्तं पडियजित्त सुद्धो

§142) 15 L आविसइ । 16 L पोरिसी- । 17 L आविसइ । 18 Bh. L. P. आवार्यह । B. had-ई but it is erased. 19 Bh. L. ठकीउ । 20 Bh. L. omit. 21 Bh. L. इरियावहीया । 22 P. वाउउ । §143) 1 P. drops words between आय.....हियया ; haplography. 2 L drops न- । §144) 1 P. भण्यइ । 2 L-धारणि । 3 P. अति । 4 Bh. has added अंत समइ in the margin after पाटि, thus changing the word-order. L. follows Bh. 5 P. झुल्ला- । 6 L. आण- । 7 L. विरण । 8 P. omits. 9 L. कम्हिं । 10 L. P. omit -प । 11. P. drops -क- । 12. P. एयदवसस । 13 P. गुत्ता । 14 L. आवरियएहिं । 15 Bh. ममं । 16 P. सरणत्तं । 17 P. सुये । 18 Bh. L. P. पडति । 19 P. सुद्धे । 20 L. अभिप्रायु ।

जाओ। तस्य पुत्रं लोभेण दृष्ट्वाओ वंदणं कयं पच्छा भावओ वंदणं कयं अथवा तस्य पुत्रं दृष्ट्वासंजमो
आमि पच्छा भावसंजमो। जाओ वीजउ दृष्टांतु।

§145) आरत्तादिहृतकर्मविपद कृष्यु दृष्टांतु। तथा हि-

चारुपईए नारीए वासारत्ते मामी नेमिनाहो समोसडो। कन्हेण पुट्टो, 'भयं! वासारत्ते माहू
कीस न विहरंति?' सामी भणइ, 'यामामु बहुजीया पहुवी हवइ तेण न चरंति साहृणो'। तओ कन्हो^८
अंतेउरम-ज्ञगओ वासारत्तं गमेइ^९। वीरो नाम कुर्विदो हरिभत्तो तस्य षट्ठइ। सो अंतेउरे पवेसं अलहंतो
दारं पूहय वषइ हरिदंमणं विणा न जिमइ। वित्ते यान्मारत्ते रायाणो वीरओ य संपत्ता। हरिणा वीरओ
पुट्टो, 'किं वीरय! अईउ दुच्चलो दीससि?' दारवालेहिं जहावित्ते कहिए अकररलियपवेसं वीरयं काउं
सामिणो नेमिनाहस्स सपरियणो वंदणत्थं पत्तो कन्हो^{१०}। वंदिऊण सामिपायमूले उरविट्टो। जइधम्मं
मोऊण^{११} हरी एं विम्वेइ, 'भयं!' जइधम्मं काउं न रमो अम्हि, तइ वि जे अत्रे ययं गिन्दिहस्संति'^{१२}
तेमिं धणुमोयणं करिस्सामि, दिक्कामहूक्षं च करिस्सामि, नियपुत्तम वि पुत्तियाए वा पयगहणनिसेहणं
न^{१३} करिस्सामि'। इयं नियमं गहिऊण गिहे आगओ। अन्नया विवाहजुग्गाओ वन्नयाओ पायवट्टियाओ
एवं भगइ, 'वच्छा'^{१४}! सामिणीओ अहवा दासीओ हविसइ?' ताओ भणंति 'अम्हे सामिणीओ भवि-
स्सामो'। कन्हो भणइ, 'तो नेमिपासे दिक्कं' गिन्दिह^{१५}। आमं ति ताहिं भणिए निक्खमणमहामहिमं
काउं पयावेइ।

18

§146) एगाए देवीए हरिपासे पेसिया निया वन्ना सिक्खविऊण, तओ मा कइइ, 'अहं दासी
मयिग्गामि'। इमं सोऊण कन्हो चित्तेइ, 'अत्रा' वि मा गुणउ एरं, ता' वेगं सन्निओ वीरओ नियं चरियं
कइइ पन्धम्म अग्गे। तफहियं सोऊण धीयदिणे हरी अत्याणगओ कइइ 'भो भो मग्गे मामंता!' वीरय-
चरियं^{१६} गुठं च निमामेइ।

जेण रत्तप्फणो नागो वसंतो चदरीरणे'।
आहओ पुहविमन्थेण वेमई नाम रत्तिओ' ॥
जेण चस्सुग्गमा गंगा वहंती कलुमोदगं।
धारिया वामपाण्ण वेमई नाम रत्तिओ' ॥
जेण घोमवई सेणा वसंती कलसीपुरे।

[१८३]

20

[१८४]

१९२८१

पडिभणइ, 'कोलिया! अप्पं न मुणसि'¹⁵ वीरणं रज्जुएणं वाढं ताडिया। तओ'¹⁶ सा रुयमाणी गिहे गंतुं कन्हस्स सव्वं साहइ। कन्हो भणइ, 'तए सामित्तं मुत्तुं दासत्तं मरिगयं'। मा भणइ, 'ताय'¹⁷! इन्दि पि मज्झ सामित्तं छुणसु'। हरी भणइ, 'जइ वीरओ मन्निरसउ एव'। तओ तीए वाढं अन्नस्थिओ कन्हो वीराओ मोडउण तं पन्वावेवं पटुणा, निक्खमणमहूसव्व'¹⁸ बंछइ।

- 6 §147) अन्नया सामी समोसरिओ। रायां निग्गओ। अट्टारस वि समणसाहरसीओ वासुदेवो वंदियकामो भट्टारयं पुच्छइ, 'अहं साहू कयरेणं वंदणेणं वंदामि?' 'केण पुच्छसि?' 'दव्ववंदणेणं भाववंदणेणं वा? जेणं तुम्हे वंदिया होह' तेणं वंदणेणं वंदियं वंछामि'। सामी पभणइ, 'भाववंदणेणं'। ताहै सव्वे साहुणो वारमावत्तवंदणेणं वंदइ। कन्हो बद्धसेओ जाओ। अन्नरायाणो जहा जहा परिस्संता तहा तहा अंतराले चैव ठिया'। वीरओ वासुदेवाणुवित्तीए सव्वे वंदेइ। भट्टारयं पुच्छइ कन्हो, 'भयवं'! मए 10 त्रिन्दि सइ¹⁹ साठ संग्राम कीथा, पुणि इंसउ²⁰ थाकउ नहीं जिसउ ह्यडा²¹ बांदणउं देयतउ थाकउ'। सामी पभणइ, 'तुमए खाइयं सम्मत्तं अज्जियं, एयाए सट्टाए तित्थयरनामकम्मं निव्वत्तियं, सत्तमीए²² पुढवीए बद्धं आवकम्मं' निंदण-गरिहणाए उव्वेढंतेण'²³ तइयपुढवीए पाउगं कयं²⁴। तओ भणइ, 'वीयवारमवि वंदामि जेणं तइयनरयाओ छुट्टामि'। सामी भणइ, 'अओ परं दव्ववंदणं भवइ'।

भाववंदणे कन्हो दिहंतो। दव्ववंदणे वीरओ दिहंतो।

- 15 §148) शिरोवनामपूजायां सेवओ दिहंतो। यथा-

- एगस्स रज्जो²⁵ दो सेवगा। तेसि आसन्ना गामा। सीमानिमित्तं संगामो जाओ। ताहै रायसमीं नगरे गया। गच्छंतेहिं तेहिं मणो साहू समागच्छंतो दिट्ठो। तत्येगो भणइ, 'साधुदर्शने ध्रुवा सिद्धिः'। तिपयाहिणं काऊण वंदित्ता गओ। वीओ²⁶ साहू उगघट्टयं करेइ, सो वि उवहासेणं वंदइ। गया रायसमीये। वयहारो जाओ। पढमेणं जियं, वीएणं पराजियं। पढमसेवगस्स भाववंदणं। वीयसेवगस्स दव्ववंदणं।

20 सेवककथा।

- §149) विनयकर्मविपड शंभ-पालक कया। यथा भयवं नेमिनाहो वारयईए²⁷ पुणो समोसदो। कन्हस्स पाहुडे²⁸ वरतुरंगमो आगओ। तथा²⁹ हरिणा नियपुत्ता शंभ-पालगा भणिया, 'जो पढं मारिं पणमिस्सइ तस्स इमं तुरंगमं दाहामि'। तओ संवो पभायसयए सिज्जाओ उट्टिउं गिहे संठिओ चैव थुइ-थुत्त-मंगलार्इहिं³⁰ भावओ मामि पणमेइ। लोभाभिभूयचित्तो पालओ राईए षड्दयपहरे उट्टिऊण 25 अमवसिद्धीओ समवसरणे गंतुं मणेणं उक्कोसेइ, वाहिरवित्तीए³¹ सामिं वंदइ, जंपइ, 'हरिसम पुच्छंतवयस्स पट्टु सक्खिओ' हुज्जा³² इय भणिऊण नियत्तो, मिलिओ मग्गंमि वेसवस्स, तओ भणइ, 'मट्टु' देसु आसं सामी मए वंदिओ पुवं'। राया जंपइ, 'को इत्थ सक्खिओ?' मो भणइ, 'नेमिजिणो सक्खिओ'। ता पत्ता ओसरणे, पट्टु³³ वंदिऊण उव्विट्ठा। हरिणा पुट्टो सामी, 'तुम्हे पढं केण वंदिया?' मामी भणइ, 'दव्वेणं'³⁴ पालएण वंदिया, भावेणं पुण संयेण वंदिया अम्हे'। तओ तुट्टेणं³⁵ हरिणा संवस्स दिज्जे 30 वरतुरंगमो, अन्नमवि मणरुत्तियं दत्तं तम्म सव्वं। 'भावविहीणु' नि वाउं पालओ³⁶ निष्ठासिओ³⁷।

§146) 15 L. जुवेत्ति; 16 B तउ; L. तउ; 17 L. ता; 18 P adds वाउं; §147) 2 P. होरे। 2 L. omits. 3 P. विस्मियइ; 4 B. omits 5 P. इवउ; 6 L. एगए; 7 P. काउकम्मं; 8 P. उव्वेढंतेण। 9 Bh. तद्वया-; 10 P. has कउमववं; §148) 1 L. एग; 2 P. ग्गो; 3 L. वीरओ; §149) 1 P. वारवई; 2 L. पाहुडे; 3 Bh. L. तइया; 4 B. हिले; 5 L. जुप; 6 L. -वतिए; 7 Bh. विस्मियओ; 8 Bh. थुइ; P. मह; 9 P. पडु; 10 Bh. दव्वेणं; 11 L. हट्टेणं; 12 P. has वाओ पाल; 13 P. निष्ठासिओ।

भाव-द्वन्द्ववदणद्विष्टता सन्वे संपुत्रा ॥

वन्दनकनामानि पंच । यथा-

वंदण १ चिह्न-२ किङ्कमं ३ पूयाकमं ४ च विणयकमं च ५ ।

वंदणगस्त य एण नामाहं हवति पंचेव ॥

[१८६]

§ 150) वंदनकस्य पंच निषेधा यथा-

वक्खित्त १ पराउत्ते २ पमत्ते ३ मा कयाह वंदिज्जा ।

आहारं च करंतो ४ नीहारं वा जह करेइ ॥ ५

व्याक्षिप्तु व्याख्यान-प्रतिखेखनादिकहं करी । 'पराउत्ते' पराङ्मुखु । प्रमत्तु निद्रा-शिष्यशिक्षादानकोपवत्ता करी । शेषं स्पष्टम् ।

§ 151) दोष वत्रीस यथा-

अणाढियं १ च थद्धं २ च पविद्धं ३ परिपिडियं ।

टोलगइ ५ अंकुसं ६ चेव तथा कच्छवरिगियं ७ ॥

[१८७]

मच्छुव्वत्तं ८ मणसा पउट्टं ९ तह य वेइयावद्धं १० ।

भयसा चेव ११ भजंतं १२ मित्ती १३ गारव १४ कारणा १५ ॥

[१८८]

तेणियं १६ पडिणियं १७ चेव रुट्टं १८ तज्जियं १९ एव य ।

सटं २० च हीलियं २१ चेव तथा विप्पलियं २२ ॥

[१८९]

दिट्ठमदिट्ठं २३ च तथा सिंगं २४ च कर २५ मोगणं २६ ।

आलिद्धमणालिद्धं २७ ऊर्णं २८ उत्तरचूलियं २९ ॥

[१९०]

मूर्यं ३० च ढहरं ३१ चेव चुडलियं ३२ च अपच्छिमं ।

वत्तीसदोसपरिसुद्धं किङ्कमं पउंजए ॥

[१९१] 20

अणाढियमिति । जु आदर पाखइ वांदणउं सु अनाएतु 'अणाढियं' कहियइ १ । 'थद्धं' देहि मनि विनयरहिति जु वांदणउं सु स्तब्धु २ । पविद्धमिति । ओरहां परहां जायतां हूतां जु वांनणउं सु पविद्धु ३ । परिपिडियमिति । घणा जि हुयइ वंदनीय तीहं सपही रहउं समकालु जु वांदणउं सु परिपिडितु अथवा संपिडित कर चरण हंतव वांदइ अथवा अव्यक्त वर्णसमुधारणु करतउ जु वांदइ सु 'परिपिडिय' कहियइ ४ । 'टोलगइ' इति । टोलु तीखु तेह जिम ऊठली ऊठली जु वांदइ सु 'टोलगइ' ५ हाथि साही गुरु वइसाली वादता हूतां अंजुसु ६ । साधु नी अपेक्षा रजोहरणु अंकुस जिम आगइ करी वांदता अंजुसु ६ । काछवां जिम आगइ पाछइ चालतां वांदतां 'कच्छवरिगियं' कहियइ ७ । मत्स्य जिम उट्टेहनु करतां वांदतां हूतां परावतनु करी अथवा अनेरउ वांदतां मत्स्योद्धु ८ ।

§ 152) मनसा प्रद्विष्टं जु गुरु ऊपरि द्वेषु वहतां मन माहि वादणउं दीजइ सु मनसा पउट्टु कहियइ ९ । वेदिकायद्धु पांच भेदे यथा-गोडा ऊपरि वाहु निवेसी करी वांदतां १, अधोनि-३० वेसी २, उत्संगि सुहणी निवेसी ३, एक जानु विद्धं वाहु माहि करी वांदतां ४, वि जानु वाहु माहि करी वांदतां ५ वेदिवायद्धु १० । भयसा चेर संप-कुल-गच्छथहिर्निष्ठासनमय करी वांदतां भयवंदनु ११ ।

भजंतं भजमानं 'मू रहइं भजइ सेवइ इउ' इति वांदइ सु भजंतु १२ । 'मित्तु मू रहइं आचायु' इति कारणि वांदइ अथवा 'मू रहइं एह सरसी मैत्री हुयउ' इसी बुद्धि करी वांदतां मैत्रीदोषु १३ । 'मू रहइं समाचारीचतुई जाणउं' इसी परि गर्वपूर्वकु जु वांदणउं सु गौरवदोषि दुट्टु गोरु १४ । कारणु पख-पात्रलाभादिकु तेह निमित्तु वांदतां कारणदोषु १५ । लाघनभय वसइतउ प्रच्छन्न होई वांदतां तैतिकु १६ ।

० § 153) आहारादि करतां गुरु वांदतां प्रत्यनीकु १७ । क्रुद्धु गुरु वांदतां रुपु अथवा सकोपि मनि वांदतां रुपु १८ । 'न कोपु करिसि न पसाउ करिसि तइं वांदइ किसउ छइ' इसउं कहतां वांदतां तर्जितु १९ । शठं विश्वासकारणि मायापूर्वकु वांदवा शठु २० अथवा ग्लानता मिसि करी असम्यग् वांदतां शठु २० । 'हीलयं' इति । आचार्यं प्रवर्तक रत्नाधिकु इत्यादि उपहासवचनपूर्वकु वांदतां हीलितु २१ । विपरिकुंचितु देशादिकथा करतां वांदतां विपरिकुंचितु २२ । दृष्टादृष्टु अंधकारि आवर्त्तादि जिणि वांदणइ 10 न फरइं प्रकाशि करइ सु दृष्टादृष्टु कहियइ २३ । आवर्त्तं समइ वामदक्षिण शिरःशृंग परसतां हूतां शृंग २४ ।

§ 154) करु राजमाहु भागु तेह दीधा पाखइ छटियइ नहीं, वांदणउं पुणि करबुद्धि करी देयतां हूतां करु २५ । मोचनु 'वांदणा दीधा पाखइ इउं मेरिइउं नहीं' इति मोचन निमित्तु वांदतां मोचनु २६ । आश्रिष्टानाश्रिष्टु चउं प्रकारइ हुयइ-वेती ही धार गुरुपादइं अथवा मुहुंती हाथ 15 लगाइइ ललाटि न लगाइइ ? ललाटि लगाइइ गुरुचरणइं न लगाइइं २, केती ही धार बिहुं न लगाइइं ३ बिहुं लगाइइं ४ वि भागा आश्रिष्टानाश्रिष्टु श्रीजउ अनाश्रिष्टु चउथउ रूठउ २७ । व्यंजन अक्षर आवश्यक पूर्वहिं अणियां तीहं करी परिपूर्णु जु न हुयइ सु न्यून २८ । द्वादशायलु वांदणउं दे करी अनइ वली लमासमणु दे करी जउ वांदइ तउ उत्तरचूलियं कहियइ २९ । मूयं चेति । मूक जिम अव्यक्त वर्णा ऊचरतां जु वांदणउं दीजइ सु मूकु ३० । मोदइ कठोरस्वरि जु वांदणउं दीजइ सु ढङ्कुरु 20 ३१ । चुडलियं चेति । चुडुली ऊंवाडु तेह जिम रजोहरण धरतां वांदतां चुडुलिउं अथवा हाथ ऊंवाड जिम भमाडी सवइ वांदउं इसउं भगतां चुडुलिउ अपच्छिन्म-वरीसमउ दोषु कहियइ ३२ । इति वरीस कृतिकर्मदोषरहितु कृतिकर्मु वांदणउं 'पउंजए' किसउ अर्थु ? प्रयुक्के दियइ इसउ अर्थु ।

कियकम्मं पि कुणतो न होइ किइकम्मनिज्जराभागी ।

वत्तीसामन्नयणं साहू ठाणं विराहितो ॥

[१९२]

25 वत्तीसदोसरहिणं किइकम्मं जो पउंजइ गुरुणं ।

सो पावइ निव्वाणं अचिरेण विमाणवासं वा' ॥

[१९३]

§ 155) कारण आठ, यथा-

पडिकमणे १ सज्जाए २ काउस्मग्गा ३ ऽपराह ४ पाहुणए ५ ।

आलोयण ६ संवरणे ७ उत्तमद्वे य वंदणयं ॥

[१९४]

30 सगळं अनुष्ठानु प्राइहिं सापु उदिसी कहिउं, आवकरइउं पुणि जु योग्यु हुयइ सु जाणियउं । तथाहि-पडिकमणइ भावमिहिं वादणउं देवउं । 'चत्तारि पडिकमणे किइकम्मइ' इसा आगमयचनइतउ । 'सज्जाओ' सिद्धांतवाचना अथवा साधु साध्वी योग एहतां सज्जाउ अनुष्ठानविशेषु करइ तिहां वांदणउं माधु

§152) 1 Bh. हुव । 2 Bh. चतुरता । 3 जाणउ । §154) 1 Bh. drops till next पुट्टयि ।

2 Bh. च । §155) 1 Bh. भावमिहि ।

साध्वी रहई संभवइ, श्रावक श्राविका रहई न संभवई । 'काउसग्ग' इति । विगइनियमप्रहणादिनिमित्तुं छइ काउसग्गु तेह कारणि वांदणउं साधु रहई संभवइ, श्रावक रहई पुणि यथासंभुतु जाणिवउं । अपराधक्षामणा श्रावकही रहई संभवइ इति तिहां वांदणउं श्रावकही रहई संभवइ । प्राधूर्णकवंदनु आलोचना वंदनु श्रावकही रहई घटइ । भक्तार्थी हुंतउ किणिहिं कारणि अभक्तार्थुं प्रत्याख्यान करइ सु संवरणु अथवा दिवसचरमु संवरणु तेह निमित्तु वांदणउं श्रावकही रहई संभवइ । उत्तमार्थु अंतसलेखना भवस्स चरमरूप ष तेह निमित्तु वांदणउं श्रावकही रहई घटइ ।

§ 156) दोष छ यथा—

माणो १ अविणय २ खिसा ३ नीयागोयं ४ अवोही ५ भववुद्धी ।

अनमंतस्स छ दोसा एवं अडनउयसयमहियं ॥

[१९५]

§ 157) विनयादिक छ गुण वांदणा तथा पूर्वहिं भणिया । अनेरउं पुणि वांदणा नउं फल्ल 10 उत्तराध्ययनसिद्धांत माहि सांभलियइ । तथा हि—

(प्र -) वंदणएणं भंते ! किं जणइ ?

(उ -) गोयमा ! वंदणएणं नीयागोयं कम्मं खवेइ । उचागोयं कम्मं वंधइ । सोहग्गं च णं अप्प-
दिहयं आणाफळं निव्वत्तेइ । दाहिणभावं जणइ ।

§ 158) अथ अनंतरु वंदनकसूत्रु बखाणियइ ।

15

आयप्पमाणमित्तो चउदिसिं होइ उग्गहो गुरुणो ।

अणणुन्नायस्स सया न कप्पए तत्थ पवेसिउं ॥

[१९६]

इसा वचनइतउ आत्मप्रमाणभूमि माहि गुरु तणी आत्ता पासइ पइसिवा कल्पइ नहीं, तिणि कारणि गुरु हुंतउ अहूटे हाथे वेगलउ आगइ ऊभउ होई 'इच्छामि रमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निस्सीहियाए मत्थएण वंदामि' इसउं भणी 'भगवन् । मुइपत्तिं पडिलेहेमि' इसउं कही पुनरपि 20 रमासमणु दे करी विधिवत् मुहुंती पडिलेहइ । तउ पाछइ ऊभउ अवनतोर्द्धगायु होई करी हाथि ओघउ मुहुंती मुइ आगइ धरी करी भणइ 'इच्छामि' इत्यादि । 'इच्छामि' ईछउं-अभिलखउं-वांछउं । 'खमा-समण' क्षमाश्रमण-क्षमाप्रधान श्रमण दशविध श्रमणधर्मसहित ! इसउं वंदनीक गुरु तणउं संवोधउ, हे क्षमाश्रमणसद्गुरो ! 'वंदिउं' वांदिवा । किसइ करी ? 'जावणिजाए' जपियइ कालु रपियइ इणि करी इति आपनीया उदधान । उपवेसनकरणसमयां । स कउण ? 'निस्सीहियाए' निपेणु पापव्यापारपरिहारु प्रयोजनु 25 जेइ रहई स नैपधकी तनु तिणि करी । एतलइ 'इच्छ' इसउं प्रथमु खानु । यथा—

इच्छा य १ अणुत्तरणा २ अब्बावाहं ३ च जत्त ४ जणया य ।

अवराहसामणा ६ वि य छ ट्ठाणा हुंति वंदणए ॥

[१९७]

शिष्य एतलइ भणइ हुंतइ जइ गुरु व्याक्षिणु हुयइ तउ भणइ संश्लेषिहिं वांदि । आवदयकचूर्णि अणइ वृत्ति माहि पुणि 'त्रिविधेन मनश्चनकायहं करी संश्लेषिहिं वांदि' इसउं भणिउं । तउ शिष्यु 30 संश्लेषिहिं वांदइ ।

§ 159) अब्बाक्षिणु पुणि 'छंदेण' इसउं भणइ इति पडिलउं गुरुचणु । यथा—

छंदेण १ अणुजाणामि २ तहत्ति ३ तुव्भं पि वट्टए ४ एवं ५ ।

अहमवि खामेमि तुम्हे ६ वयणाइं वंदणरिहस्स ॥

[१९८]

'छंदेण' नउ अर्थुं मूं रहइं निरावाधु एउ अर्थुं ।

§ 160) तउ शिष्यु बोळइ 'अणुजाणह' 'भे' 'मिउग्गहं' इति बीजजं थाणु । मूं रहइं अवमह नी
 5 अनुज्ञा दियउ । अवमह तणउ अर्थुं पूर्विहिं भणितु छइ । ईहां गुर्यचनु । 'अणुजाणामि' इति गुरु
 भणइ । अवमह तणी अनुज्ञा हउं दिउं छउं । तउ पाछइ शिष्यु अवमह माहि पइसी विधिवत् भूमि
 संढासा पढिलेही करी' वइसी करी गुरुपाद आपणउं ललाटु करहं करी फरसतउ हूंतउ 'अहो कायं
 काय-' इसउं पढइ । अवश्य जाणिना आवत्तं इति आवत्तंविधि कहियइ । मंदस्वरि 'अ' उच्चारणु करतां
 गुरुचरण फहं करी फरसथा फर आवत्तावी गुरुस्वरि 'हो' उच्चारणु करतां ललाटु फरसिवउं । इसी
 10 परि 'कायं काय' ए पुणि वि वि आरर उचरेया आवत्तं करिया । एवं आवत्तं त्रिन्दि । तथा
 'ज' मंदस्वरि 'त्ता' मध्यस्वरि ऊचरतां फर आवत्तावी 'भे' उच्चैःस्वरि ऊचरतां ललाटु फरसिवउं । एवं
 'जयणिजं च भे' ए पुणि त्रिन्दि त्रिन्दि अक्षर ऊचरतां आवत्तं करिया, एवं आवत्तं छ बीजइ धानणइ ।
 पुणि इसी परि आवत्तं छ । एवं आवत्तं वारह ।

§ 161) अधःकायु गुरुचरण तेह प्रति कायसंफासु माहरउ कायु हस् ललाट लक्षणु तिणि करी
 15 संस्सथुं तेह नी पुणि अनुज्ञा दियउ । इसी परि 'अणुजाणह' पद नी योजना ईहां पुणि करेवी । तउ
 'मत्तकि अंजलि करी गुरुमुखि दत्तदष्टि हूंतउ भणइ 'खमणिजो भे कलामो अपकलंताण वहु सुभेण
 भे दिवसो वइकंतो' । 'खमणिजो' एमेवउ-सहेवउ । 'भे' तुम्हे । छमु माहरां हाथ ललाट लागतां हूतां
 जु तुम्ह रहइं फट्टु हुयइ सु सहिवउ । तथा अपहंताइं निरावाधं 'वहु सुभेण' घणइ शुभि करी 'भे'
 20 तुम्ह रहइं दिवसु व्यतिक्रमिउ-गयउ । दिनमहणु रात्र्यादिकालोपलक्षणु इति बीजजं थाणु । अत्र
 गुरुवचनु 'तहत्ति,—'जिम वउं पूछइ तिम छइ' इसउ 'तहत्ति' नऊ अर्थुं ।

§ 162) बीजजं गुरुवचनु शिष्यु देहवार्ता पृठी करी संजमवार्ता पूछइ । 'जत्ता भे' यात्रा
 संयम सउज्ञायारूप 'भे' तुम्ह रहइं समुत्सर्पइ-हुयइ इति चउधउं थाणु । अत्र गुरुवचनु 'तुव्भं पि वट्ट'
 इति । मूं रहइं तां संयमयात्रा वत्तइ-हुयइ-छइ तुम्ह रहइं पुणि वत्तइ इसउ अर्थुं 'तुव्भं पि वट्टए' एह
 तणउ । पुनरपि शिष्यु भणइ 'जयणिजं च भे' जापनीउ भणियइ शरीरु सु पुणि 'भे' तुम्ह तणउं इंद्रिय
 25 स्पर्शेनेंद्रियादिक नोइंद्रिय मनु तींइ करी निरावाधु वत्तइ इति पांचमउं थाणु । अत्र गुरुवचनु 'एवं' जिम
 वउं पूछइ तिम इसउ अर्थुं 'एवं' एह नउ । पुनरपि शिष्यु बोळइ-'खामेमि खमासमणो देवसियं वइकमं' हे
 क्षमाश्रमण गुरो । दैवसिक्क दिवस संजातु व्यतिक्रमु-अपराधु खमावउं इति छट्टउं थाणु । अत्र गुरुवचनु
 'अहं अवि खामेमि तुम्हे' हउं पुणि अविधि' शिक्षाप्रदानावि दैवसिक्क व्यतिक्रमु अपराधु रमावउं । अत्र
 गुरु आपणपा आगइ एकवचनु शिष्य आगइ बहुवचनु भणतउ हूंतउ गवुं परिहरइ ।

30 § 163) वउ विनेउ डठी करी 'आवरिसयाए' इत्यादिकि आलोचनायोगिण 'तस्स खमासमणो
 पढिक्कामि' इत्यादिकि प्रतिक्रमणयोगिय पायच्छित्ति करी आपणपउं सोधणहार हूंतउ अवमहइवउ नीसरी
 करी इसउं पढइ 'आवरिसयाए' इत्यादि अवश्य कार्य चरणकरणसत्तरीरु तिहां ज हुयइं स आवदयकी
 क्रिया तिणि करी आसेयनाद्वारि जु असाधु कीधउं तेह हूंतउ पढिक्रमउं निवत्तं इसी परि सामान्यही भणी

करी विशेषि करी भणइ, 'खमासमणाणं' क्षमाश्रमण महामुनि भणियइं, तीहं संबंधिनी ज दैवसिकी आशातना तिणि करी । स पुणि किसी ? इत्याह 'तित्तीसन्नयराए' त्रेत्रीस आशातना माहइतउ अन्यतर एक अनामनिहिंष्ट तिणि करी ।

§ 164) ति पुणि त्रेत्रीस आशातना ए कहियइं—

पुरओ पक्खासन्ने गंता ३ चिट्ठण ३ निसीयणा ३ ऽऽयमणे १० ।

आलोयणऽ ११ पडिसुणणे १२ पुच्चालवणे १३ य आलोए १४ ॥ [१९९] 5

तह उवदंस १५ निमंतण १६ खद्धा १७ ययणे १८ तथा अपडिसुणणे १९ ।

खद्ध २० त्ति य तत्थगए २१ किं २२ तुम २३ तज्जाय २४ नो सुमणे २५ ॥ [२००]

नो सरसि २६ कहां छित्ता २७ परिसं भित्ता २८ अणुट्टियाइ कहे २९ ।

संथारपायघट्टण ३० विट्ठु ३१ च ३२ समासणे ३३ आवि ॥ [२०१] 10

गुरु आगइ विहुं पार्थहं पूठि आसन्नगमनि^१ त्रिन्दि आशातना ३, स्थानि ६, निपीदनि वइसिव-
इ ९, वाहिरि गया गुरुतउ पहिलउं आचमनि १०, पहिलउं गमनागमनालोचनि ११, राति समइ
कउणु सूयइ जागइ वा इसइ गुरि पूछिइ हूतइ जागताई शिष्य रहइं गुरुवचन तणइ अपडिसुणणि १२,
साधु श्रावकादि समागमनि गुरुतउ पहिलउं आलपनि-आभापणि १३, अनेरा आगइ पहिलउं भिक्षा
आलोई पाछइ गुरु आगइ भिक्षा आलोचनि १४, इसी परि उपदर्शनि १५, निमंत्रणि १६, गुरु^{१५}
अणपूछी आपणी रुचि साहु रहइं 'खद्धु त्ति' प्रचुरु देयतां १७, गुरु रहइं अरसविरसु दे करी आपणपइं
स्निग्धमधुरादिभोगइतउ अदनु १८, राति जिम धीजे ई कालि अप्रतिश्रमणि-गुरुवचन तणइ अप्रतिश्रमणि^१
१९, 'खद्ध' त्ति गुरु प्रति निष्टुर भणनि २०, जिहां हुइ तिहां ई जि थिकउ गुरु रहइं प्रतिवचनु देयतां
'तत्थगए' २१, गुरु प्रति 'किं' इति वचनि भणियउं 'मत्थएण वंइ' २२, गुरु आगइ 'तउं' कयनि
'तुम्हे' इसउं कहियउं २३, 'अमुक ग्लान तणउं वैयाट्टत्त्यादि कार्यु करि' इसइ कयनि गुरि कहिइं^{२०}
हूंतइ 'तुम्हे काइं न करो' इसउं भणनु तज्जाययचनु २४, गुरि तच्छु कहतइ हूंतइ शून्य चित्तकरणु
'नो सुमणु' तिणि करी २५, 'न सम्यक् समरइ तउं' 'एउ अर्थुं समर्थुं नहीं' इसा वचन तणइ भणनि
२६, आपणइ कथा कयनि करी गुरुकथाच्छेदनि २७, हवडां भिक्षावेला हुई इति सभाभेदनि २८, सभा
अणकूठी हूंती आपणया रहइं वचनपाटव जाणाविवा कारणि सविशेष व्याख्यान कयनि २९, गुरुशय्यादि
रहइं पादादिघट्टनि चरणदि लगावणि ३०, 'विट्ठ' त्ति-गुरुशय्यादि उपवेशनि ३१, एयं उच्चासनि ३२, 25
समासनि ३३, ए त्रेत्रीस आशातना भणिता ।

§ 165) हवडां जि आशातना माहि काई एकु विशेषि करी भणइ 'जं किंचि मिच्छाए'
इत्तिसु आलंबनु 'यत् किंचित्' कहियइ । तथाहि—

'आलंबणाणि' दुहा भंति । चडियाऽऽलंबणाणि, पडियाऽऽलंबणाणि च ।

जि मिष्प्यात्वबहुलजीव हुयइं ति पडियालंबण आश्रइं । जि सम्यग्दृष्टि जीव हुयइं ति चडिया-³⁰
लंबण आश्रइं । तथा च भणितं—

जाणिञ्ज मिच्छदिट्ठी जे पडियालंबणाणि गिन्हंति ।

जे पुण सम्मदिट्ठि तेसि मणो चउणपइडीए ॥

[२०२]

यत् किञ्चिन् आलंननु आश्रद्धं मिथ्याभायु जिणि क्रियां हुयइ स मिथ्याक्रिया-शरीरि वैयावृत्त्यादि क्रियाकरणसामर्थिहं हूंतइ असमर्थतादि व्यपदेशि करी इत्यर्थः । तउ पाळइ अभ्रादित्प्रइतउ मिथ्या इहां छइ इणि अर्थि 'अ' प्रसइ कीधइ हूंतइ 'मिच्छाए' एह नउ अर्थु 'मिथ्यायुक्त्या' इसउ हुयइ ।

§ 166) 'मणदुक्कडाए' इत्यादि । मनोदुष्कृतु द्वेषकरणादिकु^१ जेह माहि हुयइ स मणदुक्कडा^२ तिणि करी । असभ्यु कठिनु वचनु वाग्दुष्कृतु जेह माहि हुयइ स वाग्दुक्कडा^३ तिणि करी । आसन्न-गमन-स्थानादिकु फायदुष्कृतु जेह माहि हुयइ स वायदुक्कडा तिणि करी । क्रोधु जेह माहि हुयइ स क्रोधा तिणि करी । मानु जेह माहि हुयइ स माना तिणि करी । माया जेह क्रिया माहि हुयइ स माया तिणि करी । लोभु जेह क्रिया माहि हुयइ स लोभा क्रिया तिणि करी । 'सव्वकालियाए' अतीता-उनागत वर्तमान लक्षणि सर्वकालि ज कीथी आशातना स सर्वकालिकी । भविष्यि कालि निसी परि आशातना संभयइ ? 'आयतइ दीहि एह गुरु रहइं इसउं इसउं अनिष्टु करिसु' इति चिंताकरणइतउ भविष्यि कालि आशातना संभयइ । तिणि करी । 'सव्वमिच्छोपयाराए' सर्वइ मिथ्या उपचार विनयकरणादिक भाव जेह क्रिया माहि हुयइं स सर्व मिथ्योपचारा तिणि करी । 'सव्वधम्मइक्कमणाए' स सर्व धम्म अष्ट प्रवचनमातर अथवा करणीय व्यापार तीहं नउ अतिक्रमणु लंघनु जिणि नियां हुयइ सर्व धर्मातिक्रमणा तिणि करी जे^४ आशातना तिणि करी जु मइं अतिचारु अपराधु कीधउ तेह अतिचार हूंतउ हे १० क्षमाश्रमण ! तादरी सारि पढिकमउं नियत्तं अपुणकरणि करी यली नहीं करउं इसउ अर्थु । इहां 'समानि निमित्तु आशातना' ग्रहणु, तिणि कारणि पुनरुक्तदोषु नहीं । तथा दुष्कर्मकारकु आपणपउं निदुदं भवविरक्त चित्तभावि करी । तथा गहंउं तुम्हारी सारि । 'अप्पाणं वोसरामि' आशातनाकारकु आपणपउं वोसिरिउं मेरुहं ।

§ 167) धीजउं वानणउं^१ इसीहीं जि परि दीजइ । पुणि 'आवसियाए' न कहियइं । अयमह २० हूंतउं निःक्रमणु पुणि न कीजइं इसी परि वंदनकु दे करी शिष्यु कांइ एकु ऊर्ध्वकाउ नमावी करी अवग्रहमध्यभाणि वर्त्तमानु हूंतउ आलोचणउं करणहार हूंतउ गुरु प्रति इसउं कहइ, 'इच्छाकारेण संदिसह' इत्यादि । इच्छाकारि आपणी वासना करी न पुणि बलात्कारि । 'संदिसह' आदेसु दियउ । 'देवसियं' दिवसत्तु अतिचारु । इसउं आपहे गमियइ रात्रिइतु पुणि जाणियउ । 'आलोचयामि' 'आ' मयांवा करी अथवा सामस्वभावि करी लोचउं-प्रकटुं^२ करउं । अत्रांतरे 'आलोचय' इमउं गुरुवरचनु^३ २५ सांभली करी शिष्यु कहइ, 'इच्छामि' तुम्हारउं वचनु अंगीकरउं । 'आलोचयामि' इणि करी अंगीइतु अर्थु क्रिया करी दिखालउं ।

§ 168) आलोचणा ई जि साक्षात्कारि मणइ । 'जो मे देवसियो' जु मइं देवसिकु दिवस माहि अतिचारु कीधउ सु पुणि अनेकप्रकारु हुयइ इत्याह 'काइओ' फाय करी कीधउ । 'वाइओ' घचनि करी कीधउ । 'माणसियो' मनि करी कीधउ । वाइकु अनइ वाइकु^४ दिग्गलइ-उस्सुत्तो^५ उम्मागो^६ । ३० उस्सुत्तु-सिद्धंतविरुद्ध अकालक्रियाकरणादिकु । उन्मागुं-क्षयोपशमिकभावरूपु मार्गुं लांघी करी चारित्राचारक 'कम्मोदय भावि करी कीधउ उन्मागुं । 'अकप्पो'-अकल्पनीउ । 'अपरणिज्जो'-करिया उचितु नहीं । जिगिहिं जि कारणि उस्सुत्तु जिगिहिं जि कारणि उन्मागुं, जिगिहिं जि कारणि उन्मागुं, तिगिहिं जि

§166) 1 Bh प्रेष- । 2 Bh-दुष्कृत । 3 Bh. अ । §167) 1 Bh. frequently writes the initial syllable in this word as अ- । 2 Bh. प्रकट । 3 Bh. पुर नउ वचनु । §168) 1 B. omits. 2 Bh. वायकु ।

कारणि 'अकप्पो' जिणिहिं जि कारणि अकप्पु तिणिहिं जि कारणि 'अकरणिज्जो' । इसी परि पाछिलिउं^३ पाछिलिउं^३ हेतु कारणु, आगिलउं आगिलउं हेतुमंतु कार्यु । काइकु अनइ वाइकु भणियां ।

§ 169) ह्य मानसिक्कु कइइ-दुञ्जाओ-एकामचित्ता करी आर्च-रौद्रलक्षण दुध्यानु अशुभु जु चलचित्ता करी चीतविउ सु दुर्विचिंतितं । "जं थिरं अञ्जवसाणं तं ज्ञाणं, जं चलं तयं चित्तं" इति वचनान् । जिणिहिं जि कारणि इसउं तिणिहिं जि कारणि 'अणायारो' अनाचारु । जिणिहिं जि कारणि 5 अनाचारु तिणिहिं जि कारणि 'अणिच्छियवो' अनेष्टव्यु-वांछिवउ नहीं । जिणिहिं जि कारणि 'अणिच्छियवो' तिणिहिं जि कारणि 'असाग्गाउग्गो' श्रावक रहइं योग्यु नहीं । किसान विपइ ? इत्याह-नाणे' ज्ञानु मतिज्ञानादिकु तेह नइ विपइ अश्रद्धानादि करी । 'दंसणे' दर्शनु सम्यक्त्वु तेह तणइ विपइ शंकादिकरण भावि करी । 'चरिताचरिते' चरिताचरितु देशविरतिश्रावकधम्मं तेह तणइ विपइ । ज्ञानादिकइ जि कइइ- 'सुए' धतु सिद्धांतु तेह नइ विपइ अकालस्वाध्यायादिकि करी । 'सामाइए' 'सम्यक्त्वसामाइकु' 'सामा-10 इक' शब्दि करी ईहां कहियइ तेह नइ विपइ संशयकरणादि भावि करी ।

§ 170) चरिताचरितातिचारु भेदि करी कइइ-तिन्हं गुत्तीणं, चउन्हं कसायाणं, पंचन्हं अणुव्व-याणं, तिन्हं गुणव्वयाणं, चउन्हं सिक्खावयाणं' । त्रिउं गुप्ति माहि, चउं कसाय माहि, पांच अणुव्वत माहि, त्रिउं गुणव्वत माहि, चउं शिक्षाव्वत माहि सविहुं व्वत तणइ मीलनि 'वारसविहस्स सायगधम्मस्स' द्वादशविध श्रावकधम्मं माहि जु काई रंछिउं थोहउं सउं भागउं, जु विराधिउं घणउं भागउं सर्वथा या भागउं 'तस्स 15 मिच्छा मि दुक्खं' तेह संबंधिउं, 'मे' माहरउं दुक्खु, मिध्या निष्फळु हुउ-इसउं आपहे गमियइ ।

§ 171) पुनरपि विनेउ विनतकाउ यद्धेमानसंवेगु मायादिदोपरहितु आपणया रहइं सर्वशुद्धि-निमित्तु इसउं पढइ 'सउग्गस्स वि देवसिय' इत्यादि । सर्वही दैवसिन्ह दुर्विचितितह दुर्भापितह दुश्चेष्टितह मनचनकायव्यापारह 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !' तुण्हे आपणी इच्छा आदेसु दियउ । अत्र गुरुचतु 'पडिकामह तस्स' पूर्वभणितव्यापारह संबंधिउं 'मे' माहरउं दुक्खु मिध्या निष्फळु हुउ । 20

§ 172) तउ पाछइ अवग्रह हंतउ नीसरी करी पुनरपि वंदनु दे करी अपराधक्षामणा विपइ समुयतु हंतउ इसउं कइइ-इच्छाका० संदिसह अचमुट्ठिओइहं अत्तिंतरदेवसियं रामेमि' इच्छाकारेण आपणी इच्छा करी, 'संदिसह' आदेशु दियउ, अभ्युत्थितु हउं अत्तिभतर 'देवसिओ' दियसमप्यसंभूतु अतिचारु रत्ताविवा निमित्तु उद्यमपरायणु वर्त्तउं । तउ पाछइ 'रामह' इसउं गुरुचतु सांभली करी पुनरपि शिष्यु भणइ-इच्छं ईच्छउं भगवंत नी आण, रत्तावउं दैवसिक्कु आपणउ अपराधु । तउ पाछइ 25 विधिपूर्वक पंचांगसंस्पृष्टभूतलु मुत्तमन्निका मुत्तदेसि दे करी इमउं भणइ-जं किंचि अप्पित्थियं जु काई सामान्यहिं अत्तीतिकु अत्तीतिमायु, 'परप्पित्थियं' परात्तीतिकु गाढउं अत्तीतिकु, किसान विपइ ? 'भत्ते', 'पाणे' भक्त तणइ विपइ, पानक तणइ विपइ । 'विगए' विनउ अभ्युत्थानादिकु तेह नइ विपइ । 'वेयावणे' पैयावृत्तु उपधपध्यावष्टंभदानादिरुपु तेह नइ विपइ । 'आलावे' एकवार भाषण विपइ । 'संलावे' पुनः पुनर्भाषणकथानुप विपइ । 'उग्गासणे' गुरुआमनतउ ऊंचा आमन विपइ । 'समासणे' गुरुआमनतुव्यु 30 पासन विपइ । 'अंतरभासाए' गुरु धोळतां हूंतां विचालभाषणरूप अंतरभाषा' तेह नइ विपइ । 'उपरि-भासाए' गुरुभाषा अंततरु विशेषवचनपाटन जाणाविया निमित्तु उपरिभाषा तेह नइ विपइ । ईहं भक्तादिकइ नइ विपइ अत्तीति परात्तीति भावि करी जु काई गू रहइं विनयपरिहीनु अमक्तिजुणु ह्यउं सूम्भु अरुपु आलोचनादिकु प्रायश्चित्तु तिनि करी जु सूग्ग सु सूम्भु । पादरु पत्ताइष्टनादिकु गुरुप्रायश्चित्तु तिनि

करी जु सूझइ सु वादरु । 'तुम्हे जाणह' तुम्हे अतिशयसहित ज्ञानभावइतउ जाणउं । 'अहं न जाणामि' मूर्खभाववा करी हउं न जाणूं । 'वस गच्छा मि दुकडं' तेह अप्रीतिकदि निषइ वृत्तिचार तणउं दुकृतु 'मे' माहरउं मिथ्या निष्फळु हुउ ॥ छ ॥

§ 173) पुनरपि वि घानपां दे करी यथाशक्ति प्रत्याख्यानु करइ । अत्र सात अर्थाधिकार । यथा-प्रत्याख्यान १, प्रत्याख्यानमंग २, प्रत्याख्यानानाकार ३, प्रत्याख्यानसूत्र ४, प्रत्याख्यानसूत्रार्थ ५, 5 प्रत्याख्यानशुद्धि ६, प्रत्याख्यानफल ७ । एरं नाम तत्र प्रत्याख्यानु विहुं भेदे यथा-मूलगुणप्रत्याख्यानु १, उत्तरगुणप्रत्याख्यानु २ । तत्र मूलगुणप्रत्याख्यानु पुणि विहुं भेदे । यथा-सर्वमूलगुणप्रत्याख्यानु साधु तणां पांच महाव्रत १, देसमूलगुणप्रत्याख्यानु श्रावक तणां पांच अणुव्रत २ । उत्तरगुणप्रत्याख्यानु पुणि विहुं भेदे-सर्वोत्तरगुणप्रत्याख्यानु । साधु तणा उत्तरगुण वाणवइ संख्या यथा-

पिंडस्स जा विसोही ४७, समिईओ ५ भावणा १२ तयो दुविहो २ ।

10 पडिमा १२ अभिग्गहा चिय ४ उत्तर गुणमो वियाणाहि ॥ [२०३]

तत्र उद्गमेपणा १६, उत्पादनैपणा १६, प्रहणैपणा १०, मासेपणा ५ भेद । सब्वइ मिलिया ४७ । यथा-आहाकम्मु १, औदेशिकु २, पूतिकम्मु ३, मिश्रजातु ४, स्थापना ५, प्राभृतिका ६, प्रादुष्करणु ७, क्रीतु ८, प्राभृत्यु ९, परिवर्त्तितु १०, अभ्याहृतु ११, उद्विक्तु १२, मालाभ्याहृतु १३, आच्छेसु १४, अनुसुट्टु १५, अध्यवपूरुक्कु १६, ए सोल वडमदोष नाम' कहियइ ।

15 § 174) तत्र आधाकम्मुं कहियइ-

आहाइ वियप्पेणं जईण कम्मं असणाइ करणं जं ।

छक्कापारंभेणं तं आहाकम्मं आहिंसु ॥

[२०४]

माहरइ घरि माधु विहरिवा आविसिइ इत्तइ संकल्पि करी इसी मन तणी चिंता करी पदकाय पृथिवीकायादि' छ जीवनिकाय तीहं तणइ आरंभि विणासि करी कम्म अशन-पान-स्वादिम-स्वादिमरूप 10 चतुर्विध पिंड तणउं रंधन प्रासुककरणलक्षणु जु गृहस्थु करइं सु आधाकम्मं कहियइ १ ।

§ 175) तथा-

उद्देसियं अह विभागओ य ओहे सए जं आरंभे ।

मिस्सताउ कइ वि कप्पइ जो एही तस्म दाणट्ठा ॥

[२०५]

औदेशिकदोषु विहुं भेदे-औचौदेशिकु १, विभागौदेशिकु २ । तत्र औचौदेशिकु यथा-आरणपा 25 निमित्ति आरंभि कीधइ हूंतइ पाठइ जु को भिक्षाचरु माहरइ घरि आविसिइ तेह निमित्तु भिक्षा तणा केई एकि भाग कल्पइ । किसउ अरुं ? आपणां घरमाणुसहं तणइ अनुसारी धानि ओरियइ हूंतइ पाछइ पली सीही जि हांडी माहि भिक्षाचर निमित्तु अधिकेरउं धानु जु ओरियइ सु औचौदेशिकु कहियइ । विभागौदेशिकु चारहे भेदे जिम होइ तिम कहियइ-

संखडिभत्तुवरियं चउन्हं उदिसइ जं तसुदिट्ठं ।

वंजणमीसाइ कडं, तं अग्गितवियाइ पुण कम्मं ॥

[२०६]

30 संखडि विमाहादिकु प्रकरणु कहियइ । तिणि उगंरियं भोदकचूरनादिकु अशनु, जु हुयइ सु चउंई जावंतिक-पावंडिक-भ्रमण-निमंथरूपहं निमित्तु जु उदिसइ सु उदिसु कहियइ । तथा व्यंजन कहियइं दधि-

दुग्ध-गुह्यपातिप्रभृतिक¹ तीहं करी जउ मिथु ओदनु मोदकचूरकादिकु करइ तउ सु कृतु कहियइ । तथा सु ओदनादिकु अग्नितापि करी पुनरपि ऊंहउं करइ जु सु कर्मु कहियइ ।

पाछइ उद्विष्ट पुणि चउं भेदे, कृतु पुणि चउं भेदे, कर्मु पुणि चउं भेदे । यथा—

जावंतियमुद्देशं, पासंडीणं भवे समुद्देशं ।

समणाणं आएसं, निर्गंथाणं समाएसं ॥

[२०७] 5

जु को सामान्यहिं भिक्षाचर आविसिइ तेह निमित्तु उद्विशिउं उदेशोद्विष्टु² कहियइ १ । पाखंडिक चरकादिक तीहं निमित्तु उद्विसिउं समुद्देशोद्विष्टु कहियइ २ । श्रमण भणियइं तापस तीहं निमित्तु उद्विसिउं आदेशोद्विष्टु कहियइ ३ । निर्ग्रथ भणियइं जैनमुनि तीहं निमित्तु उद्विसिउं समादेशोद्विष्टु कहियइ ४ । तथा जावंतिकहं निमित्तु कृतु हंतउं उदेशकृतु कहियइ १ । पाखंडिकहं निमित्तु कृतु हंतउं समुद्देशकृतु कहियइ २ । श्रमणहं निमित्तु कृतु हंतउं आदेशकृतु कहियइ ३ । निर्ग्रथहं³ निमित्तु कृतु हंतउं समादेशकृतु 10 कहियइ ४ । तथा जावंतिकहं निमित्तु कर्मु उदेशकर्मु कहियइ १ । पाखंडिकहं निमित्तु कर्मु समुद्देश कर्मु कहियइ २ । श्रमणहं निमित्तु कर्मु आदेशकर्मु कहियइ ३ । निर्ग्रथहं निमित्तु कर्मु समादेश कर्मु कहियइ ४ । सब्बइ मिलिया वारह विभागौदेशिक भेद हुयइं २ ।

§ 176) आधाकर्मु दोपदूपितु कणु जेह सूघाई आहार माहि पढइ सु पूतिकर्मु कहियइ । तिणि कादिइ⁴ हंतइ पाछिलउं वस्तु निर्दूपणु, तिणि सहितु सदूपणु हंतउं पूतिकर्मु कहियइ ३ । 15

§ 177) जु पहिलउं जावंतिय जि के भिक्षाचर आविसिइं ति 'जावंतिय' कहियइ । पाखंडिक मिथ्यादर्शनि वर्त्तमान कहियइं । जई साधु कहियइं । जु पहिलउं जावंतिकादिकहं तणइ कारणि अनइ आपणइ कारणि आरंभु कीजइ सु मिश्रजातु कहियइ ४ ।

§ 178) यतिनिमित्तु अशनादि चूल्हि अथवा हांडुली थिकउं जु राहवियइ स स्थापना ५ । अथवा खीर राहविउं संकल्पि करी अनइ यति न आवियाई अथवा आविया पुणि द्यूध लीघउं नहीं 20 तउ दही करी दियइ अथवा घृतु करी दियइ एवमादि सगलीयइ स्थापना कहियइ ५ ।

§ 179) कुणही तणइ विवाहादिप्रकरणु निर्घ्रंकिति दिनि हुयणहारु छइ तउ पाछइ साधु समागमनु अथवा विहारु सांभली करी जु मउडेरउं समागमन हुया पाछइ अथवा पहिलेरउं साधुविहार हंतउ ओरइ जेमणवारादिकु जु कीजइ सु प्राभृतिकादोषु कहियइ ६ ।

§ 180) घर माहि अंधकारि जु वस्तु अशनादिकु हुयइ अथवा चूल्हि ऊपरि हुयइ, महात्मा 25 रहइं देवा तणी बुद्धि करी घर माहि छिद्रादिकरणु करी प्रकाशु कीजइ अथवा चूल्हि हंतउं बाहिरउं काढी मेल्हियइ सु प्रादुकरणु कहियइ ७ ।

§ 181) मूलि वस्तु ले करी दीजइ सु क्रीतदोपदूपितु हंतउं क्रीतु दोषु कहियइ ८ ।

§ 182) महात्मा तणइ कारणि अनेरा कन्हा ओघारि⁵ ले करी जु दीजइ सु प्राप्त्यु दोषु कहियइ ९ ।

§ 183) हूंडण वडइ फूरु आणी करी महात्मा रहइं जु दीजइ सु परापत्तिनु, इसी परि अनेरुं 30 वस्तु परापत्तिनु दोषु कहियइ १० ।

§175) 1 Bh.-प्राप्तिक । 2 Bh. omits -हं । §176) 1 Bh. कादियइ । 178) 1 Bh. रहाविउं । §182) 1 Bh. ऊपरि । B. ओ- may be graphic.

§ 184) गृहस्थि आपणा अथवा अनेरा गाम हूंतउं आणी करी साधु रहइं जु दीजइ सु अभ्याहृतु कहियइ ११ ।

§ 185) षड अथवा कूडी जोगिणी माटी छापि करी लीपी मेल्ही हुयइ^१, यति तणइं कारणि ऊषाडी करी जु दीजइ सु उद्धिनु कहियइ १२ ।

5 § 186) ऊपरि लींकरइ, हेठि भूमिहरि उभय विहुं हेठि ऊपरि यथा मोटेरी गुढी हुयइ तेह माहि वस्तु हुयइ सु वस्तु ऊपरइं होई हेठां हुईयइ तउ आपडियइ इणि कारणि उभउ कहियइ । तिर्यग् तिरिछउं हाथ हूंतउं वेगलउं वस्तु हुयइ करमहण अशक्यु जु ले करी विहरावइ सु मालाभ्याहृतु कहियइ १३ ।

§ 187) स्वामी अथवा चोरु पर कन्हा ओदाली करी साधु रहइं जु दियइ सु आच्छेयु कहियइ १४ ।

10 § 188) अनेकहं रहइं भक्षु^१ कीधउं हुयइ तीहं माहि एक दियइ सु अनिसुदु कहियइ १५ ।

§ 189) मूलारंभि आपणइ कारणि कीधइ हूंतइ पाछइ जावंतिक-यति-पारंढिकइं निमित्तु तंदुलादिकु जु ओयरइ सु अव्यवपूखु कहियइ १६ ।

इसी परि संक्षेपिहिं सोल उद्गमदोष गृहस्थकृत कहिया ॥

15 § 190) अथ उत्पादनादोष^१ सोल लिखियइ-धात्री १, दूति २, निमित्त ३, आजीविका ४, धनीपक ५, चिकित्सा ६, क्रोध ७, मान ८, माया ९, लोभ १०, पूर्वपश्चात्संस्तव ११, विद्या १२, मंत्र १३, जुन्न १४, योग १५, मूलकर्म १६, ए सोल उत्पादनादोष नाम ।

वालस खीर-मज्जन-मंडण-किलावणंकथाइत्तं ।

करिय कराविय वा जं लहइ जई धाहपिंडो सो ॥

[२०८]

20 § 191) क्षीरधात्री १ मज्जनधात्री २ मंडनधात्री ३ क्रीडापनधात्री ४ अंकधात्री ५, घालक रहइं पंचधात्री हुयइं तीहं नउं कर्मुं करी अथवा कपावी यति जु अशनादिकु लहइ सु धात्रीपिंडु कहियइ १ ।

§ 192) प्रकट्ट अथवा छानउ सदेसउ कही करी यति जु पिंडु अशनादिकु लहइ सु दूतिपिंडु कहियइ २ ।

§ 193) निमित्त शुभाशुभ लाभालाभादिक कही करी यति जु पिंडु लहइ सु निमित्तपिंडु कहियइ ३ ।

25 § 194) जात्यादिधनहं रहइं आपणपउं तज्जातीयादि जाणावी करी जु पिंडु यति लहइ सु आजीविकापिंडु ४ ।

§ 195) ब्राह्मणादि भक्त जि हुयइं तीहं रहइं ब्राह्मणादि भक्तु आपणपउं दिखाली करी तीहं कन्हां^१ यति जु लहइ सु धनीपकपिंडु ५ ।

30 § 196) औषध-वैद्यानुपदेशदानादि चिकित्सा आहारादिकारणि परी गृहस्थ कन्हां जु पिंडु यति लहइ सु चिकित्सापिंडु ६ ।

§ 197) विद्यातपःप्रभावु नृपादिपूजा शापादिकु क्रोधकउ देली करी यति हूंतउ पीहवउ गृहस्थु जु पिंडु दियइ सु क्रोधपिंडु ७ ।

§ 198) लघ्विप्रशंसागर्वितु¹ हृतव जु यति गृहस्थ रहई अभिमानु. ऊपजावी आहारु लियइ सु मानपिंडु ८ ।

§ 199) मायावसइतउ आहारकारणि रूपांतरु करी यति जु लइइ आहारु सु मायापिंडु ९ ।

§ 200) क्षिग्ध-मधुरादिक आहार तणी वृषगा लगी जु घणउं फिरी लइइ सु लोभपिंडु १० ।

तथा च भणितम्—

कोहे घेउरस्रवयो १, माणे सेवई य खुडुगो नायं २ ।

माया आसाढभूई ३, लोभे केसरयसाहु ४ त्ति ॥

[२०९]

§ 201) दायक रहई दान पहिलउं स्तुति करी जु दानु लियइ सु पूर्वसंस्तवु अथवा पाछइ स्तुति करी जु लइइ सु पश्चात्संस्तवु । जननीजनकादि संबंधु करी जु लियइ सु पूर्वसंस्तवु, सासू-ससुरादिसंबंधु करी जु लियइ सु पश्चात्संस्तवु ११ एउ सगळ संस्तवु पिंडु ।

§ 202) विद्याप्रयोगि दायक रहई जु¹ रंजवी करी दानु लियइ सु विद्यापिंडु १२ ।

§ 203) मंत्रप्रयोगि रंजवी करी जु दानु लियइ सु मंत्रपिंडु १३ ।

§ 204) अट्टशयीकरणादिकु चूर्णु तेह तणइ प्रयोगि जु दानु लियइ सु चूर्णपिंडु १४ ।

§ 205) सौभाग्य-दौर्भाग्यकर पादलेपादिक योग तेहे करी जु¹ दानु लियइ सु योगपिंडु १५ ।

§ 206) मंगल मूलिकारुणानादि गर्भं विवाहकरणादि हेतु करी करावी जु दानु लियइ सु मूलकर्म-15 दोपदुष्टु पिंडु कहियइ १६ । ए सोल उत्पादनादोप साधुकीधा ऊपजइं इणि कारणि उत्पादनादोप कहियइं ।

§ 207) अथ दश एपणादोप लिस्त्रियइं—संकितु १, अक्षितु २, निक्षिमु ३, पिहितु ४, संहृतु ५, दायकु ६, उन्मिष्ठ ७, अपरिणतु ८, लिमु ९, छर्दितु १० ।

§ 208) तत्र आधाकर्म्मोदि दोपशंका करी अथवा संभावना हंती जु आहारु लियइ सु संकितु दोषु १ । जेह दोष नी शंका हंती जु आहारु करइ तेह दोष तणउं फळु लइइ इणि कारणि 20 निःशंकितु आहारु करी तउ करिवउ ।

§ 209) सचित्त पृथिवीकायादिक तीह करी एकु अक्षितु, अचित्त अयोग्य मधुमद्यादिक तीह करी एकु अक्षितु इती परि विहुं भेदे अक्षितु २ अथवा पूर्वभणित वस्तु ररंरिति करि अथवा मानि कुडुछी-डोइली-करोटी करोटकादिकि जु वस्तु लियइ सु अक्षितु दोषु २ ।

§ 210) सचित्त पृथिवीकायादिक तीह माहि निक्षिमु सुहु ओदनादिकु लियइ तउ निक्षिमु 25 दोषु ३ । सु पुणि अनंतरु परंपरु परिहरिवउ ।

§ 211) जु सचित्ताचित्त पिहितु हुयइ सु पिहितु । यथा—हेठलि देउ वस्तु हुयइ, ऊपरि ढांकणउं मोटउं हुयइ, पाछइ ऊपाढतां कदाचित् भाजइ, तउ पाछइ आरुम-संजमविवातादिक दोष हुयई तिणि कारणि पिहितु दोषु ४ ।

§ 212) अयोग्यु वस्तु उतारी करी तिणि मान्नि योग्यु वस्तु वियइ गृही, यति जु लियइ तउ 80 संहृतु दोषु ५ ।

§ 213) अतिरुहु हाथे धूजते जु हुयइ, तथा मंदलोचनवळु जु हुयइ सु येरु कहियइ, अशनादि धनी जु न हुयइ, सु अप्रभु कहियइ, ऊपरोगी पंडु कहियइ, सकंपु देहु जेह तणउं हुयइ सु वेविक

§198) 1 Bh. लघ्वि प्रशंसा गर्वि नने गर्विउं । §202) 1 Bh. puts it before दानु । §205) 1 Bh. कु ।

कहियइ, ज्वरोगी ज्वरी कहियइ, चक्षुर्यलहीतु अंधु कहियइ, बालकु लहुढत भोलत अव्यक्तु कहियइ, छाकिउ मत्तु कहियइ, भूताधिष्ठितु उन्मत्तु कहियइ, कर-चरणरहितु कर-चरणछिन्नु कहियइ, गलितदेहु पगलित कहियइ, अठील घातिउ निगडितु कहियइ, हाथे हथ्युइ जेह रहइ हुयइ सु अंडुउ कहियइ, चाखढी जेह ने पगे हुयइ सु पाऊयारूढु कहियइ, जु र्पाढतउ हुयइ, जु पीसतउ हुयइ, जु विलोयतउ हुयइ, जु भूजतउ हुयइ, जु फाततउ हुयइ, जु लोढतउ हुयइ, जु चीरि^४ वणतउ हुयइ, जु पीजतउ हुयइ, जु दलतउ हुयइ, जु जीमतउ हुयइ, ज गुर्विणी आसन्नप्रसव हुयइ, मास २-३ प्रमाण बाल ज स्त्री स बालवत्स कहियइ, बालकु मेस्ही नइ विहरावइ, तथा जु छञ्जीरफाय फरसतउ विगासतउ लांखतउ साधारणु, चोरानीतु वस्तु दियतउ हुयइ, एवमादि दायक नइ हाथि मुनि जउ दानु लियइ तउ दायकदोषु ६ ।

10 § 214) योग्य घृतादिकु अयोग्य मधुप्रभृतिक्, योग्यायोग्य वे मेली करी दियइ तउ उन्मिधु, तत्र सच्चित्तमिधु फदाकालिहिं वरसर्गपदि न कप्यइं, अधिचमिधि विभाषा ७ ।

§ 215) जु द्रव्यु जलादिकु प्रासुकु ह्यउं न हुयइं कांई प्रासुकु कांई अप्रासुकु हुयइ सु अपरिणतु द्रव्यु अथवा अनेकहं दायकहं माहि एक दायक तणउ भावु दानपरिणतु हुयइ धीजा दायक तणउ भावु दानपरिणतु न हुयइं सु भावाऽपरिणतु अथवा यति एक नइ मनि प्रासुकु द्रव्यु परिणमिउं 15 धीजा नइ मनि प्रासुकु न परिणमिउं सु पुणि भावापरिणतु, मु वस्तु जउ^१ यति लियइ तउ अपरिणतु दोषु ८ ।

§ 216) जिणि वस्तु करंवादिकि दधिप्रभृतिवस्तु तणउ लेपु दायक तणइ हाथि अथवा मात्रकि (पात्रकि ?) लागइ सु वस्तु जउ यति लियइ तउ लिनु दोषु, तिणि पश्चात्कर्मादिक दोषु हुयइं-सच्चित्तजलादि करी हस्तादिप्रक्षालनादि दोष हुयइं इस्त अर्थे ९ ।

§ 217) जिणि आहारि दीजतइ परिसाढि मुई रेडणउं संभवइ भवइ वा सु आहार यति जउ 20 परिसाढि देखतउ लियइ तउ छईतु दोषु १० । एउ पुणि मधुविंदुउदाहरणइतउ अतिदुष्टु कहियइ । ए दस एषणादोष गृहस्थ अनइ यति विहुं मिलियां कीजइं ।

§ 218) अथ भोजन तणः पांच दोष कहियइं-संयोजना दोषु १, अप्रमाणु दोषु २, अंगारु दोषु ३, धूमु दोषु ४ । अकारणु दोषु ५ । तत्र स्वाद तणइ कारणि द्रव्यसंयोगु करइ तउ संयोजना १ । प्रमाणाधिकु आहारु करइ तउ अप्रमाणु २ । तथा च भणितं-

25 धिइ-चल-संजम-जोगा जेण न हायंति संपइ पए वा ।
तं आहारपमाणं जइस्त सेसं किलेसफलं ॥

[२१०]

तथा-

वत्तीसं फिर कवला आहारो कुक्तिरपूरओ भणिओ ।
पुरिसस्त महिलयाए अट्टवीसं भवे कवला ॥

[२११]

30 जेण अइवहु अइवहुसो अइप्पमाणेण भोपणं भुत्तं ।
हादिज व वामिज व मारिज व तं अजीरंतं ॥

[२१२]

द्विग्धमपुरादि वस्तु सरागु थिकउ भोगनइ जउ तउ अंगारु दोषु ३ । फटुककपायादि वस्तु जउ सट्टेपु थिकउ जीमइ तउ धूमु दोषु ४ ।

छुहविषया १ वेयावच २ संजम ३ सज्ज्ञाण ४ पाणरक्खट्टा ५ ।

इरियं च वि सोहेउं ६ भुंजइ न हु रुव-रसहेउं ॥

[२१३]

भूखवेदना निवर्त्ताविवा कारणि भोजनु, घैयावृत्त्य फल्य करिया कारणि तथा संजम कारणि तथा स्वाध्याय अथवा शुभध्यान कारणि, प्राणरक्षाकारणि,^१ ईर्यापथ सोधिया कारणि भोजनु करिवउं; जउ रूप-रसखादहेतु भोजनु करइ तउ अकारणु दोषु ५ ॥ पांच भोजन तणा दोष, सब्बइ मिलिया ४७ । 5 'पिंडस्स जा वितोही' एतलउं वत्ताणिउं ।

§ 219) 'समिईओ' इति । ईर्यासमिति १, भापासमिति २, एणणासमिति ३, आदान-भांडमात्रनिक्षेपणासमिति ४, उच्चार-प्रश्रवण-खेल-जल्ल-सिंचाणपरिष्ठापनिका समिति ५ । ए पांच समिति नाम । ईहं नउं अर्थु पढिकमणासूत्रवखाणा माहि लिखीसिइ ।

§ 220) भावणा १२, यथा-

10

पढमं अणिचं १ असरणं २ संसारो ३ एगया ४ य अन्नत्तं ५ ।

असुइत्तं ६ आसव ७ संवरो ८ य तह निजरा नवमी ९ ॥

[२१४]

लोयसहावो १० बोही ११ दुल्लहा धम्मसहावो अरिहा १२ ।

एयाओ गय बारस जहकमं भावणीयाओ ॥

[२१५]

प्रथमा अनित्यभावना १, अशरणभावना २, संसारभावना ३, एकत्वभावना ४, अन्यत्व-15 भावना ५, अशुचित्वभावना ६, आश्रवभावना ७, संवरभावना ८, निर्जराभावना ९, लोकसद्भाव-भावना १०, दुल्लेभवोधिभावना ११, दुल्लेभधम्म-साधु-अरिहभावना १२ । एवं नाम बारह भावना-विस्तरु ईह नउ अर्थु भावनास्वरूप प्रतिपादक योगशास्त्र श्लोक हूंतउ जाणिवउ ।

§ 221) 'तयो दुविहो' इति । छए भेदे घाह्णु तपु, छए भेदे अंतरंगु तपु । यथा-

अणसणं १ ऊणोयरिया २ वित्तीसंखेवणं ३ रसचाओ ४ ।

20

कायकिलेसो ५ संलीणया ६ य बज्जो तवो भणियो ॥

[२१६]

तत्र अज्ञानत्पारुं देशइतउ सर्वइतउ जु कीजइ सु अनशनु १ ।

§ 222) ऊनोदरता विहुं भेदे-द्रव्यऊनोदरता, भावऊनोदरता^१ । तत्र द्रव्यतो भक्त-पान-उपकरण विपइ । तत्र उपकरणविषया ऊनोदरता जिनकल्पिकादिकइं रहइं जाणेवी, न पुणि अनेरां रहइं । तीहं रहइं उपधिअभावि समस्त सत्रमपालना तणा अभावइतउ तथा अनेरां रहइं अधिक उपकरणग्रहणाभाव-25 इतउ उपकरणोदरता हुयइ छइं । यत उक्तं-

जं वडुइ उवगारे उवगरणं तं च होइ उवगरणं ।

अइरित्तं अहिगरणं अजओ अजयं परिहरंती ॥

[२१७]

'परिहरंती' स्ति^१ आसेवतउ हूंतउ 'परिहारो परिभोगो' इसा वचनइतउ । ततः अयतश्च अजयं यतना पासइ यत् परिमुञ्जानो भगति इत्यर्थः । भक्त-पानोदरिका तु आपणा आपणा आहार परिहारइतउ 30 जाणेवी । आहारप्रमाणु पुणि 'घत्तीसं किर कनला' इत्यादि । अविच्छ्रित्ति मुखि जु समाइ सु कनलु प्रमाणोपेतु जाणितउ । स पुणि 'अप्पाहार'-आदि भेदइतउ पांचे भेदे । यथा-

अप्पाहार १ अवहृत् २ दुभाग ३ पत्ता ४ तहेव किंचूणा ५ ।

अट्ट दुवालस सोलस, चउवीस तहिकतीसा य ॥

[२१८]

तत्र एरु कवल हूती आरंभी आठमा कवल सीम जघन्य-मध्यम-उत्कृष्टभेदमित्र त्रिविध अप्पहा-
रोनोदरिका कहियई १ । तत्र एककवला जघन्या, द्वावादिकवला सप्तम^४ कवल सीम मध्यमा, अष्टम^५
५ कवला उत्कृष्टा । एवं नवम^६ कवल हूती आरंभी करी बारसम^७ कवल सीम त्रिविध अपार्द्धाहारोनोदरिका
२ । तत्रापि नवकवला जघन्या दशादिककवल एकादशम कवल सीम मध्यमा, द्वादशकवला उत्कृष्टा ।
एवं तेरसा कवल आरंभी करी सोलमा कवल सीम द्विभागोनोदरिका ३ । तत्रापि त्रयोदशकवला
जघन्या, चतुर्दशकवल पंचदशम कवलांता मध्यमा, सोल कवला उत्कृष्टा ३ । एवं सतरमा कवल आरंभी
करी चउवीसमा कवल सीम प्राप्तेनोदरिका ४ । तत्रापि सतरकवला जघन्या, अष्टादशदिककवल त्रेवीसमा
१० कवल सीम मध्यमा, चउवीसकवला उत्कृष्टा । एवं पंचवीसमा कवल आरंभी करी एकत्रीसमा कवल
सीम किंचूणोनोदरिका ५ । तत्रापि पंचवीसकवला जघन्या, छव्वीसादिककवला त्रीसमा कवल सीम
मध्यमा, एकत्रीसकवला उत्कृष्टा । भावत ऊनोदरिका कपायादित्यागु । तथा च भणितं—

कोहाईणं अणुदिणं चाओ जिणवयणभावणाओ य ।

भावेणोणोयरिया पन्नत्ता वीयरगेहिं ॥

[२१९]

15 §223) वृत्ति भिक्षाभ्रमणु तेह नउं संक्षेपणु संकोचनु वृत्तिसंक्षेपु कहियइ । सु पुणि गोचराभि-
प्रहुरूपु । ति पुणि गोचराभिप्रहू अनेके भेदे । यथा—‘द्व्यओ खित्तओ कालओ भावओ’ । यथा मइं
भिक्षा गयइ हूतइ कुंनमादिवर्त्तमातु मंडकादिक्क जु लेयउं इति द्रव्यतोऽभिप्रहू । खित्तओ, यथा विउं त्रिहुं
गृहमध्य जु लामइ तऊ जु लेयउं इति । कालओ, यथा विहुं पहरहं दलियां सकल भिक्षाचर निवर्त्तन-
वेलां हूती लेयउं । भावओ, यथा जइ हसतउ अथवा गायतउ रोयतउ वा अथवा निगडिनु यद्धु वा देसिइ
20 तउ लेसु । तदुक्तं—

लेवउं अलेवउं वा अमुगं दव्वं च अल्ल चिंलामि ।

अमुगेण व दव्वेणं अह दव्वाभिग्गहो नाम ॥

[२२०]

‘अमुगेण व’ इति ‘चाट्ट-करोटिकादि’ करी’ इसउ अरुं ।

अट्टउ गोपरभूमि एलुग-विकखंभ-सत्तगहणं च ।

सगगाम-परग्गामे एवईय घराउ खित्तम्मि ॥

[२२१]

25 आठ गोचरभूमि, यथा—ऋजुगतिका १, प्रत्यागतिका २, गोमूत्रिका ३, पतंगविधि ४,
पेटा ५, अद्धपेटा ६, अर्द्धिभतरसंबुका ७, बहिःसंबुका ८ । तथा चोक्तं—

उलुगगंतु १ पचागईया २ गोमुत्तिया ३ पर्यंगविही ४ ।

पेटा ५ य अद्धपेटा ६ अर्द्धिभतर ७ बाहिसंबुका ८ ॥

[२२२]

30 तत्र वसति हूतां संलम जि के घर हुयइ वेहे नविहुं विहरतां छेहि जाईयइ, पाछइ अणविहरतां
वसति आवियइ जिणि वृत्तिइ स ऋजुगतिका १ । टेहला परहूतां विहरतां जिणि वसति आवियइ स
प्रत्यागतिका २ । उभयप्रेणिगतहं घरहं माहि यामदग्निण क्रमि करी जिणि विहरियइ स गोमूत्रिका ३ ।
जिणि पतंग जिम विचि विचि वेई घर मेह्वी विहरियइ स पतंगविधि ४ । समचतुरस्रथेणिसिखरहं परहं

जिणि विहरियइ स पेटावृत्ति ५ । अर्द्धसमन्तुरस श्रेणिस्थितहं घरहं जिणि विहरियइ स अर्द्धपेटावृत्ति ६ । जिणि माह हूंतं याहिरि विहरी आवियइ स अर्द्धिभतरसंबुक्का ७ । जिणि याहिर हूंतं माहि विहरी आवियइ स बहिःसंबुक्का ८ । 'एल्लुगविक्रंभमत्तगहणं च' इति । एल्लु त्वंडं सु विक्रंमी करी । किसउ अर्थु । जां सु आपणइ भावि फासउ हुयइ तां तिहां रही मात्रमहणु करइ । 'सग्गामि परग्गामे' इति । एतले घरे विहरिसु, आपणेई गामि अनइ अनेरेई' गामि, एवमादि क्षेत्राभिप्रहु । ६

काले अभिग्गहो पुण आई मज्जे तहेव अवसाणे ।

अप्यत्ते सइ काले आई विइ मज्जयं तइयं ॥

[२२३]

जिणि देसि ज भिक्षावेला प्रसिद्ध हुयइ तिणि देसि तेह भिक्षावेलातउ आदिहिं मध्यि अवसानि काल विपउ भिक्षाभिप्रहु । तथा हि- भिक्षाकालि अप्राप्ति हूंतइ भिक्षा भमतां हूतां पहिलउ अभिप्रहु, मध्यि भिक्षा तणइ समइ हिं जि भिक्षा भमतां हूतां वीजउ अभिप्रहु, अंति भिक्षाकालावसानि भिक्षा 10 भमतां हूतां वीजउ अभिप्रहु । एवमादि कालाभिप्रहु ।

'उक्खित्तमाइ चरगा भावजुया खलु अभिग्गहा हुंति ।

गायंतो य रुयंतो जं देइ निसन्नमाई वा ॥'

[२२४]

'उक्खित्तमाइ चरण' ति । भाजन हूंतइ पिंडि उक्खिप्ति ऊपाडियइ हूंतइ चरइं जि भिक्षा भमइं ति उक्खित्तचरक कहियइं । तथा भोजनादि थानकि निक्षिपियइ पिंडि हूंतइ जि चरइं भिक्षा भमइं ति 15 निक्षिप्तचर कहियइं । तथा 'गायंतो' इत्यादि । गानु करतउ, रोदनु करतउ अथवा 'निसन्नमाई वा' निपण्णु घटठउ थिकउ 'आदि'शब्दइतउ सूतउ हूंतउ वा एवमादिकु दायकु जु देउ दातव्यु वस्तु दियइ सु लियइ एवमादि भावाभिप्रहु ।

§ 224) रस दुग्धादि विगइ तीह नउ त्याउ घर्जनु रसत्यागु कहियइ ।

§ 225) काय तणउ हेसु शास्त्र तणइ अविरोधिं कपी घायनु नानाप्रकारु फायछेशु । 20

तया च भणितं-

वीरामणउमुडगासणाइ लोयाईओ य विचेओ ।

कापकिलेसो संसारवासन्निच्चेपहेउ ति ॥

[२२५]

वीरासणाइसु गुणा कायनिरोहो दया य जीवेसु ।

परलोगमई य तदा बहुमाणो चेव अच्चेसिं ॥

[२२६] 23

निस्संगया य पच्छा-परकम्मविरज्जणं च लोयगुणा ।

दुक्खसहचं नरगाइभारणाए य निच्चेओ ॥

[२२७]

§ 226) अथ संश्रिता लियियइ-संश्रिता गुणना, स पुणि इंद्रिय-कमाय-योगविपया विविक्त-शयनाऽऽसना च इति चउं भेदे । तदुक्तं-

इंद्रिय-कमाय-जोए पइय संश्रिताया मुणोयत्वा ।

तह य विविक्तगरिया पत्तना वीयरणेहिं ॥

[२२८]

§ 227) तत्र भयर्जेन्द्रियि कपी मधुपाऽमधुपादि शब्दइं विपय रागद्वेष तणउं अफणु भयर्जेन्द्रिय-संश्रिता । पदाह-

सहेसु य भदय-पावएसु सोयं विसयमुवगएसु ।

तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयव्वं ॥ [२२९]

रमणीयाऽरमणीयहं रूपहं विपइ रागद्वेषकरण तणउ अभावु चक्षुर्द्वियसंलीनता । यदाह-

रूवेसु य भदय-पावएसु चक्षुर्विसयमुवगएसु ।

तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयव्वं ॥ [२३०]

सुरभि-सुरभिगं वहं विपइ रागद्वेष तणउ अभावु घ्राणेंद्रियसंलीनता । यदाह-

गंधेसु य भदय-पावएसु घ्राणं विसयमुवगएसु ।

तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयव्वं ॥ [२३१]

स्निग्ध मधुर कटुक कपाय अन्ल लवण रसहं विपइ रागद्वेष तणउ अभावु रसिण्दियसंलीनता ।

10 तथा चाह-

शुजेसु य भदय-पावएसु जिन्मं विसयमुवगएसु ।

तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयव्वं ॥ [२३२]

तथा मृदुलाऽमृदुलादिफरसहं विपइ रागद्वेषकरण तणउ अभावु फरसिण्दियसंलीनता ।

यदाह-

फरसेसु य भदय-पावगेसु फरसं विसयमुवगएसु ।

तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयव्वं ॥ [२३३]

§ 228) अथ कपायसंलीनता लिखियइ-

उदयस्तेव निरोहो उदयं पचाण वाऽकलीकरणं ।

जं इत्थ कसायाणं कमायसंलीनया एमा ॥ [२३४]

अणथोवे' वणथोवे' अग्गीथोवे' कमायथोवे' च ।

नहि मे वेमसियव्वं थोवं पि हु तं वहुं होइ ॥ [२३५]

इसा पचनइतउ कमाय पहिलउ उदर आवता राखिया, उदर आविया एता उपसमनारिपइ कपी फलरहित करिया । यदाह-

उवसमेण हणे कोहं भाणं मद्दवया जिणे ।

मायं चऽज्जवभावेणं लोभं संलोमओ जिणे ॥ [२३६]

इसी परि कसायउदयागमनरक्षणु अथवा विपचीवरणु कमायसंलीनता कहियइ ।

§ 229) अथ जोगसंलीनता लिखियइ-

अपसत्त्याग निरोहो जोगाणमुदीरणं च वृत्तत्थं ।

कज्जम्मि य विदिगमणं लोभे संलीनया भणिया ॥ [२३७]

अप्रदक्षामनवचनवापइ तणउं निरोधनु निरोधु-निराण, प्रच्छदं तीर्णी जि वणउं उदीरणु कणु

कारिं ऊपनइ मणिउिसिदिनु गमनु जोगसंलीनता ।

आराम-उज्जाणाइनु थी-पनु-पंदुगविपजिए टापे ।

फलमार्हण य गहणं तह भणियं एमणिज्जाणं ॥ [२३८]

ए विविक्तसंलीनता ॥

§230) अंतरंगतप तणा छ भेद लिखियइं—

पायच्छित्तं विणओ वेयावचं तहेव सज्जाओ ।

ज्ञाणं उस्सग्गो वि य अर्भितरओ तवो होइ ॥

[२३९]

तत्र प्रायश्चित्तु कहियइ—चित्तु जीवु अथवा मनु कहियइ तेई सोधइ तिणि कारणि प्रायश्चित्तु कहियइ । सु पुणि आलोचनादिकहं दसहं भेदहं करी कहियइ । यथा—

आलोपण १ पडिकमणे २ मीस ३ विवेग ४ तहा विउसग्गे ५ ।

तव ६ च्छेय ७ मूल ८ अणवट्टिए ९ य पारंघिए १० चेव ॥ [२४०]

गुरु आगइ वचनि करी अतिचार तणउं प्रकटीकरण आलोपणा १—जु आलोपणामात्रि करी 10 प्रायश्चित्तु सूझइ सु प्रायश्चित्तु पुणि उपचारइतउ आलोपणा १ ।

§231) तथा प्रतिक्रमणु—दोष हंतउ निवर्त्तनु—पुनरपि करण तणा अभावइतउ मिथ्यादुष्कृत-प्रदानु प्रतिक्रमणु कहियइ, तेह योग्यु प्रायश्चित्तु मिथ्यादुष्कृतमात्रिहिं जि करी सूझइ न मुणि गुरु आगइ आलोईयइ, यथा सहसाकारि अजाणभावि श्लेष्मादिकु प्रक्षिपतां ऊपनउं प्रायश्चित्तु । तथा हि—सहसा अनुपयुक्तेन यदि श्लेष्मादि प्रक्षिप्तं भवति, न च हिंसादिकं दोषमापन्नः तर्हि गुरुसमक्षमालो-15 चनामन्तरेणादि मिथ्यादुष्कृतमात्रेण शुद्धयति ततः प्रतिक्रमणार्हत्वात् प्रतिक्रमणु २ ।

§232) जिणि पुणि प्रायश्चित्ति प्रतिसेवियइ जइ गुरुसमीपि आलोईयइ आलोई करी गुरुसमादेशइतउ पडिकमियइ, पाछइ 'मिथ्यादुष्कृतु' इसउं कहियइ, तउ पाछइ सु आलोचना-प्रतिक्रमण-लक्षण उभययोग्यता करी मिश्र, ३ ।

§233) तथा विवेकु परिस्सागु, जु प्रायश्चित्तु विवेकिहिं जि कीधइ सूझइ प्रकारि न सूझइ, 20 यथा अज्ञानभावि आघाकर्म्म लीधइ ज्ञानभावि तेह नइ त्यागि कीधइ पाछिलउ आहारु शुद्धउ ह्यइ सु विवेकयोग्यता करी विवेकु ४ ।

§234) व्युत्सर्गु कायचेष्टानिरोधु, जु व्युत्सर्गमात्रिहिं जि दुःस्वप्न-निद्रास्वलितादिकु सूझइ सु व्युत्सर्गयोग्यता करी व्युत्सर्गु ५ ।

§235) जिणि प्रतिसेविति निर्विकृतिकादिकु छन्मासावसानु तपु दीजइ सु तपयोग्यता करी 25 प्रायश्चित्तु तपु ६ ।

§236) जिम सर्पदष्ट देहावयव नउ छेदु अपरशरीररक्षानिमित्तु कीजइ तिम जिणि प्रायश्चित्ति प्रतिसेविति दूषित पूर्वपर्यायछेदु अदूषित पर्याय रक्षानिमित्तु कीजइ सु छेदयोग्यता करी प्रायश्चित्तु छेदु ७ ।

§237) जिणि प्रायश्चित्ति प्रतिसेविति सकल पूर्वपर्यायछेदु करी बली बीजीवार महाप्रतारोपणु कीजइ सु मूलयोग्यता करी मूल ८ ।

§238) जिणि प्रतिसेविति हंतइ पुणरवि पंचमहाप्रतारोपण रहइ योग्यु न हुयइं जां. विशिष्टउं कांइ एकु तपु कीधउं न हुयइं । विशिष्टि तपि कीधइ पाछइ तेह दोष नी निवृत्ति हुइ हंतौ प्रतई विपद थापियइ सु अनवस्थानयोग्यता करी अनवस्थितु ९ ।

मु जिनकल्पाधिकारियउ साधु सगलाई चऊद पूर्वसूत्र 'उकहयावइयाई' किसउ अर्थु ? छेहला आखर हूंतउ क्रमि क्रमि धुरिलइ आखरि आवइ, धुरिला आखर हूंतउ क्रमि क्रमि छेहलइ आखरि जाइ । तथा एकांतर आलापक ग्रहणि करी मूल हूंतउं सुत्रु तां परावर्तइ जां छेहु । तउ आलापक हूंतउं एकांतर ग्रहणि करी धुरि आवइ । इसी परि आचारनामकु नवमउं पूर्यु तेह माहि व्रीजउं वरु तेह माहि 5 जु प्रकार कहिउ छइ तिणि प्रकार करी तिम सुत्रु परावर्तइ जिम ऊसासप्रमाणु यथोक्तु जाणइ तउ मुहत्तं पौरुपी दिवस अहोरात्र काल विपइ परिमाणु जाणइ ए कालतुलना ३ ।

§ 248) एकत्रतुलना कहियइ-

अत्रो देहाउ अहं नाणत्तं जस्त एवं उवलद्धं ।
सो किंचि आहरिकं न कुणइ देहस्त भंगे वि ॥

[२५५]

10 हउं देह हूंतउ अनेरउ इसी परि नाणत्तं नानात्वम्-भेदु जेह रहइ उवलद्धु जाणितं हुयइ सु देहभंगिहिं आहरिकु उत्रासु भउ न करइ इति एकत्रतुलना ४ ।

§ 249) बलतुलना कहियइ-

एमेव चलं मुणिणो अभिक्खआसेवणाइ तं होइ ।
लंसग-मल्ले उवमा आसकिसोरे य जुग्गविए ॥

[२५६]

15 एवं इसी परि चलभावना करी देहु तिम सहाविवउं जिम अवयवकरणीयविपइ बलहानि शरीरि न हुयइ । ननु तपु करतां देहयलु जाइ तउ किसी परि बलतुलना ? इसउं न भणिवूं, देहयलु धृतिबल-सूचानिमित्तु । चलभावना करी तिम यतना करेवी जिम देहअपचयभाविहिं धृति समुत्साहवतं हुयइ जिम परीपदोपसर्गइ होइ जिणइ, तथा सर्वइ भावना धृतिबलपूर्व तिणि कारणि विशेषि करी धृतिबल-भावना भावेवी जिम अतिसनल उपसर्ग संभविहिं आपणउं कार्यु साधइ, न पुणि धृति रहइ कांइ 20 असाध्यु छइ, न पुणि तपोबलादिकु निरंतरं तपसंसेवनादि करी हुयइ ।

§ 250) अत्र दृष्टांतु लंसकु अनइ महु अनइ अश्वकिसोरु 'जुग्गविओ' इसउं त्रिहुं नउं विशेषणु । लंसकु नदु जुग्गविओ' अभ्यास प्रानु अभ्यासप्रकर्षइतउ रांहु ऊपरि पुणि नाचइ । महु पुणि करी करणअभ्यसतउ अभ्यासप्रकर्षइतउ पाछइ मुरिहिं प्रतिमाणु जिणइ । अश्वकिसोरु इतिप्रश्रुतिकहं हूंतउ धीदहतु दुखिल करी हस्तिप्रमुखइं समीपि राहवियइ पाछइ 25 अभ्यासप्रकर्षइतउ माहि तेह समीपिहिं भाजइ नहीं ।

§ 251) एतदु दृष्टांतभायना दाष्टांतिकि मूलिगइ अर्थि जोडियइ । एवं इसी परि निरंतरं तपसे-पनि करी तपसइ, सर्ववायष्टुं यलावलंउ तिणि करी दैयादिवहीं हूंतउ धीदह नहीं । सूत्रार्थचित्तन-प्रमाणि काले गतागतरूपु जाणइ । एकत्रभावना हूंतउ यथोक्तु निसंरु हुयइ, धृतिअवष्टंभि करी प्राणत्यागणपउं मेहइ नहीं । इसी परि जिम जिनकल्पी पटिलउं तुलना परइ तिम प्रतिमा 30 अंगीकरणहानि पटिलउं गच्छ माहि थिकउ तुलना करइ, तथा' उत्कर्षइतउ किंचूण दसपूर्व जपय्य-इतउ नवपूर्व जपय्यइतउ तेह सीम सूत्रार्थधारकु जउ हुयइ उपसर्गनदु एपणानिग्रहधरु-अलेपधृत-यह-चणकारिणु । किसउ अर्थु ?-

§239) जिणि प्रतिसेविति लिंग-क्षेत्र-काल-तप सविहुं नइ पारि अंचइ जाइ सु परांचितु अर्हइ जु प्रायश्चित्तु तेरु परांचितु १० । इसी परि व्यचहारसिद्धांत माहि दसविधु प्रायश्चित्तु भणितं, सु अंतरंगतप नउ पहिलउ भेदु ।

§240) विनउ पुणि दसविधु । यथा-

- 5 अरिहंत १ सिद्ध २ चेईय ३ सुए य ४ धम्मे य ५ साहुवग्गे य ६ ।
 आयरिय ७ उवज्जाए ८ पवपणे ९ दंसणे १० विणओ ॥ [२४१]
 अरहंता विहरंता सिद्धा कम्मकखए सिवं पत्ता ।
 पडिमाउ चेइयाईं सुयं ति सामाइयाईयं ॥ [२४२]
 धम्मो चरित्तधम्मो आहारो तस्स साहुवग्ग ति ।
 10 आयरिय उवज्जाया विसेसगुणसंगया तत्थ ॥ [२४३]
 पवपणं असेससंघो दंसणमिच्छंति इत्थ सम्मत्तं ।
 विणओ दसन्हमेसिं कायच्चो होइ एवं तु ॥ [२४४]
 भत्ती बहुमाणो वन्नज्जण नासणं अवन्नवायस्स ।
 आसायणपरिहरणं उचियाण सेवणाईं य ॥ [२४५]
 15 दसमेय विणयमेयं कुणमाणो भाणवो महियमाणो ।
 सदहइ विणयमूलं धम्मं पि विसोहए सम्मं ॥ [२४६]
 इसउ दसविधु विनउ वीजउ अंतरंगतप तणउ भेदु ।

§241) वेयावच्चु पुणि दसविधु । यथा-

- आपरिय १ उवज्जाया २ थेर ३ तवस्ती ४ गिलाण ५ सेहाणं ६ ।
 20 साहम्मिय ७ कुल ८ गण ९ संघ १० संगयं तं इह कायच्चं ॥ [२४७]
 आचार्यं, उपाध्याय, स्वविर-दृढ, तपस्वी- उत्कृष्ट तपश्चरणकारु, गिलाणु-मंडु, सेह-नवदीक्षित,
 साधर्मिक-एकधर्म, कुल एकचार्यसंतातु, गणु- त्रिहं आचार्यहं नउ संतातु, संघु साधुसाध्वीश्रावकभाविकारु-
 रूपु चतुर्विधु । इहं दसही नइ विपइ वैयावृत्त्यु दसविधु हुयइ । एउ वीजउ अंतरंगतप नउ भेदु ।

§242) वायणा १ पुच्छणा २ परियट्टणा ३ अणुपेहा ४ धम्मकहा ५ सज्जाउ पंचविधु ।
 25 तथा च भणितं-

वायणा' १ पुच्छणा' २ परियट्टणाउ ३ अणुपेहा ४ धम्मकहा ५ विसओ ।

सज्जाओ पंचविहो भणितो भवभीइसुकेहिं ॥ [२४८]

अनुपेक्षा मनि परियत्तई, यचनि न ऊचरहं । वीजउं सुगसु । एउ चउयउ अंतरंगतप तणउ भेदु ।

§243) आर्त्तध्यानु १ रौरध्यानु २ धर्माध्यानु ३ शुद्धध्यानु ४ इति चतुर्धा ध्यानु । तथाहि-

30 कामाणुरंजियं अट्टं रुहं हिंसाणुरंजियं ।

धम्माणुरंजियं धम्मं सुकज्जाणं निरंजणं ॥ [२४९]

विपर्यचितालक्षणु आर्त्तं, हिंसा-द्रोहाध्यवसायलक्षणु रौरु, धर्माध्यवसायलक्षणु धर्मु, विपर्यादि
 विकल्पकल्पनारहितु निरंजनु रागरोपरहितु शुद्ध एह चतुर्विध ध्यान माह आर्त्त रौर परिहरियां, धर्म्मं
 शुद्ध करियां । एउ पंचमु अंतरंगतप तणउ भेदु ।

जिम नवमी प्रतिमा कीजइ तिम दशमी प्रतिमा पुणि कीजइ । इसी परि ए त्रिन्हि प्रतिमा एक्कीसे दिवसे संपूर्ण कीजइ । इगारमी प्रतिमा अहोरात्रिकी नामि करी कहियइ । आंचिलु करी सकलु अहोरात्रु ग्राम वाहिरि रही प्रलंबित भुज करी काउभग्नु कीजइ, पाछइ चतुर्थं वि कीजइ । इसी परि त्रिउ दिवसे इगारमी प्रतिमा पूजइ । तथा दिवसि आविलु कीजइ रात्रि ग्राम वाहिरि ईप-आम्भारामिधान 5 सिद्धिशिला तेह नइ विपइ निर्निभेपट्टि विन्यासि कीधइ वे पग मेली करी भुज लंबमान करी सकल रात्रि जिनमुद्रा वर्त्तमानु काउरसगि रहइ । पाछइ पानकाहाररहित त्रिन्हि उपवास करइ । इसी परि चउं दिवसे चारमी प्रतिमा पूजइ । आठमी प्रतिमा हूँती चारमी प्रतिमा सीम दाति न हुयइ । जेतिवार सर्वइ प्रतिमा संपूर्ण हुयइ तेतीवार महात्मा रहइ अनेकि लच्छि उपजइ इति साधुप्रतिमाविचारु सिद्धाव तणइ अनुसारि मइ लिखिउ छइ । अनेरोई जु को विशेषु हुयइ सु पुणि गीतार्थइ महंतु अनुमहु 10 करी लिखियउ ।

§ 260) 'अभिग्रह' इति । द्रव्य-क्षेत्र कालभाव भेदइतउ अभिग्रह चउं भेदे हुयइ । यथा द्रव्यइतउ जे किमइ खलखंडादिकु द्रव्यु लहिसु तउ लेसु । क्षेत्रइतउ जइ धनवंतादि परि लहिसु तउ लेसु । फालइतउ जउ भिक्षुकालु अतिक्रमिउ होइसिइ तउ लेसु । भावइतउ जउ दायकु हसनादि क्रिया करतउ देसिइ तउ लेसु । इसी परि चतुर्थिध अभिग्रह जाणिवा । अथवा पूर्वहिं विस्तरि करी अभिग्रह चतुर्थिध 15 भणिया छइ तिम जाणिवा । ए पूर्वभणित पिंढविसोही प्रसुत सगलाई जउ मेलियइ तउ साधु तणा सर्वइ उत्तरगुण वाणंइ सरन्यात । 'मो वियाणाहि' किसउ अरुं ? शिष्य आगइ गुरु कहइ-हे शिष्य । तउं 'वियाणाहि' जाणि । 'मो' ईहा पादपूर्णनिमित्तु छइ । अथवा-

वायाला अट्टेव य पणुवीसा वार वार सय चेव ।

दन्वाइ चउरभिग्रह मेया खलु उत्तरगुणाणं ॥

[२५८]

20 इति व्यवहार-सिद्धातानुसारि करी पिंढविसुद्धि तणा भेद बइतालीस । यथा-उद्रमदोष सोल, उत्पादनादोष, सोल, एपणादोष दस, ईहं चइतालीसही तणा परिहार । यइतालीस पिंढविसुद्धिभेद, समिति पांच गुप्ति त्रिन्हि, एवरूप आठ समिति, भावना पंचवीस-एक एक महाव्रत प्रति पाच पाच भावना भावइतउ ।

§ 261) यथा-

25 भावनाभिर्भावितानि पञ्चभिः पञ्चभिः क्रमात् ।

महाव्रतानि नो कस्य साधयन्त्यव्ययं पदम् ॥

[२५९]

तथा-

मनोगुप्त्यैपणाऽऽदानेर्याभिः समितिभिः सदा ।

दृष्टान्नपानग्रहणेनाऽर्हिंसां भावयेत् सुधीः ॥

[२६०]

30 मनोगुप्ति १ एपणासमिति २ आदानभाडमात्रनिक्षेपणासमिति ३ ईर्यासमिति ४ दृष्टान्नपानग्रहण-लक्षण ५ पांच भावना प्रथम महाव्रत तणी जाणेवी ।

§ 262) हास्य-लोभ-मप-क्रोधप्रत्याख्यानैर्निरन्तरम् ।

आलोच्य भाषणेनाऽपि भावयेत् सन्नतत्रतम् ॥

[२६१]

हास्य लोभ भय क्रोध ईहं चञ्हुं तणा प्रत्याख्यान निवारण च्यारि भावना, पांचमी भावना आलोची करी बोलिवचं; ए पांच भावना बीजा महाव्रत तणी जाणेवी ।

§263) आलोच्याऽवग्रहयाश्चाऽभीक्ष्णाऽवग्रहयाचनम् ।

एतावन्मात्रमेवैतदित्यवग्रहधारणम् ॥

[२६२]

समानधार्मिकैभ्यश्च तथाऽवग्रहयाचनम् ।

अनुज्ञापितपानान्नाशनमस्त्येयभावना ॥

[२६३]

आलोचनापूर्वं देवेंद्र-राज-गृहपतिप्रभृति अवग्रहयाचनु १, जिहां एवू क्षणु रहियइ तिहां तत्क्षेत्रा-धिपति अनुज्ञापनापूर्वकु रहियइ इति अभीक्ष्णाचग्रहयाचनु २, एतत्वं ज एउ क्षेत्रादिकु मू रहइं परिग्रह-कारणि मोकळउं वीजउं नहीं इत्यवग्रहधारणु ३, साधर्मिकावग्रहयाचनु ४, अनुज्ञापितपानान्नभोजनु ५, इत्येवंप्रकारं पांच भावना त्रीजा महाव्रत तणी जाणेवी ।

§264) स्त्री-पण्ड-पशुमद्वेइमाऽऽसन-कुल्यान्तरोज्जनात् ।

सरागस्त्रीकथात्यागात् प्रागूरतस्मृतिवर्जनात् ॥

[२६४]

स्त्रीरम्याङ्गेषु स्त्राङ्गसंस्कारपरिवर्जनात् ।

प्रणीताऽत्यशनत्यागात् ब्रह्मचर्यं च भावयेत् ॥

[२६५]

स्त्री नारी पंड नपुंसक पशु छाळी गाइ महिभि घोडी रासमी प्रभृति जिहां हुयइं तिहां न रहियइं, 15 स्त्रीआसनि न वइसियइं, कुडय भणियइं भीति तीर्यं तणा अंतराल जाळं तीहं करी स्त्रीशरीरावयव विलोकनु न कीजइं इति एक भावना । सरागस्त्रीकथा न कीजइं इति बीजी भावना । पूर्वानुभूत मैथुन तणउं समरणु न कीजइं इति त्रीजी भावना । स्त्री तणा रम्य मुलनक्षेत्रादिक अंग न जोईइं, स्व आपणा संग रहइं सत्कार दंत-नख-केश मज्जनादिकु न कीजइं इति चउयी भावना । प्रणीतु स्निग्ध दधि मोदक-घृतपूर-लपनश्री प्रमुखु आहारु तेह तणउं अतिअशनु अतिभक्षणु न कीजइं इति पाचमी भावना चउथा 20 महाव्रत तणी जाणेवी ।

§265) स्पर्शे रसे च गन्धे च रूपे शब्दे च हारिणि ।

पञ्चस्वपि-इन्द्रियार्थेषु गाढं गार्ह्व्यस्य वर्जनम् ॥

[२६६]

एतेष्वेवाऽमनोऽङ्गेषु सर्वथा द्वेषवर्जनम् ।

आकिञ्चन्यव्रतस्यैवं भावनाः पञ्च कीर्तिताः ॥

[२६७] 25

स्पर्शे रस गंध रूप शब्द लक्षण छइं पांच मनोबांछित विषय तीह विषइ अतिरगवर्जनु अथवा पई जि छइं अमनोबांछित पांच विषय तीह नइ विषय सर्वथा द्वेषवर्जनु जु कीजइ ए पांच, पांच महाव्रत तणी भावना जाणेवी ।

§266) दार तप तणा भेद, दार प्रतिमा, च्यारि अभिग्रह सर्वइं मिलिया एकु सउ त्रिहुं करी अधिकु उत्तरगुण साधुसंबधिया जाणेवा ।

30

§267) अथ श्रावक तणउ देतोत्तरगुणप्रत्याख्यानु इगुणनवइ भेदे करी लिखियइ । यथा जिणि परि ति इगुणनवइ भेद हुयइं स परिकहिियइ-

हास्य लोभ भय क्रोध ईहं चउहुं तणा प्रत्याख्यान निवारण च्यारि भावना, पांचमी भावना आलोची करी बोलिवडं, ए पांच भावना वीजा महाव्रत तणी जाणेवी ।

§ 263) आलोच्याऽवग्रहयाश्चाऽमीक्षणाऽवग्रहयाचनम् ।

एतावन्मात्रमेवैतदित्यवग्रहधारणम् ॥

[२६२]

समानधार्मिकेभ्यश्च तथाऽवग्रहयाचनम् ।

अनुज्ञापितपानान्नाशनमस्तेयभावना ॥

[२६३]

आलोचनापूर्व देवेंद्र-राज-गृहपतिप्रभृति अवग्रहयाचनु १, जिहां एक क्षणु रहियइ तिहां तक्षेत्रा-धिपति अनुज्ञापनापूर्वकू रहियइ इति अभीक्षणावग्रहयाचनु २, एतळें ज एउ क्षेत्रादिकु मू रहइं परिग्रह-कारणि मोकळउं वीजउं नईं इत्यवग्रहधारणु ३, साधर्मिकावग्रहयाचनु ४, अनुज्ञापितपानान्नभोजनु ५, इत्येवंरूप पांच भावना वीजा महाव्रत तणी जाणेवी ।

§ 264) स्त्री-पण्ड-पशुमद्वेषमाऽसन-कुल्यान्तरोज्जनात् ।

सरागस्त्रीकथात्यागात् प्राग्रतस्मृतिवर्जनात् ॥

[२६४]

स्त्रीरम्याङ्गेषु स्वान्नसंस्कारपरिवर्जनात् ।

प्रणीताऽत्यशनत्यागात् ब्रह्मचर्यं च भावयेत् ॥

[२६५]

स्त्री नारी पंड ननुसक पशु छाली गाइ महिभि घोडी रासमी प्रभृति जिहां हुयइं तिहां न रहियइं, 15 स्त्रीआसनि न बइसियइं, 1 कुहय भणियइं भीति तीयं तणा अंतराल जाळं तीहं करी स्त्रीशरीरावयव विलोकनु न कीजइं इति एक भावना । सरागस्त्रीकथा न कीजइं इति वीजी भावना । पूर्वानुभूत मैथुन तणउं समरणु न कीजइं इति वीजी भावना । स्त्री तणा रम्य मुखवक्षोजादिक अंग न जोईइं, स्व आपणा संग रहइं संस्कार दंत-नख-केश मज्जनादिकु न कीजइं इति चउथी भावना । प्रणीतु स्निग्ध दधि मोदक-घृतपूर-लपनश्री प्रमुखु आहार तेह तणउं अतिअशनु अतिभक्षणु न कीजइं इति पांचमी भावना चउथा 20 महाव्रत तणी जाणेवी ।

§ 265) स्पर्श रसे च गन्धे च रूपे शब्दे च हारिणि ।

पञ्चस्वपि-इन्द्रियार्थेषु गाढं गार्ह्व्यस्य वर्जनम् ॥

[२६६]

एतेष्वेवाऽमनोहोषु सर्वथा द्वेषवर्जनम् ।

आकिञ्चन्यव्रतस्यैवं भावनाः पञ्च कीर्तिताः ॥

[२६७]

स्पर्श रस गंध रूप शब्द लक्ष्य छइं पांच मनोवांछित विषय तीहं विषइ अतिरागवर्जनु अथवा एई जि छइं अमनोवांछित पांच विषय तीहं नइ विषइ सर्वथा द्वेषवर्जनु जु कीजइ ए पांच, पांच महाव्रत तणी भावनत जाणेवी ।

§ 266) धार तप तणा भेद, धार प्रतिमा, च्यारि अभिग्रह सर्जइ मिलिया एकु सउ त्रिहुं करी अधिकु उत्तरगुण साधुसंबंधिया जाणेवा ।

30

§ 267) अथ श्रावक तणउ देतोत्तरगुणप्रत्याप्यानु इगुणनवइ भेदे करी लिखियइ । यथा जिणि परि ति इगुणनवइ भेद हुयइं स परिकहियइ-

पञ्चखण्डं १०, अभिमह ४, सिक्खा ७, तव १२, पडिम ११,
भाषणा १२, खित्तं ९ ।

धम्मो ४ पूया १७ य तथा गिह्दिउत्तरगुण इगुणनउई ॥ [२६८]

तत्र पञ्चखण्डेषु नवकार पोरिसी ए इत्यादिकु दसविधु आगइ कहीसिइ । अभिमह साधु वणा
जिम अभिमह भणिया तिणि अनुसारि श्रायकहीं रहइ जाणिवा । त्रिन्दि गुणव्रत चत्तारि शिक्षाव्रत रूप
सात शिक्षा जाणिवी । तपु वारहे भेदे जिम पूर्वहिं भणिउं तिमहिं ज' जाणिवउं ।

§268) प्रतिमा इग्थार । यथा—

दंसण १ यय २ सांमाइयइ ३ पोसह ४ पडिमा ५ अवंब ६ अचित्ते ७ ।

आरंभ ८ पेस ९ उच्छिट्टवज्जए १० समणभूए य ११ ॥ [२६९]

10 तत्र—

शङ्का १ काङ्का २ विचिकित्सा ३ मिथ्यादष्टिप्रशंसनम् ४ ।

तत्संस्तवश्च पञ्चापि सम्यक्त्वं दूषयन्त्यमी ॥ [२७०]

इहां शंकादिकं पांचहीं अतीचारहं तणउं स्वरुपु पंडिकमणा सूत्र माहि "संकाकंलविगंठा"—
पह गाहं नइ वखाणि कहीसिइ । शंकादि अतीचारपंचकरहितु सुदु सम्यक्त्तु मासविषस सीम पालियइ
18 जुं स प्रथम दर्शनप्रतिमा १ कहियइ ।

§269) पांच अणुव्रत त्रिन्दि गुणव्रत चत्तारि शिक्षाव्रत लक्षण वारह व्रत कहियइ, ति
संगलाई अतीचारपंचकरहित पूर्वदर्शनप्रतिमासमाचारु' समाचरतां हुंता वि मास सीम जु पालियइ स
बीजी व्रतप्रतिमा कहियइ । तथा त्रिकाल देवपूजा उभयकालु प्रतिक्रमणु गुरुपादमूलि वंदनादि क्रियाक-
लाप कीउइ विधिवत् गुप्तिसमिति यतना' करतां वरितीयइ इत्यादिकु समाचारु बीजी प्रतिमा माहि
20 जाणिवउ २ ।

§270) त्रिन्दि मास प्रथम द्वितीय प्रतिमासमाचारु समाचरतां हुंतां

तिविहे दूप्पणिहाणे अणवट्टाणे तहाऽऽसयविहूणे ।

सामाहए वितहकए पढमे सिक्खावए निंदे ॥ [२७१]

इसा सामायिक तणा पांच अतीचार परिहरता हुंतां 'जाहे रणिओ ताहे सामाहयं कुञ्जा' इति
25 वचनात् सामायिकिहिं जि वर्त्तमानु जु रहइ स बीजी मागाइकप्रतिमा ३ ।

§271) अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा अनायासा लक्षण धनुःपूर्वी द्विपसहं कृतचतुर्विधाहार
पौषधोष्यास चत्वारि मास पूर्वप्रतिमात्रय समाचारु प्रतिपालतां जु रहियइ स चतुर्थी' पौषधप्रतिमा ४ ।

§272) पौषध नी रात्रि एक रात्रिकादिक प्रतिमा थिकउ रहइ, मास ५ अज्ञानु प्राप्तुक
भोजनु दिवामहचारी रात्रिकृतपरिमाणु पौषधकालि रात्रिहिं मद्यचारी पूर्वप्रतिमाचतुष्टयसमाचारु प्रतिपालतां
10 जु रहियइ स पांचमी प्रतिमा नाम ५ ।

§273) प्रतिमा ५ मास ६ पूर्वप्रतिमापंचक समाचारु प्रतिपालतां हुंतां सदा महचारी
हुइयइ स छट्टी अन्नज्ञ नाम प्रतिमा ६ ।

§ 274) पूर्वप्रतिमापट्टसमाचार प्रतिपालनापरु मास ७ सीम सचिच्चाहारवर्जकु हुयइ जिणि स सप्तमी अचित्तनाम प्रतिमा ७ ।

§ 275) पूर्वप्रतिमासप्तकसमाचारप्रवर्त्तकु मास ८ स्वयं आरंभवर्जकु हुयइ जिणि स अनारंभनाम अष्टमी प्रतिमा ८ ।

§ 276) प्रेप्यही कन्हां आरंभु न करावइं पूर्वसमाचार मास ९ जिणि करइ स प्रेप्यारंभ-⁵ वर्जिका नाम नवमी प्रतिमा ९ ।

§ 277) उद्दिष्टकृताहारवर्जकु । किसउ अर्थे ? आत्मनिमित्तकृत भोजनवर्जकु जु काई घरि सर्व साधारणु भोजनु तेह रहइं कारकु पूर्व समाचारधारकु मास दस उद्दिष्ट भोज्यवर्जिका नाम दसमी प्रतिमा १० ।

§ 278) क्षुरसुंड अथवा लुंचितु रजोहरण-पात्रपरिग्रही श्रमणभूतु यतिसमाचारकारी¹ निर्ममत्वु¹⁶ खन्नातिकुलहं विहरइ, भिक्षाभोजी ति 'श्रमणभूता' इति नामिका एकादस मासिका एकादसी प्रतिमा ११ । इति संक्षेपि¹⁷ करी श्रावकप्रतिमा विचारु ।

§ 279) केई एकि संप्रति प्रतिमा श्रावकहं रहइं करावइं । केई एकि पुणि चित्तचलाचलादि भावि करी प्रतिमासमाचार रहइं निरतीचारता करी दुष्करत्वइतउ तथाविध धृतिवल्संहननादिकहं तणा अभावइतउ पुणि न करावइं । तथा नियेषवचनु पुणि तीर्थोद्गालि नाम प्रकीर्णक माहि दीसइ । यथा-¹⁸

साधुणगोयरओ बुच्छिन्नो दसमाणुभावाओ ।

अज्जाणं पणवीसं, सावयधम्मो य बुच्छिन्नो ॥

[२७२]

अत्र साधुमहात्मा पूर्वहिं अप्रमादप्रवृत्तिनिमित्तु 'अगोयरओ' धरता, किमउ अर्थे ? याम कुहणी चांपी करी चोलपट्टकु राहवता जु सु 'अगोयरओ' कहियइ, इसउ आम्नाउ छइ । सु अगोयरउ दुस्खमानुभावइतउ बुच्छिन्नउ विच्छेदि गयउ प्रमादबहल कालभावि करी साधु चोलपट्टकु दवरदिकहं²⁰ तणइ आधरि धारिया¹⁹ लाग्ता । 'अज्जाणं पणवीसं' ति आर्यिका साध्वी ति पंचवीस उपकरण पहिरती,² ति पुणि विच्छेदि गयां । 'सावयधम्मो य बुच्छिन्नो' इति एकादस प्रतिमरारुपु श्रावकधम्मं विच्छेदि गयउ, इसा व्याख्यानइतउ एकादश प्रतिमा श्रावक तणी विच्छेदि गई इति । गतं प्रसद्दागतम् । भावना १२ पूर्वहिं भणी जिम तिमही जि जाणिवी ।

§ 280) खिचं ९ यथा-

25

जिणभवण १ विव २ पुत्थय ३ चउविहसंचो य ७ सत्त खित्ताइं ।

जिजुद्धरो ईं ८ पोसहसाला ९ साहारणं च दस ॥

[२७३]

जिजुद्धार रहइं जिनभवनग्रहणि करी ग्रहणइतउ एकु जिनभवणु १, बीजउं जिनविबु २, बीजउं पुस्तक ३, साधु चउथयं ४, साधु पांचमउ ५, श्रावक छटउं ६, श्राविका सातमउं ७, पौषयणाला आठमउं ८, साधारण संघलकु नवमउं ९, क्षेत्रु । ईह नव²¹ क्षेत्रहं श्रावकि आपणउं वित्तभीजुं²² १० याविपउं । यदाह-

§ 278) 1 Bh. सामाचारी- 2 Bh. adds हि । § 279) 1 Bh. परका । 2 Bh. विहरती ।

§ 280) 1 Bh. जिजुद्धरो, omits ईं । 2 Bh. नवहं । 3 Bh. वाविउं ।

इच्छतोऽनिच्छतो वाऽपि मामकं द्रविणं सदा ।

चैत्य-साधूपयोगाय भूयाञ्ज् जन्मनि जन्मनि ॥

[२७४]

सो अत्यो तं च सामत्यं तं विद्वाणमशुचमं ।

साहम्मियाण कजम्मि जं विचंति सुसावया ॥

[२७५]

5 - तथा दान-शील-तपो-भावनारूपु चतुर्विधु धम्मुं । देव-गुरु-धम्मविषयभेदइत्त त्रिविध चिंता । यथा-

देव-गुरु धम्म विसया तिधिहा चिंता हवंति कायव्या ।

सहेहिं महड्ढेहिं अप्पहेहिं च सचीए ॥

[२७६]

विहिपूया विहिपंदण विहिचेइय दब्बुड्डिरक्का य ।

वड्डइ अहव न वड्डइ इय चिंता देवविसयम्मि ॥

[२७७]

10

गुरुणं कहं समाही कह तेसिं सासणं निरावाहं ।

सीयंति न सीयंति व इय चिंता होइ गुरुविसए ॥

[२७८]

धम्मो कहं पवड्डइ निरविग्घो तह कहं भइ एत्तो ।

साहम्मियवच्छल्लं धम्मि पुणो एस खलु चिंता ॥

[२७९]

इति त्रिविधचिंता । अथया अतीत-अनागत-वर्तमानकालभेदि करी धम्मचिंता त्रिविधा । यथा-

15

पुव्वभवे सहहिओ जिणधम्मो मइं तओ इहं लद्धो ।

सदहणाऽऽपरणाओ कह लब्भे हं भविस्से वि ॥

[२८०]

इति त्रिविधचिंता गता ।

§ 281) सतरभेद पूजा यथा-

नहयणु १ विलेवणु २ अंगम्मि वत्थजुयलं ३ च वासपूया य ४ ।

20

पुप्फारुहणं ५ मह्झारुहणं ६ तह वन्नयारुहणं ७ ॥

[२८१]

सुन्नारुहणं ८ वत्थारुहणं ९ आहारणरोहणं १० चैव ।

पुप्फगिह ११ पुप्फपगरो १२ मंगलगा १३ धूवउक्खेवो १४ ॥

नइं १५ गीयं १६ वज्जं १७ पूयाभेया इमे सतर ॥

[२८२]

गंधकपायवस्त्रसत्क अगलहणं १, दिव्यरत्नपरिघापनिका २ इति यस्त्रयुगलु तत्पूजा यस्त्रयुगल-
25 पूजा, मास्यं माला स पुणि विशेषरूप जाणिवी । यथा-इंद्रमालाधारोपणु । सामान्यमाला 'पुप्फारुहणं
पुप्पपूजा' कहियइ तिणिहिं जि करी जिणि कारणि लाभइ निसइ कारणि 'मह्जारुहणं' इसउं वली भणियइ ।
वत्थारुहणं महाध्वजारोपु तत्पूजा वत्थारुहणपूजा । वन्नयारुहण शोभानिमित्तु वर्णककरणु तत्पूजा
वन्नयारुहणं । सुन्नारुहण कर्पूरचूर्णादिपूजु । मंगलगा अष्टमांगलिक्यपूरणु-दण्ण १ भद्रासण २
नंदावर्त्त ३ पूर्णकलस ४ मत्स्य ५ श्रीनरस ६ बद्धमानु शरावसपुट्ट ७ स्वस्तिक ८ रक्षण मांगलिक्य
30 जाणिवां । वज्जं वायपूजा । पुप्पगृहू फूरुहरउं पुप्पप्रकर जिम समवसरण माहि देव करइं तिम पुप्पप्रकर-
पूजा । वीजां पद सुगम । इति सतरह भेद पूजा तथा शाताधर्म्मकथां माहि अनइ जीराभिगम माहि
कहिया छइं । इति श्रावक तथा देसत उत्तराणु इगुणनवइ सब्यात सखेपिहिं भणिया ।

§ 282) अथ साधु श्रावक विहुं तणं सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यातु लिखियइ यथायोग्यु अना-
गतादिकु दसविधु । यथा-

अणागयं १ अइकंतं २ कीडीसहियं ३ नियटियं ४ चेय ।

सागारं ५ अणागारं ६ परिमाणकडं ७ निरवसेसं ८ ॥ [२८३]

संकेयं ९ चेय अद्दाए १० पचक्खणं च दसविहं होइ ।

सयं एवऽणुपालणियं दाणुवएसे जह समाही ॥ [२८४]

पर्युपणापर्यादिकि पर्वि आवणहारि हूंतइ ग्लानतायैयावृत्त्यादिकारणि पर्व पहिलउं जु अष्टमादिकु
प्रत्याख्यातु कीजइ सु अनागतु १ । परिं गयइ हूंतइ जु कीजइ सु अतिप्रांतु २ । पूर्वतप नइ समाप्ति
समइ वीजा तप नइ प्रत्याख्यानि लागते जि कीधउ विहुं तप नी कोटि मिलइं तिणि कारणि कीडी-
सहितु ३ । मासि मासि उमकि दिवसि साजइ भाठइ थिकइ मइं जु अष्टमादिकु अवदयु करिवउ हुयइ 10
सु नियत्रितु ४ । एउ पुणि प्रत्याख्यातु चतुर्दश पूर्वधर जिनकल्प सरसउं विच्छिन्नउं । महत्तरादिकहं
आकारहं सहितु साकार ५ । महत्तरादिकहं आकारहं रहितु निराकार ६ । दत्ति-कमलादिपरिमाण-
सहितु परिमाणरतु ७ । सर्व अज्ञानपानरहितु निरयशेषु ८ । अहुत्त मुध्यादिकि चिह्नि करी उपलक्षितु
सकेतु ९ । 'अद्दा' कालु तिणि करी उपलक्षितु अद्दाप्रत्याख्यातु १० । सु पुणि दसविधु । तथा-

नयकार १ पोरिसीए २ पुरिमट्टि ३ कासणे ४ गठाणे ५ य ।

आंविळ ६ अभचट्टे ७ चरिमे ८ अभिग्गहो ९ विगई १० ॥ [२८५]

प्रत्याख्यानद्वारु हूयउं ।

§ 283) अथ प्रत्याख्यानभंग लिखियइ । ति पुणि सर्व संख्या करी १४७ हुयइं । ति पुणि
इसी परि हुयइं ।

तिन्नि तिया तिन्नि दुया तिन्निक्किहा य हुंति जोगेसु ।

ति दु इकं ति दु इकं ति दु इकं चेय करणाइं ॥

[२८६]

मन घचन फाय योग तीहं नइ विपइ त्रिन्दि त्रिका, त्रिन्दि द्विका, त्रिन्दि एकका करण कारण
अनुमतिलक्षण करण, ति पुणि योगहं हेठइ त्रि द्वि एक इसी परि लिखियइं । आगन फल्लु वमि करी इसउं
हुयइ-एकु एरुकु, त्रिन्दि त्रिका, मि नयक, एकु त्रिकउ, मि नयक इति । स्थापना इसी परि कीजइ-

३ ३ ३ २ २ २ १ १ १

३ ० १ ३ २ १ ३ २ १

१ ३ ३ ३ ९ ९ ३ ९ ९

तथा ष भणितम्-

तिविहं त्रिविहेणियो एगयरतिगेण भंगया त्रिन्नि ।

तिगरहियए नव भंगा सव्वे पुण अउणपच्चासं ॥

[२८७]

पठमे इपो विइए तइपचउत्त्येसु भंगया त्रिन्नि ।

पंचमि छट्ठे नय नय सचमि त्रिन्निट्ट नयमि नय ॥

[२८८]

इंद तणी भावना इसी परि कीजइ-जीयहिमा न परद, न वगवइ, अनेउ परता अनुमनइ नदी
मनि करी पचमि करी वायि करी । एउ त्रिविहं त्रिविहेणियो, इणि परि भणित एकु भागइ ।

§284) अत्र शिष्यु भणइ-भगवन्! देशविरत रहइं एउ भेटु किम संभवइ; तेह रहइं अनु-
मतिनिषेध तथा अभावइतउ, इसउं न कहियूं। आपणा विषयवाहिरि श्रावकहीं रहइं अनुमतिनिषेधु
संभवइ, नहि स्वयंभूरमणमत्स्यादिघातविषइ अनुमति संभवइ। तदुक्तम्-

‘न करे’ इचाइतिगं गिहिणो कह होइ देसविरयस्स ।

भणइ विसयस्स बाहिं पडिसेहो अणुमईए वि ॥

[२८९]

इंही जि विषइ भाष्यकारु पृच्छा अनइ उतरु कहइ-

केई भणति गिहिणो तिविहं तिविहेण नत्थि संवरणं ।

तं न, जओ निदिट्ठं पन्नचीए^१ विसेसेणं ॥

[२९०]

तो कह निञ्जुत्तीएऽणुमइनिसेहु चि सेसविसयम्मि ।

सामत्थेणं नत्थउ तिविहं तिविहेण को दोसो ? ॥

[२९१]

निर्युक्ति माहि आपणाईं विषय माहि सामस्यभावि करी अनुमतिदान तथा अभावइतउ अनुमति-
निषेधु भणित, अनेरइ थानकि स्वयंभूरमणादिकि तिविहं तिविहेण निषेधि किसउ देसु। तथा पुत्रादि-
संततिनिमित्तु जिणि सावयव्यापारु दीघउ हुयइ तेह एकादसी प्रतिमा प्रतिपन्न रहइं ‘तिविहं तिविहेण’
परिहारु संभवइ। तदुक्तम्-

पुत्राइसंतदनिमित्तु सुत्तुं इकादसिं पवन्नस्स ।

जंपंति केइ गिहिणो दिक्खाभिमुहस्स तिविहं पि ॥

[२९२]

पुनरपि शिष्यु भणइ-किसी परि मनि करी करण कारण अनुमति हुयइं। आह-

कह पुण मणसा करणं कारावणु अणुमई यं ।

जह वय-त्तणुजोगेहिं करणाईं तह भवे मणसा ॥

[२९३]

जेतीवार काय नउ वचन नउ व्यापारु रहिउ हुयइ सर्वथा तेतीवार केवलु मनव्यापारु जु हुयइ ।

तयहीणत्ता वयत्तणुकरणाईण अहव उं मणकरणं ।

सावज्जोगेमणं पन्नचं वीयरगेहिं ॥

[२९४]

कारावणं पुण मणसा चित्तेइ करेउ एस सावज्जं ।

चित्तेती उ कए पुण सुट्टु कयं अणुमई होइ ॥

[२९५]

एतलइ पहिलउ मंगु हुयउ ।

§285) न करइ न करावइ अनेरा करता हूँता अनुमनइ नहीं। मनि करी पचनि करी एकु ।
मनि करी कायि करी वीजउ । वचनि करी कायि करी वीजउ ३ । एउ वीजउ मूलभेटु हुयउ । अथ
अनंतरु वीजउ मूलभेटु कहियइ-न करइ न करावइ अनेरा करता हूँता अनुमनइ नहीं । मणेणं एकु,
वायाए वीजउ, काएणं वीजउ । एउ वीजउ मूलभेटु । अथ चउथउ कहियइ-न करइ न करावइ मणेणं
३ वायाए काएणं एकु । न करइ अनेरा करता हूँता अनुमनइ नहीं वीजउ । न करावइ अनेरा करता हूँता
अनुमनइ नहीं वीजउ ३ । एउ चउथउ मूलभेटु । इयाणि पांचमउ कहियइ-न करइ न करावइ मणेणं
वायाए एकु । करइ नहीं अनेरा करता हूँता अनुमनइ नहीं वीजउ । न करावइ अनेरा हूँता अनुमनइ

नहीं व्रीजउ ३ । ए त्रिन्दि भागा^१ मणेण वायाए लद्धा । तथा इसीहीं जि परि मणेण काएण य त्रिन्दि भागा लाभइ । तथा अपर पुणि त्रिन्दि भागा^१ वायाए काएण य लाभइ । एव नव भागा । पाचमउ मूलभेदु हुयउ । अथ छट्टउ कहियइ—न करइ न करावइ मणेण एकु । न करइ अनेरा करता अनुमनइ नहीं मणेण वीजउ । न करावइ अनेरा करता अनुमनइ नहीं मणेण वीजउ । एउ वायाए तिन्नि । काएण वि तिन्नि लब्भति । एव नव भागा । छट्टउ मूलभेदु भणिउ । इयाणि सातमउ कहियइ—न करइ मणेण 5 वायाए काएण य एकु । न कारवइ मणसा ईहि वीजउ । अनेरा करता हूता अनुमनइ नहीं मणसा ईहि वीजउ । सातमउ मूलभेदु भणिउ । अथ आठमउ भणियइ—न^२ करइ मणेण वायाए एकु । तथा मणेण काएण य वीजउ । वायाए काएण य वीजउ । एव न करावइ इत्थ वि तिन्नि भगा । एव नव भगा आठमउ मूलभेदु भणिउ । अथ नवमउ मूलभेदु भणियइ^३—न करइ मणेण एकु, न करावइ^४ मणेण वीजउ, अनेरा करता हूता अनुमनइ नहीं मणेण वीजउ । एव वायाए तिन्नि । काएण य तिन्नि । एव भगा नव । 10 नवमउ मूलभेदु भणिउ । ईहा पहिलइ भागइ एकु भागउ, वीजइ त्रिन्दि भगा ३, वीजइ भागइ त्रिन्दि भागा । चउथइ भागइ त्रिन्दि भागा ३, पाचमइ भागइ नव भागा ९, छट्टइ भागइ नव भागा ९, सातमइ भागइ त्रिन्दि भागा ३, आठमइ भागइ नव भागा ९, नवमइ भागइ नव भागा ९ सर्व सख्या ४९ । तत्र अतीत सावद्य तणउ प्रतिक्रमणु, प्रत्युत्पन्नवर्त्तमान सावद्य तणउ सवरणु, अनागतसावद्य तणउ प्रत्याख्यानु । इसी परि कालत्रयि करी गुणित हूता इगुणपचास भागा एकु सउ सतेतालु हुयइ । 15 तथा चाह—

लद्धफलमाणमेयं भंगा उ हवंति अउणपन्नासं ।

तीया-उणागय-संपयगुणियं कालेण होइ इमं ॥

[२९६]

सीयालं भंगसयं कह कालतिएण होइ गुणणाओ ।

तीयस्स य पडिक्कमणं पच्चप्पन्नस्स संवरणं ॥

[२९७] 20

पच्चक्खाणस्स तहा होइ य एसस्स एव गुणणाओ ।

कालतिएणं भणियं जिण-गणहर-वायगाईहि ॥

[२९८]

सीयालं भंगसयं जस्स सुयुद्धीइ होइ उवलद्धं ।

सो खलु पच्चक्खाणे कुसलो सेसा सव्वे अकुसला उ ॥

[२९९]

तथा एकु पचक्खाणु करइ, एकु करावइ, निउ पदे करी चउभगी । तत्र जाणतउ जाणता कन्हइ 25 करइ शुद्धु १ । जाणतउ अजाणता कन्हइ गुरु नइ अभावि गुरुवहुमानबुद्धि करी गुरु छइ पिट्ठपिट्ठव्यादिक तीइ नइ समीपि करइ तउ शुद्धु २ । अजाणु जाणता समीपि सक्षेपिहिं जाणी करी करइ तउ शुद्धु ३ अजाणु अजाण समीपि करइ सर्वया अशुद्धु ४ । गृहस्थप्रत्याख्यानभगविचार ।

§ 286) अथ साधु उदिसी ' तिविह् तिविहेण ' इति सत्तावीस भेद प्रत्याख्यान तथा भणियइ— हिंसादि पचकु साधु करइ नहीं करावइ नहीं अनेरा करता हूता अनुमनइ नहीं । तत्र "करेमि भते^{३०} सामाइय" इणि करी पाच समिति समही "सव्व सावज्ज जोग पच्चक्खामि" इणि करी त्रिन्दि गुप्ति समही । जीवरक्षादिप्रवृत्तिविषइ समिति प्रवर्त्तइ, जीवहिंसादिनिग्रहविषइ गुप्ति प्रवर्त्तइ । तउ पाछइ ' तिविह् तिविहेण ' एकु, आठ प्रवचनमातर ९, कालत्रय करी गुणित सत्तावीस साधुप्रत्याख्यानभंगा हवति । प्रत्याख्यानभगद्वारु हुयउ ।

§ 287) प्रत्याख्यानमंगि गरुड दोसु । यथा-

वयमंगे गुरुदोसो धोवस्त वि पालणा गुणकरी य ।
 गुरुलाघवं च नेपं धम्मम्मि अओ य आगारा ॥ [३००]
 दो चेव नमुकारे आगारा छ छ पोरिसीए उ ।
 सत्तेव य पुरिमहे इक्कासणगम्मि अट्टेव ॥ [३०१]
 सत्तेगट्ठाणस्स उ अट्टेव य आयंवल्लिम्मि आगारा ।
 पंचेव अभत्तट्टे छ प्पाणे चरिम चत्तारि ॥ [३०२]
 पंच चउरो अभिग्गहे निब्बीए अट्ट नव य आगारा ।
 अप्पावरणे पंच य हवंति सेसेसु चत्तारि ॥ [३०३]

10 निब्बीए अट्ट वा नव वा आगारा कइं हवंति ? इत्याह-

नवणीओगाहिमए अह्वदहि पिसियघय गुले चेव ।
 नव आगारा एस्सि सेसदवाणं तु अट्टेव ॥ [३०४]

अप्पावरणे चोलपट्टकाकारः । आकारद्वारु हूयउं ।

§ 288) अथ सूत्रार्थद्वारु भणियइ-

15 (३०) उग्गए सूरे नवकारसहियं पच्चक्खामि चउच्चिहं पि आहारं असणं
 पाणं खाइमं साइमं अन्नत्थण्णाभोगेणं सहसागारेणं वोसिरामि ।

‘उग्गए सूरे’ उद्गति-ऊगिइ, सूरे-सूर्यि, नवकारसहितु ‘पच्चक्खाइ’ इसउं गुरु कहइ । शिष्यु
 ‘पच्चक्खामि’ इसउं कहइ । इसी परि अनेरेईं पच्चक्खाणे जाणिवउं । एउ मुहूर्त कालमातु रात्रिमोजनप्रत्या-
 ख्यानतीरणरूपता करी एह रहइं मुहूर्त्त ऊपरि जेतलइ नमस्कारु कही पारवं नहीं तां किसउं ? ‘चउच्चिहं
 20 पि आहारं’ चतुर्विधू आहारु अशनु पातु खायु स्वायु । तत्र असनु ओदनु राधा चोखा सातू भूंग राघ
 खंडखाद्यादिपक्वान्नभेद दुग्ध दधि सूरण मंडकाविकु जाणिवउ । तथा च भणितम्-

असणं ओयण सत्तुग मुग्ग जगाराइ खज्जगविही य ।
 खीराइ छरणाई मंडगपभिई य विन्नेयं ॥ [३०५]

§ 289) आछणु जयोदकु तुपोदकु तंदुलोदकु उण्णोदकु शुद्ध विरुदु अप्काउ सममु पानकु
 25 जाणिवउं । तद्यथा-

पाणं सोवीर-जवोदगाइ चित्तं सुराईयं चेव ।
 आउक्काओ सव्वो कक्कडग जलाईयं च तथा ॥ [३०६]

अत्र ‘चित्तं सुराईयं’ इति । चित्तु नानाप्रकारु काष्ठपिष्टजादिभेदभिक्तुं सुरा मद्यु, आदिशब्दइतउ
 द्राक्षा-शर्करापानकादिकु अप्काउ सगळ कर्कटी-चिर्भेटी तेह नउं जलु तथा फालिग जलाविकु सगळ
 30 जाणिवउं ।

§ 290) नालिकेर रज्जूर द्राक्षा भ्रष्टधान्यादिकु आम्रफल रंभाफल कर्कटी फणसादिकु फळ
 पुणि सगळ् खादिसु जाणिवउं । तथा च भणितम्-

§ 288) 1 Bh. उग्ग । 2 Bh. अनेरे ई । § 289) 1 Bh. -जाति- ।

भत्तोसं दंताई खजूरं नालिकेर दक्खाई ।

ककड अंबग फणसाइ बहुविहं खाइमं नेयं ॥

[३०७]

§ 291) दंतवणु संबोलु सुंठी पिप्पली मरिच हरीतकी विभीतक तुलसी प्रमुखु स्वादिमु जाणिवडं । तथा च भणितम्—

दंतवणं तंबोलं चिचं तुलसी कुहेडगाईयं ।

महु पिप्पलि सुंठाइ अणगहा साइमं नेयं ॥

[३०८]

§ 292) 'अन्नत्थण्णाभोगेणं' ति । अनाभोगु गाढवं विस्मरणु तेह तड अनेरइ थानकि । सहसाकारु अचीतविडं घृतादिवस्तु तण्डं मुसि पतनु तेह तड पुणि अनेरइ थानकि । 'बोसिरामि' परिहरडं ।

§ 293) (३१) पोरिसिं पच्चक्खामि उग्गए सूरे दुविहं तिविहं चउच्चिहं¹⁰ आहारं असणं पाणं खाइमं साइणं अन्नत्थण्णाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्चल्लेणं कालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सच्चसमाहिवत्तियागारेणं बोसिरामि ।

अर्थे पूर्वविहिं जिम भणितु तिमहिं जि जाणिवड ।

§ 294) विशेषु पुणि कहियइ । जेह रहइं पुरुषु प्रमाणु हुयइ स पौरुपी छाया । दक्षिणायन पहिलइ दिवसि दक्षिणि कर्णि सूर्यविबु करी ऊमां थिका पुरुष तणी गोढा नी छाया वि पग प्रमाण¹⁵ हुयइ तेतीवार पहरु । यथा—

आसाढमासि पूर्णिमा दिवसि पगे २ पौरुपी । पोसमासि पगे ४ पौरुपी ।

आसाढे मासे दुपया पोसे मासे चउप्पया ।

चित्ता-ऽऽसुएसु मासेसु तिपया हवइ पोरिसी ॥

[३०९]

चैत्रमासि आसउजं मासि पगे ३ पौरुपी । हानिवृद्धि इसी परि हुयइ—

अंगुलं सतरत्तेणं पक्खेणं तु दुरंगुलं ।

बहुए हायए वाचि मासेणं चउरंगुलं ॥

[३१०]

'साहुवयणेणं' ईहां पउण पहरि पुणि अधिकारु । पउण पहरि पौरुपी छाया ऊपरि इसउ प्रक्षेपु कीजइ । जेठि मासि चंद्रि मूलि हूंतइ आसाढमासि श्रावणमासि पहर प्रमाण ऊपरि छ छ आंगुल वाधइ । बीजइ त्रिकि भाद्रवइ आसउजं कार्त्तिक लक्ष्णि आठ आठ आंगुल वाधइ । मागसिर पोस 25 माह लक्ष्णि बीजइ त्रिकि दस दस आंगुल वाधइ । फागुण चैत्र वइसाह लक्ष्णि चउधइ त्रिकि आठ आठ आंगुल वाधइ ।

जिठ्ठामूले आसाढसावणे छहिं अंगुलेहिं पडिलेहा ।

अट्टहिं वीपतयंभी, तइए दस, अट्टहिं चउत्थे ॥

[३११]

साढ पोरिसी पुणि इसी परि ।

पोसे तणुछायए नगहिं पएहिं तु पोरिसी सहा ।

ताविकिक्का हाणी जाव असाढे पया तिभि ॥

[३१२]

"साउगाइसु इय बुड्डी" । सार्द्ध प्रहर प्रमाणु ॥

30

§ 295) पुरिमङ्गु जदपिहिं आगइ छइ तथापिहिं प्रमाणप्रस्तावइतउ ईहाइं जि कहियइ । सु पुणि पुरिमङ्गुप्रमाणु यंत्रटाइं जि हूंतउं जाणिवउं । अत्र प्रस्तावइतउ पउण पहर पहर सार्द्धं पहरप्रमाणयंत्रटक लिखियइं पूर्वोद्वेयंत्रकं च ।

पउण पहरप्रमाणु जानुछाया' पहरप्रमाणु जानुछाया सार्द्धं प्रहरप्रमाणु तनुछाया प्रहरद्वयप्रमाणु तनुछाया

5 पोसि पाद ४, अंगुल १०	आसाढि पाद २	पोसि मासि पाद ९	श्रावणि पाद १
माहि पाद ४, अंगुल ६	श्रावणि पा० २, अंगु० ४	माहमासि पाद ८	भाद्रवइ पाद २
फागुणि पा० ४	भाद्रवइ पा० २, अंगु० ८	फागुणमासि पाद ६	आश्विनि पाद ३
चेत्रि पाद ३, अंगुल ८	आश्विनि पाद ३	चैत्रमासि पाद ६	कार्तिकि पाद ४
वैशाखि पाद ३ अंगुल ४	कार्तिकि पा० ३ अंगु० ४	वैशाखि मासि पाद ५	मार्गशीर्षि पाद ५
10 जेठि पाद २ अंगुल १०	मार्गशीर्षि पा० ३ अंगु० ८	जेठमासि पाद ४	पौषि पाद ६
आसाढि पा० ३ अंगुल ६	पौषि पाद ४	आसाढमासि पाद ३	माघि पाद ५
श्रावणि पा० २ अंगुल १०	माहि पाद ३ अंगु० ८	श्रावणमासि पाद ४	फागुणि पाद ४
भाद्रवइ पा० ३ अंगुल ४	फागुणि पा० ३ अंगु० ४	भाद्रवइ मासि पाद ५	चैत्रि पाद ३
आश्विनि पा० ३ अंगुल ८	चैत्रि पाद ३	आश्विनि मासि पाद ६	वैशाखि पाद २
15 कार्तिकि पाद ४	वैशाखि पा० ३ अंगु० ८	कार्तिकि मासि पाद ७	जेठि पाद १
मार्गशीर्षि पाद ४ अंगुल ६	जेठि पाद २ अंगु० ४	मार्गशीर्षि मासि पाद ८	आसाढि शुन्य०

§ 296) सांप्रतु धाकतउं सुनु वखाणियइ—'पच्छन्नेणं कालेणं' काल रहइं प्रच्छन्नता मेघ-धूलि-पर्वतहं करी सूर्यिं छाइ' हूंतइ जाणिवी । सूर्यिं अणदीसतइ पहरि अणपूगइ उदेसइतउ पूगउ जाणी जीमतां हूता भंगु न होइ जिभ इणि कारणि 'पच्छन्नेणं कालेणं' आकार कहियइ ।

20 जीमतां हूता प्रकाशादिकहं करी पहरि अणपूगइ जाणिवी हूंतइ सुह हूंतउ आहार रक्षा माहि घाती हाथ नउ भाणइ मुंकी तिमहीं जि वइठां रहिवउं तां जां पहरु पूजइ, पहरि पूगइ नमस्कारु मन माहि समरी करी आघउं भोजनु करिवउं । इसी परि दिसामोहि पुणि जेतीवार दिसामोहइतउ पूर्व पश्चिम करी जाणी पहरु पूगइ इसीं बुद्धि करी जीमइ, दिसामोहि ऊतरीइ' तां रहइ जां पहरु पूजइ, पहरि पूगइ आघउं जीमइ ।

25 § 297) 'साहुवयणेणं' ति साधुवचनु 'उगघाटा पोरिसी' इसउं सांभली करी भोलपणइ पहरु पूगउ जाणी जीमइ, जीमताई भंगु नहीं, सउ जउ को कहइ नहीं । जउ को कहइ पउण पहर नी पडिलेहण करिया कारणि साधु जनु 'उगघाटा पोरिसी' पढइ, पोरिसी अजी नयी हुई इति इसउं सांभली जां पोरिसी पूजइ तां तिमहीं जि रहइ पहरि पूगइ जीमइ ।

30 § 298) पोरिसी कीयी जेतीवार गाढी सुलादिवेदना ऊठइ तेतीवार सर्वसमाधिनिमित्तु औपधा-दिङ्गु कीजइ तिणि कारणि सब्वसमाहिवत्तियाऽऽगारु । सर्व समाधि प्रत्यउ कारणु जेह रहइं दृश्यइ सु सर्व समाहिवत्तियाऽऽगारु ॥

§ 299) (३२) सूरे उगगए पुरिमहं पचक्खामि चउच्चिवहं पि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्नत्थ० सहसा० पच्छन्न० दिसा० साहु० महत्तरागारेणं सब्वसमाहिवत्तियागारेणं चोसिरामि ।

पूर्वे पहिलं अर्द्धं दिनं तणं पूर्वार्द्धं 'पुरिमड्डु' कहियइ । महत्तरागारु पुरिमड्डु कन्हा महान्तं कर्मनिर्जराभहेतु पुरुषान्तरासाध्यु ग्लान-चैत्यादिकार्युं तेह^१ ऊ जु महत्तराकार ।

§ 300) (३३) एकासणं पचक्खामि चउत्थिहं पि आहारं असणं ४ अन्नत्थं सहसा० सागारियागारेणं आउंटणपसारणेणं गुरुअब्भुट्टाणेणं पारिट्ठावणियागारेणं महत्तरागारेणं सब्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ।

एकवार अशनु भोजनु एकासणं अथवा एक आसनु वइसक पुत-अचालनालक्षणु एकासणं । सागारिकागारु यति रहइ सागारिकु गृहस्थु सोई जि आकारु सागारिकागारु । गृहस्थ देखतां अन्नत्थहिं जाई जीमतां भंगु नहीं गृहस्थ देखतां भोजनि महादोषु । तथा च भणितम्—

छक्काय दयावंतो वि संजओ दुल्लहं कुणइ योहिं ।

आहारे नीहारे दुगुंछिए पिंडगहणे य ॥

[३१३] 10

पइविध जीविकाय दयापरो वि 'संजओ' साहू दुईसु दुप्रापु बोधि सम्यक्कु करइ, 'आहारे नीहारे' भोजन विपइ अनइ वडी नीति नीहारु तेह नइ विपइ जइ लज्जारहितु गृहस्थदृष्टिहिं हूँती हुयइ तथा 'दुगुंछिए पिंडगहणे य' सूतक मृतक रजक वणकर प्रभृतिक जि छइ दुगुंछित निदित कुळ तिहां पिंड असन पान खादिम खादिमरूप तणइ महणि हूँतइ इति संबंधु करिवउ । गृहस्थ रहइ जिणि दीठउं भोजनु जरइ नहीं सु सागारिकागारु अथवा बंदिकादिकु तेह नइ कारणे अदर्शने जाई जीमताई भंगु नहीं । 15

§ 301) 'आउंटणपसारणेणं' आकुंचनु-पसारित^१ हुयइ पाटु तेह नउं संकोचनु, पसारणु-संकोचितु हुयइ पाटु तेह तणउं पसारणु मोकलकरणु तीहं कीजतां कांई एकु थोडउं सउं वइसक चालइ तिणि भंगु न हुयइ तिणि कारणे 'आउंटणपसारणेणं' एउ आकारु ।

§ 302) 'गुरुअब्भुट्टाणेणं' गुरु आचार्यु अथवा प्राहणकु साधु तेह आवता सहसाकारि संभ्रम विनयादिनिमित्तु पत्थानिहिं भंगु न होइ इणि कारणे 'गुरु अब्भुट्टाणेणं' इउ आकारु । 'पारिट्ठा- 20 वणियागारेणं' ति एउ साकारु साधुहीं जि रहइ हुयइ । यथा—

विहिगहियं विहिमुत्तं उव्वरियं जं भवे असणमाई ।

तं गुरुणाऽणुत्तामं कप्पइ आपंविलाईणं ॥

[३१४]

अरंहेसुप्रता करी श्रावकु पुणि ऊचरइ ।

(३४) एगट्टाणं पचक्खामि चउत्थिहं पि आहारं असणं ४ अन्नत्थं सहसा० सागारिया० गुरुअब्भुट्टाणेणं पारिट्ठा० महत्त० सब्वस० वोसिरामि ।

मुनु अनइ जीमणउ हायु अशक्यपरिहारु तिणि कारणे ति ये मूकी करी बीजां अंगोपांग नउं पहिलइ निवेश^१ समइ जु स्यानु हुयइ तिणिहिं जि एकस्यानि वइठां रहियइ जिणि प्रत्याप्यानि सु एकस्यानु प्रत्याप्यानु कहियइ ।

§ 303) (३५) आयंखिलं पचक्खामि अन्नत्थं सहसा० लेवा० उक्खित्त- विवेणेणं गिहत्थसंसट्टेणं पारि० मह० सब्वस० वोसिरामि ।

आचामु ओसामणु आग्लु चउथउ रसु । यथा—“तित्त-कहुया कसाया अंघिल-महुरा रसा य पंच भवे” । आचाम आग्लरूप दिई जि व्यंजन जिणि प्रत्याख्यानि षणउं करी हुयई सु आचामाग्लु । किसउ अर्थु ? जिणि आहार सउं आचामु अथया आग्लु प्राईहिं व्यंजन ओलण हुयई सु आचामाग्लु समयभाया करी आंघिलु कहियइ । प्रासुक जल सउं एकु धान्यु जिणि प्रत्याख्यानि गृहस्थई जीमियइ सु पुणि 5 आंघिलु^१ व्यवहारइतउ जाणिवउं ।

§ 304) ‘लेवाल्लेवेणं’ ति लेपु भोजनभाजन रहइं विगइ करी अथवा तीमनादिकि करी आ-
ईपत्-थोडउ सउ अंगुलि संलेखि करी लेपु आलेपु-लेपु अनइ आलेपु-लेपालेपु तेह हूंतउं अनेरइ धानकि
लेपालेपु^१ भंगु न होइ तिणि कारणि ‘लेवाल्लेवेणं’ आकारु ।

§ 305) तथा शुष्क ओदनादिकु तेह माहिं पडिउं छइ । आर्द्र दध्यादि विगइ नउ स्वत्रकु तेह
10 नउ उत्क्षिप्त हूता ऊपाडिया हूता विवेकु निःशेषता करी त्यागु सु उत्क्षिप्तविवेकु तेह हूंतउ अनेरइ
धानकि आर्द्र विगइ द्रव्य ऊपाडियइ हूंतइ पाछिलउं ओदनादिकु वस्तु कल्पइ इसउ अर्थु । गृहस्थु
भक्तदायकु तेह नउं करोटादिकु भाजनु विगइ द्रव्य करी खरंतिनु गृहस्थसंसृष्ट तेहतउ अनेरइ धानकि ।

§ 306) (३६) सूरे उग्गए अब्भत्तट्टं पच्चक्खामि चउच्चिहं पि आहारं असणं
४ अन्नत्थं सहसां पारिं महं सच्चं वोसिरामि ।

15 भक्तु भोजनु तेउ अर्थु जिणि प्रत्याख्यानि न हुयइ । किसउ अर्थु ? जिणि प्रत्याख्यानि भोजनु न
कीजइ सु अभक्तार्थु प्रत्याख्यानु कहियइ । जइ त्रिविधाहार नउं प्रत्याख्यानु हुयइ तउ परिष्ठापनिकाकारु
कल्पइ, अनेरइ प्रकारि न कल्पई ।

§ 307) अत्र साधु शक्तिसंभवि हूंतइ चतुर्विधाहारु जु प्रत्याख्यानु करइ, शक्ति तणइ अभावि
त्रिविधाहारु करइ, जेतीवार त्रिविधाहारु प्रत्याख्यानु तेतीवार पानक वडिशी छ आकार हुयई ।
20 ‘पाणस लेयाडेण वा अलेयाडेण वा अच्चेण वा बहुलेण वा ससित्थेण वा असित्थेण वा’ । तत्र
लेयाडु-लेपकत्तु लेपकारकु खज्जूरपानकादिकु । अलेपकत्तु शुद्धपानकु । ईहां ‘वा’ शब्दु इसउं कइइ-जिहां
अलेपकत्तु पानकु प्रासुकु न लभइं तिहां लेपकत्तु लीजइ दोपु नहीं । तउ पाछइ सूत्र नउ इसउ अर्थु-न
पुणि अलेपकत्तु एक्कु जु कल्पनीउ पानकु लिउं, ‘लेपकत्तइतउ अनेरइ धानकि’ इसा आकारइतउ अलेपकत्तु
तणइ अभावि लेपकत्तु लिउं । इसी परि आगइ पुणि विहुं धानकई ‘वा’ शब्दु तणउ अर्थु जाणिवउ । न
25 पुणि अच्च् जु उण्णोदकादिकु लिउं, तेह नइ अभावि ‘बहुलेण वा’ इसा आकारइतउ बहुलु गहुलु
तंडुलघावनादिकु तेऊ लिउं । एवं न पुणि असिक्खु जु धान्यकणरहितु जु लिउं, ‘ससित्थेण वा’ इसा
आकारइतउ असित्थ तणइ अभावि ससिक्खु अवश्रावणादिकु तेऊ लिउं । पानक विपइ छ आकार ।
तत्र ‘अलेयाडेण वा अच्चेण वा असित्थेण वा’ ए त्रिहिं आकार उत्संगेपदि मूलपदि । ‘लेयाडेण वा
बहुलेण वा ससित्थेण वा’ ए त्रिहिं आकार अपवादपदि बीजइ पदि ।

30 § 308) (३७) दिवसचरिमं भवस्स चरिमं वा पच्चक्खामि चउच्चिहं पि
आहारं असणं ४ अन्नत्थं सहसां महं सच्चं वोसिरामि ।

दिवसु अहोरात्रु तेह नउ चरसु थाकतउ भागु दिवसि दिवसचरसु । एवं भवचरिसु पुणि
दिवसचरिसुतुल्याकारु । दिवसचरिसु एकासनादिप्रत्याख्यानिहिं सार्थकु आकारसंशेषइ करणइतउ ।

§ 309) अथ अभिप्रहप्रत्याख्यानु यया—

अंगुष्ठ १ मुट्टि २ गंठी ३ घर ४ सेउ ५ स्सास ६ थियुऊ ७ जोइकल ८ ।

भणियं संकेयं इमं धीरेहि अणंतनाणीहिं ॥

[३१५]

तत्र अगुट्टसहित्य पचक्खामि चउत्विह पि आहार असण १ अन्नत्थं सहसा० मह० सव्व० वोसिरामि ।

जा अगुठउ उमकि सस्थानि सस्थितु नमस्कार कही हलावउ नहीं ता पचक्खानु अगुट्टसहितु १ पचक्खानु । एउ मुट्टिनहितु जा नमस्कार कही मूठि छोडउं नहीं ता मूठिसहितु प्रत्याख्यानु । एउ गठिसहितु । जा उमुकु गृहु ऊषाडउ अथवा ढाकिउ छइ ता गृहसहितु प्रत्याख्यानु । खेदु धम्मज्जु, जा माहरइ शरीरि एउ सेउ सूकइ नहीं ता प्रत्याख्यानु । जा ऊसानु निरुदु राहवउ ता प्रत्याख्यानु उच्छ्वाससहितु प्रत्याख्यानु । थियुऊ थूऊ, जा थूऊ शरीरानयनसस्थितु सूकइ नहीं अथवा मुखसस्थितु थूऊ जा गिलउ नहीं ता प्रत्याख्यानु थियुऊसहितु प्रत्याख्यानु । 10

जोइ अग्नि, जा उमुकि स्थानि अग्नि बलइ ता प्रत्याख्यानु सु ज्योतिराख्यु । ज्योतिर्नामकु किसउ अर्थु ज्योति सहितु प्रत्याख्यानु । एउ अनेराई दीपसहितादिक अनेकविध सकेतप्रत्याख्यान अभिग्रह-प्रत्याख्यान जाणिवा ।

§310) (३८) विगईओ पचक्खामि अन्नत्थं सह० लेवा० गिहत्थं उन्निखत्तं पट्टचमन्निखणं पारि० महत्तं सव्व० वोसिरामि । 15

मन रहइ विकारकरणता करी विकृति विगइ ।

§311) ति पुणि दस-

दुद्धं १ दहि २ घय ३ तिळा ४ गुडं ५ तहोगाहिंमं ६ छ भक्खाओ ।

महु ७ मज ८ मंस ९ मंरण १० चत्तारि अमक्खविगईओ' ॥ [३१६]

गाइ भइसि छाळी साडि गाहरी ना पाच दूध विगइ । साडि ना दूध नउ दही हुयइ नहीं तिणि 20 कारणि दही चत्तारि विगइ । माखण चत्तारि विगइ । एउ घृत पुणि चत्तारि विगइ । तथा-

चत्तारि हुंति तिळा तिल अईसि-कुमुंभ सरिसमाणं च ।

विगईओ, सेसाणं डोलाइणं न विगईओ ॥

[३१७]

तिल अतिसी^१ कुमुभ-लट्टा सर्पप तथा तेल चत्तारि विगइ हुयइ । शेप बीजा डोल पर्वतप्रसिद्ध आदिशब्दइनउ एरड कागुणादिकह तथा तेल विगइ न हुयइ । गुडु विदु भेदे-एकु पिडु, एकु द्रवु-25 ढीलउ । अथगाहु घृत तैल माहि तलियउ, तिणि करी नीपनउ अथगाहिमु पकाशु, घृतादिपूर्णकडाह माहि रउडपाय सुकुमारिकादिकह तणउ एकु घाणु पचिउ तीही जि घृतापि माहि बीजउ घाणु पचिउ तथा नीपउ घाणु पुण पचिउ तउ पाछइ तीही जि घृतादि माहि चतुर्थादिक्क घाणु पचियइ सु विगइ न हुयइ ।

"आइल तिन्नि चलचल विगइ" इति वचनान्तु । चलचल घाणु कहियइ । ति चतुर्थादिघाणुपक्क³⁰ पकान्न योगमाहकह रहइ निव्विगइपचक्खणिहिं कल्पइ । इसी परि बीजाई विगईगत योगवाहकह रहइ कल्पइ । ति पुणि विगइगत एतला हुयइ । यथा

§311) 1 B अमिक्ख-। 2 Bh. अयसि-। 3 Bh. अतसी ।

अह पेया १ दुद्धट्टी २ दुद्धवलेही ३ य दुद्धसाडी ४ य ।

पंच य विगइगयाइं दुद्धंमि य खीरिसहियाइं ॥

[३१८]

अंचिलञ्चुपंमि दुद्धे दुद्धट्टी दक्षपमीस रद्धंमि ।

पयसाडी तह तंदुलञ्चुंमि सिद्धंमि अत्रलेही ॥

[३१९]

- 5 छासी महितु दूधु दुद्धट्टी । किमउ अर्थु ? फेदुरि दुद्धट्टी कहियइ । द्रास माहि घाती दूधि राधियइं तउ दुद्धसाडी कहियइ, पयसाडी पुणि कहियइं । तंदुलचूर्णु चोरा नउ लोडु तिणि दूध माहि राधइं अथलेही दुद्धवलेही । पेया वणिक नी राव दूधि राधी । खीरि प्रसिद्ध । ए पाच दूध विगइ ना^१ विगइगत जु पुणि पेईं थलेही विगइ न गणइ किंतु विगइगतु गणइं तींह नउ अभिप्रायु सम्यगु न जाणियइं । नाममाला माहि श्री^२ हेमसूरिमिश्रं भणिउं—“उभे क्षीरस्य विकृती किलाटी कूर्चिकाऽपि 10 च” ।^३ अत्र किलाटी, वलही, कूर्चिका-विणठउ दूधु सभावियइ । कूर्चु दुग्धमस्तु दधिकूचा^४ जेह माहि हुयइ स कूर्चिका इसा व्याख्यानकरणइतउ ।

§312) दहिए विगइगयाइं घोलउडा १ घोल २ सिहरिणि ३ करंबो ४ ।

लणकण दहियमहियं ५ संगरियाइम्मि अप्पडिए ॥

[३२०]

- सिहरिणी गुह-मिश्रित दधि-विकाररूपा । दधिओलिउ करंबउ । लणकणमिश्चु दधिमथितु 15 विलोडितु कहियइ । “मथितं वारियर्जितम्” इति वचनात् । दहि जु मथिउं ल्यसहितु लणकणदहियमहितु कहियइ । सु पुणि सगरिकादिकि व्यजनि अणपडिहिं जि, पडिइ पुणि विशेषि करी हुयइ । ए पांच दधिविगइ ना विगइगत ।

§313) पकघयं १ घयकिट्टी २ पकोसहि उवरतरियं सप्पि च ३ ।

निम्भंजण ४ वीसंदणमाइ य घयविगइ^१ विगयगया ॥

[३२१]

- 20 ओपधपाकि करी गतस्वादु घृतु पकघृतु । घयकिट्टी घृत नउ कीटउं २ । घृतपक ओपध ऊपरि तरिकाभूतु स्त्वातु घृतु पकोसहि उवरितरियसप्पि ३ । नीमइणु चतुर्थं घाणयोग्यु घृतु दहि नी वरि माहि पचिउं । गोधूमचूर्णु गुडरउडसहितु भक्ष्यविशेषु वीसदणु । पाच घृतविगइ ना विगइगत ।

§314) अद्धकट्टिउ इक्खुरसो^१ १ गुलवाणीयं च २ सकर ३ खंडं ४ ।

पायगुलं ५ गुलविगइं विगइगयाइं च पंचेव ॥

[३२२]

- 25 अद्धकट्टिउ इक्खुरसु काकउउ १, गुल नउ पाणीउ गुलवाणी २, साकर ३, खंड प्रसिद्ध ४, सूटी मरिचादिद्रव्यसहितु तिलमिश्चु पाकउ गुल पायगुल ५, । लाठी^२ रेवडी इसा नामह करी प्रसिद्ध भक्ष्यविशेषु पायगुलु कहियइ । ए पाच गुलविगइ ना विगइगत ।

§315) तिलमली १, तिलडुट्टी २ दद्धं तिलं ३ तहोसहुव्वरियं ४ ।

लक्खाइद्वयपकं तिलं ५ तिलंमि पंचेव ॥

[३२३]

- 30 तेल नउ ठाहउ तिलमली १, तिलवटि २, तिलपूयणु सेलीप्रभृति तिलउट्टी ३, दाघउ तेलु ३, तथा ओपधपाकइतउ उगरिउ तेलु ४, लाक्षादिद्रव्यपचिउ तेलु ५ । ए पाच तेलविगइ ना विगइगत ।

§311) 4 B omits 5 Bh प्रस्था । 6 B omits §313) 1 Bh omits विगइ ।

§314) 1 B Bh omits इ- । 2 Bh लाठी ।

एगं एगस्सुवरिं तिन्नोवरि वीयगं च जं पकं ।

तुप्पेणं तेणं चिय तइयं गुलहाणिथा पमिई ॥

[३२४]

चउत्थं जलेण सित्ता लप्पसिया पंचमं च पूयलिया ।

चुप्पडिय तावियाए परिपकाईसु मिलिएसु ॥

[३२५]

घृततैलसहित तापिका ऊपरि एक ऊपरि बीजउ जु घृतपूरादिकु तिणिहिं जि तुप्पि चोपडी पचिउ 5
सु एकु । तिन्नोवरि कडाहइ नइ घृति अणघातिइ चतुर्थदिवार जु तलिउ सु बीजउ । गुलधानादिकु
बीजउ । जलसिक्त लापसी लिहगटउ चउथउ । चपलक मुद्रादि पूयडा धारडा प्रभुति चोपडी ऊमलूवी
तावी ऊपरि जु पचियइ सु पाचमउ । ए पाच ओगाहिम विगइगत । एवकारइ सर्वसख्या करी
तीस चिगइगत ।

§ 316) अथ अमदयविगइ कहियइ । मधु त्रिहउ भेदे—मक्षिका नउ १, कृति नउ २, भ्रमरी 10
नउ ३ । मधु विहउ भेदे—काष्ठ नउ, पिष्ट नउ । मासु त्रिहउ भेदे—जल स्थल खचर जतुसमय भावइतउ ।
अथवा चर्म रुधिर मास भेदइतउ । माखणु चउ भेदे—पूर्विहिं जि भणित । एकादि विकृतिप्रत्याख्यातु
विकृतिप्रत्याख्यातु । निर्घिकृतिप्रत्याख्यातु विकृतिप्रत्याख्यानिहिं जि समहिउ । अत्र 'गिहत्थससट्टेण' ति ।
गृहस्थि आपणइ कारणि दूध माहि ओदनु कूरु ससट्टु धातिउ । तेह ऊपरि जु चत्तारि आगुलप्रमाणु
दूधु सु गृहस्थससट्टु सु दूधु विगइ न हुयइ । पचमादि अगुलप्रमाणु विगइ जि हुयइ । इसी परि 15
अनेराई गृहस्थससट्टु जाणिग ।

§ 317) 'पडुचमकिरण'ति । सर्वथा रूक्षु मडकपोलिकादिकु थोडउ कोमलता सपादनिमित्तु
अथवा रक्षागध उत्तारणनिमित्तु आगुली नइ प्राति घृतादि ले करी चोपडिउ जु सु प्रतीत्यन्नक्षितु ।
तत्र जे किमइ आगुली ले न्नक्षितु तउ कल्पइ, धारा करी न्नक्षितु पुणि न कल्पइ ।

§ 318) अत्र सार्द्धं पौरुपी अषार्द्धं पौरुपी व्यासनकादिक प्रत्याख्यातु आकारसख्या करी सूत्र 20
माहि अणभणिया ई आन्नायवसइतउ आविया । अनइ जुचिउत्त तिणि कारणि पौरुपी पूरार्द्धं एकासनक
जिम जाणिग । सूत्रार्थद्वार चतुर्थं पचम सपूर्णं हूया ।

§ 319) अथ शुद्धि कहियइ । शुद्धि छए भेदे । यथा—

सा पुण सइहणा १ जाणणा २ य विणय ३ अणुभासणा ४ चेर ।

अणुपालणा ५ विसोही भाववितोही भवे ६ छट्टा ॥

[३२६] 25

पच्चकखाणं तु सव्वन्नुदेसियं जं जहिं जया ऋले ।

तं जो सइहइ नरो तं जाणसु सइहणसुद्धं ॥

[३२७]

पच्चकखाणं जाणइ कप्पे जं जंमि होइ कायव्यं ।

मूलगुण उत्तरगुणे तं जाणसु जाणणासुद्धं ॥

[३२८]

किइकम्मस्त विसुद्धिं पउंजई जो अहीणमइरिच ।

मणयणकायगुत्तो तं जाणसु विणयओ सुद्धं ॥

[३२९]

अणुभासइ गुरुवयणं अकरर पय-चंजणेहिं परिसुद्धं ।

पंजलिउडो अभिमुद्धो तं जाणसु भासणासुद्धं ॥

[३३०]

20

कंतारे दुष्मिन्ने आयंके वा महा समुत्पन्ने ।
 जं पालियं न भग्गं तं जाणसु पालणासुद्धं ॥ [३३१]
 रागेण व दोसेण व परिणामेण व न दूसियं जं तु ।
 तं खलु पचक्खाणं भावविसुद्धं मुणैयव्वं ॥ [३३२]

5 अथवा—

फासियं १ पालियं २ चेत्त सोहियं ३ तीरियं ४ तथा ।
 किट्टियं ५ माराहियं ६ चेत्त पर सयम्मि य पजइयव्वं ॥ [३३३]
 उच्चिए काले विहिणा पत्तं जं फासियं तं भणियं ।
 तह पालियं च असई सम्मं उवजोगपडियरियं ॥ [३३४]
 10 गुरुदत्तसेसभोयणसेत्तणाए य सोहियं जाण ।
 पुत्ते वि थेत्तकालावत्थाणा तीरियं होइ ॥ [३३५]
 भोयणत्तले अमुग्गं पचक्खायं ति सरइ किट्टिययं ।
 आराहियं पयारेहि सम्ममेएहि पडियरियं ॥ [३३६]

सुद्धिद्वारं छद्मं ह्ययं ।

15 §320) अथ फलं कहियइ । सु पुणि सामान्य विशेषरूपता करी विहउ भेदे । तत्र सामान्यफलं
 इहलोकं धम्मिल्लं रहइ । परलोकं दामन्नगादिकं रहइ । यथा—

पचक्खाणस्स फलं इह परलोए य होइ दुविहं तु ।
 इह लोइ धम्मिल्लाई दामन्नगमाइ परलोए ॥ [३३७]

तत्र धम्मिल्लं कथानकु अतिविस्तरता करी इहा न लिखिउ, वसुदेवहीविस्तरता हूतउ जाणिउ ।

० दामन्नगरुथानकु पुणि सविस्तरं सस्कृतवृत्तिं हूतउ जाणिउ । विशेषं फलं यथा—

पचक्खाणंमि कए आसउदाराइ हूति पिहियाइ ।
 आसउवुच्छेएण य तण्हावुच्छेएणं होइ ॥ [३३८]
 तण्हावुच्छेएणं अउलोउसमो भवे मणुस्साण ।
 अउलोउसमेण पुणो पचक्खाणं हवइ सुद्धं ॥ [३३९]
 25 तत्तो चरित्तधम्मो कम्मविवेगो अपुव्वरुणं तु ।
 तत्तो केउलनाणं तत्तो मुक्खो सयासुक्खो ॥ [३४०]

तथा उत्तराध्ययनसिद्धता तृतीयाध्ययनमाहि कहिउ—“पचक्खाणेण भते । जीवे किं जणेइ ?
 गोयमा । पचक्खाणेण आत्तउदाराइ निरुवेइ ” इत्यादि । मत्तं फलद्वारं सम्मत्तं । चदनस्सविवरणं सम्मत्तं ।

§321) अथ प्रतिक्रमणविधिं लिखियइ ।

30 पडिकमणं देवसियं राइयमित्तरियमाणकहियं च ।
 पक्खियं चाउम्मासियं सवच्छरं उत्तमट्टे य ॥ [३४१]
 काले पुणं पंचविहं दिउसं निमा-पक्खं वरम-उत्तमासे ।
 आरयणिपट्टमपइइं पडिकमणं देसियं भणियं ॥ [३४२]

सुरोदयपहरं जा राइयमावस्सयं च चुन्नीए ।

ववहारेणं गंथेण पुरिमद्धं जाव भणियं च ॥

[३४३]

पठिकमणउं त्रिउं भेदे । एक इत्वरिकु यावत्कथिकु । सु पुणि देवसिउ अनइ राइउ पक्खिउ चाउ-
म्मासिउ संबच्छरिउ कहियइ । अथवा उत्तमार्थु अणसणु । तेह तणइ कारणि जु पठिकमणउं कीजइ सु
उत्तमार्थु पठिकमणउं पुणि इत्वरिकु कहियइ । व्रतप्रतिपालनारूपु पठिकमणउं यावत्कथिकु कहियइ ।⁵
तिणि पठिकमणइ सकल जीवितव्य माहि जि के अतीचार कीधा हुयइं तीहं तणा पठिकमणकरणइतउ ।
तत्र उत्सर्गापदि-

समणेण सावण य अवस्स कायव्ययं हवइ जम्हा ।

अंतो अहो निसिस्सा तम्हा आवस्सयं नाम ॥

[३४४]

अवस्सकरणइतउ आवइयकु पठिकमणउं कहियइ । तथा च भणितं-

10

सपठिकमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स ।

मज्झिमगाण जिणाणं कारणजाए य पठिकमणं ॥

[३४५]

तत्र देवसिउ-अहु दिवसु तेह नइ अंति, किसउ अर्थु ? जिसइ पठिकमणसूत्रगुणनकालि सूर्य
तणउं अर्द्धविंनु हुयइ तिसइ समइ कीजइ । राइउ पुणि-

मुहुपत्ति चोलपट्टय कप्पतिगं दुन्नि सिज रयहरणं ।

संधारुत्तरपट्टो दस पेहा उग्गए घुरे ॥

[३४६]

15

इसा भणनइतउ जिसइ मुहुपत्ती १, रयहरणु २, चोलपट्ट ३, संधारउ ४, उत्तरपट्ट ५, त्रिन्दि
करुप-वि पच्छेवडी ७, एकु लोचकु ८ दुन्नि सिज एक ऊर्णामय एक ल्गढा नी निसेज ९ एक प्रभात
चोलपट्टकु १०¹ एवं दश उपधि उपकरण पडिलेहण कीधी सूर्यु ऊगइ इसइ समइ राइउ पठिकमणउं
कीजइ । अपवादपदि जेतीवार कालसाधना करी न सकियइं तेतीवार 'आरयणि पढमपहरं' इसा²⁰
भणनइतउ रात्रि पहिला पहरसीम देवसिउ पठिकमणउं कीजइ । इसउं भणिउं सूर्योदय आरंभी करी
पहिला पहर दिवस सीम राइउ पठिकमणउं चूर्णिणकथन तणइ अनुसारि करी कीजइ । व्यवहारसिद्धांत
तणइ अनुसारि पुरिमद्धं जाव भणियं च । पूर्वोर्द्ध सीम विहुं पहरहं सीम राइउ पठिकमणउं कीजइ । इसी
परि उत्सर्गापवाद जाणी करी बेलाइं जि पठिकमणउं करेवउं न पुणि जेतीवार परिवारिउं तेतीहीं
वार पठिकमणउं करेवउं ।

25

[322) अथ सामाइक पाखइ पठिकमणउं कीजइ नहीं इणि कारणि पहिलउं सामाइककरण
विधि लिरियइ । पाछिलइ पहरि दिवस तणइ वसति मुहुंती पाटला पडिलेहण कीधी हुंती मुहुंती
पाटला ले करी धर्माचार्य आगइ, अथवा¹ स्थापनाचार्य आगइ आनी पादभूमि मुहुंती सउं त्रिन्दिवार
दृष्टिप्रदानपूर्व पडिलेही करी मुहुंती मुहवारि दे करी हाय जोडी करी त्रिन्दिवार पडिलेहिय भूमि पाटलउ
वामपार्श्वि मूकी करी, इच्छामीत्यादि भणी एकु खमासणु दे 'सामाइक मुहुपत्तिय पडिलेहेमि' इसउं कही³⁰
खमासमणु दे करी ऊमां होइ 'इच्छामि खमासमणे' भणी खमासमणु दे करी ऊमइं थिकउ चेदिका
माहि बाहु करी मुहुंती पडिलेही एक खमासमणि 'सामाइयं संदिमावेमि' इसउं भणी थीय खमासमणि
'सामाइयं टापमि' इसउं भणी तइउ खमासमणु दे अर्द्धावनतगायु हुंतउ त्रिन्दि नमस्कार कही त्रिन्दिवार

[321) 1 B omits between ९-१०. [322) 1 Bh. omits. 2 Bh. omits खमासणु
दे करी 3 Bh. उगइ ।

(३९) करेमि भंते सामाह्यं सावज्जं जोगं पचक्खामि । जाव नियमं पज्ज-
वासेमि । दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि तस्स भंते ।
पडिक्काममि, निंदामि गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ।

इसतं सामाह्यकसुश्रु त्रिन्दिधार वद्दइ गुरुचन तणी धनुभापणा करतउ हंतउ सामाह्यकाऽऽरोपविधि
५ प्रस्तावि नंदि सिद्धांत माहि त्रिन्दि नमस्कारभणनपूर्वकं सामाह्यकदंडक रहइ भणनभणनइतउ पाछइ
इरियावही पडिकमियइ । आवश्यकचूर्णिगृत्ति माहि इम भणिउं छइ । यथा 'करेमि भंते सामाह्यं
मायज्जं जोगं पचक्खामि जाव नियमं दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि तस्स
भंते ! पडिक्काममि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि' । जाव साहू वा पज्जवासेमि चि काऊण पच्छा
इरियावहिइं पडिफमइ । तउ पाछइ विस्तरइतउ द्वादशाऽर्तु वंदनकु दे करी प्रत्याख्यानु कीजइ । संक्षेपिहिं
१० तउ क्षमाश्रमणरंदनापूर्वकं प्रत्याख्यानु कीजइ । तउ पाछइ एक खमासमणि 'सज्झायं संदिसावेमि' कही
धीय खमासमणि 'सज्झायं करेमि' वही तइय रमासमणदानपूर्वक आठ नमस्कार कही पाछइ एक
रमासमणि 'कटासणं संदिसावेमि' कही धीय खमासमणि 'कटासणं पडिगाहेमि' कही तइय रमासमणि
'पांगुरणं संदिसावेमि' कही चउत्थ रमासमणि 'पांगुरणं पडिगाहेमि' कही करी वइसइ । एतलइ
संध्यासामाह्यकरणविधि हूयउ ।

१५ § 323) संभारइ पुणि इरियावही पडिक्कमी पाछइ पहिलउं 'कटासणं संदिसावेमि' कहियइ ।
'कटासणं पडिगाहेमि' कहियइ । पाछइ 'सज्झायं संदिसावेमि' कहियइ । 'सज्झायं पडिगाहेमि' कहियइ ।
आठ नमस्कार वही पाछइ 'पांगुरणं संदिसावेमि' कहियइ । 'पांगुरणं पडिगाहेमि' कहियइ । पाछइ शश्रस्तु
कहियइ । नींद्र माहि भोजनकरण खीसमालिगनादिक हूयां, हुयइं, जि कुस्सप; तथा अरिनगभंगकरण
मारणादिक जि हूयां, हुयइं, दुस्सप तीहं रहइं विशुद्धिनिमित्तु काउरसग्गु कीजइ । लोगस्सुजोयगरे चत्तारि
२० काउरसग्गि चीतवियइं । पारियइ हंतइ 'लोगस्सुजोयगरे' भणियइ, इसतं न भणिवूं । पडिकमणउं प्रायश्चित्त-
विसुद्धिकारणिहिं कीजिसिइ पाछइ वली काउरसग्गु किसइ कारणि कीजइ ? जिम दिवस पडिकमणइ
कीवेइं? डेहि प्रायश्चित्तविसुद्धिनिमित्तु काउरसग्गु विसुद्धिविशेषकारणि कीजइ, तिम प्रभातिहिं दोपु को नहीं ।

§ 324) अथ सामाह्यफलसंसूचक सिद्धांतालापक लिखियइं ।

'सामाह्येणं भंते ! किं जणइ ?'

२५ 'गोयमा ! सामाह्येणं सावज्जजोगविरइं जणइ ।'

§ 325) अथ प्रस्तावइतउ पोसहविधि लिखियइ । पोपधं पर्यानुष्ठानमेवेति पूर्वश्रुतधरवचनानु-
सारि करी अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमाऽमावास्यापर्युपणादि पर्वदिवसही जि पोसहु सामाह्यकसहितु करेवउं ।
तथा च सूयगहांगवृत्ति माहि कहिउं-

चाउदग्गद्वसुद्धिद्व पुभिमासिणीसु पडिपुत्रं ।

३० पोसहं सम्मं अणुपालेमाणो विहरिस्सामि ॥

[३४७]

त्ति सूत्रं । तेह नी वृत्ति पुणि-चतुर्दश्यष्टम्यादियु तिथियु, उरिष्टासु महाफल्यागिकसंवंधितया
विल्यातासु, तथा पूर्णमासीयु चतसृष्वपि, चतुर्मासक पर्युपणातिथिचिप्रत्यर्थः । तथा आयदयकवृत्ति माहि
पुणि कहिउं-इह पौषशब्दे रुढ्या पर्वसु वर्तते । पर्वाणि चाष्टम्यादितिथयः । तथा प्रतिदिवसानुष्ठेय
सामाह्य-देशावकाशिक । पौषशोपवामाऽतिथिसंविभागौ तु न प्रतिनियतदिवसानुष्ठेयौ-न प्रतिदिवसा-

चरणीयाविति । इसी परि सिद्धांत माहि पोसहु पर्यदिवसिहिं जि कहिउं छइ । जि केई सदा श्रावक रहउं पोसहु करावइं ति अति भूखाळ लोक जिम खचउंदभोजनु करता व्यवहारभाजन न हुयउं । पौपधं च आहारखलाग १, देहसंस्कारखलाग २, अन्नखलाग ३, सावधखलाग ४ रूपता करी चतुःप्रकारं भवति ।

अथ पौपधग्रहणविधि लिखियइ । रात्रि पोसहे प्रतिलेखनावेला समइ वपधि प्रतिलेखना फीजइ । परिधान प्रतिलेखना पुणि फीजइ । पाछइ दिवसि अणआथमियइ हुंतइ मूलपदि पहिलउं श्रियावही 5 पडिक्की करी एक रमासमणि 'पोसहुमुहुपत्तियं पडिलेहेमि' भणी वीय रमाममणि पोसहुमुहुंती पहिलेही करी उभां होई एक रमासमणि 'पोसहं संदिमावेमि' कही वीय रमासमणि 'पोसहे ठाएमि' भणी तदय रमासमणदाणपूर्वकु उभां होइ अर्द्धावनतगायु हुंतउ मुहवारि मुहुंती दीपी गुरुवचनु अनुभासतउ त्रिन्हिवार नमस्कारभजनपूर्वकु

(४०) करेमि भंते ! पोसहं, आहारपोसहं सच्चओ देसओ वा । सरीरस- 10 फारपोसहं सच्चओ । वंभचेरपोसहं सच्चओ । अन्वाचारपोसहं सच्चओ । चउन्चियहे पोसहे सावज्जं जोगं पचक्खामि जाव रत्तिं पच्चुवासामि । दुविहं तिविहेणं मणेणं चायाए काएणं न करेमि न कारवेमि तस्स भंते पडिक्कामामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं योसिरामि ।

एउ पोमहदंडकु त्रिन्हिवार ऊचरइ । तदनंतरु पूर्वीरिति करी मामाइकु करइ । श्रियावही ज पहिलउं 15 पडिक्की छइ मइ जि प्रमाणु फीजइ । यली सामाइकदंडक पाछइ पडिक्कमियइ नहीं । दिनपोसहविधि पुणि लिखियइ । रात्रि तणी पाछिलउ वि घडियइ धाकनइ निद्राच्छेदि पंचपरमेष्ठिनमस्कारस्मरणादि क्रमि फीजइ हुंतइ गृहचिता मेलही करी गाइदोहनवेला समइ साधु समीपि आवी करी अंगपडिलेहण वत्यपडिलेहण करी उपारभूमि पडिलेही करी श्रियावहियं पडिक्कमइ । पाछइ पूर्वीरिति पोसहु मुहुंती पडिलेही करी पोसहु करइ । तदनंतरु मामाइकु करइ । पडिक्कमणा ठाईया ममइ ह्यइ हुंतउ पडिक्कमणउं करइ । पाछइ माधु 20 त्रिम एक रमासमणि 'यहुवेळं संदिमावेमि' भणी वीय रमाममणि 'यहुवेळं करेमि' भणइ । आचार्यमिश्र वगण्यायमिश्र एकिक एकिक रमाममणि वादी करी मज्जाउ करइ । प्रतिलेखनावमइ ह्यइ हुंतउ एक रमासमणि पडिलेहणं संदिमावेमि भणी वीय रमाममणि 'पडिलेहणं करेमि' इमउं भणइ पाछइ मुहुंती पडिलेहइ । पाछइ एक रमासमणि 'अंगपडिलेहणं संदिमावेमि' भणी वीय रमाममणि अंग पडिलेहणं करेमि इमउं भणी मुहुंती पडिलेहइ । पाछइ पडिरणउं पडिलेही स्थापनापायुं पडिलेहइ । त्रिन्हि नमस्कार- 25 भजनपूर्वक स्थापनापायं स्थापना करी एक रमासमणि मुहुपत्तियं पडिलेहेमि भणी वीय रमाममणु दे मुहुंती पडिलेही एक रमासमणि 'ओही पडिलेहणं संदिमावेमि' भणी वीय रमाममणि ओही पडिलेहणं करेमि इमउं भणी एकांति दोई ओही पडिलेहइ । संयाराभूमि गोपी गुंजी करी जीय एकांति परिटइ पाछइ दयारविपानी वर्षानाउ हुंतउ मुग्गरोमु करी पोमत्तुणनय दंडाउंछणइ करी वमति पउंजइ । काउउ विरलउ करी एकांति पडिहइ । तउ पाछइ श्रियावही पडिक्की करी एक रमासमणि 'महात्तायं संदिमावेमि' 30 भणी वीय रमाममणि महात्तायं करेमि इमउं भणइ । पाछइ पडिक्की करी विधिमाउं सज्जाउ करइ । तउ मुग्गमउं पडिक्कमिउं न हुयइ अथवा मुग्गमउं पडिक्कमे हुंता उ उपधाननु करतउ हुयइ तउ भवतिपुत्तुंति मुग्गमउंति इन्द्रानपरी बांदताउं रिपइ । जणि संभरी पउंतिवहाउ उचाम इत्याकानु करइ । जति अउंमनि सु मुग्गमउंति त्रिक्कादयोत्पामनाउंजनु करइ । पाछइ एक रमासमणि 'इच्छाचारेण भंडिहइ भगवत !

बहुवेल सदिसावेमि' भणी वीय खमासमणि 'भगवन्' बहुवेल करेमि' इसउ भणइ, तइय खमासमणि 'इच्छाकारेण सदिसह भगवन्' सञ्जाय सदिसावेमि' भणी चउत्थ खमासमणि 'इच्छाकारेण सदिसह भगवन्' 'सञ्जाय करेमि' इसउ भणी पचम खमासमणि 'इच्छाकारेण सदिसह भगवन्' वइसणउ सदिसावेमि' भणी छट खमासमणि 'इच्छाकारेण सदिसह भगवन्' वइसणउ टाएमि' इसउ भणइ। तउ पाछइ उपधानतप तणउ द्वादशावर्त्त वादणउ दे करी वइसी करी सुहुती मुखि दे करी मधुरस्वरि स्वाभ्यायु करइ, मनु अर्थि धरइ। पउण पट्ट पढिलेहणाइ अणुठाणु सगळ् सायु निम वरइ जा पोसहु ता सीम। इति सक्षेपिदिं पोसहविधि लिखिउ। विस्तरइतउ श्रीजिनवल्लभसूरि विरचित पोसहविधिप्रकरणइतउ पोसहरीति जाणिमी। भणिय पसगागय।

§ 326) अह अहियमेव लिहिञ्जइ-

- 10 जिण सुणिपंदण अइयारुसमगो पुत्ति वंदणा लोए।
सुचं वंदण खामण वंदण तिन्ने व उस्सग्गा ॥ [३४८]
चरणे दंसणनाणे उज्जोया दुत्ति इक्कओ य।
सुय देवया दुसग्गा पुत्ती वंदण ति शुइपुत्तं ॥ [३४९]
सामाइक करणानतरु^१ जय तिहुयण नमस्कार कही पाछइ-
- 15 जय महायस जय महाभाग जय चितियसुहफल्य।
जय समत्यपरमत्यजाणय जय जय गुरु गरिमगुरु ॥ [३५०]
जय दुहत्थसत्ताण ताणय थंभणयद्विय पासजिण।
भवियहं भीमभवुत्पुभउ अणणितहउणंतगुण।
तुज्ज तिसंझु नमुत्थु ॥ [३५१]
- 20 जयजयनतु था हे महायश-महातु त्रिभुवनव्यापकु थसु परक्रमसभूतगुणोत्कीर्त्तनारूपु पोरुपु जेह
रहइ हुयइ सु महायशा, तेह रहइ सवोधनु हे महायस। पुनरपि सवोधनु हे महाभाग-महातु त्रिजगज्जतप्रधानु
भागु पुण्यु जेह रहइ हुयइ सु महाभागु, तेह सवोधनु हे महाभाग, जयजयवतु था। पुनरपि सवोधनु
चितियसुहफल्यमनोवाछित फलदायक जयजयनतु था। पुनरपि सवोधनु समत्यपरमत्यजाणय सर्वपरमार्थ
ज्ञापक सर्वविश्वजीवाजीवादि तत्त्वबोधक जयजयवतु था। पुनरपि सवोधनु जय जयगुरु जगद्गुरो, हे जगत्त्वो
- 25 प्रदेशक जगज्जनक वा गरिमगुरु महिममहात जयजयनतु था। पुनरपि सवोधनु दुहत्थसत्ताण ताणय दुहत्थ
कट्टि वर्त्तमान छइ सत्त्वा प्राणिया जीव तीह रहइ हे ताणय द्राणद शरणदायक जयजयनतु था। सु
कउणु जेह तणा पूर्वभणित जयमहायसादिक सवोधन इत्याह। हे थंभणयद्वियपासजिण स्तभनकस्थित
पार्श्वजिन त्रयोविंशतितम तीर्थनाथ। तउ पुणि किसउ छइ मीसु रौद्रु सामलीतू हूतउ महोद्रावभावकारकु
छइ भवु ससार तेह हूतउ ऊठिउ सु भीमभवुत्पु कहियइ सु कउणु भउ त्रासु तेह रहइ तउ अणनेता
- 30 फेडणहारु भउ 'अवर्णिताऽणतगुणइ' इति पाठे एउ अर्थु। अवर्णितह इति पाठे अणनेतु स्फेटकस तुज्ज तव
इसउ सवधु करियउ। कउणह रहइ भवियह भविकह रहइ। पुनरपि सवोधनु हे अणतगुण अनतज्ञान-
दर्शनसन्धक्त्ववीर्यानदरूप गुण जेह रहइ छइ सु अनतगुणु तेह रहइ सवोधनु हे अनतगुण। तुज्ज व
रहइ तिसंझु तिहु-सध्या प्रभाति मध्याह्नि सध्या समइ नमुत्थु तमोऽतु नमस्कार हुउ^२। इसउ अर्थु मन
माहि चीतवता जयमहायस पटी पाछइ शरुस्तु कही सपूर्ण देववदना कीजइ। तउ पाछइ जि वे सुनि
- 35 पढिक्कमायसा हुयइ ति सच्चे वावियइ। अनुत्तमि श्रावक पुणि वादियइ। तउ पाछइ एक खमासमणि

§ 326) 1 B drops-२-1 Bh सामाइकरण। 2 Bh हुयउ।

आचार्यमिश्र वांदिद्यं । वीय खमासमणि उपाध्यायमिश्र वांदिद्यं । तद्व्य^३ खमासमणि भगवंत वर्त्तमानगुर
वांदिद्यं । चउत्थ खमासमणि सर्वसाधु वांदिद्यं । इसी परि चतुरादि खमासमण दे करी गोडिहिलियां
होई माथउं मुइं लगाडी मुहुंती मुहि दीधी हूंती हाथे जोडिए 'सव्वस्स वि देवसिय' इत्यादि कहियइ । छेहि
'इच्छाकारेण संदिस्सह' इसउं पदु न कहियइ । तस्स मिच्छामि दुक्कडं कही करी ऊमां थाई 'करेमि भंते'
इत्यादि आलोयणउं 'तस्सुत्तरी' इत्यादि कही काउस्सग्गु कीजइ । काउस्सग्गु माहि आजूणां चउं पहर 5
दियस माहि जि के जीव विराधिया । एकंद्रिय वेइंद्रिय त्रैइंद्रिय चउरिंद्रिय पंचेंद्रिय पृथिवीकाय अफ्फाय
तेउफ्फाय वाउकाय वनस्पतिकाय व्रसफ्फाय । ज्ञानदर्शनचारित्र प्रति आशतना कीधी । क्रोधु मानु माया
लोमु रागु द्वेषु मदु मत्सर अहंकारु कीधउ । प्राणातिपातविरति मृषावादविरति अदत्तादानविरति मैथुनविरति
परिमहपरिमाण रात्रिभोजनविरतिव्रत अतीचारु अणाविउ हुयइ । पनरह कम्मोदान आसेवना कीधी हुयइ ।
अप्यथुई परनिंदा करी जु कांई कम्मु वाधउं, अनेरुं जु कांई पापु कीधउं कराविउं अनुमनिउं सांभरइ न सांभरइ 10
तेउ सगळु आलोयणा माहि आलोइसु इत्यादिकु विवसकुकु रात्रिकुकु वा अतीचारु चीतवियइ । नमुफारि करी
काउस्सग्गु पारी करी 'लोगस्सुज्जोयगरे' कही संबासा पडिलेही यहसी ऊमहू' थिकां मुहुंती पडिलेही सरीरु
पडिलेही वि वानणां दीजइ । आलोयणउं करी 'सव्वस्स वि देवसिय' इत्यादि 'ठाणे कमणे चंकमणे आवत्ते
अणाउत्ते हरियफ्फायसंचट्टे वीयकायसंचट्टे थावरकायसंचट्टे छप्पइयासंचट्टे ठाणाओ ठाणं संकामिया' इति वा
पोसह पडिकमणइ कही करी पाछइ 'सव्वस्स वि' इत्यादि कही, गुरुसउं पडिकमतां हूंता गुरि 'पडिकमह' 15
इसइ कयनि कहिइ हूंतइ स्थापनाचार्ये आगइ पडिकमतां गुरु 'पडिकमह' इसउं कयनु वहइ छइ ।
इसउं मन माहि चिंतवी इच्छं 'नस्स मिच्छामि दुक्कडं' भणी संबान्ना पडिलेही पाउंउणउं पाटलउ
मुइं पडिलेही यहसी करी मुहयारि मुहुंती दे करी हाथे जोडिए सावधानु चित्तु करी पडिकमणा
सूज तणउ अर्थुं मन माहि चिंतवतां मधुरस्वरि सूजु गुणियइ । पाछइ मुइं पडिलेही ऊमां होई
हाथ जोडी 'अच्चमुट्टिओमि आराहणाए' इत्यादि पटी वि वानणां दे खामणउं कीजइ । पाछइ अहिया-20
वण निमित्तु किसउ अर्थुं आपगपउं गुरु परतंतु करिना निमित्तु वि वानणां दे करी 'सद्धो गाहा तिरं
पढइ' इसा प्रतिक्रमणसामाचारी वचनइतउ । थावरुश्राविका

आपरिय उउज्जाए सीसे माहम्मिए कुलगणे य ।

जे मे केइ कमाया सव्वे तिथिहेण खामेमि ॥

[३५२]

सव्वस्स समणसंगस्स भगवओ अंजलिं करिय सीसे ।

25

सव्व खमानइत्ता खमामि सव्वस्स अहयं' पि ॥

[३५३]

सव्वस्स जीरसासिस्स भाउओ धम्मनिहियनियचिचो ।

सव्वं खमानइत्ता खमामि सव्वस्सं अहयं' पि ॥

[३५४]

ए त्रिंदि गाह पढइं । प्रस्तावइतउ इह नउ अर्थुं पुणि लिखियइ । ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्रा-
चार तपआचार वीर्योचाररूप पांच आचार जि पाळउं ति आचार्ये । द्वादशांगपाठक उपाध्याय । 30
जिणि जि धम्मं सीरविया' ति वेह तणा शिष्य । मध्यस्तरमूलद्वादशयत्त प्रतिपालक समभर्मं स्थापर्मिक
एक गणवर तणउ शिष्यसमुदाउ परस्वर सापेसु सांभोगिकु कुट्टु । शिष्टं गणवर तणउ शिष्यममुदाउ परस्वर-
सापेसु साभोगिकु गयु । तउ पाछइ आचार्यवियइ उपाध्यायवियइ शिष्यवियइ साधर्मिकवियइ कुट्टवियइ

गणविपद् जि के मू रहइ कसाय भोध मान माया लोभ रूप दिवस माहि अथवा राति माहि एकत्र-
वाससन्धाविकह कारणह करी हूया तिसाय सन्वे सगलाई तिविधेण मनि वचनि काइ करी रामेमि
खमावउ । किसउ अर्थु ? जीह सउ मू रहइ कसाय हूया तीह रहइ जउ मू सउ कसाय हूया हुयइ तउ
हउ तीह रहइ खमावउ आपणपा ऊपरि कसाय तीह तणा उपसमावउ^१ हउ । पुणि तीह विपइया कसाय
५ आपणपा मन माहि हूता उपसमावउ इसउ अर्थु रामेमि तणउ परमार्थवृत्ति करी जाणिवउ । विशेषइतउ
सर्वेरी सउ रामणउ करी न सकियइ । विशेषह रहइ अनतत्वइतउ । इणि कारणि सर्वसमहनिमित्तु
सामान्यहिं रामणउ करइ ।

§ 327) सव्वस समणसधस्सेति । सगलाई पनरह कम्मभूमिगत भगवत श्रमणसप रहइ जु
फइ मइ अवहेलादि भावि करी अपराधस्यानु कीधउ सु सगळ् 'अजलि करिय' सीसे माधइ हाथ
१० चढावी अजलि करी 'रमावइत्ता' खमावी करी हउ पुणि समउ ।

§ 328) तथा सव्वस जीवरासिस्सेति । जि पूर्वहिं इरियावही प्रस्तावि भणिया ति सगलाई
जीव तीह तणउ राशि समूहु । तेह रहइ भावइतउ आपणा श्रद्धानइतउ धम्मनिहियचित्तो इति दयामूल-
धर्मविपद् निक्षिप्त निजमनु हूतउ सगळ् अपराधस्यानु रमावी करी हउ पुणि खमउ । ति जीव मू ऊपरि^१
खमउ कसाय म करउ । हउ पुणि तीह ऊपरि खमउ कसाय म करउ हउ पुणि तीह ऊपरि खमउ
१५ कसाय नहीं करउ इसउ अर्थु ।

§ 329) इसउ गाथार्थु मनि चीतवता गाथा पढी करी करेमि भते आलोचणउ तस्सुत्तरीत्यादि
क्रमि चारित्रातिचार दर्शनातिचार ज्ञानातिचार विद्युद्धिमित्तु काउस्सग त्रिन्हि कीजइ । पहिलइ काउ-
स्सगि वि लोणस्सुज्जोगरे, वीचइ एक, वीजइ एक लोणस्सुज्जोगरे चीतवियइ । पहिलइ काउस्सगि
पारियइ लोणस्सुज्जोगरे, वीजइ पुक्करवरदीपट्टे, वीजइ सिद्धाण बुद्धाण कहियइ । छेहि सुयदेवयाप
२० आराधनार्थं करेमि काउस्सग इत्यादि भणी काउस्सगु कीजइ । नमस्कार चीतवियइ^१ । धृतदेवता स्तुति
कही पारियइ । पाछइ क्षेत्रदेवतानिमित्त करेमि काउस्सग इत्यादि भणी काउस्सगु कीजइ । नमस्कार
चीतवियइ । क्षेत्रदेवतास्तुति कही पारियइ । पचपरमेष्ठि नमस्कार एकु कही बइसी सुहुती पडिरेही
मगलादिकारणि वि चान्णा दीजइ । 'इच्छामो अणुसट्ठि' इसउ कहियइ । एह नउ निसउ अर्थु^१ । अणुसट्ठि
शिक्षा इच्छामो किसउ अर्थु वाछउ । गोठिहिलिया होइ नमोऽहंत् सिद्धेत्यादि कही एक् थुई 'जउ गुरे'
२५ वही हुई^१ । पासीदिनि जु^१ त्रिन्हि थुई कही हुइ तउ पाछइ ससारदावेत्यादि^१ स्तुति त्रिन्हि । नमोऽस्तु
वर्द्धमानायेत्यादि त्रिन्हि स्तुति^१ वर्द्धमानच्छदोविरचित ररस्वरि उच्चै स्वरि करी कहियइ । पाछइ एकु
रमासमणु दे करी कहइ । इच्छाकारेण सदिसह भगवन् स्तोत्रु भणउ । वीचा रमासमणु दे करी भणइ
इच्छाकारेण सदिसह भगवन् स्तोत्रु साभलह, गुरि 'भणउ' 'साभलउ' इसइ भणइ हूतइ पाछइ एकु श्रावकु
भावसार मधुरस्वरि सद्गतगणगार्धभनु वीतरग स्ववतु महलु कहइ । वीचा गोठिहिलिया धिया हाथ
३० जोडीए सवधान धिका साभलइ । स्तोत्रानतरु एकु खमासमणु दे आचार्यमिश्र वादियइ । धीजउ रमान
मणु दे करी उपाध्यायमिश्र वादियइ । तइउ खमासमणु दे करी सर्वसाधु वादियइ एतलइ देवसिउ
पढिकमणु सपूर्णु हुयउ ।

§ 326) 8 Bh. उपसमावउ । § 327) 1 B अजलि करी । § 328) 1 B उपरि । § 329) 1 Bh
चीतवीयइ । 2 Bh हुयइ । 3 Bh. जउ । 4 B adds वा । 5 B स्तुति त्रिन्हि ।

§ 330) आरंभि देव वांदातां आंतरणी न हुयइ । “सव्वस्स वि” कथनांतरु जां ‘इच्छामो अणुसद्धिं’ न कहियइ तां आंतरणी हुइ । पाछइ न हुइ । कुणइ “पच्छित्तउरसमं” इति श्री जिनवह्म-
सूरि विरचित प्रतिक्रमणसमाचारी प्रकरणवचनात् । ग्मासमणदाणपूर्वकु ‘इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ।
देवसिय पायच्छित्तविसुद्धिनिमित्तं करेमि काउरसगं’ इसउं भणियइ । गुरि ‘करउ’ इसइ भणियइ हूंतइ
‘इच्छं अन्नत्थूससिएणं’ इत्यादि भणी काउरसग्गु कीजइ । लोगस्सुज्जोयगरे चत्तारि चीतवियइ । पारियइ 5
हूंतइ लोगस्सुज्जोयगरे भणियइ ।

§ 331) अत्र सिद्धांतालापको यथा—

काउरसग्गेणं भंते ! जीवे किं जणइ ?

गोयमा ! काउरसग्गेणं तीयपडिपुल्ल पायच्छित्ते विसोहेइ, विसुद्धपायच्छित्ते
जीवे निव्वुंयहियए ओहरियभरुव्व भारवहे पसत्थज्ञाणोवगए सुहं सुहेणं विहरइ । 10
इति उचाराध्ययनसिद्धांतं तृतीयाध्ययनभणनइतउ पुणि काउरसग्गु कीजइ ।

§ 332) तथा गीतार्थाचीर्णता करी क्षुद्रोपद्रव ओहडावणत्थु काउरसग्गु पुणि कीजइ । एक
ग्मासमणि ‘इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! क्षुद्रोपद्रव ओहडावणत्थं करेमि काउरसगं’ इसउं भणी,
गुरि ‘करउ’ इसइ कहिइ हूंतइ ‘इच्छं अन्नत्थूससिएणं’ इत्यादि भणी काउरसग्गु कीजइ । लोगस्सुज्जोयगरे
चत्तारि चीतवियइ । पारियइ हूंतइ लोगस्सुज्जोयगरे भणियइ पाछइ गोडिदिलियां होइ त्रिन्दि पंचपरमेष्ठि 15
नमस्कार कही श्रीस्त्वंभनक श्रीपार्श्वनाथ देव नमस्कार कही शक्रस्तवु भणी जावति चेइयाइ इत्यादि कही
खमासमणु दे, जावति केइ साहू इत्यादि कही नमोऽहंत्तिसद्वेत्थादि कथनपूर्वकु श्रीपार्श्वनाथ लघुस्तवु भणी
जयमीयरायेत्यादि कहियइ । पाछइ माथउं सुइं लगडी सुहि सुहुंती दे करी—

सिरियंभणयद्विय पाससामिणो सेसतित्थसामीणं ।

तित्थसमुन्नइ कारण सुरासुराणं च सव्वेसिं ॥

[३५५] 20

एसिमहं सरणत्थं काउरसग्गं करेमि सचीए ।

भचीए गुणसुद्धिय संघसस समुन्नइ निमित्तं ॥

[३५६]

एउ गाथाजुगलु कहियइ ।

§ 333) इहं गाथा नउ अर्थु यथा—श्रीस्त्वंभनक श्रीपार्श्वन्वामी¹ रहइं स्मरणा आराधना तेह निमित्तु ।
‘तथा’ ‘सेसतित्थसामीणं’ ति । ‘शेष’ थाकतां जि केइ श्रीअष्टापद श्रीसंभेताशिखरि श्रीशंभुजय श्रीउज्जयंतगिरि 25
प्रमुल महातीर्थं ति सेसतित्थ कहियइ । तीहं तणां स्वामी तीर्थंकर श्रीऋषभनाथादिक श्रीनर्द्धमानाथसान
चतुर्विंशति जिनवरेंद्र, तथा श्रीऋषभ श्रीमहावीर श्रीवासुपूज्य श्रीनेमिनाथवर्जित श्रीअजितस्वामी सुप्य
श्रीपार्श्वनाथावसान विंशति जिननायक, श्रीआदिनाथ श्रीनेमिनाथ प्रमुव्व तीर्थनाथ तीहं सवही स्मरणार्थु
आराधनार्थु, तथा श्रीमहावीर देवाधिदेव तणउ संघु तीर्थु कहियइ । तेह रहइं समुन्नति अभ्युदउ तेह
रहइं कारण निमित्त जि सुरसौधमेंद्रादिक असुरधरणेंद्रादिक तीहं समलहं स्मरणार्थु स्मृतिगोचरि आणिया 30
निमित्तु तथा गुण ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यादिक तीहं करी सुखितु समाधानि वर्त्तमानु जु संघु तेह रहइं
समुन्नतिनिमित्तु अभ्युदय तणइ कारणि । करेमि काउरसगं भचीए भचीए-शक्ति तणइ अनुसारी भक्ति
करी न पुणि घलात्कारि, काउरसग्गु करउं । इति गाथाजुगलार्थः ।

§ 330) 1 Bh. हुयइ । 2 Bh. हुयइ । § 332) 1 Bh. कहियइ 2 Bh. देइ । 3 Bh. केइ ।
§ 333) 1 Bh.-सामि । 2 Bh. has, instead, तणइ अनुगारि ।

§ 334) 'वंदणप्रतिपाद्य द्यूणप्रतिपाद्य' इत्यादि भणी करी काउस्सग्गु कीजइ । लोगस्सुज्जोयगरे चत्तारि चीतवियइं । पारियइ हंतइ लोगस्सुज्जोयगरे भणियइ । इति श्रीअभयदेवसूरि प्रकाशित श्रीस्तंभन-
कपार्थनाथ नमस्कार शकस्तत्र कायोस्सर्गकरण नमाचारी श्रीअभयदेवसूरिगच्छान्नायवसइतउ प्रवर्त्तइ । जय
तिहुयण नमस्कार भगनपूर्व प्रतिक्रमण प्रारंभण नमाचारी च । तथा उत्तरापथि श्रीजिनदत्तसूरि समाराधन-
५ निमित्तु काउस्सग्गु पुणि खरतरगच्छ^१ समाचारीतउ कीजइ । इति दिवसप्रतिक्रमण समाचारी संपूर्णा ।

§ 335) अथ रात्रिप्रतिक्रमणविधि लिखियइ-

एवं ता देसियं राइयमवि एवमेव नररि तहिं ।

पढमं दाउं मिच्छामि दुक्कडं पढइ सकथयं ॥

[३५७]

उट्टिय करेइ विहिणा उस्सगं चितए य उज्जोयं ।

वीयं दंसणसुद्धीइ चितए तत्थवि तमेव ॥

[३५८]

तइए निसाअइयार जहकमं चित्तिऊण पारेइ ।

सिद्धत्थयं पढित्ता पमज्जसंटासमुवविसइ ॥

[३५९]

पुच्चं व पुत्ति पहेणवंदणमालोय सुत्तपढणं च ।

वंदणखामण वंदणगाहा तिगपढण उस्सग्गो ॥

[३६०]

तत्थ य चितइ संजमजोगाण न जेण होइ मे हाणी ।

तं पढिवज्जामि तवं छम्मासं ता न काउ मलं ॥

[३६१]

एगाइ इगुणतीघणयं पि न सहो न पंचमासमवि ।

एवं चउ तिहुमासे न समत्थो एगमासं पि ॥

[३६२]

जातं पि तेरघ्णं चउतीसइ माइ तो दुहाणीए ।

जाव चउत्थं तो आयंभिलाइ जा पोरिसि नमो वा ॥

[३६३]

जं सकइ तं हियए धरिचु पारित्तु पेइए पुत्तिं ।

दाउं वंदणमसढो तं चिय पच्चकरए विहिणा ॥

[३६४]

इच्छामो अणुसट्ठित्ति भणिय उवविसिय पढइ तिन्नि थुई ।

मिउसदेणं सकथयाइ तो चेइए वंदे ॥

[३६५]

एय ता देवसियमिति ।

इसी परि पूर्वभणित परि देवसिउ पढिकमणउं कहिउं । राइयमवि एयमेवेति । राइउ पढिकमणउं^१
एवमेव-इसीहीं जि परि जाणियउ ।

§ 336) 'न वरि तहिं' ति नवरं केउळं तिणि राइइ पढिकमणइ उु विशेषु सु पहियइ ।

सत्तलोहगोलकसमान असजत जन तथा जीवहिंसाकारक गिलोईप्रसुरा जीय जिम जागइं नहीं
३० तिणि कारणि मिउसदेण ति म्हुदुशब्दि करी जिम आपणपा हूंतउ धीजउ को सांभलइ नहीं विमइ खरि
करी देववदना सीम । किउउ अर्थु ? ऐह सीम पढिकमणउ करेवउं । तत्र पूर्वभणित सामादकशकस्तत्र-
दुस्वप्नादि प्रायश्चित्तविशुद्धिनिमित्त कायोस्सर्गकरणानंतर पढिकमणा^१ टाइया समइ ह्यइ हंतइ जि पेई

पदस्यमुनि साधर्मिकं हुयइं ति सर्वइं वांटी करी एक खमासमणि आचार्यमिश्र वांदियइं । वीय खमास-
मणि उपाध्यायमिश्र वांदियइं । तइय खमासमणि^१ भगवंत वत्तमानधम्मगुर वांदियइं । चउथइ खमासमणि
सर्वसाधु वांदियइं । पाछइ गोडिहिलियां होई मुहुंती मुहवारि दे करी माथउं भुइं लगाडी करी 'सव्यस्स
वि राइय' इत्यादि कहियइ । छेहि 'इच्छाकारेण संदिसइ' इसउं पढु न कहियइं^२ । तस्स मिच्छामि दुकडं ।
करेमि भंते आलोयणउं तथा तस्सुत्तरीत्यादि कही करी चारित्रातिचार^३ विमुद्धिनिमित्तु काउस्सग्गु 5
कीजइ । लोगस्सुज्जोगरे एक चीतवियइ । चंदेसु निम्मलयरा सीम इसी परि अनेरे काउस्सग्गि लोगस्सु-
ज्जोगरे पंचवीस ऊसास एतीही जि कळ चीतवेवी पारियइ हूंतइ लोगस्सुज्जोगरे संपूर्ण भणियइ ।

§ 337) पाछइ सव्वलोए अरहंत-चेइयाणं इत्यादि कही दर्शनातिचार विमुद्धिनिमित्तु बीजउ
काउस्सग्गु कीजइ । लोगस्स उज्जोगरे चीतवीयइ । पारियइ हूंतइ पुक्खरवरदीवड्डे कहियइ^४ सुयस्स
भगवओ करेमि काउस्सग्गं वंदणवत्तियाए इत्यादि कही ज्ञानातिचारविमुद्धिनिमित्तु^५ त्रीजउ काउस्सग्गु 10
कीजइ । रात्रिगतु अतिचारु चीतवियइ । इहां शिष्यु घृच्छा करइ, दिवस तणइ पडिकमणइ जिम पहिलउं
काउस्सग्ग माहि अतीचारु चीतवियइ, तिम रात्रि पडिकमणइ पुणि किसइ कारणि पहिलउं अतीचारु न
चीतवियइं ? गुरु भणइ, निद्राघूर्णिणमादिक्कु चित्तसमाधानु तथा सरीरालस्यभाउ जिम न होइ तिणि कारणि
त्रीजइ काउस्सग्गि अतीचारु चीतवियइ । पाछइ सिद्धाणं युद्धाणं कही करी संदासा पडिलेहण करी
वइसी ऊभइ^६ थिकां मुहुंती पडिलेही सरीरु पडिलेही द्वादशावत्त वांदणउं दे करी आलोयणउं कीजइ । 15
पोसहि कीपइ संथारा उव्वट्टण किई, परियट्टण किई, आउंटण किई, प्रसारण किई, छप्पइया संघट्टण
किई, अच्चक्खुविसइ काई किई, इसउं कहियइ ।

§ 338) एह नउ अर्थु संस्तारकोद्धर्त्तना कृता । किसउ अर्थु ? वाम पार्थ्वेइतउ दक्षिणपार्थ्वि
फिरिउं अथवा दक्षिणपार्थ्वेइतउ वामपार्थ्वि फिरिउं, तत्र जि के जीव मत्कुण मुलहलादिक विराधिया
हुयइं तीहं नइं कारणि संथारा उद्धट्टणादिक आलोइयइं । एवं परियट्टण किई परिवर्तना^१ वारवार 20
उभयपार्थ्वेहं फिरणु किधउं । आउंटण किई आकुंचना कृता निद्रा माहि पसारिया अंग तणी संकोचना
कीथी । पसारण किई प्रसारणा कृता संकोचित अंग तणी निद्रा माहि पसारणा कीथी । छप्पइया संघट्टण
किई पदपदिका संघट्टना कृता, जू तणी परिमईना कीथी । अचक्खुविपइ काई किई दृष्टिदर्शन तणइ
अभावि काइका लहुडी वडी नीति कीथी । पाछइ 'सव्वस्स वि' कही, वइसी सूत्रार्थु मनि चीतवतां
हूंतं मयुरस्वरि निजकण्णांमृत पारणा करिवा पडिकमणासुउ गुणियइ । 'तस्स धम्मस्स केवलीपन्नत्तस्स'^२
इसउं पढु श्रावकप्रतिक्रमणप्रति आन्नाय तणा अभावइतउ केई एकि पढइं नहीं । केइ एकि पुणि पढइं ।
तथापि 'अब्भुट्टिओमि आराहणाए विरओमि विराहणाए'^३ एउ पढु जुगलु तीहीं जि संबंधिउं छइ, तिणि
कारणि मनि वर्त्तमानु जाणिवउं । अब्भुट्टिओमि भणनांतुरु वि वांनणां दे करी खामणउं कीजइ । खामणां-
तरु अल्लियावणनिमित्तु आपणपा रहइं गुरु परतंत्रताभवननिमित्तु वि वांनणां दीजइ । पाछइ 'आयरिय
उव्वज्जाए'^४ इत्यादि त्रिग्धि गाथा 'करेमि भंते आलोयणउं तस्सुत्तरी'त्यादि पढी काउस्सग्गु कीजइ । 30

§ 339) छम्मासिउ चीतवियइ यथा—'भगवंत श्रीमहावीरदेव तणइ तीर्थि छम्मास उक्कणु तपु
वत्तइ । रे जीन ! करी सकइ ? 'अत न सइ' । 'एक दिवसि करी उणा करी मकइ ? 'न सइ' ।

§ 336) 1 B drops words from भाचार्यमिश्र... 2 Bh. adds पछइ नमोयुणं कहियइ । उट्ठी ।
3 Bh. ज्ञानातिचार । § 337) 1 B. drops words from पाछइ... 2 Bh. चारियातिचार- । 3 B. Bh.
ऊतइ । cf. 322, 3, 326. 4 § 338) 1 R omits

एवं विंशं ऊर्णां त्रिंशं ऊर्णा इती परि एकि ऊर्णां तां पूछियइं जा इगुणत्रीसे दिवसे ऊर्णा छ मास हुयइं । पाछइं पांच मास करी सकइ, इसी परि जीव कन्हा पूछियइ । अत न सकूं । पुनरपि एकि एकि दिवसि ऊर्णा पांच मास तां पूछियइं जां इगुणत्रीसे दिवसे ऊर्णा पांच मास हुयइं । पाछइ चियारि मास करी सकइ इसी परि पूछियइ पूर्ववत् जां इगुणत्रीसे दिवसे ऊर्णा चियारि मास हुयइं । पाछइ त्रिन्दि मास 5 करी सकइ इसी परि पूछियइ पूर्ववत् जां इगुणत्रीसे दिवसे ऊर्णा त्रिन्दि मास हुयइं । पाछइ वि मास करी सकइ इसी परि पूछियइ एकि एकि दिवसि ऊर्णा तां जां इगुणत्रीसे दिवसे ऊर्णा वि मास हुयइं । पाछइ एक मासु करी सकइ इसी परि पूछियइ तां एकि एकि दिवसि घटावीतइ पूछियइ जां तेरेहे दिवसे ऊर्णा एक मासु हुयइ । पाछइ एक दिवसि हाणि कीधी हूँती शेष सोल दिवस हुयइं तीहं तणउ तपु चउत्रीसमु हुयइ । तउ पाछइ चउत्रीसमु करी सकइ इसउं पूछियइ । अत न सकूं । तउ पाछइ वि 10 वि घटावतां यत्रीसम त्रीसम अट्टावीसम छव्वीसम चउवीसम धावीसम वीसम अष्टादशम षोडशम चतुर्वशम द्वादशम अष्टम पष्ठसीम तां पूछियइ जां चतुर्थु । तउ पाछइ आंविळु एकासणउं पुरिम निळियय पोरिसि सीम तां पूछियइ जां नरकारसहितु । पाछइ जु सकइ सु प्रत्याख्यानु मन माहि चीतवी करी 'नमो अरहंताणं' कही काउत्सग्गु पारइ ।

§ 340) पारियइ हूंतइ 'लोगसुज्जोयगरे' भणी वइसी सुहुंती सरीरु पडिलेही वि वानणं दे 16 असहु मायारहितु हूंतउ चितितु प्रत्याख्यानु कहइ ।

'इच्छामो अणुसद्धिं' इसउं भणी गोडिहिलियां होई संसारदावा अथवा परसमयतिमिरतरणि इत्यादि' रतुति त्रिन्दि यद्धेमान छंदोविरचित मंदस्वरि करी कहियइं । पाछइ 'नमोत्थुणं' कही ऊर्मां होई देव वांदियइं । गोडिहिलियां होई 'नमोत्थुणं' कही एक रमासमणि आचार्यमिश्र वांदियइं । वीय रमासमणि उपाध्यायमिश्र वांदियइं । तइय रमासमणि सर्वसाधु वांदियइं । एतलइ रात्रि प्रतिक्रमणु 20 संपूर्णं ह्यउं । तउ पाछइ कम्मभूमिहिं पढमसंघयणि इत्यादि नमस्कार श्रीऋषभयद्धेमानक इत्यादिक स्तवन प्रतिलेखनाकुलकादिक 'कुलं अट्टाययंमि उसहो' इत्यादि प्रभातमांगलिक्यभायनाभायुकु सज्जानउ करी सुहुंती पट्टक पोसाल पडिलेहण प्रकासि ह्यइ हूंतइ कीजइ । इति रात्रिय' प्रतिक्रमणविधि ।

§ 341) अथ पात्रिक चातुर्मासिक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि लिखियइ ।

मुहपुत्तीवंदणयं संबद्धारामणं तदा लोए ।
 25 वंदणपत्तेयं रामणाणि वंदणय मुत्तं च ॥ [३६६]
 मुत्तं अन्मुट्टाणं उस्मग्गो पुत्तिवंदणं तह य ।
 पजंते रामणयं तह चउरो थोमवंदणया ॥ [३६७]
 पक्खिय तिन्नि सयाइं ऊमासा पणसया उ चउमासे ।
 अट्टसहस्सं वरिसे सिअसुराए तहुस्मग्गो ॥ इति । [३६८]

30 देवसियपडिकमणइ जउ 'वंदाग्गि जिणे चउव्वीसं' कहिउं' हुयइ । तउ पाछइ एक रमासमणि 'इच्छाकारेण संदिसइ भगवन् पक्खिय मुहपुत्तिउं पडिलेहेमि' 'चउमासइ चउमासिय मुहपुत्तिउं पडिलेहेमि संरत्तरि संघत्सरिय मुहपुत्तिउं पडिलेहेमि' इमउं कहियइ । धीजउं रमासमणु दे सुहुंतीग्गरी, पडिलेही

वि धानणां दीजइ । 'पाछइ संवद्धाखामणेणं अचुभुट्टिओहं अट्ठिभतरपक्खियं खामेमि' 'चउमासइ चउमासियं खामेमि संवत्सरि संवत्सरियं खामेमि' इसउं कथनु उभां थिकां माथइ हाथ चढावतां भणी करी गोडिहिलियां थाई माथउं भुइं लगाडी मुहुंती मुहवारि देई 'पनरसन्हं दिवसाणं पनरसन्हं राईणं' इसउं कही, 'चउमासइ चउन्हं मासाणं अट्ठन्हं पक्खाणं विसोचरु सउ राईदियाणं' इसउं कही, 'संवत्सरि दुवालयसन्हं मासाणं चउवीसन्हं पक्खाणं त्रिन्हिसइं साठ राईदियाणं' इसउं कही, 'इच्छं जं किं चि अप्पित्तियं'⁵ इत्यादि कही जउ वि साधु ऊगरता हुंयइं तउ पक्खियदियसि त्रिन्हि खामणां, चउमासइ पांच खामणां, संवत्सरि सात खामणां कीजइ । पाछइ उठी वि धानणां दे करी देवसियं आलोइयं पडिकंता प्रत्येक-रामणेणं 'अचुभुट्टिओहं अट्ठिभतरपक्खियं खामेमि, चउमासइ चउमासियं खामेमि संवत्सरि संवत्सरियं खामेमि' इसउं कही प्रत्येक खामणां कीजइ । तदनंतर वि धानणां दे 'देवसियं आलोइयं पडिकंतां पक्खियं पडिकमावेह' इसउं कही करी चउमासइ 'चउमासियं पडिकमावेह' इसउं कही संवत्सरि 'संवत्सरियं'¹⁰ पडिकमावेह' इसउं कही करी 'करेमि भंते' इत्यादि 'इच्छामि ठामि काउरसगं जो मे पक्खिओ अइयारो' इत्यादि चउमासइ 'चउमासिओ अइयारो कओ' इत्यादि संवत्सरि 'संवत्सरिओ अइयारो कओ' इत्यादि कही करी 'तस्सुत्तरीकरणेणं' कही शक्तिसंभवि सब्बहीं काउरसगु कीजइ ।

§ 342) एकु श्रावकु आचार्यमिश्रहं आगइ आवी एकु खमासमणु दे करी भणइ 'इच्छाकारेण'¹⁵ संदिसह भगवन् ! सूत्रु संदिसावउं, गुरि' 'संदिसावहु' इसइ भणिइ हुंतइ वीजउं खमासमणु दे करी 'भगवन् सूत्रु काढउं' इसउं भणइ । गुरि 'भगउ' इसइ कहिइ हुंतइ 'इच्छं' इसउं भणी करी, ऊभउ थिकउ हाथे जोडिए मुहि मुहुंती दीथी त्रिन्हि नमस्कार कही मधुरस्वरि व्यक्ताक्षरु माधधानचित्तु सूत्रार्थु मनि चीतवतउ हुंतउ पडिकमणा सूत्रु भणइ । वीजा काउरसगि वचमान सावधान थिका सांभलइ । साधु सरसां पडिकमतां हुंतां त्रिन्हिसइं साठ पक्खियसूत्रु सांभलइ । शक्तिअसंभावि वइठा थिका सांभलइ, सूत्रप्रांति सब्बे काउरसगु करइ । संपूर्णं सूत्रि भणिइ' हुंतइ नमुकारेण पारित्ता उभां थिका त्रिन्हि'²⁰ नमस्कार कही पाछइ वइसी करी पूर्ववत् पडिकमणासूत्रु गुणियइ । 'पडिकमे देवसियं सब्बं' एह नइ धानकि 'पक्खियं सब्बं चउमासइ चउमासियं सब्बं, संवत्सरि संवत्सरियं सब्बं' इसउं कहियइ । सूत्र-गुणनानंतरु 'अचुभुट्टिओमि आराहणाए' कही एकु खमासमणु दे करी कहियइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् मूलगुण उत्तरगुण अतिचारविमुद्धिनिमित्तु काउरसगु करह' इसउं भणियइ । गुरि 'करउ' इसइ कहिइ' हुंतइ 'इच्छं' इमउं भणी करी 'अन्नत्थूमसिएणं' इत्यादि भणी काउरसगु कीजइ । पक्खिए'²⁵ त्रिन्हिमइं उत्ताम वारह लोग्गसुज्जोगारे, चउमासइ पांचसउं उत्ताम वीस लोग्गसुज्जोगारे, संवत्सरि अट्ठोत्तरुमइरसु उत्ताम चियालीम लोग्गसुज्जोगारे एउ नमस्कार चीतवियइ । नमुकारेण पारित्ता लोग्गसुज्जोगारे संपूर्णं कहियइ । पाछइ वइसी मुहुंती सरिरु पट्टिलेही त्रि धानणां दे पयंतखामणउं कीजइ । चत्तारि धार खामामणु दे दे त्रिन्हि त्रिन्हि नमस्कार कहियइ । ए चत्तारि थोभ्यांधणं कहियइ । तउ पाछइ इच्छामो अणुमाट्ठि इमउं भणियइ । 'नित्यारण पारणा होइ' इमा गुरुवचनश्रवणा-³⁰ नंतरु आपउं देवसिउ पडिकमियइ । केरले भजनदेवता काउरसगु सुइ अधिक कहियइ । सोत्रु पाक्षिक चतुर्मासक संवत्समप्रतिक्रमणि निभइ मउं 'अजियं जिउ' अजितशांति स्तुतु कहियइ । लउ स्तनु 'उयस-गाहं पासं' निभइ मउं कहेयउं । इति पाक्षिकादि प्रतिश्रमणविधि ।

§ 343) अथ प्रस्तावइतउ सामाइकोसहपारणाविधि पुणि लिखियइ । जघन्यपदि लघु वि घटिका सीम उक्कृष्टपदि जेतीवार सीम वासना तेतीवार सीम सामाइकि संपूर्णि क्रीचइ हूंतइ गुरु आगइ अथवा स्थापनाचार्य आगइ आवी करी इच्छामीत्यादि भणी एक खमासमणि 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! मुहुपुत्तियं पडिलेहेमि' भणी वीय खमासमणि दीचइ हूंतइ वइसी ऊभइ थिकां मुहुंती 5 पडिलेही करी पाछइ ऊठी करी एक खमासमणि 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामाइयं पारावेह' इसउं कहियइ । 'पुणोवि कायव्यं' इसइ कथनि गुरि कहिइ हूंतइ वीय खमासमणि 'सामाइयं पारेमि' इसउं भणियइ । 'आयारो न भुत्तव्यो' इसइ गुरि' कहियइ हूंतइ 'इच्छं' भणी तउ खमासमणु दे करी अर्द्धावनतगायु करी ऊमां थिकां हाथे जोडिए मुहुंती मुहि दीधि त्रिदि नमस्कार कहियइ । पाछइ संहारा पडिलेही गोडिहिलियां होई मस्तक मुइं धरी हाथे जोडिए मुहुंती मुहि' देई

- 10 भयवं दसन्नभदो सुदंसणो धूलभद्वयरो य ।
सफलीकय गिहचाया साहू एवंविहा हुंति ॥ [३६९]
साहूण वंदणेणं नासइ पावं असंकिया भावा ।
फासुयदाणे निअर उयगहो नाणमाईणं ॥ [३७०]
छउमत्थो मूढमणो कित्तियमित्तं पि संभरइ ।
15 जीवो जं च नं समरामि अहं मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥ [३७१]
जं जं मणेण चित्तियमसुहं वायाइ भासियं किंपि ।
असुहं काएण कयं मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥ [३७२]
ए चचारि गाह कहियइ ।

§ 344) ईहं गाह नउ अर्थु यथा—'सामाइयंनि वि फए' ममणो होइ व सावओ होइ जग्हा'
20 इसा भगनइतउ जिम महासरोनरु भरिउं देखी कहियइ जाणे समुद्रु छइ । अथवा सूरु पुरुषु देखी करी भणियइ जाणे सिंहु छइ । अथवा महावृषमु देखी करी कहियइ जाणे हाथियउ छइ । अथवा धनवंतु पुरुषु देखी करी भणियइ जाणे धनदयलु छइ । तिम समताभावि सामाइकि घर्त्तमानु धावडु देखी करी भणियइ जाणे श्रमणु छइ । तिणि कारणि सामाइकपारणा समइ जि वेई जिनश्रामनि उक्कृष्ट श्रमण' इया तीहं माहि मुख्यभूत श्रीदशार्णभद्राजकपि श्रीसुदर्शनमहासुनि श्रीसूलभद्रयुगप्रधान श्रीवज्रस्वामि युग-
25 प्रधान वर्त्तइ । जि किता ? सफलीकय गिहचाया इति । सफलीकृतु सफळु क्रीचउ गृहत्यागु संयमु जीहं ति सफलीकृत गृहत्याग कहियइ । किस्तउ अर्थु ? जि वि दशार्णभद्रु अनइ सुदर्शनु तिणिहिं जि भवि मुक्ति गया । श्रीसूलभद्र युगप्रधान अनइ वज्रस्वामि युगप्रधान देवलोकि पशुता, वीजइ भवि तेई वे मोक्षि जाइसिइ । तथा च—

- तइयभवाइकमणं न करंति जुगप्पहाण आइरिया ।
30 अज्ज सुहम्मपभिई तेषेण भवे गया मुकरं ॥ [३७३]
साहू एवंविहा हुंति । अनेराई श्रमण जि के, ति एवंविध ईहं मरीया मापु द्रुयइ । इमी परि साधु बहुमानु चीतवियइ ।

§ 343) 1 B. Bh. उक्कृष्टः. see 337. 3. 2 B drops words between गुरि ... गुरि ।

3 B. drops words between मुहि...मुहि । § 344) 1 B सामाइयं न वि कए । Bh सामाइयं न वि कए ।

2 Bh. adds पुरइ ।

§ 345) तथा साधु पर्युपास्तिफलु पुणि चीतवियइ । साहूण वंदणेणं ति साधु तणइ वंदणि नमस्करणि कीजतइ हूंतइ असंकिया भावा असंकित भावइतउ संदेह पाखइ नासइ पावं पापु नासइ । अत्र कण्णु छटांतु । तथा साधु रहइं प्रासुक्येपणीय अन्नपानादि दानि कीधइ हूंतइ निज्जर पूर्ववद्ध अशुभकर्म तणी निजैरा क्षिपणा हुयइ । तथा उवग्रहो नाणभाइणंति ज्ञानादिक जि गुण साधु तणइ आधारि छइं तीहं गुणहं रहइं उपग्रह उपष्टंमु आधारु कीधउ हुयइ । इसी परि साधुसेवादि अनुमोदना करी भणियइ । 5 छउमत्थो इति । जिम समुद्रि कल्लोलसंख्या आकाशि तारकसंख्या करी न सकियइं तिम छउमत्थ जीव रहइं किसउ अर्थु ? जां सूक्ष्म संपरायगुणठाणइ जीवु न जाइं तां प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानकहं वर्त्तइ, साधु नी अपेक्षा करी श्रावकु पुणि देसविरति सम्यग्दृष्टि गुणठाणइ वर्त्तइ तउ पाछइ चित्त रहइं चपलता लगी एक सुहूर्त्त माहि जि के जीव रहइ असुभ परिणाम नीपजइं तीहं नी संख्या पुणि जीवु करी न सकइं, इणि कारणि भणियइ छउमत्थो छद्मस्थ जीवु कित्तिय मित्तं पि केतलउं पापु सांभरइ समरइ । तिणि कारणि 10 जु सांभरइ समरइ जं च न संभरामि अहं । जु पापु हउं न सांभरुं समरउं नहीं मिच्छामि ह दुक्कं तरस । तेह सांभरताई अनइ असांभरताई पाप तणउ दुष्कृतु मिथ्या विफलु हुउ ।

§ 346) इसी परि सामान्यदि सामाइकशुद्धि करी विशेष सुद्धि निमित्तु भणियइ । जं जं ति— जं काइ असुमु मनि करी चीतविउं, जं काइं अशुमु वाया करी वचनि करी भासिउं कहिउं । जं काइं असुमु काइ करी कीधउं तेह तणउं दुष्कृतु मिथ्या हूउ । इसी परि सामाइक तणी विशेषसुद्धिकरणपूर्वकु 15 सामाइकु पारी करी पुनरपि प्रमादभावरिपु तणउ अविश्वासु मन माहि धरतां सर्वजीव मिथ्या दुष्कृतु दे करी—

सामाइय पोसहसंठियस्स जीवस्स जाइ जो कालो ।

सो सफलो बोधव्वो सेतो संसारफलहेऊ ॥

[३७४]

इत्यादि भावना भावियइं ।

20

§ 347) अथ पोसहपारणा विधि लिखियइ । संपूर्ण पौपधकृते सति एक खमासमणि भणियइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् । मुहुपत्तियं पडिलेहेमि' बीय खमासमणु दे करी मुहुंती पडिलेही एक खमासमणि भणियइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पोसहं प्राणवेह, 'पुणोवि कायव्वं' इसइ कथनि गुरि कहिइ हूंतइ धीय खमासमणि भणियइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पोसहं पारावेमि' । गुरि 'आयारो न सुत्तवो' इसइ कहिइ हूंतइ 'इच्छं' भणनपूर्वकु तइय खमासमणु दे त्रिन्हि नमस्कार कहिइ' । 25 इति पोसह पारणाविधि ।

§ 348) पडिकमणउं सामाइककरणपूर्वकु कीजइ तिणि कारणि पहिलुं सामाइकसूत्र वखाणु लिखियइ । 'करेमि भंते सामाइयं' इत्यादि । 'करेमि' करउं शिष्य नी ए प्रतिज्ञा । 'भंते' भदंत पूज्य भगवन् वा । भयांत वा सप्तविधभय अंतकारक । भयांत वा चतुर्गतिरूप ससारनियारक । इसी परि भंते एह नउ अर्थु सु पुणि गुरु तणउं आमंत्रणु गुरु अनुज्ञातु सर्व परियउं । इसा अर्थ रहइं जाणाविया निमित्तु 30 पाछइ इसउ अर्थु—हे भंते ! भगवन् ! गुरो ! सम समस्तज्ञानादिकगुण तीहं नउ आयु लासु समायु पहियइ । तिणि समायि हूंतइ हुयइ इति सामायिकु कहियइ । यथा—

जो समो सच्चभूएसु तसेसु थावरेसु य ।

तस्स मामाइयं हुजा इय केवलिसायियं ॥

[३७५]

सु पुणि एकु सर्वे सावद्ययोग प्रत्याख्यानरूपु । एकु देस सावद्यजोग प्रत्याख्यानरूपु । तत्र श्रावक रहइं सर्वे सावद्यजोगहं नइ विपइ अनुमति निपेधु न सभवइं तिणि कारणि देस सावद्यजोग प्रत्याख्यातु हुयइ । इत्याह 'सावज्जं जोगं पञ्चकामि' । अवद्यु जीवहिंसादिकु पापु तेह सहितु जु योगु व्यापारु सु सावद्यु जोगु व्यापारु 'पञ्चकामि' निपेधं । सु निपेधु यावज्जीवता अल्पकालविपयता करी विउं भेदे ५ हुयइ इत्याह 'जावनियमं पज्जनासामि' । जेतलउ कालु भ्रति रहउं तेतलउ कालु पज्जुवासउं पालउं । प्रतावस्थानकालु जघन्यपदि मुहूर्तप्रमाणु उत्कर्षइतउ जां वासना तां सीम ।

§ 349) किस्सी परि ? 'दुविहं तिविहेणं' मनि वचनि काइ करी 'तिविहेणं' सावद्यु जोगु आपहे करउं नहीं, अनेरा कन्हा करावउं नहीं 'दुविह' । अत्र 'भंदन' सामाइयं करेमि' इणि करी प्रत्युत्पन्न 10 वर्षमानु सावद्यु सपापु जोगु व्यापारु तेह नी विरति कही । 'सावज्जं जोगं पञ्चकामि' इणि करी अनागत सावद्यजोग नी निवृत्ति कही । अतीत सावद्य जोग प्रतिक्रमण नइ कारणि वहइ । 'तस्स भंते पटिकमामि' । इहां पष्ठी विभक्ति द्वितीया विभक्ति नइ अर्थि छइ । तमपि तेउ अतीतु सावद्यु पटिकमउं प्रतिक्रमणउं निवृत्तौवउं निंदामि आपणी साखि गविहामि गुरु नी सासि । समस्तु कार्युं करी गुरु आगइ कहियउं । इसा अर्थ तणइ कारणि बीजी वार भंते पदु भणियइ । 'अप्पाणं चोसिरामि' अतीत सावद्यकारु आपणयउं 'चोसिरामि' व्युत्सृजउं । किसउ अर्थु ? चोसिरउं मेल्हउं इति सामाइक दंडक तणउ अर्थु संपूर्णु लिखिउं ।

15 § 350) अथ पटिकमण तणउं फलु अगमानुवादि करी कहियइ ।

'पटिकमणेणं भंते ! जीवे किं जणइ ?'

'गोयमा ! पटिकमणेणं जीवे वयच्छिद्दाइं पेहेइ । पिहियवयच्छिद्दे पुण जीवे निरुद्धासवे असवलचरित्ते अट्टसु पयगणमायासु उचउत्ते सुप्पणिहिए विहरइ' ।

इति उत्तराध्ययनसिद्धांत नृतीयाध्ययन माहि वदिउं । मुगसु एउ आलापकु । परं निरुद्धासवे 20 आश्रयप्राणातिपातादिक पांच ति निरुंधइ जीवु तिणि वारणि निरुद्धासवु । एकारु प्राकृतत्वइतउ । 'असवलचरित्ते' निर्मलसजमे इहां' एकारु पूर्ववत् । सु पटिकमणउं सबलतीचारविसुद्धिकरणभावि करी विशिष्टु श्रेयःकार्यु ।

§ 351) तिणि कारणि मगलादिकहं भणिया वारणि प्रथमगाथा प्रतिक्रमणकारु भणइ-

वंदित्तु मव्वसिद्धे धम्मापरिए सबसाहू य ।

25 इच्छामि पटिकमिउं सारगधम्माइयारम्म ॥

[३७६]

'वंदित्तु' वादी करी नमस्करी करी । पउण ? 'सव्वसिद्धे' इति मयुं ममस्तु वस्तु जि जाणइ ति सर्वंम तीर्यंपर । अथवा जि सर्वहीं जीनइ रहइ हित ति सार्वं सर्वंम तीर्यंकर भावाहंत वदियइ । मीमंडं सर्व- 30 कर्मक्षयकरणइतउ कृतकृत्य निघ्नितार्थ हुयइ इणि वारणि सिद्ध मोक्षगत जीय । पाठइ सार्वं अनइ सिद्ध सर्वसिद्ध ति वादी करी । 'धम्मापरिए य' धम्माचार्ये धर्मदायक गुरुवर वदियइ । चवारइतउ उपाध्याय द्वादशगणशकनादायक । तथा 'सव्व माहू र' ममस्तु माधु अडाइं द्वीप समुद्र माहि जि पे शानदर्शन- चारित्रलक्षणु मोक्षमार्गुं सम्यक् साधइं ति सर्वेसाधु वादी करी विप्र विनायक उपद्रमात्रिया वारणि ।

§ 352) इसी परि पचरत्तेहि जमस्साम करी प्रतिक्रमणकारु 'इच्छामी' ति भणइ । 'इच्छामि' इच्छउं घालउं किसउं करिया ? 'पटिकमिउं' पटिकमिना निवर्त्तिवा । किमा हूवउ ? 'मावयधम्मा- 35 इयारस्स' । पष्ठी विभक्ति पचमी विभक्ति तणइ अर्थि छइ तिणि वारणि श्रावकधम्मुं द्वादशगत यथा-

स्थूलप्राणातिपातविरति १, स्थूलसूष्यावादविरति २, स्थूलअदत्तादानविरति ३, स्वदारसंतोष अथवा परदार परिहाररूप ४, परिग्रहपरिमाणकरण ५, पांच अणुव्रत । दिक्परिमाणकरण ६, कर्मइतउ अंगारा-जीवनादिक पनरहं कर्मादान यथाशक्ति परिहाररूप भोगइतउ अभक्ष्य पंचुंबरि चउ विगई इत्यादि परिहाररूप द्विविध भोगोपभोगमानरूप ७, अनर्थदंडव्रत परिहाररूप, त्रिन्दि गुणव्रत ८, सामाइक ९, देशवकाशिक १०, पौषध ११, अतिथि संविभागरूप चत्तारि शिक्षाव्रत १२, इत्येवरूपु थावकधर्मु १३, तेह नइ विपइ हूयउ छइ । अतीचारु सु सावगधम्माइयारु कहियइ । तेह हूंतउ निवर्तिचा वांछउं । इसी परि क्रियासंबंधु करिवउ ति पुणि अतीचार चउवीसउं सउ छइं । पुणि ईहां एकवचनु जातिविवक्षा करी दीधउं । इति प्रथमगाथार्थः ।

§ 353) अथ पहिलउं सामान्यहिं सर्वव्रतातिचार प्रतिरुमणनिमित्तु भणइ-

जो मे वयाइयारो नाणे तह दंसणे चरित्ते य ।

सुहमो य बायरो वा तं निंदे तं च गरिहामि ॥

[३७७]

सामान्यहिं मे मू रहइं जु व्रतातिचार, व्रत कहियइं स्थूलप्राणातिपातविरत्यादिक द्वादश संख्य तीह नइ विपइ जु अतीचार वधबंधादिकु प्रत्येकु प्रत्येकु^१ व्रत व्रत प्रति पंचसंख्यु तथा भोगोपभोगव्रतु द्विविधु । एकु भोगइतउ एकु कर्मइतउ । तत्र जु भोगइतउ तेह ना अतीचार पांच व्रतहं माहि कहीसिइं । जु कर्मइतउ तेह ना अतीचार पनरह अंगारकर्मा जीवनादिक । तउ पाछइ व्रतहं विपइ ऊपनउ १५ छइ^२ एवमादिकु अतीचारु सु व्रतातिचारु कहियइ । तथा 'नाणे' ज्ञानविपइ, 'दंसणे' सम्यक्त्वविपइ 'चरित्ते य' देसविरतिविपइ आगइ सूत्र माहि विशेषि करी के एकि अतीचार कहीसिइं के एकि व्यक्ति करी जि न जाणियइं^३ ति ईहा प्रस्तावइतउ प्रकट कहियइं-

काले १ विणए २ बहुमाणे ३ उवहाणे ४ तह अनिण्हवणे ५ ।

वंजण ६ अत्थ ७ तदुभए ८ अट्टविहो नाणमायारो ॥

[३७८] 20

कालकमेण पचं संवच्छरमाइणा उ जं जंमि ।

तं तंमि चेव धीरो वाइज्जा सो य कालोऽयं ॥

[३७९]

जु थुतु जिणि संवत्सरादिकि कालि पढिया निमित्तु अहंतहं कहिउं छइ अणुजाणिउं छइ सु थुतु तिणिही जि कालि धीरु पंडितु हूंतउ 'वाइज्जा' वाचिजिउ पढिजिउ ।

§ 354) सु पुणि पाठविपइ कालु इउ । यथा-

तिवरिसपरियागस्स उ आयारपकप्पेनाममज्झयणं ।

चउवरिसस्स य सम्मं स्यगडं नाम अंगंमि ॥

[३८०]

दसा-कप्प-व्ववहारा संवच्छर-पणगस्स दिक्खियस्सेव ।

ठाणं समयाओ वि य अंगे ते अट्टवासस्स ॥

[३८१]

दसवासस्स विवाहा इकारसवासपस्स य इमे उ ।

सुद्धियविमाणमाई अज्जयणा पंच नायव्वा ॥

[३८२]

§ 353) 1 Bh. omits. 2 B. omits. 3 B. drops words between आगइ...जाणियइं ।

§ 355) 1 Bh -समु ।

वारसवासस्स तद्वा अरुणुववायाहं पंच अज्झयणा ।

तेरसवासस्स तद्वा उट्टाणसुपाईया चउरो ॥

[३८३]

चउदसवासस्स तद्वा आसीविसभावणं जिणा विति ।

पन्नरसवासगस्स य दिट्ठीविसभावणं तद्वा य ॥

[३८४]

सोलसवासाई सु य इकुचरवट्ठिएसु जहसंसं ।

चारणभावणमह सुविणभावणा तेयगनिसग्गा ॥

[३८५]

एग्गूणवीसगस्स य दिट्ठीवाओ दुवालसममंगं ।

संपुन्नवीसवरिसो अणुवाई सब्वसुचस्स ॥

[३८६]

इति पंचवस्तुक सिद्धांतगाथानुसारि करि जाणिवउ ।

- 10 § 355) यथा दीक्षामहणि क्रीषइ व्रीजइ वरसि पहिलउं आचारप्रकल्पु आचारांगु पडियइ । चउथइ वरसि सूयाहु व्रीजउ आंगु पडिवउं । 'दसा-कप्प-उज्वहारा' इति दशाश्रुतस्कंध पल्प व्यवहार ए त्रिभि सिद्धांत पांचमइ वरसि पडियइ । ठाणांगु समवायांगु ए वि अंग आठमइ वरसि पडियइ । दसमइ वरसि विजाहा विवाहप्रकृति नामु पांचमउं आंगु पडियइ । पांचमइ आंगि पडिइ आगिलां छइ आंग ज्ञाताधर्मकथा १, उपासकदशा २, अंतगढदशा ३, अनुत्तरोपपातिकदशा ४, प्रभञ्ज्याकरण ५, 10 विषाकथुतनामक यथारुचि पडिया लामइ । इगारमइ वरसि सुडिया विमाणपन्नत्ती, महत्तिया विमाणपन्नत्ती अंगचूलिया घग्गचूलिया विवाहचूलिया ए पांच सिद्धांत पडियइ । धारहमइ वरसि अरुणोपपात धरणोपपात वेल्धरोपपात वेसमणोपपात देवेत्तरोपपात नाम पांच सिद्धांत पडियइ । तेरहमइ वरसि उट्टाणसुयं ससुट्टाणसुयं नागपारियावलिया निरयावलिया नाम चत्तारि सिद्धांत पडियइ । चउदमइ वरसि आसीवित भावणा । पनरमइ वरसि दिट्ठीविस भावणा पडियइ । सोलमइ वरसि पारण भावणा । सत्तरमइ वरसि 20 सुविण भावणा । अटारमइ वरसि तेयगनिसग्गा पडियइ । एग्गूणीसमइ वरसि दिट्ठीवाओ दट्टियादाभिधानु द्वादशमु अंगु । वीसमइ वरसि नर्वस्तुव रइहं अणुवाई पाठकु हुयइ ।

- § 356) दट्टियाहु चऊद पूर्व, तीहं नां नाम, यथा-उत्ताहु पूर्व १, अमायणीउ पूर्व २, वीर्यप्रवाहु पूर्व ३, अत्तिनात्तिप्रवाहु पूर्व ४, ज्ञानप्रवाहु पूर्व ५, मलप्रवाहु पूर्व ६, आत्मप्रवाहु पूर्व ७, कम्मप्रवाहु पूर्व ८, प्रत्याख्यानप्रवाहु पूर्व ९, विद्याप्रवाहु पूर्व १०, षट्स्याणनामपेउ पूर्व ११, प्राण- 25 वायु पूर्व १२, क्रियाविज्ञाहु पूर्व १३, लोपदिदुमारु पूर्व १४, इति ।

§ 357) प्रत्यावहतउ पूर्वदं तयउं प्रमाणु पुनि लिगियइ ।

उप्पाए पय कोडी १ अगोणीयंमि छमऊ लक्क्या २ ।

वीरियम्मि सपरि लक्क्या ३ मट्ठि लक्क्या अत्तियनत्तियमि ४ ॥

[३८७]

एगापउणा कोडी नाणपवायंमि होइ पुण्यंमि ५ ।

एगा पयाण कोडी छय मया मधरायंमि ६ ॥

[३८८]

छन्वीसं कोडीओ आपपवायंमि होइ पयमंगा ७ ।

कम्मपवाए कोडी असीइ लक्खेहि अन्मदिया ८ ॥

[३८९]

चुलसीइ मयमहस्सा पयक्खणांमि वन्धिया पुच्चे ९ ।

इका पयाण कोडी दम महस महिया य विजाए १० ॥

[३९०]

छन्वीसं कोडीओ पयाण पुन्वे कल्लणनामंमि^१ ११ ।

पाणावाए कोडी छप्पनलक्खेहिं संखाया १२ ॥

[३९१]

नव कोडीओ संखा किरियविसालंमि वन्निया गुरुणा १३ ।

अद्दत्तेरस लक्खा पयसंखा विंदुसारंमि १४ ॥

[३९२]

चतुर्दशपूर्वपदप्रमाणु आगमनाथा करी भणिउं, परं आन्नाय तणा विच्छेदइत्तउ पदस्वरूपु सम्यग्ग^२ जाणियइं नहीं ।

§358) अथ प्रस्तावइत्तउ जेह सिद्धांत माहि जु अर्थु भणिउ छइ सु अर्थु सामान्यहिं सिद्धांतगाथां करी लिखियइ--

आयार विणय गोयर सिकखा भासाण चरणकरणं ।

निदिद्धा विचीओ पढमंमि मुणीण अंगंमि ॥

[३९३] 10

पहिलइ अंगि आचारनामकि मुणीण मुनिसंबंधिनी आचार विनय गोचर शिक्षा भाषा चरणकरण पतलं सवहीं तणी वृत्ति व्यापार कही छइं ।

सुइज्जइ स्यगडे जीवाजीवाइ लोगचरणाई ।

ससमय-परसमयाई संखिज्जाओ निजुत्तीओ ॥

[३९४]

ठाणेणं ठाविज्जइ ससमय परसमय लोगजीवाई ।

15

कूडा^१ कुंडा सेला वक्खारा आगरा सरिया ॥

[३९५]

समवाएणं जीवाजीवा लोगा य पन्नविज्जंति ।

तह सुयखंधुदेसग कालज्झयणाइ चरणाई ॥

[३९६]

वायरणसहस्साइं छत्तीसं हुंति पंचम सुयंगे ।

संखिज्जा संगहणक्खराई तह चरणकरणं ॥

[३९७] 20

नायाधम्मकहाए नगलज्जाणाइ चेइयवणाई ।

राया अम्मापियरो समोसरणं धम्मआयरिओ ॥

[३९८]

धम्मकहोमयलोगाड्ढि वन्नणं भोगचाय^२ पघज्जा ।

सुयगहणं तवकरणं संलेहानिपमगहणं च ॥

[३९९]

पायवोवगमणं^३ सुकुलुप्पाओ सुवोहिय बलत्तं ।

25

वीसपयाणमिमाणं दसधम्मकहाण वग्ग ति ॥

[४००]

दसवग्ग निबद्धाए तत्थिकिकाइ धम्मसुकहाए ।

पंचसयाई अक्खाइयाणमिह हुंति नियमेणं ॥

[४०१]

इकिकाए अक्खाइयाइ बहुधम्मकह निबद्धाए ।

पंचसयाई अक्खाइयाण भणियाई पत्तेयं ॥

[४०२] 30

उभयाणं पि तहच्चिय इकिकाए उ पंच उ सयाणि ।

हवइ य कहाण कोडी सयं च कोडीण पणवीसं ॥

[४०३]

§357) 1 B. Bh. कलाण- 1 §358) 1 B. Bh. वृंदा । 2 B. Bh. लोग- 3 B Bh.

सीलगुणञ्चय पडिमोवसग्ग पोसह समंतकिरियाणं ।

विविहट्टाणाइ तद्दा नायव्वमुवासगदसाए ॥ [४०४]

नगरुज्जाणवणाई पाओगमणाई अंतकिरियाओ ।

अंतगडाणं वोही पन्नप्पइ अट्टमंगंमि ॥ [४०५]

पंचुत्तरवासीणं चवणुप्पत्ति सुघम्मव्ह वोही ।

अंतकिरियाउ कुसलं नवमंगे देसियं सव्वं ॥ [४०६]

अट्टत्तरपसणासयं नागसुवन्नाण वइयरं चेव ।

पन्हावागरणंगे दिहं विज्जाण माहप्पं ॥ [४०७]

दुविहं च विवागसुयं दुकरसुकरेहिं कम्मभेएहिं ।

नायकहादिट्टाणं पयाण बहुविह वियप्पेहिं ॥ [४०८]

§ 359) कालभणनप्रसंगि सर्वसिद्धांत नामविचारदिकु सक्षेपिहिं कहिं । एउ पूर्वोक्तु आगमपाठ विपइ कालु तिणि कालि पढइ तउ धुत आचारु अनेरइ कालि पढइ तउ अतीचारु अथवा कालवेला गर्जित वीजस्मिणादि रहितु जु कालु सु स्वाध्यायकालु । तत्र कालवेला मि दीहसमइ वि रात्रिसमइ हुयइ । पूर्वाह्नि आठमी घडी घडी कालवेला । अपराधिं पुणि आठमी घडी घडी कालवेला । ऋतुवद्धि कालि गर्जिति हुयइ हुंतइ वि पहर सव्साउ न कीजइ । वीजोलासि एकु पहर सव्साउ न कीजइ । तिणि कारणि कालवेलादि रहितु स्वाध्यायकालु तिणि कालि स्वाध्याय करइ धुताचारु, अन्यथा अतीचारु ? ।

§ 360) अत्र कथा । नगरि एकि महत्तपि एकु रात्रिसमइ रमसानप्रदेजि^१ स्वाध्यायपर^२ घसइ । तउ रात्रि पूर्वार्द्धे तणी आठमी घडी कालवेलासमइ स्वाध्यायु करतउ देली श्रीशासनदेवतां महीयाती नइ रूपि आवी करी प्रतिबोधित,^३ अकाल स्वाध्याय हुंतउ निरारित ? ।

§ 361) विनउ द्वादशवर्षं यंदनकादिकु, गुरु चन्दा नीचासनसेयनादिकु कीजइ तउ धुताचारु । अनेरइ प्रकारि अतीचारु २ । अत्र—

सीहासणे निमन्नं सोरागं सेणीओ नरवरिंदो ।

विजं मग्गइ पयओ इय माहुजणम्म सुयविणओ ॥ [४०९]

इमी परि श्रेणिकु जिम गुरुविनउ करइ तउ धुतविपइ विनयाचारु । अनेरइ प्रकारि अतीचारु २ ।

§ 362-3) बहुमानु मन तणउ अनुरागु गुरु नइ विपइ, सु बहुमानु विद्यामफरीभावराणु जिमउ श्रीगौतमव्यामि रइइ भगवत श्रीमहावीरविपइ हुंतउ विमउ करिवउ । तथा च भणितं—

भद्रे विणीय विणओ पदमगणहरो ममत्य सुयनाणी ।

जाणंतो वि तमत्थं विन्दिहयहियओ मुणइ मय्यं ॥ [४१०]

गरूपाणं बहुमाणो सु चिय जो माणमो पमाउ च्चि ।

बहिपडिवत्तीओ पुज मापानीणं पि दीसंति ॥ [४११]

इसी परि बहुमानु गुरुविपइ करइ तउ बहुमानाचारु, अनेरइ प्रकारि अतीचारु ३ ।

§ 364) उपधानु जेह सिद्धांत नउ जिमउ तपु उउ विमउ तपु बणी सिद्धांतु वाचियइ । तउ सिद्धांत नउ उपधानाचारु । अनेरइ प्रकारि अतीचारु ४ ।

§ 365) तथा निन्दवु गुरु तणउं अवलवणु¹ । तेह तणउ अभावु अनिन्दवणु । एकू अक्षरु जेह गुरु कन्हइ सिखिउं हुयइ तेऊं गुरु लोपियउं नहीं । जु गुरु निन्दवु करइ सु इहलोकिहिं लाघयु लहइ । यथा-

विजाए कासवसंतीयाए² दगमूयरो सिरिं पत्तो ।

पडिओ मुसं वयंतो सुयनिन्दवणाइय अपेच्छा ॥

[४१२] 5

काश्यपु³ नावी । तेह रहइं किणिहिं विद्याधरि⁴ तूठइ हूंतइ विद्या दीधी । तेह नइ प्रभावि तेह⁵ नी भांडी आकाशि थिकी तेह सरिसी⁶ चालइ । अनेरइ दिवसि⁷ दगसूकर भणियइ ब्राह्मणु तिणि दीठी । तउ तिणि ब्राह्मणि तेह नी सेवां कीधी । विद्या⁸ तेह कन्हा ब्राह्मणि लीधी । विद्याप्रभावि तेह नी धोयती⁹ आकाशि¹⁰ थिकी तेह सरिसी¹¹ चालइ । तउ लोकु¹² आश्रयुं देखी करी घणेरउं तेह ब्राह्मण रहइं भक्तिपूजासत्कारबहुमानु करिया लागउ । इसी परि ब्राह्मणु काश्यप नी विद्या करी श्रीप्राप्तु हूयउ । 10 अनेरइ दिवसि अनेरइ किणिहिं पूछिउ सु ब्राह्मणु, 'भगवन् ! महांतु तुम्हारउ प्रभावु । सु तप तणउ प्रभावु, किं वा विद्या तणउ प्रभावु¹³ ?' ब्राह्मणु भणइ, 'विद्या तणउ प्रभावु एउ ।' 'ए विद्या किहां हूंती लाधी ?' विप्रु भणइ, 'हिमवंत गिरि वत्तमानि गरूयइं¹⁴ गुरि तूसी करी आपी' । इसा¹⁵ कथनसमकालिहिं¹⁶ जि आकाशि¹⁷ हूंती धोती¹⁸ भूमि पडी । पाछइ सु ब्राह्मणु लघुताप्राप्तु हूयउ¹⁹ । इसी परि जु गुरु-निन्दवु करइ सु श्रुतविराधकु अनेरइ प्रकारि श्रुताराधकु । जु गुरु तणउ अनिन्दवु सु श्रुतविपइ अनि-15 न्दवाचारु । अनेरइ प्रकारि निन्दवातिचारु²⁰ ५ ।

§ 366) 'वंजण' व्यंजन अक्षर विंदु मात्रा लघु गुरु भेदशुद्ध जउ ऊचरइ तउ श्रुतविपइ व्यंजनाचारु । अनेरइ प्रकारि अतिचारु ६ ।

§ 367) अर्थु अक्षरालावसंबंधिउं अभिवेयरुपु गुरुवादमूलि जिसउ सम्यक् सांभलिउ हुयइ तिसउ जउ चीतवइ तउ श्रुतविपइ अर्थाचारु, अनेरइ प्रकारि अतीचारु ७ । 20

§ 368) 'तदुभए' इति । व्यंजनधर्षलक्षणु तदुभउ तेह नइ विपइ समकालु यथोक्तविधि विपइ जउ वरैइ तउ श्रुतविपइ तदुभयाचारु, अनेरइ प्रकारि अतीचारु ८ ।

§ 369) एउ अष्टविधु ज्ञान नउ आचारु विपरीतु अतीचारु जाणियउ । एउ ज्ञानाचारु अनइ ज्ञानातिचारु जदपिहिं मुख्यवृत्ति करी साधुजन उद्दिशी कहिउ छइ तथापिहिं श्रावकजन उद्दिशी पुणि जिम संभवइ तिम जाणियउ । यथा कालवेलादिनि अस्वाध्यायकालि उपदेशमाला संप्रदणी कर्ममंथ क्षेत्र-25 समासादिक सिद्धांतार्थ संस्वयक्रफरण¹ पूर्वश्रुतधरिवरिचित न पढइं जउ तउ श्रावकु श्रुतविपइ कालाचारु-रवंतु, अनेरइ प्रकारि अतिचारवंतु । इसी परि कालविपइ आचारातीचार श्रायकही रहइं संभवइ । तथा विनय तणइ अभावि विनइ विपइ बहुमान तणइ अभावि बहुमानविपइ । पंचपरमेष्ठिनमस्कार श्रुतस्कंध । ईर्योपथिकी श्रुतस्कंध । भावाहंतस्वय श्रुतस्कंध । स्थापनाहंतस्वय श्रुतस्कंध । नामाहंतस्वय श्रुतस्कंध ।

§ 365) 1 L. अवलंबयु । 2 Bh. L. सीखिउ । P. सीखिउ । 3 Bh. L. P. तेउ । 4 L. कादव-
Bh. -सतीयाए । 5 P. दोइ एक । 6 B. P. L. विद्याधरी । 7 L. तिह । P. तेह । 8 Bh. सरसी ।
L. सरिसी । 9 B. L. P. दिवसी । 10 L. दया । 11 P. धोवती । 12 B. आकासी । 13 P. सरिसी ।
14 The mss. add आणे ब्राह्मण रहइं भक्ति करतउ तउ... which seems to be a corruption in
the text. 15 P. adds एह विद्या किहां हूंती लाधी ! विप्रु भणइ । 16 Bh. P. गरुयइ । L. गुरइ ।
17 P. इती । 18 L. समकाल हिं । 19 B. L. आकासी । P. आकाश । 20 Bh. L. पोथी ।
21 Bh. हूउ । 22 P. निन्दवाचारु । § 367) 1 Bh. -लावण- § 369) 1 Bh. संभवक ।

श्रुतस्तत्र श्रुतस्कंध । सिद्धस्तत्र श्रुतस्कंध । समाराधना निमित्तु तपश्चरणकरणशक्तिसंभवि हंतइ यथोक्त
तपश्चरण अकरणि उपधानविपइ । व्यंजन अर्थ तदुभयविपइ जिम साधु रहइं श्रावकहिं रहइं तिमहिं
जि संभरइं ।

§370) अथ दर्शनातिचारविचारु लिरियइ । इहां दर्शनु सम्यक्खु कहियइ । सु पुणि देवविपइ
५ देवबुद्धि गुरुविपइ गुरुबुद्धि धर्मविपइ धर्मबुद्धि लक्षणु कहियइ । तथा च भगिनं-

या देवे देवताबुद्धिं गुरौ च गुरुतामतिः ।
धर्मे च धर्मधीः शुद्धा सम्यक्त्वमिदमुच्यते ॥ [४१३]

देउ सु जु अष्टादशदोपरहितु ।

§371) ति पुणि अष्टादश दोप ए कहियइं । यथा दानांतरायु दोपु १, ज्ञानांतरायु दोपु २,
१० वीर्यांतरायु दोपु ३, भोगांतरायु दोपु ४, उपभोगांतरायु दोपु ५, हास्यदोपु ६, रतिदोपु ७, अरतिदोपु
८, भयदोपु ९, जुगुप्सादोपु १०, शोकदोपु ११, कामदोपु १२, मिथ्यात्वदोपु १३, अज्ञानदोपु १४,
निद्रादोपु १५, अविरतिदोपु १६, रागदोपु १७, द्वेषु दोपु १८, तथा च भगिनं-

अन्तराया दान-लाभ-वीर्य-भोगोपभोगगाः ।
हासो रत्यरती भीतिर्जुगुप्सा शोक एव च ॥ [४१४]

१५ कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा ।
रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥ [४१५]

तथा च प्रकारांतरि पुणि अष्टादश दोपु संभलियइं । रागु १, द्वेषु २, प्रमादु ३, अरति ४,
रति ५, भय ६, शोकु ७, जन्मु ८, चिंता ९, जुगुप्सा १०, मिथ्यात्वु ११, अज्ञानु १२, हास्यु
१३, अविरति १४, मदनु १५, निद्रा १६, विपादु १७, अंतरायु १८ । तथा चोक्तं-

२० रागद्वेषप्रमादारतिरतिभयशुरूजन्मचिंताजुगुप्सा
मिथ्यात्वाज्ञानहास्याविरतिमदननिद्राविपादान्तरायाः ।
संस्कारार्चमार्चन्यप्रतिरूज्जनका देहिनां यस्य मने
दोषा अष्टादशाऽऽप्तः स इह तदुदिते काऽस्ति शंकायकाशः ? ॥ [४१६]

इति श्रीजिनप्रहभसूरिविरचित आप्तपरीक्षा प्रस्तापि' अष्टादशदोप विवरणा ।

२५ §372) तथा चउत्रीम अतिशय सहितु जु सु देउ ति पुणि चउत्रीम अतिशयमनन हंतं चउत्रीम
अतिशय जाणिया । तथा-

धोमामि जिणररिंदे अन्धुयमण्हिं अहसयगुणेहिं ।
ते तिविहा साहाविय कम्मकरयया मुरकया य ॥ [४१७]

३० 'धोसाभि' यविमु, कउय ? 'जिणवरिंदे' । जिन उपशंत मोहादिक तीहं माहि पर ममान्य वेयल-
ज्ञानिया । तीहं माहि' तीर्थकरनाम कम्मोदयमइतउ इंद्र जिनररेंद्र भापादंत ति मथिमु इमउ
क्रियासंबंधुं करिषउ । निस्सी परि म्त्रिमु । 'अहमयगुणेहिं' । अनिश्य ति कदियइं जि त्रेलोक्य माहि

अनेरा कही रहइं हुयइ नहीं। तेई जि गुण संश्रयणीयता करी धरणीयता करी आचैय^१ अतिशयगुण जिणि कारणि अनेरा रहइं न हुयइं। तिणि कारणि 'अब्भुयभूय' किसउ अर्थु ? आश्चर्यभूत चित्रता प्राप्त तीहं करी। ति पुणि अतिशय तिविहा, त्रिहुं भेदे, तेई जि त्रिन्हि भेद कहियइं। साहावियेति। एकि स्वाभाविक जि सहजि स्वाभावि हुयइं ति स्वाभाविक। कम्मकरयया इति कम्म ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय नाम चत्तारि पातिकर्म तीहं नउ शउ अपुनभंवता करी विनासु तेह हंता जि हुयइं^२ ति कर्मक्षयज कहियइं। सुरकया येति, सुर देव तेहे छुत सुरकव कहियइं। तत्र जि स्वाभाविक ति चत्तारि, जि कर्मक्षयज ति इगार, जि देवकृत ति इगुणवीस। सबइ मिलिया चउतीस।

§ 373) ति चउतीसइ जहकामि करी कहइ—

देहं विमलसुगंधं आमयपासेहिं वज्जियं अरयं ।

रुहिरं गोखीराभं निविसं पंडुरं मंसं ॥

[४१८] 10

आहारा नीहारा अदिस्सा मंसचक्खुणो सययं ।

नीसासो य सुयंधो जम्मप्पभिई गुणा एए ॥

[४१९]

देहं विमलसुगंधं इति। तीर्थकर तणउ देहु विमलु कनक जिम मलरहितु। किसउ अर्थु ? खेंद दुगंध रहितु सुरभि कमल जिम सुरभि सुगंधु हुयइ। तथा 'आमयपासेहिं वज्जियं'—आमय रोग, तेई भणित पाशा बंधनरज्जु वेढ तेहे करी वर्जितु रहितु। तथा अरयं जिम आरीसइ रज्जु न लागइं तिम 15 तिणि रज्जु न लागइं तिणि कारणि अरज्जु एवं गुणविशिष्टु देहु एकु स्वाभाविकु अतिसउ। १। रुधिर रक्तु अनइ आमिषु मांसु पडुरं गोखीराभं ति^३ गाइ ना दूध सरीरउ। अनइ निविसु पवित्तु, किसउ अर्थु ? पृति दुगंध रहितु। एउ बीजउ स्वाभाविकु अतिसउ। २। आहारा नीहारा अदिस्सा मंसचक्खुणो इति मंसचक्खु छद्मस्य जीवु कहियइ जु^४ आरि करी देरइ ज्ञानदृष्टि करी न देरइ सु मंसचक्खु कहियइ। तेह रहइं तीर्थकर तणा आहारनीहारपानभोजनविधि लघुवृहत्रीतिविधि अदिस्सा हुंति टट्टिगोचर 20 न हुयइं। एउ त्रीजउ स्वाभाविकु अतिशउ। ३। नीसासो य सुयंधो इति। नीसासु मुखयातु सुगंधु सुगंध कमलगंधबंधुरु। एउ चउउउ स्वाभाविकु अतिशउ। ४। ए चत्तारि^५ अतिशय गुण जम्मप्रभृति जन्म लगी हुयइं।

§ 374) अथ एकादश कर्मक्षयज कहियइ^१।

प्रित्ते जोयणमित्ते जं जिय कोडीसहस्स सो माणं ।

25

सब्बसभासाणुगयवपणं धम्मावरोहयरं ॥

[४२०]

जोयण मात्र क्षेत्र माहि जु देव मनुष्य तियंच जीव कोटि सहस्र तणउं मानु समाइवउ हुयइ सु कर्मक्षयज अतिशय माहि पहिलउ अतिसउ। १। जु वचनु सब्बसभासाणुगयं—सर्व देव मानव तियंच कहियइं तीहं नी भाषा सकृत प्राष्टत अपभ्रंसादिक तीहं रहइं अनुगतु सरीरउं। तथा धर्मावरोधकरु—धर्मतत्त्वज्ञापउ। तथा च भणित—

30

वासोदगस्स व जहा वन्नाइं हुंति भायणविसेसा ।

सव्वेसिं पि सभासा जिणभासा परिणमइ एवं ॥

[४२१]

इसउं वचनु बीजउ अतिसउ। २।

§ 372) 2 Bh drops words between ता अपेयः § 373) 1 Bh omits 2 Bh. omits, 3 Bh omits, 4 Bb. चत्तारि § 374) 1 Bh. वदर ।

पुञ्जुप्पन्ना रोगा पसमंति य ईह-वेर-मारीओ ।

अइवुट्ठि अणावुट्ठी न होइ दुब्बिमक्ख-डमरं वा ॥

[४२२]

जिणि देसि तीर्थंकर विहरइं तिणि देसि पंचवीसासयज्जोयण माहि पूर्वोत्पन्न रोग उपसमइं निवत्तैइं । एउ त्रीजव अतिसउ । ३ । ईति मूयकशलभादिकं तीहं नी निवृत्ति चउयउ अतिसउ । ४ । ५ धैरनिवृत्ति पांचमउ अतिसउ । ५ । भारिनिवृत्ति छट्टउ अतिसउ । ६ । अतिवृष्टि निवृत्ति सातमउ अतिसउ । ७ । अनावृष्टि निवृत्ति आठमउ अतिसउ । ८ । दुर्भिक्षनिवृत्ति नवमउ अतिसउ । ९ । डमर अशिव तीहं नी निवृत्ति दसमउ अतिसउ । १० ।

देहाणुमगलमं दीसइ भामंडलं दिणयरामं ।

एए कम्मक्खयया सुरभत्तिकया इमे चऽन्ने ॥

[४२३]

10 देहाणुमगलमं ति । देह पाछइ धर्त्तमानु दिनकरमंडलानुकारु भामंडलु देखियइ । एउ इग्यारमव अतिसउ ११ । एए कम्मक्खयया इति ए इगार अतिसय कर्मक्षयज कहियइं कर्मक्षय हुंता ह्यइं इत्यर्थः ।

§ 375) सुरकया इमे चऽन्ने इति । सुर देव तेहे भक्ति करी कृत इमे जि आगइ कहीसिइं ति इमे कहियइं, अन्ने अनेरा इगुणवीस संख्य । तथा हि—

चकं छत्तं रयणज्जओ य सेय वर चामरा पउमा ।

15 चउमुह पायार तियं सीहासणं दुंदुहि असोगो ॥

[४२४]

कंटय दिट्ठामिमुहा ठायंति अवट्ठिया य नहरोमा ।

पंचैव इंदियत्था मणोरमा हुंति छच रिऊ ॥

[४२५]

गंधोदयवासं वासं कुसुमाण पंचवन्नाण ।

सउणा पयाहिणगई पवणञ्जुकूलो नमंति दुमा ॥

[४२६]

20 भवणवइ वाणमंतर जोइसवासी विमाणवासी य ।

चिहंति समोसरणे जहन्नयं कोडिमिचं तु ॥

[४२७]

इंतेहि य जंतेहि य बोदिनिमिचं तु संसयत्थीहिं ।

अविरहियं देवेहिं जिणपामूलं सयाकालं ॥

[४२८]

चउरो जम्मप्पभिई इकारस केवले समुप्पन्ने ।

25 नवदस य देवजणिणं चउतीसं अइमए वंदे ॥

[४२९]

चउतीस जिणाइसया एए मे वधिया समासेणं ।

दित्तु मं जिणवसहा सुयनाणं घोहिलामं च ॥

[४३०]

§ 376) चकं धम्मंचकु आकाशगतु आगइ धिकउं सांचरतउं स्वर्णरत्नविनिर्मितु जिसउं मूर्त्तिमंतु क्षानु ह्यइइ इसउं देव करइं । एउ पहिलउ देवनिर्मितु अतिसउ १ । श्वेतु छत्र प्रव त्रैलोक्याधि-
30 पत्यसंचकु आकाशगतु मत्सकोपरि धर्त्तमानु स्वर्णरत्नदडु र्यूलामलकप्रमाण मुक्कानचूलु जिसउ मन्तश्चतु आश्विनी कार्तिकी वैशाखी पूर्णिमा चंद्रमंडलत्रउ ह्यइइ तिसउ देव करइं । एउ धीजउ अतिसउ २ । योजनसहस्रसमुच्छित्तु स्वर्णरत्नमयदंडु क्षुद्रपताकाशतसंकुटु मणिकिंकिणी क्षाण याचालित दिक्चक्रनालु पुरोभागगनगतु सह संचरिणु । महांतु श्रीकांतु रत्नध्वजु देव करइं । एउ त्रीजउ अतिसउ ३ । उमय-
पाधेइं श्वेत पर चामर स्वर्णरत्नदंड सह संगत आकाशगत डलतां देव करइं । एउ चउयउ अनिमउ ५ ।

प्रदक्षिणावर्त्त चालतां पाय अधोगत आकाश सांचरियां नव हेमकमल देव करइ । एउ पांचमउ अति-
सउ । ५ । एक मूल रूप पूर्वाभिमुखु वीजां त्रिन्दि रूप दक्षिणपश्चिमोत्तराभिमुख देव करइ इति चउमुहु
भागंतु समवसरण माहि वइसइ । एउ चउमुखतारूपु छट्टउ अतिसउ । ६ । प्राकारत्रिकु रूपसुवर्णरत्न
निर्मितु देव करइ । एउ सातमउ अतिसउ । ७ । स्वर्णमणिमय चत्तारि सीहासण देव करइ । एउ
आठमउ अतिसउ । ८ । स्वामिवाणी पुष्टिकारणि आकाशि देवदुंदुभि देव वायइ । एउ नवमउ
अतिसउ । ९ । साधिकयोजनविस्तारि छायामंडलु जिनतनुप्रमाण द्वादशगुण समुच स्वर्णरत्नविनिर्मितु
अशोकवृक्षु देव जिन ऊपरि करइ । एउ दसमउ अतिसउ । १० । मार्गि कंटक अधोमुख देव करइ ।
एउ इगारमउ अतिसउ । ११ । लोचकरणांतरु इंदु जिनमस्तकि अनइ कूर्चि वज्र फेरइ । नखे पुणि
यज्र फेरइ तिणि कारणि केशनख तणी वृद्धि न हुयइ अवस्थितइ जि हुयइ । एउ बारमउ अतिसउ । १२ ।
पांचइ इंद्रियार्थ शब्दरूपसंगंधस्पर्श लक्षण अनुकूलइ जि हुयइ, इंद्रियदुखदायक प्रतिकूल न हुयइ । 10
एउ तेरमउ अतिसउ । १३ । हेमंतशिशिरवसंतप्रीष्मवर्षाशरत् इसे नामे प्रसिद्ध छइ छ ऋतु ति छ इ रिनु
तीर्थकर रहइ इंद्रियानुकूल जिम हुयइ विम सुर करइ । एउ चउदमउ अतिसउ । १४ । समवसरण-
भूमितलि गंधोदकवृष्टि मेघकुमार देव करइ । एउ पनरमउ अतिसउ । १५ । सुरभिपारिजात पंचवर्ण-
कुसुम तीहं तणी अधोयुंत जानुमान वृष्टि समवसरणभूमितलि देव करइ । एउ सोलमउ अतिसउ । १६ ।
मार्गि शकुन प्रदक्षिणावर्त्त अनुकूल देव करइ । ए सतरमउ अतिसउ । १७ । पवतु वातु अनुकूल 15
वृष्टिसंमुखु त्राइ देवप्रयत्नवसइतउ । एउ अठारमउ अतिसउ । १८ । मार्गि जिनु विहरइ जेतीवार
सेतीवार हुम वृक्ष तीहं रहइ जिन प्रति आनति प्रणासु देव करावइ । एउ इगुणवीसमउ अतिसउ । १९ ।

§ 377) भवणयइ इति भवनपति व्यंतर ज्योतिष्क वैमानिकलक्षण चतुर्विध देव समवसरण माहि
जघन्यपदि जेतीवार अतिथोडा तेतीवारही कोटिमात्र हुयइ । इंतेहि य जंतेहि येति—शोधि सम्यक्त्तु तेह
निमित्तु तेह तणइ कारणि आवते^१ देवे अथवा संसयर्थीहि संशयार्थिभिः किसउ अर्थु^२ संशय एव अर्थु^३ 20
प्रयोजनु आगमनकारणु जीहं रहइ ति संसयार्थी कहियइ । ससय ऊतारिया कारणि आवते देवे जंतेहि य
कार्यि सरिइ हुंतइ जायते तिहां हुंता^४ आत्मस्थानक प्रति जायते^५ देवे करी जिनपादमूलु सदा अविरहिनु
जु हुयइ । चउरो जन्मपभई ति-चत्तारि अतिसय जन्म प्रभृति । एफादश अतिसय केयलज्ञानि ऊपनइ
हुयइ । एकोनविंशति अतिसय देवजनित । सव्वे मिलिया चउत्रीस अतिसय जिन तणा पांदउं स्तवउं ।
चउतीस जिणाइसया चउत्रीससंख्य जिणाइसया इति जिनसंबंधियां अतिसय महिमाप्रकार । एवं इसी परि 25
समासेणं संक्षेपिहिं मइं पन्निया मइं वर्णविद्या कहिया । तीहं चउत्रीस अतिसय तणइ भणनि करी
जिनवृषभ तीर्थनाथ भू ऊपरि संतुष्ट हुंता सुयनाणु आगमार्थपरिज्ञानु अनइ भवांतरिहिं बोधिलासु
सम्यक्त्वप्राप्ति दिउं इति चउत्रीस अतिसय स्तव विवरणं संपूर्णं ।

इहं चउत्रीस अतिसयसहित देवविपइ देवबुद्धि । तथा चोक्तं—

सर्वज्ञो जितरागादिदोषसैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥

[४३१]

ध्यातव्योऽयमुपास्योऽयमयं शरणमिष्यतां ।

असैव प्रतिपत्तव्यं शासनं चेतनाऽस्ति चेत् ॥

[४३२]

30

§ 378) इसी परि जिम शास्त्र माहि देवबुद्धिविधि मुक्ति भणी छइ तिम करेवी ।

ये स्त्रीशस्त्राक्षस्त्रादिरागाद्यंकरलंकिताः ।

निग्रहानुग्रहपरास्ते देवाः स्युर्न मुक्तये ॥

[४३३]

नाय्याद्द्रहाससंगीताद्युपप्लविसंस्थुलाः ।

लंभयेयुः पदं शांतं प्रपन्नान् प्राणिनः कथं ॥

[४३४]

स्त्री राग तणउं चिन्हु शस्त्र आयुधु द्वेष तणउं चिन्हु, अक्षसूत्रु जपमालिका मोह तणउं चिन्हु, जि देव बहइं ति देव रागादिकहं अंकहं कलंकहं दोषहं करी कलंकित दूषित तथा निग्रहानुग्रहपर प्रसादा-
5 प्रसादकर हुयइं । ति देव मुक्तिनिमित्तु न हुयइं । तथा नाय्यादिकहं सदोपपुरुषचेष्टितहं करी सहित जि देव हुयइं ति देव किसी परि सेवक प्राणिरगो रहइं गांतु पदु मुक्ति लभाडइं पमाडइं ? इसी परि प्रतिषेध-
10 मुखि जिम शास्त्रमध्यविभागि देवबुद्धि कही छइ तिम करेवी ।

§ 379) तथा प्राणातिपात मृषावाद अदत्तादान मैथुन परिग्रहादि दोषवर्जिते गुरु तेह नइ विषइ गुरुबुद्धि । अथवा देसकुलादि छत्रीस गुण सहितु जु हुयइ सु गुरु कहियइ । तथा च भणितं-

देस १ कुल २ जाइ ३ रूवी ४ संघयणी धिइजुओ ५ अणासंसी ६ ।

अविकत्थणो ७ अमाई ८ थिरपरिवाडी ९ गहियनको १० ॥ [४३५]

15 जियपरिसो ११ जियनिदो १२ मज्झत्यो १३ देस १४ कालभावबू १५ ।

आसन्नलद्वपइमो १६ नाणाविहदेसभासन्न १७ ॥ [४३६]

पंचविहे आयारे जुत्तो २२ सुच २३ त्य २४ तदुभयविधिबू २५ ।

आहरण २६ हेउ २७ कारण २८ नयनिउणो २९ गाहणाकुसलो ३० ॥ [४३७]

ससमयपरसमयविऊ ३१ गंमीरो ३२ दिज्जिमं ३३ सिओ ३४ सोमो ३५ ।

20 गुणसयकलिओ ३६ जुग्गो पवयणसारं परिकहेउं ॥ [४३८]

§ 380) आर्यदेशमध्य उपनव सुखावयोधवचनु हुयइ इति देशगुणु । १ । पितृवंशु कुलु

इश्वाकादिकु ज्ञातकुलु महाप्रतभारिहिं थाकइ नहीं इति कुलुगुणु । २ । मावृकी-जाति सुद्वजाति विनयंतु

हुयइ इति जातिगुणु । ३ । यत्राकृतिस्त्रव गुणा भवंति इति रूपगुणु । ४ । सहनन धृतिसहितु

व्याख्यानादिकहं करी थाकइ नहीं इति सहननधृतिगुणु । ५ । अणासंसी श्रोतृ लोक कन्हा यन्नादिदु

25 कांई वांछइ नहीं । ६ । अविकत्थणु हितमितवका । ७ । अमाई मायारहितु सर्वरी बोले विश्वासपाणु

हुयइ । ८ । थिरपरिवाडी सूत्रार्थं अविस्मरणस्वमाणु । ९ । प्राणवाक्यु अस्वंडितशासनु हुयइ । १० ।

जितपरिपत्तु राजादिकहीं नी सभा माहि क्षोभि न जाई । ११ । जितनिहु निद्राप्रमादवंतु शिष्य

मुखिहिं वृद्धवइ । १२ । मध्यस्थु सर्वशिष्यहं रहइं समचितु हुयइ । १३ । देशभावहु । १४ । काल-

भावहु । १५ । मुखिहिं देसादिकहं माहि विहरइ । १५ । आसन्नलद्वपइमो परयादि उत्तरदान समर्थु

30 हुयइ । १६ । नानाविह देशभासा जाणणहारु नानादेस जाति शिष्य मुखिहिं परीठवइ । १७ ।

तानावाचारपंचकवंतु श्रद्धेयवचनु हुयइ प्राणवचनु हुयइ इत्यर्थः । २२ । सूत्रार्थं तदुभयविधिहु

उत्सर्गोपवाद विस्तारु यथोक्तु जाणइ । २५ । हेतूदाहरण निमित्त नय प्रपंच चतुर अनाकुलु थिकउ

§ 378) 1 B Bh अकइं । § 379) 1 Bh -विबंजितु । 2 Bh भासवृ । 3 Bh विद्वृ ।

§ 380) 1 Bh. probably परीठवइ । 2 Bh जाणइ ।

हेत्वादिक परधादि सभा माहि धोलइ । २९ । गाहणाकुसलो अनेक युक्तिहिं करी परीठवइ । ३० । स्वमयपरसमयजु सुखिहि स्वसमयस्थापना परसमयनिराकरणा करी सकइ । ३१ । गभीरु अलब्धमध्यु । ३२ । दिग्गिमतु परहं पराभवी न सकियइ । ३३ । सिव रहइ करणु इणि कारणि सिधु । ३४ । तीहं महात्मा करी सहिति देसि मारी प्रभृतिक उपद्रव उपसमनभावइतउ । ३४ । सौम्यु सर्वजननयनमन प्रीणनकारकु । ३५ । गुण-शतकलितु^१ विनयादिगुणशतयुक्तु । ३६ । एवविधु सूरि प्रवचनसार कहिवा^२ ७ थोयु कुशल हुयइ । एवविध गुणयुक्त गुरु नइ विपइ गुरु बुद्धि ।

§ 381) तथा धर्मि श्रावकधर्मलक्षणि अथवा यतिधर्मलक्षणि धर्मबुद्धि । शुद्ध निःसशय सम्यक्त्वु कहियइ । तेह सम्यक्त्व तणउ आचारु अष्टप्रकारु कहियइ । यथा—

निसंक्रिय १ निकंस्विय २ निव्रित्तिगिच्छा ३ अमूढदिष्टी य ४ ।

उववूह ५ धिरीकरणे ६ वच्छल्ल ७ पभावणे अट्ट ८ ॥ [४३९] 10

पूर्णिहि जि सम्यक्त्वु कहिउं । तेह नइ विपइ निःशक्तिु सदेहरहितु जउ हुयइ तउ आचारु १ सदेहकरणि अतीचारु । १ । निकांशु किसउ अर्थु ? जिम जिनु देवता तिम ईश्वरादिकु पुणि देवता अथवा तिम जिन तणउ दर्शनु तिम अनेरउ बौद्धादिकह तणउ पुणि दर्शनु, किसउ देवदं रहइ अनइ धर्महं रहइं को भेदु छइ इसी बुद्धि न कीजइ किंतु जिनु जु एकु मुत्तिदायकु देवु जिनधर्मू जु एकु मुत्तिदायकु इसी बुद्धि निश्चल जउ^१ हुयइ तउ निःकाक्षताचारु २ अनेरइ प्रकारि अतीचारु । २ । निव्रित्तिगिच्छा 15 जिनधर्मफलविपइ सदेहु न कीजइं तउ निव्रित्तिगिच्छा आचारु ३ सदेहु कीजइ तउ अतीचारु । ३ । अथवा विचिकित्सा साधु^२ निंदा न कीजइ तउ आचारु ३ कीजइ तउ अतीचारु । ३ । अमूढदिष्टि जु मिथ्यादष्टि तणउ अतिसउ देखी करी एहू काई साचउं तत्तु छइ इसी बुद्धि न करइ सु अमूढदष्टि । यथा—

धिजाईण गिहीणं पासत्थाइण वा वि दट्टणं ।

जस्म न मुज्झइ दिट्ठि अमूढदिट्ठि तयं विति ॥ [४४०] 20

अत्र सुलसा श्राविका नउ दृष्टातु जाणिवउ । अमूढदष्टिभावु आचारु ४ मूढदष्टिभावु अती-
चारु । ४ । उपवृंहा प्रशसा जिणि समइ जि साधु श्रानक उक्कट्ट क्रियाकारर गीतार्थ हुयइं तीहं नी
अनुमोदना आचारु ५ अदगणना अतीचारु । ५ । धिरीकरणु अभिनय प्रतिबुद्धहं रहइ धर्मोपदेशाक्य-
दानादिकहं करी धर्म नइ विपइ धिरीकरणु दृढताकरणु सु धिरीव रणाचारु ६ न कीजइं तउ अतीचारु 25
६ । पाच्छल्यु शक्तिसमधि हूतइ अशनपानवस्त्रावृत्तद्रव्योपद्रंभ प्रदानादिकु सु करइ तउ^३ आचारु^३ । अत्र
भरत चरनक्ति दृष्टातु ७ । न करइं तउ अतीचारु । ७ । प्रभावना शक्ति अनुसारि श्रावकहिं करेवी जिम
समति राजेंद्रि कीथी । साधु पुणि प्रभावक आठे भेदे हुयइं यथा—

पावइणी १ धम्मइही २ वाई ३ नेमिचिओ ४ तनस्सी य ५ ।

विज्जा ६ सिद्धो ७ य वईं ८ अट्टेव पभावगा भणिया ॥ [४४१] 30

पावइणी सिद्धानार्थं प्रदाननिपुणु । १ । धम्मइही आशेषिणी विज्ञेविणी निर्देहजननी सवेगजननी
वि चतुर्निध कथायथनि करी भव्यरोधकारु । २ । राजसभा माहि प्रतियादिविजयकारु वादी । ३ ।
अष्टांगनिमित्तयत्ति अतीवानागतयत्तमानयस्तुत्तपकु नैमित्तितु । ४ । तयस्मी पट्टाष्टमादिकोत्तृष्टनपधरण-

§ 380) 3 Bh संज्ञेयन । 4 Bh गुणानुबुद्धु and then drops words till बुद्ध । § 381) 1 Bh omits 2 Bh त्रिदमुनि । 3 B omits 4 B वती ।

करण परायणु । ५ । विज्ञा विद्यावंतु । ६ । सिद्धु मिद्धमंत्रचेदकु । ७ । कवि कवित्वकला करी राजादि
समारंजकु । ८ । ए आठ प्रभावक भणिया । जिणसासणि इसी परि प्रभावणा करणु आचारु ८ । प्रभावणा
तणइ अकरणि अतीचारु । ८ । अतीचारु पुणि सगले शक्ति संभविहिं जि जाणिवउं । ए आठ दर्शनविपइ
अतीचार साधु जिम श्रावकहीं रहइं संभवइं ।

5 § 382) अथ चारित्रातिचार कहियइं—

पणिहाण जोगजुतो पंचहिं समिइंहिं तीहिं गुत्तीहिं ।

एस चरिचायारो अडुविहो होइ नायव्यो ॥

[४४२]

पांच समिति त्रिन्हिं गुप्ति यथा—

जुगमित्तंतरदिट्ठी पयं पयं चक्खुणा विसोहिंतो ।

10 अब्बक्खिखाउत्तो' इरियासमिओ मुणी होइ ॥

[४४३]

जुगु जूसरु तन्मात्रांतरदृष्टि किसउ अर्थु ? जेवढउं जूसरु हुयइ तेतली भुइं दृष्टि देखी करी 'पयं
पयं चक्खुणा विसोहिंतो' पगु पगु चक्खु करी विसोघतउ, किसउ अर्थु ? जिहां पगु मुंफिसिइ तिहां
मुइं सोघतउ दृष्टि करी त्रसथावरजीवरहित चीतवतउ । 'अब्बक्खिखु' अब्बाक्षिमु कार्यांतर करण रहितु
'आउत्तो' आयुक्तु सावधानचित्तु ईर्यासमितु मुनि हुयइ इति गाथार्थः । ए ईर्यासमिति ।

15 फजे भासइ भासं अणवज्जमकारणे न भासइ य ।

विकहविसुत्तियपरिवज्जिओ य जइ भासणासमिओ ॥

[४४४]

कार्यं ज्ञानदानादि प्रयोजनि रूपनइ भापा 'भासइ' बोलइ । सा ई भापा अनवच पापरहित
बोलइ । अकारणे 'न भासइ य' ज्ञानादिकारण पाखइ बोलइ नहीं । 'विकहविसुत्तियपरिवज्जिओ य'
विकथा राजकथा भक्तकथा स्त्रीकथा देशकथा लक्षण कहियइं । तथा विश्रोतसिका दुष्टानर्जस्वरूपा तीहं
20 विकथा विश्रोतसिका करी रहितु विपरिजितु 'विकहविसुत्तियपरिवज्जिओ' कहियइ । चकारइतउ अनेराइं
वचनदोपरहितु वचनगुणसहितु यति भापासमितु कहियइ । ए भापासमिति ।

बायालमेसणाए भोयणदोसे य पंच सोहेइ ।

सो एसणाइ समिओ आजीवी अन्नहा होइ ॥

[४४५]

सोल चद्रमदोप, सोल उत्पादना दोप, दस एणणा दोप, पांच भोजनदोप इसा जु वटतालीस

25 एणणादोप, पांच भोजनदोप, मोधइ परिहरइ सु साधु एणणासमितु हुयइ । अन्नहा अनेरइ प्रकारि
आजीवी आजीवकु हुयइ । संजमु तेह रहइं आजीवना हेतु हुयइ, मोक्षनिमित्तु न हुयइ । ए' एणणासमिति ।

पुर्विं चक्खु परिकिखय पमजिउं जो ठवेइ गिन्हइ य ।

आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिओ मुणि होइ ॥

[४४६]

जिणि प्रदेसि फाईं वस्तु मेत्तिहसिइं अथवा जेह प्रदेस हूंतउं फाईं भाजनादिक्खु यस्तु लेसिइ सु
30 प्रदेसु पूर्वहिं चक्खु करी परीखी देखी रजोहरणि करी पंजी तउ पाछइ ठवइ वस्तु मेत्तइ अथवा
लियइ जु सु आदानभांडमात्र निक्षेपणासमितु मुनि कहियइ । ए आदानभांडमात्र निक्षेपणासमिति ।

उच्चारपासवण खेल जल्लु सिंघाण य पाणचिही ।

सुविवेइए पएसे निसरंतो होइ तस्समिओ ॥

[४४७]

उच्चारं पुरीषु वडी नीति पासवणु मूत्रु लहुडी नीति । खेलु श्लेष्मा । जहु देह तणउ मलु । सिंघाणु नासिकामलु एतलउं उच्चारदिकु वस्तु । चकारइतउ असुद्धभक्तपानकादिकु वस्तु सु विवेचिति दृष्टि दृष्टि रजोहरण प्रतिलेखिति प्रदेसि जु निसृजइ परिठवइ सु मुनि तस्समिओ होइ । उच्चार पासवण खेल जह सिंघाण पारिठावणियासमि तु हुयइ । ए उच्चार पासवण खेल जह सिंघाण पारिठावणियासमिति । ए पांच समिति^१ ।

§ 383) अथ त्रिन्हि गुप्ति कहियइं । मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति । तत्र-

विमुक्तकल्पनाजालं समत्वे सुप्रतिष्ठितं ।

आत्मारामं मनस्तज्जैर्मनोगुप्तिरुदाहृता ॥ ✓

[४४८]

विमुक्तकल्पनाजालु विषयवासनारहितु । सभस्वि सुप्रतिष्ठितु समता वर्त्तमानु । आत्मारामु आत्माइं जि विपइ आ सामस्य करी रमइ आत्मारामु । मनु चित्तु । तज्जहं मनोगुत्तिपंडितहं मनोगुप्तिरुदाहरी 10 मनोगुप्ति वही । ए मनोगुप्ति ।

संज्ञादिपरिहारेण यन्मौनस्यावलंबनं ।

वाग्धृत्तेः संवृतिर्वा या सा वाग्गुप्तिरिहोच्यते ॥ ✓

[४४९]

शिरःकंपन हस्तचालनादिक जि छइं संज्ञाविधि निषेधसूचक तीहं नइ परिहारि सहितं वाग्गुप्ति तणी संवृति निरोधु तेहतउ जु मौन तणउं अवलंबनु स वाग्गुप्ति इह ईहां जिनशासनि उच्यते 15 कहियइ । ए वाग्गुप्ति ।

उपसर्गप्रसंगेऽपि कायोत्सर्गजुपो मुनेः ।

स्थिरीभावः शरीरस्य कायगुप्तिर्निगद्यते ॥

[४५०]

'उपसर्ग' देव मनुष्य पशुविहित उपद्रव । तीहं तणइ प्रसंगिहिं संनधिहिं हूंतइ कायोत्सर्गि वर्त्तमान मुनि रहइं जु शरीर स्थिरीभावु निश्चलता मु कायगुप्ति 'निगद्यते' कहियइ । ए कायगुप्ति 120 पांचहीं समिति विपइ त्रिहुं गुप्ति विपइ प्रणिधानु सावधान' पणउं तेह नउ जोगु संबंधु तिणि करी जु जुक्तु मनु कीजइ एउ अष्टविधु चारित्राचारु । विपरीतु अतीचारु । तथा च भणितं-

एताः चारित्रगात्रस्य जननात् परिपालनात् ।

संशोधनाच्च साधूनां मातरोऽष्टौ प्रकीर्त्तिताः ॥

[४५१]

अष्टप्रवचनमाष्टविधि प्रतिपालना लक्षणु अष्टविधु चारित्राचारु । अविधि-पालनालक्षणु अष्टविधु 25 अतीचारु । यदपिहिं मुत्पयवृत्ति करी चारित्राचारु साधु रहइं कहिउ छइ तथापिहिं देसविरतही रहइं देसत समितिगुप्तिविधि पालनारूपु आचारु । अविधि-पालनारूपु अतीचारु जाणियउ । इसी परि आठ-त्री-चउत्रीस अतीचारु ज्ञान-दर्शन-चारित्र विपडया पूर्वभणित पंचहुत्तरि संख्यहं अतीचारहं सउं मिलिया हूता नयाणउइ संख्य अतीचार हूया । पाठिला 'मन्वे चरित्ते य,' ईहां छइ चकारु तिणि करी जाणिया ।

30

§ 384) तथाहि द्वादशविधु मपु उत्तरगुणप्रत्यारयानप्रस्तावि कहिउ छइ तेह नइ विपइ अविधिकरणादिलक्षण द्वादश अतीचार । त्रिन्हि वीर्यातीचार मनोनीर्य-यचननीर्य-कायवीर्यलक्षण त्रिविध वीर्य रहइं धम्मं नइ विपइ सम्यक् प्रयोग नइ अभावि त्रिन्हि वीर्यातीचार । इहलोकाशंसादिक पांच

संलेखनातीचार । शंकादि पांच सम्यक्वातीचार सर्वे मिलिया पंचवीस । नवाणयइ सउं मिलिया चउवीसउं सउ अतीचार हुयइं । तथा च भणितं—

पण संलेहण ५ पनरस कम्म १५ नाणाइ अट्ट पत्तेयं २४ ।

वारस तव १२ विरइतियं ३ पण सम्म ५ वयाइं पत्तेयं ६० ॥ [४५२]

5 'सुहुमो य वायो वा' 'सुहुमु' सूक्ष्म अज्ञातु अथवा अल्प प्रायश्चित्तशोधु । 'वायरु' स्थूल व्यक्तु ज्ञातु अथवा गुरुप्रायश्चित्तशोधु । 'तं निदे' सु निदउं आपणवइं वरूयउं' कीघउं इसी परि गरिहामि । गुरु सादि वरूउं' कीघउं इसी परि गरिहउं । २ ।

§ 385) प्राइहिं सर्वइ अतीचार परिग्रह हुंता संभवइं । तिणि कारणि सामान्यहिं पहिलउं परिग्रहप्रतिक्रमणु कहइ—

10 दुविहे परिगहंमि सावजे बहुविहे य आरंभे ।

कारावणे य करणे पडिकमे देवसियं सव्वं ॥

[४५३]

द्विविध सचित्ताचित्त रूपपरिग्रह विपइ सावय सपाप धहुविध अनेक प्रकार आरंभ प्राणाति-
पातादिक तीहं नइ विपइ अनेरां कन्हा कारावणु तेह नइ विपइ, आपणवइं करणु तेह नइ विपइ ।
चकारइतउ किहंइं अनुमतिहीनइ विपइ । 'थो मेऽतिचार' इसउं पाछा हुंतउं आवइ । जु मू रहइं
15 अतीचार आविउ सु निरवसेपु सगल्ल 'पडिकमे देसियं सव्वं' । आर्पत्वइतउ दैवसिकं पइ तणइ स्थानकि
'देसिये' इसउं हुयइ । 'पडिकमे' किसउ अर्थु ? तेह दैवसिक सगलाइं अतीचार हुंतउ निवर्त्तउं । राई
पडिकमणइ 'पडिकमे राईयं सव्वं' कहिवउं । पक्खिय पडिकमणइ 'पडिकमे पन्नियं सव्वं' कहिवउं ।
चउमासा नउ पडिकमणइ 'पडिकमे चउमासियं सव्वं' कहिवउं । संवच्छरिय पडिकमणइ 'पडिकमे
संवच्छरियं सउं' कहिवउं । अर्थु सर्वत्र पूर्वं जिम, नयरं राईय अतीचार चउमासीय अतीचार
20 संवच्छरीय अतीचार हुंतउ निवर्त्तउं इति नाम भेदु करीवउ । अथवा अशुभभाव हुंतउ निवर्त्तां करी
शुभभाव प्रतिरुमउं वली जाउं इउ प्रतिरुमण नउ अर्थु । यदुक्तं—

स्वस्थानाद्यत् परस्थानं प्रमादस्य वशाद्गतः ।

तत्रैव क्रमणं भूयः प्रतिक्रमणमुच्यते ॥

[४५४]

§ 386) अग्र महापरिग्रहार्भनिवृत्तानिवृत्तहं^१ विहुं श्रेष्ठिहिं तणउं कथानकु गुणदोपविकासकु^२
25 कहियइ ।

नाशिक्यु नामि नगरु । तिहां नंद नामक वि श्रेष्ठि याणियकला-बुसल^३ ह्या तीहं माहि एक
गृहधर्मपरायणु व्यवसायशुद्धि जुकु^४ हुंतउं आपणां गुणहं करी धर्मनंदु इसी ख्यातिप्राप्तु ह्यउ ।
धीज्ज लोभाभिभूतु कूटयाणियकला लगी लोभनंदु^५ इसी ख्यातिप्राप्तु ह्यउ । अनेरइ दिवसि सरोजरि
रणीतइ पूर्वसंगोपित सुवर्णमय कुसा नीसरिया । लोहमय^६ बुद्धिवसइतउ महंतइ रनकहं रहइं आपिया ।
30 तेहे पुणि ति कुसा ले करी धर्मनंदु^७ रहइं दिखालिया । कहिउं, 'ईहं चढइं अहं रहइं घृततेलधान्यादि
विसाहणउं आपि । तिणि पुणि अतिभारादि कारणि करी सुवर्णमय जाणी करी भणिउं, 'एहे मू रहइं

§ 384) 1 Bh. वरयउं । 2 Bh. वरउ । § 385) 1 Bh. adds. छः । § 386) 1 P. omits
निगमा । 2 Bh. विराडिउ । P. विराडु । 3 Bti.-बुसल । 4 P.-युकु । 5 P. लोभिदु । 6 Bh.
लोहम । 7 Bh. नंदि ।

काजु नहीं' । तउ पाछइ तेहे ति लोभनद' रहइ दिखालिया । तिणि पुणि ति सुवर्णमय जाणिया । पाछइ शीघ्रु हाट माहि लाखी करी तीह रहइ विसाहणउ घणउ दीधउ । तीह कन्हा कुशा नी उत्पत्ति पूठी करी कहइ, 'मू रहइ लोह माहि काजु छइ । तुम्हे कुशा मूर्हीं जि देजिउ, हउ तुम्ह रहइ घणउ विसाहणउ देसु' । तउ पाछइ ति ओड^१ ह्यट तुष्ट हूता तीहीं जि रहइ नितु नितु कुशा^२ आणी दियइ, विसाहणउ लियइ । अतिलोभवसइतउ अल्पमूल्य बडइ सुवर्णकुशा^३ लियतउ^४ वृत्त^५ न थाइ । पुत्रह^६ पृथुताई हूता कुशा नउ परमार्यु कहइ^७ नहीं । अनेरइ दियसि कुशाग्रहणविपइ शिक्षा पुत्रह रहइ दे करी प्रत्यासन्नप्रामि मित्र नइ विपइ प्रेसु चहतउ वीवाहि गयउ । खनके कुशा^८ रि आणी करी श्रेष्ठिपुत्रह हाथि आपिया । तेहे कोप वशइतउ आरफाली करी फोडिया । सुवर्णमय झलहलता देखी^९ लोकु घणउ मिलिउ । तेतलइ श्रेष्ठि पुणि गाम हूतउ आविउ^{१०} । सु वृत्तातु जाणी करी श्रेष्ठि अति विपादवतु^{११} हूयउ रीस वसइतउ श्रेष्ठि आपणाई^{१२} जि पग पाहणि आहणी भागा किसइ कारणि जइ ए न हुउतइ तउ हउ 10 गामि न जायतइ^{१३} धिगू हुउ ईह रहइ इति पादानिंदा करतउ आर्त्तरैद्वैध्यानपरु हूयउ । राजपुरुषह कुशावृत्तातु राजा आगइ साभलिउ । राजेद्रि खनक पूछिया । तेहे सगळ वृत्तातु कहिउ । तदनतरु धर्मनदु पडिहारक-हा तेडाविउ लोभनदु निग्रहाविउ । कृतप्रणाम धर्मनद आगइ राजेद्रि कहिउ, 'कुशा किसइ कारणि तइ न लीधार्ई । सुवर्ण तणा किसइ कारणि न कहियार्ई' तिणि भणिउ, 'परिग्रहप्रमाण-व्रतभगभयवसइतउ^{१४} तथा चोरितवस्तुग्रहणनियमइतउ न लीधार्ई । असत्यनचनभाषणइतउ^{१५} न कहियार्ई' । 15

§ 387) तउ राजा श्रेष्ठिगुणरजितु हूतउ धर्मनद नी प्रशसा करइ । 'अहो पापभीरुता । अहो निर्लोभता । अहो विवेकिता' । श्रेष्ठिन् । तउ सर्वहीं पूज्य ।' इसी परि वार वार सभा माहि वर्णवी करी वखालकारसत्कारकरणपूर्व आवासि धर्मनदु पाठविउ । लोभनद आगइ राजा कहइ, 'रे पश्यतोहर । अज्ञान खनक^१ किसइ कारणि तइ मुसिया ।' इसउ भणी करी सर्वस्वहरणु विडयनादिकु करी महाकष्टि लोभनदु राजेद्रि मेल्हइउ । धर्मनदु लोभवजितु इह परउ कीर्तिपुण्यभाजनु हूयउ । लोभनदु लोभाभिभूतु 20 इह परउ अकीर्त्ति अधर्म भाजनु हुयउ ।

उच्चैर्महारभपरिग्रहस्य विपाकमेवं विरसं निश्म्य ।

संसारभूमीरुहबीजभूते तदत्र भव्या दधता निवृत्तिम् ॥

[४५५]

§ 388) अध ज्ञानातिचारनिंदा कहइ ।

जं नद्धर्मिदिपहि चउहि कसाएहि अप्ससत्येहि ।

25

रामेण व दोसेण व तं निंदे तं च गरिहामि ॥

[४५६]

जु बर्मु इद्रिए करी वाधउ आत्मासउ क्षीरनीर जिम अथवा अमिलोह जिम एकरूपता पमाडिउ । जिम सनत्कुमार खीरत्न नइ अलकसस्पर्शि करी सभूति मातग मुनि वाधउ । मासरसाखादि करी सोदासि राजकुमारि वाधउ । घ्राणलोभि करी घ्राणप्रियकुमारि वाधउ । रूपरागि करी मधुरावाणियइ वाधउ । शब्द तणइ सगि सुभद्रा श्रेष्ठिनी वाधउ । तिम तथा चउहिं कसाएहिं क्रोधमानमायालोभ 30 लक्षणइ चउ कसायह करी जु कर्मु वाधउ । तिम तीव्रोदयप्राप्ति क्रोधि करी मइकी क्षपकि वाधउ ।

§ 386) 7 Bh. नदि । 8 P उउ । 9 P कुग । 10 B L P लिइइ तउ । 11 Bh P वृषउ । 12 P omits 13 Bh कुमा । 14 Bh adds करी । 15 P omits 16 P omits अति । 17 P आपणी । 18 P जायतउ । 19 P परिग्रहप्रमाणव्रतभयभगव्रतउ । 20 B L अग्य भाषणवचन- । § 387) 1 P विवेकता । 2 P तु । 3 P. adds किं ।

अतिशयोदयप्राप्तिं मानिं करी जिम पशुरामि वाधउं । अतितीव्रोदयप्राप्तिं मायागुणि करी जिम धनश्री वाधउं । अतिवृष्णोदय संगमि करी मम्मणि वाधउं । तिम किसां इंद्रियहं अनइ कसायहं करी कर्मु वाधउं इत्याह—'अप्पसत्थेहिं' अप्रशस्तहं अस्थानप्रवृत्तहं तथा रागेण वा दृष्टिरागलक्षणु रागु तिणि करी । यदुक्ते—

5 कामराग-स्नेहरागावीपत्करनिवारणौ ।

✓ दृष्टिरागस्तु पापीयान् दुरुच्छेदः सतामपि ॥

[४५७]

कामरागु खीरतिस्वरूप । स्नेहरागु मावृषिपुत्रपौत्रादिरतिलक्षणु । ति वे ईपत्करनिवारण, किसउ अर्थु ? सुखनिपेधनीय धर्मरतिपरायणहं अनेक जीयहं श्रीजंबूस्वामि जिम निवारितत्वइतउ । 'दृष्टि-रागस्तु पापीयान् दुरुच्छेदः सतामपि' दृष्टिरागु मिध्यादर्शनानुरागु 'सतामपि' साधुई रहई ज्ञानदर्शन-
10 चारित्र्यवंतही रहई दुरुच्छेदु दुफखनिपेधु कष्टनिवारणीउ । परोहित पुत्रभवि सुद्वसंजमपरिणामिहिं मेतार्थजीव रहई जिनेत्रधर्मु समस्तु प्रशस्यु पुणि जु अखुचि शरीर थिकां रहियइ सु एकु वरुयउं । इसउ दृष्टिरागु दुर्निवारु हूयउ तेह नइ प्रभावि नीचातिनीचि' चंडालकुलि मेयकुलि ऊपनउ । तथा रागपदि करी कामराग स्नेहराग पुणि जाणिवा तिणि रागि करी वा 'दोसेण वा' अप्रोतिरूपु द्वेषु तिणि करी जिम गोष्ठामाहिलि वाधउं तिम जु कर्मु वाधउं सु कर्मु निंदउं गरिहउं । जे किमइ को कहइ इंद्रियादिकई
15 करी जु कर्मु वाधउं सु ज्ञानातिचारु किसी परि हुयइ । तउ' कहियइ' ज्ञान तणउं फलु विरति स इंद्रियादिजयकरी हुयइ । तथा च भणितं—

तज् ज्ञानमेव न भवति यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणः ।

✓ तमसः कुतोऽस्ति शक्तिर्दिनकरकिरणप्रतः स्यातुम् ॥

[४५८]

इति फल तणी अवहेलना करी ज्ञानातिचारु ।

20 §389) इंद्रियहं करी द्वादशविध अविरति सूचवी । तद्यथा—'वारसविहा अविरई मणइंदिय अनियमो छक्कायवहो' इति । 'चउहिं कसाएहिं' पंचवीसकपाय नयनोकपाय भेद सूचविया ।

तथा च भणितं—

सोलस जाण कसाया, नय भेया नोकसायाणं ।

कोहो भाणो माया लोभो, चउरो य हुंति चउमेया ॥

25 अण अपच्चक्खाणा पच्चक्खाणा य संजलणा ॥ [४५९]

जल-रेणु-पुढवि-पवयरईसरिसो चउव्विहो कोहो ।

तणसलया-कट्ट-उट्टिय-सेलत्थंभोवमो भाणो ॥

[४६०]

मायावलेह-गोमुत्ति-मिढसिंम-घणधंममूलममा ।

लोहो हलिइ-कइम-खंजण-किमिरागमारिच्छो ॥

[४६१]

30 माया लोभ वे मिलिया रागु कहिई । क्रोध मान वे मिलिया द्वेषु कहियई । तउ पाछइ 'चउहिं कसाएहिं' इणिहिं जि करी राग द्वेष वे लाधा । किसइ कारणि बली 'रागेण व दोसेण व' एउ वहियइ । इसउं न कहियूं । पूर्वहिं एकि एकि करी कर्मबंधु कहिउ । 'रागेण वा दोसेण वा' इणि करी विहुं विहुं करी कर्मबंधु कहिउ ।

§ 390) अथवा 'दृष्टिरागेण वा' इति करी मिथ्यात्वसूचा कीची । सु पुणि मिथ्यात्वु पंचप्रकारु हुयइ । अभिमहि एकांति' निश्चयि करी हुयइ सु आभिप्रदिकु । सु पुणि प्राइहिं मिथ्यादर्शनवंतहं दीक्षितहिं जि रहइं हुयइ । १ । अनभिप्रदि एफांत अनिश्चयि करी हुयइ सु अनाभिप्रदिकु । सु पुणि मामान्यमिथ्यात्ववंतहं जनहं रहइं प्राइहिं हुयइं । २ । अभिनिवेगि अहंकारि करी हुयइ सु आभिनि-
वेशिकु । सु मिथ्यात्वु निह्नहनं रहइं हुयइं । ३ । मंगयि करी हुयइ सु मांशयिकु । संत जि छडं ७
जीरादिकपदार्थ तीहं नइं विपड सशयलगी हुयइ । ४ । अनाभोगु अज्ञानु तिगि करी हुयइ सु अना-
भोगिकु । पृथिवीकायादिकहं विकलेद्रियहं असक्षियहं समूर्च्छिम पंचद्रियानसानहं सर्वही जीरहं छडं
हुयइ सु अनाभोगिकु । ५ । तथा च भणितं-

आभिग्माहियं अणभिग्माहियं, तह अभिनिवेशियं चैव ।

संसङ्गमणाभोगं, मिच्छत्तं पंचहा एव ॥

[४६२] 10

तथा हास्य १ रति २ अरति ३ जुगुप्सा ४ भय ५ शोकलक्षण छ नोकसाय पुरुषवेद स्त्रीवेद
नपुंसकवेद लक्षण त्रिष्टि नोकसाय सव्यइ मिलिया न न नोकसाय कहियइं । तथा आगइ 'काएण' इत्यादि
करी योग साक्षात्कारिहिं जि वहीसिइं । तउ पाछइ 'जं वद्धमिदिण्हिं' इति गाहा करी संपूर्णं कर्मबंध-
कारण भणियां । तद्यथा-

बंधसस मिच्छ ५ अविइ १२ कमाय २५ जोगु त्ति १५ हेयचो चउरो ।

15

पंच दुवालम पणवीस पन्नरस कमेण मेया सिं ॥

[४६३]

मिथ्यातर ५ पूर्वहिं भणियां । अविरति १२ पूर्वहिं भणी । कपाय नोकसाय पंचवीस पूर्वहिं
भणिया । जोग १५ भणियइं ।

सचं मोसं मीसं असचमोसं मणं तह वई य ।

उरलविउज्वाहारा मीसा कम्मडग मिय जोगा ॥

[४६४] 20

विनोक्तू जीवादितत्त्वचिंता प्रष्टुत्तु साचउं मनु १ । मिथ्याशान्त्रचिंता परिणतु मनु मृषामनु २ ।
वृद्धं मनु इति पर्यायः । लोकव्यवहारचिंताप्रष्टुत्तु मनु सत्यमृषु मिधु मनु ३ । शून्यतापतितु अमत्यामृषु
मनु न साचउं न वृद्धं ४ । एअं वचनु पुणि चउभेदि । जीवादितत्त्व सप्तमंग प्रतिपादकु सत्यु वचनु १ ।
मिथ्याशास्त्रार्थ प्रतिपादकु अमत्यु वचनु २ । लोकव्यवहारभाषाप्रतिपादकु मिथितु सत्यासत्यु वचनु ३ ।
म्यापावस्थायचनु मदावस्थायचनु सर्वथा शून्यतापतित मन जीर तणउ वचनु अमत्यामृषु न साचउं न 25
वृद्धं वचनु । ४ ।

तथा औदारिक वैमिच आहारक औदारिकमिध वैत्रियमिध आहारकमिध फार्मगच्छग सात पाय ।

एअं मन वचन पाय सव्यइ मिलिया पन्नरह जोग एतत्तइ मलायन कर्मबंध हेतु भणिया । ईह
माह 'अण्णमत्तयेहिं' इति करी बीजइ । पापबंधहेतु जूजुरा करी तत्तह कर्मबंध तणउं प्रतिव्रमणु 'तं निंदे
मं च गरिदानि' इति करी बीजइ । शान्ताविपार प्रतिव्रमणु भनिउं । 30

§ 391) मंग्रि मयवत्तापीचार प्रतिव्रमणु अनइ चहुदर्शन प्रतिव्रमणु भगइ ४ ।

आगमणे निग्गमणे, टाणे चंक्रमणे अणाभोगे ।

अभिओगे अ निओगे, पटिक्कमे देमियं मय्यं ॥

[४६५]

मिथ्यादृष्टि रथायात्रादिदर्शननिमित्तु कुनूहलवसि आसमंतात् गमनु आगमनु तिणि हंतइ 'आग-
मणे' गृहादि माहइवउ तिणिहिं जि कारणि निर्गमनु निस्सरणु तिणि हंतइ 'निगमणे' । जु कर्मु वाघउं
इसवं पाछा हंतवं आवइ छइ । तथा मिथ्यादृष्टि देवकुलादिकि स्वामि अवस्थानि हंतइ । अथवा मिथ्यादृष्टि
रथादिदर्शननिमित्तु मार्गे तेह आववा सीम अवस्थानि हंतइ । तीही जि मिथ्यात्व देरिना निमित्तु चंक्रमणि
५ वेगि करी गमनि हंतइ । अथवा तिहांई जि प्रेक्षणकादि प्रेक्षणनिमित्तु ओरइ परउ परिभ्रमणि हंतइ ।
किसइ हंतइ । 'अणामोणे' अनुपयोगे अज्ञानभावि । 'अभिओगे' राजाऽभिओगादिकि तदुक्तं—

रायाभिओगो य १ गणाभिओगो २ बलाभिओगो ३ देवयाभिओगो ४ ।

गुरुनिग्गहो ५ वृत्तिकंतारो ६ य छ छिडियाओ जिणसासणंमि ॥ [४६६]

नियोगे श्रेष्ठिपदादिलक्षणे । शेषं पूर्वयत् । ५ ।

10 § 392) अथ सम्यक्त्वातिचारप्रतिक्रमणनिमित्तु भणइ ।

संका १ कंख २ विगिंछा ३ पसंस ४ तह संथवो ५ कुलिंगीसु ।

सम्मत्तसइयारे पडिकमे देसियं सव्वं ॥

[४६७]

दर्शनमोहनीय कर्मोपशमादि समुत्थु अहंदुक्त तत्त्वश्रद्धानरूपु शुभु आत्मपरिणामु सम्यक्त्तु
कहियइ ।

15 § 393) तिणि सम्यक्त्वपरिणामि हंतइ जीव रहइं तत्त्वबुद्धि हुयइ इणि कारणि ईहां नवतत्त्व
विचारु लिपियइ ।

जीवाजीवा पुन्नं पावा-ऽऽसव संवरो य निजरणा ।

बंधो मुखो य तहा नव तत्ता हुंति नायव्वा ॥

[४६८]

जीवतत्त्वु १ अजीवतत्त्वु २ पुण्यतत्त्वु ३ पापतत्त्वु ४ आश्रवतत्त्वु ५ संवरतत्त्वु ६ निर्जरातत्त्वु

20 ७ बंधतत्त्वु ८ मोक्षतत्त्वु ९ एवं नाम नवतत्त्व 'नायव्वा' जाणियां ।

चउदस चउदस बायालीसा, बासीय हुंति चायाला ।

सत्तावन्नं बारस चउ नव भेया कमेणोसिं ॥

[४६९]

§ 394) जीवतत्त्वु चउद भेद १ अजीवतत्त्वु चउद भेद २ पुण्यतत्त्वु वइतालीस भेद ३

पापतत्त्वु वियासी भेद ४ आश्रवतत्त्वु वइतालीस भेद ५ संवरतत्त्वु सतावन भेद ६ निर्जरातत्त्वु

बारस भेद ७ बंधतत्त्वु चत्तारि भेद ८ मोक्षतत्त्वु नव भेद ९ क्रमि करी नवही तत्त तणा भेद वि सई

25 छहुत्तर हुयइं । तथाहि—

एगिंदिय सुहमियरा सन्नियर पणिंदिया वि ति चऊ ।

अपज्जत्ता पज्जत्ता कमेण चउदस जियट्ठाणा ॥

[४७०]

एकिंद्रिय पृथिवीकाय अण्काय तेयकाय वाउकाय धनस्पतिकाय । लक्षण कहियइं ।

ति सूक्ष्म पुणि वादर पुणि एयं भेद वि एकेद्रिय । जीहं रहइं मनु हुयइ ति 'सत्री' । जीहं रहइं

30 मनु न हुयइं ति 'इय' 'असत्री' कहियइं ।

एवं भेद वि पंचेंद्रिय । स 'वि ति चऊ' इति वेइंद्रिय वेइंद्रिय चउरिंद्रिय सहित हूतां भेद साव ।

सातइ पर्याप्तापर्याप्त विहुं भेदहं करी चऊद भेद । ए चऊद जीवस्थान ।

§ 395) धम्मा धम्मागासा तिय तिय मेया तहेव अद्दा य ।

खंधादेस पएसा परिमाणु अजीव चउदसहा ॥

[४७१]

धर्मास्तिकायद्रव्य अमूर्तं लोकव्यापक परिणामिनित्यु । जीवाजीवगति करी अनुमान प्रमाण गोचर छद्मस्वहं रहई । तथा हि—

लोकु धर्मास्तिकायद्रव्य सहितु । जीवाजीवगतिजुक्त्वइत्तउ । जु धर्मास्तिकायद्रव्य सहितु¹ न ३ हुयई सु जीवाजीवगति सहितु पुणि न हुयई जिम अलोकाकाशु । जीवाजीवगति जुक्त्तु लोकु तिणि कारणि धर्मास्तिकायद्रव्य सहितु । एहू जु अर्थु भणित । यथा—

जीवानां पुद्गलानां च, गत्युपष्टंभकारणम् ।

धर्मास्तिकायो ज्ञानस्य, दीपथक्षुम्भतां यथा ॥

[४७२]

तथा अधर्मास्तिकायद्रव्य पुणि अमूर्तं लोकव्यापक परिणामिनित्यु जीवाजीवस्थिति करी अनुमान 10 प्रमाण गोचर छद्मस्वहं रहई । तथा हि लोकु अधर्मास्तिकायद्रव्य सहितु जीवाजीवस्थिति महितत्त्वइत्तउ जु अधर्मास्तिकायद्रव्यजुक्त्तु न हुयई सु जीवाजीवस्थिति सहितु पुणि न हुयई । जिम अलोकाकाशु । जीवाजीवस्थिति सहितु लोकु तिणि कारणि अधर्मास्तिकाय द्रव्य सहितु । तथा च भणितं—

जीवानां पुद्गलानां च, स्थित्युपष्टंभकारणम् ।

अधर्मः पुरुषस्येव, तिष्ठासोरवनिः समा ॥

[४७३] 15

§ 396) आकाशु पुणि अमूर्तं लोकालोक व्यापक परिणामिनित्यु सु पुणि अवकागलिंगम्यु । तथा च भणितं—

जीवानां पुद्गलानां च, धर्माधर्मास्तिकाययोः ।

चदराणां घटो यद्बदाकाशमवकाशदम् ॥

[४७४]

ए त्रिन्दइ द्रव्य देश प्रदेश भेदइत्तउ त्रिविध । तथाहि ।

20

धर्मास्तिकायद्रव्यु । धर्मास्तिकायदेश । धर्मास्तिकायप्रदेश । एवं अधर्मास्तिकायद्रव्यु । अधर्मास्तिकायदेश । अधर्मास्तिकायप्रदेश । तथा आकाशास्तिकायद्रव्यु । आकाशास्तिकायदेश । आकाशास्तिकायप्रदेश । एवं नव अजीवभेद । दशमउ 'अद्दा' कालु स्कंध । देश प्रदेश केरल परमाणुभेदहं बरी पुद्गल चउं भेदे । ति पुद्गल मूर्त्तिमंत स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द स्वभाव संपात विघात संजात जिनदं पहिया । तथा च भणितं—

25

स्पर्शरसगंधवर्णशब्दा मूर्त्तस्वभावजाः ।

संपातभेदनिष्पन्नाः पुद्गला जिनदेशिताः ॥

[४७५]

सर्वे मिलिता चतुर्दश अजीवभेद हुयई । एहू जु अर्थु भणइ—

धम्मायम्मा पुद्गल नह कालो पंच हुंति अजीवा ।

चलसंठाणो धम्मो धिरसंठाणो अहम्मो य ॥

[४७६] 30

एहू नउ अर्थु पूर्णगाह नह अर्थि भणीत्तउ समन्द भणित ।

अवगाहो आगातां पुग्गलजीवाण पुग्गला चउटा ।

गंधा देम पएसा, परमाणु चेर नायव्या ॥

[४७७]

एहइ गाह भणिताथं ।

§ 397) कालस्वरूपु कहइ ।

समयावली मुहुत्ता दीहा पक्खा य मास वरिसा य ।

भणिओ पलिया सागर, ओसपिणिसपिणी कालो ॥

[४७८]

- ५ परम निकृष्ट काल समउ कहियइ । असंख्यात समयहं आवलीका कहियइ । जिसे विउं सए छप्पने भेलिते हूँते एकु मुहुत्तु हुयइ तिसउं काल तणउ अंशु आवली कहियइ इत्यर्थः । वि घटिका मुहुत्तु । दीह चतुःप्रहररूप दिवस । पंचदस दिवस पक्षा । वि पक्ष मास । धारस मास वरिस । पलिओवम सागरोवम उरसपिणी अवसपिणी । यथा । उत्सेधांगुल योजन प्रमाण समचतुरस्रकूपगत एकाहिक सप्ताहिकानू वालाम कृत असंख्यात खंड वरस सय एकैकाऽपहारि कीजतइ जेतलइ कालि सु कूपु १० ठालउ थाइ सु कालु पत्योपमु । दस कोडाकोडि पत्योपमहं एकु सागरोपमु । दस सागरोपम कोडाकोडि प्रमाण उरसपिणी । दस कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण अवसपिणी । एवमादि कालभेद तीहं माह पारमार्थिकु समयरूपु कालु । बीजा आवली प्रभृति काल्पनिक कालभेद जाणिषा ।

जं जोयणवित्थिन्नं तं तितुणं परिरएण सविसेसं ।

तावइयं उच्चिदं, पल्लं पलिओवमं नाम ॥

[४७९]

- १५ एगाहिय वेहिय तेहियाण उक्कोस सत्तरत्ताणं ।

संपट्टं संनिवियं भरियं तं वालकोडीहिं ॥

[४८०]

इक्कमओ लोमं कट्टुमसंपिज्जखंडमुदिसं ।

समछेयाणंजतपएसियाण पल्लं भरिजाहि ॥

[४८१]

वाससए वाससए इक्किके अवहियंमि मुहुमंमि ।

मुहुमं अद्दापलियं हवंति वासा असंखिजा ॥

[४८२]

एएसिं पल्लानं कोडाकोडी हविज्ज दसगुणिया ।

तं सागरोवमस्स उ इक्कस्स भवे परीमाणं ॥

[४८३]

दस सागरोवमाणं पुत्ताउ हवंति कोडिकोडीओ ।

ओसपिणी पमाणं तं चेवुस्सपिणीए वि ॥

[४८४]

- २५ ओसपिणी अणंता पुग्गलपरियट्टओ मुणेयन्वो ।

तेष्सांतास्तीयद्दा अणागयद्दा अणंतगुणा ॥

[४८५]

इति कालस्वरूपम् ।

§ 398) अद्य पुण्यभेद कहियइ ।

साउच्चगोय मणुदुग सुरदुग पंचेदिजाइ पणदेहा ।

- ३० आइ ति तणु उवंगा आइग संपपण संठाणा ॥

[४८६]

चन चउक्कऽगुरुलहु परयाउस्सास आयवुज्जोयं ।

सुभखगई निमिण तमदम सुरनर तिरिआउ तित्थयरं ॥

[४८७]

सातवेदनीउ १ उच्चैर्गोत्रु २ मणुदुगु-मनुष्यगति मनुष्यानुपूर्वी ४ मुरदुगु-सुरगति मुणुयुपूर्वी ६ पंचेन्द्रियजाति ७ औदारिक वैश्विन् आहारक तेजस कामेज लघ्नग पांच शरीर १२ औदारिकान्गोपांग

वैक्रियांगोपांग आहारकांगोपांग नामक त्रिन्दि उपांग १५ । वन्नऋपभनाराच संहनतु १६ समचतुस्र-
संस्थानु १७ । सुभवर्ण १८ सुभगंध १९ सुभरस २० सुभस्पर्श २१ लक्षण वर्णादि चतुष्क । अगुरुलघु
२२ पराघातु २३ उच्छ्वासा २४ आतपु २५ उद्योतु २६ सुभस्वगति २७ निर्माणु २८ ।

तस २९ वायर ३० पञ्जत्तं ३१ पत्तेय ३२ थिरं ३३ सुभं ३४ च सुभगं ३५ च ।
स्रसर ३६ आइज़ ३७ जसं ३८ तस दसगं होइ नायव्वं ॥ [४८८] 5

त्रस वादर पर्याप्त प्रत्येक । थिर सुभ सुभग सुस्वर आदेय यशःकीर्तिलक्षणु त्रस दसक कहियइ ।
सुराउ ३९ नराउ ४० तिर्यगाउ ४१ तीर्थकरनामकर्म ४२ ए वइतालीस पुण्यप्रकृति कहियइ ।

§ 399) अथ पापप्रकृति लिखियइ ।

नाणंतराय दसगं नव वीए नीयऽसाय भिच्छत्तं ।
थावर दस निरयतियं कसाय पणवीस तिरिय दुगं ॥ [४८९] 10
इग बि ति चउ जाईओ कुखगइ उववाय हुंति पावस्स ।
अपसत्थं वन्न चऊ अपढम संघयण संठाणा ॥ [४९०]

मतिज्ञानावरण १ धृतज्ञानावरण २ अवधिज्ञानावरण ३ मनःपर्यवज्ञानावरण ४ केवलज्ञानावरण
५ दानांतराय ६ लाभांतराय ७ वीर्यांतराय ८ भोगांतराय ९ उपभोगांतराय १० लक्षणु ज्ञानांतराय
दसक । निद्रा ११ निद्रानिद्रा १२ प्रचला १३ प्रचलाप्रचला १४ स्थानर्द्धि १५ चक्षुर्दर्शनावरण 15
१६ अचक्षुर्दर्शनावरण १७ अवधिदर्शनावरण १८ केवलदर्शनावरण १९ लक्षण नव दर्शनावरणभेद
नीचैर्गोत्र २० असातावेदनीय २१ मिथ्यात्व २२ ।

थावर २३ सुहुम २४ अपञ्जत्त २५ साहारण २६ अधिर २७ असुभ २८ दुभगाणि २९ ।
दूसर ३० ज्ञाइजेहि य ३१ अजसेण य ३२ वीयदसगं तु ॥ [४९१]

थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण अधिर असुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अयशःकीर्ति लक्षणु थावर 20
दसक वीय दसक कहियइ ।

निरयतियं नरकगति ३३ नरकानुपूर्वी ३४ नरकायुर्लक्षणु निरयतिकु कहियइ ३५ । कपाय
पंचविंशति-सोलस कपाय नव नोकसाय लक्षण चारित्रावरणीयकर्मप्रकृति तीहं नइ भीलनि ६० तिरियदुगं
तिर्यचगति तिर्यगानुपूर्वी ६२ एकेंद्रियजाति ६३ वेइंद्रियजाति ६४ त्रेइंद्रियजाति ६५ चउरिंद्रियजाति
६६ कुत्सितविहायोगति ६७ उपघात ६८ असुभवर्ण ६९ असुभगंध ७० असुभस्पर्श ७१ असुभरस 25
७२ लक्षणु असुभवर्ण चतुष्क कहियइ ऋपभनाराच ७३ नाराच ७४ अर्द्धनाराच ७५ कीलिका
७६ सेवार्त्त ७७ लक्षण अपढम पांच संहनत न्यमोघ परिमंडल ७८ सादि ७९ वामन ८० कुब्ज ८१
हुंड ८२ लक्षण अपढम पांच संस्थान ए विवासी पाप प्रकृति कहियइ ।

§ 400) अथ आश्रवभेद लिखियइ ।

इंदिय ५ कसाय ४ अबय ५ जोगा पंच चउ पंच तिन्नि कमा । [४९२] 30
किरियाओ पणवीसं इमाउ ताओ अणुक्रमसो ॥ [४९२]
काइय १ अहिरणीया २ पाउसिया ३ पारियावणी किरिया ४ ।
परायाववाया ५ ऽऽरंभिय ६ परिग्गहिया ७ मायविची य ८ ॥ [४९३]

मिच्छादंसणवित्ती ९ अपचकरण १० दिट्टि ११ पुट्टी १२ य ।

पाडुच्चिय १३ मामंतोत्रणिय १४ चेसट्टि १५ सहत्थी १६ आणयणिय १७ ॥ [४९४]

वियारणिया १८ अणभोगा १९ अणनकंरपच्चइया २० ।

अन्ना पओग २१ समुयाण २२ पिज्ज २३ दोसे २४ हरियागहिया २५ ॥ [४९५]

- 5 तत्र ज वायि करी कीजइ स काइकी क्रिया १, अधिकरणि पद्मादिकि करी ज कीजइ स आधि करणिकी क्रिया २, प्रद्वेपि प्रकृष्टकोपि करी ज कीजइ स प्राद्वेपिकी क्रिया ३, अनेरा प्राणिया तणइ परितापि कट्टि करी ज कीजइ स परितापनिकी क्रिया ४, प्राणातिपाति जीवविनासी करी ज कीजइ स प्राणातिपातिकी क्रिया ५, आरभि पृथिवीकायाद्युपघाति करी ज कीजइ स आरभिनी क्रिया ६, परिग्रहि मूळ्ठापरिणामि करी ज कीजइ स पारिग्रहिकी ७, मायाप्रत्यया मायानिमित्ता क्रिया ८, मिध्यात्व-
10 प्रत्यया मिध्यात्वहेतुका ९ सयमविपातकारि कपाय तणउ प्रत्यारयानु परिहार जिणि क्रिया कीन्ती हूती न हुयइ स अप्रत्यारयान क्रिया १०, रागद्वेषसहित दट्टिक्रिया दट्टि ११, रागपूर्व स्त्रीकाय ससश्लक्ष्ण स्पृष्टि क्रिया १२, प्रतीति पूर्वकोत्पन्न क्रोधादि क्रियस्थानु तेह आश्रयी करी ज क्रिया कीधी स प्रतीतिकी १३, समतइतउ सामस्यइतउ उपनिपातु भागमनु स्त्री पशु भ्रूतिकह जीवह तणउ जिहा हुयइ सु स्यानु समतोपनिपातु कहियइ । तिहा ज क्रिया हुयइ स सामतोपनिपातिकी १४, निस्पृष्टि सहजु तिणि करी ज
15 क्रिया हुयइ स निस्पृष्टिकी १५, चिरकाल सेवित पापातुष्ठानविपइ जु स्वभावइतउ अनुष्ठानु स नैस्पृष्टिकी १५, आपणइ हाधि कीधी स्वाहस्तिकी अतिकोपसइतउ अन्य पुरुषसाध्य ज क्रिया आपणइ हाधि कीजइ स स्वाहस्तिकी १६, आनयनि करी नीपनी आनयनिकी स पुणि भगवति वीतरागि भणिया छइ जीवादिक-
20 तत्त्व तीह तणउ आपणी बुद्धि करी अनेरइ प्रकारातरि करी आनयनु ररूपणु तिणि करी निष्पन्न आनय-
निकी १७, विदारणु परह रहइ अप्रकाशयु हुयइ तेह नउ प्रकाशनु तिणि करी निष्पन्न वैदारणिकी १८,
25 अनयभोगा अप्रत्युपेक्षित अप्रमाजिज्ञं दु प्रमानित प्रदेसि अज्ञानभावि शरीरादि निक्षप लक्षणक्रिया १९, अनयकाक्ष क्रिया जिनोक्कानुष्ठान विपइ प्रमादवशयर्त्तिता करी अनादर क्रिया २०, प्रयोगु धावन वल्गना-
दिकु कायव्यापारु । जीवपीडाकारुकु परुषवाक्यादिकु वचनव्यापारु । प्रोहेर्प्याभिमानादिकु मनोव्यापारु । तेह नइ करणी करी नीपनी प्रायोगिकी २१, समुदानु इट्टिउ तेह नी क्रिया देशसयोंपघातरूपु व्यापारु स समुदा-
नक्रिया २२, 'पिज्ज' भ्रम प्रत्ययक्रिया २३, 'दोसे' द्वेष प्रत्ययक्रिया २४, ईरण ईर्या गननु तिणि उपलक्षितु
35 पशु मार्गु ईर्यापशु तिहा ज जीवघातादिक क्रिया स ईर्यापधिकी क्रिया कहियइ । २५ ए पचवीस क्रिया । मन वचन काय त्रिन्दि जोग कहियइ, प्राणातिपात १ मृपावाद २ अदत्तादान ३ मैथुन ४ परिग्रह ५ प्रमाणता लक्षण पाच अणुवत कहियइ । क्रोध मान माया लोभ नाम चत्तारि कपाय कहियइ ।

फरसन रसन घ्राण चक्षु श्रवण नाम पाच इन्द्रिय कहियइ । सर्व मीलनि वइतालीस आश्रवभेद कहियइ ।

30 § 401) अथ सवरभेद लिखियइ ।

समिई ५ गुचि ३ परीमह २२ जइधम्मो १० भावणा १२ चरित्ताणि ५ ।

पण ति-दुवीस दस-चार पंचमेण्हि सगयन्ना ॥

[४९६]

समिति गुप्ति पूर्वविदि जिम भणी विमहि जि जाणवी ।

सुहा १ पिगासा २ सी ३ उण्हं ४ दंसा ५ ५ चेला ६ अइ ७ तिथय ८ ।

35

चरिया ९ निसीहिया १० सिज्जा ११ अकोस १२ वह १३ जायणा १४ ॥ [४९७]

अलाभ १५ रोग १६ तणष्फासा १७ मल १८ सक्कार १९ परीसहापत्रा २० ।

अन्नाण २१ संमत्तं २२ इय वावीसं परीसहा ॥

[४९८]

यथा 'खुहा' इत्यादि । 'खुहा' भूख सह जि परीपहु तप तणइ कारणि अनेयणिय अशुद्धपिंड परिहार कारणि मुनिहिं परीसहियइं । इणि कारणि खुहा परीसहु १ । 'पिवासा' जलपान वांछा । पुणि प्रासुकजल तणइ अलाभिं मुनिहिं परिसहियइ अहियासियइ तिणि कारणि पिवासा परीसहु २ । आतापना ५ निमित्तु शीतसहनु शीत परीपहु ३ । तापसहनु उष्णपरीपहु ४ । 'वस' डांश मगसा चउरिंद्रिय जीवविशेष वंस ति उपलक्षणु । अनेराई जि के जूका मत्कुण मक्षिका पिपीलिका सुलहलादिक जीव ति पुणि जाणिवो वंसादिक जीव, जेतीवार शरीरि विलगइ तेतीवार तीहं ऊपरि द्वेप तणइ अकरणि पीडा तणइ अहियासनि तीहं जीयहं तणइ अनिवारणि भय तणइ अकरणि दंसपरिपहु जाणिवउ ५ । 'अचेल' वखसंपत्ति तणइ अभावि भाविहिं शोभादि परिहार निमित्तु जीर्णमलिनादि वखपरिधानि दैन्यभाव तणइ अकरणि आकांक्षा 10 तणइ अभावि अचेल परीपहु ६ । अरति मोहनीय कर्मोदयवसइतउ चित्तविकारु तेह तणइ निषेधि अरति परीपहु ७ ।

स्त्री तणउं परिपणु तबिरपेक्ष भावि करी रहणु ब्रह्मचर्य प्रतिपालनु स्त्री परीपहु ८ ।

चर्यां धाम नगरादिकहं अप्रतिबद्धभावि करी विहार करणु तेह नउं परिपहणु चर्या परीपहु ९ ।

नैषेधिकी स्वाध्यायभूमि शून्यगृहादिक तेह नउं परिपहणु उपसर्गभाविहिं भय तणउं अकरणु 15 नैषेधकी परीपहु १० ।

शय्या वसति तेह नउं परिपहणुं तिहां शु दुक्खु तेह तणी उपेक्षा शय्या परीपहु ११ ।

आक्रोशु दुर्वचनादिकु तेह नउं परिपहणु आक्रोश परीपहु १२ ।

व्यथु अथवा बंधु वंदादिताडनु तेह नउं परिपहणु वध परीपहु १३ ।

यात्रा भिक्षा तेह नउं परिपहणु मानवर्जनु १४ ।

अलाभु भक्तादिकहं तणी अप्राप्ति तेह नउं परिपहणु वीनताभाव तणउं अभावु १५ ।

रोगु व्याधि तेह नउं परिपहणु पीडासहनु चिकित्सापरिवर्जनु वा रोग परीपहु १६ ।

तृण वर्मादिक तीहं नउं स्पशुं तेह नउं परिपहणु । संस्तारकादिनिमित्तु तृणग्रहणु तृणस्पर्श कर्कशता सहनु स्पर्श परीपहु १७ ।

सर्वतो देहातो वा स्नामोद्धर्जनाद्विर्वर्जनु मल परीपहु १८ ।

सत्कार यस्त्रादिपूजापूर्वकु राजादिकृताभ्युत्थानादिकु तेह नउं परिपहणु तेह नइ संभविहिं 25 आत्मोत्कर्षपरिवर्जनु सत्कार परीपहु १९ ।

प्रज्ञा मति तेह नइ अभावि उद्वेग तणउं अकरणु प्रज्ञा तणइ संभविहिं हंतइ मदवर्जनु प्रज्ञा परीपहु २० ।

ज्ञानु मत्यादिकु तेह नइ अभावि उद्वेग तणउं अकरणु, विदोषता संभवि मव तणउं अकरणु, अभावि 30 क्षीणता परिवर्जनु ज्ञानपरीपहु २१ ।

सम्यक्त्वु तच्छ्रद्धानु तेह नउं परिपहणु जिनेद्रहं विपइ प्राणातिपातादि विरत शुरहं विपइं जिनेक 35 जीवावितत्त्वहं विपइ अश्रद्धानु तथा भाव तणउं अमननु तेह तणउं वर्जनु सम्यक्त्व परीपहु २२ ।

इति धावीस परीपट, आउ अनइ धावीस श्रीस ॥

खंती १ य मदव २ ऽऽजव ३ मुत्ती ४ तव ५ संजमे ६ य बोधन्वे ।

सच्चं ७ सोर्यं ८ आकिंचणं ९ च बंधं च जइधम्मो १० ॥

[४९९] ३६

ज्ञांति क्रोधोपशम १, मार्वेणु मानोपशम २, आर्वेणु मावोपशम ३, मुक्ति लोमोपशम ४, तपु प्रादशविधु ५, संजमु सत्तरभेडु ।

यथा-

पंचाश्रवाद्दविरमणं पंचेन्द्रियनिग्रहः ।

कपायजयः दण्डत्रयविरतिश्चेति संजमः^१ ॥ सप्तदशभेदः ॥

[५००]

सुगमा ६। सत्यु सद्भूतभावभाषणु ७, शोलु-संजमालिचार वर्जनु ८, आर्किचिन्नु ९, निःपरिग्रहता ९,

5 'यंशु'-त्रयचर्यु १०, इति दशविधु यतिधर्म १०.

त्रिस अनइ दस चियालीस, भावना १२ मीलनि ५२ ।

पांच चारित्र यथा-

सामाह्यज्य पठमं, छेओवद्वाचणं भवे वीर्यं ।

परिहार विसुद्धीर्यं, सुहुमं तह संपरायं च ॥

[५०१]

10 तत्तो य अहवस्त्रायं स्वायं, सध्वमि जीवलोंगांमि ।

जं चरिऊण सुविहिया, वच्चतिऽयरामरं ठाणं ॥

[५०२]

सामायिकु चारित्तु १, छेओपस्थापनकु चारित्तु २, परिहार तपोविशेषु तेह जु चारित्तु परिहार-
विशुद्धि चारित्तु ३, यथा परिहरणं परिहार तपोविशेषु तिणि जि चरदं ति परिहारविशुद्धिक कहियइं । नि
पुणि विहुं भेदे हुयइं । एकि निर्विशमानक । एकि निर्विष्टकायिक । तीहं विहुं माहि परिहार तप रहइं जि
15 आसेवक ति निर्विशमानक । जेहे पूर्वोहिं परिहार तपु आसेविउ कीधउ हुयइं ति निर्विष्टकायिक ।

तथाहि-नवकु साधु गणु हुयइ । तीहं माहि ण्कु कल्पस्थितु याचनाचार्यु थापियइ । धीजा चत्तारि
पारिहारिक निर्विशमानक हुयइं । चत्तारि निर्विष्टकायिक हुयइं ।

परिहारियाण उ नवो जहन्नु मज्झो तहेव उक्कोसो ।

सी उद्ध वासकाले भणिओ धीरेहिं पत्तेयं ॥

[५०३]

20 तीहं निर्विशमानकहीं अनइ निर्विष्टकायिकहीं तणउ तपु विविधु शीतकालि उष्णकालि वर्षाकालि ।
धीरदं तीर्थकर गणहरं कहिउ । यथा शीतकालतपु १ उष्णकालतपु २ वर्षाकालतपु एकु ण्कु त्रिविधु ।
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदइतउ हुयइ-तत्र उष्णकालतपु कहइ-

तत्थ जहन्नो गिम्हे चउत्पु छट्टं तु होइ मज्झिमओ ।

अट्टममिइ उक्कोसो इत्तो सिसिरे पवक्खामि ॥

[५०४]

25 सिसिरे उ जहन्नाइ छट्टाई ढसमु चरमगो होइ ।

वाससु अट्टमाइ वारसपज्जंतगो नेओ ॥

[५०५]

उष्णकालि-अतिरुक्षता भायइतउ चतुर्यु जघन्यु तपु, छट्टं मध्यमु तपु, अट्टमु उत्कृष्टु तपु ।

शीतकालि भीष्मइतउ किंचिव साधारणि छट्टु जघन्यु । अट्टमु मध्यमु ढसमु उत्कृष्टु ।

तथा वर्षाकालि-शीतकालि^२कन्हा अतिसाधारणि अट्टमु जघन्यु ढसमु छट्टगमु मध्यमु उत्कृष्टु ।

30 पारणगे आयामं पंचसु गहो टोसुऽभिग्रहो भिरये ।

कपट्टिया वि यइदिण करिंति एमेवायामं ॥^३

[५०६]

पारणइ उन्हाले^४ सीयाले वरसाले तीहं रइं आविलु हुयइ ।

401) 2 Note the Prakrit form in the Skt verse 3 Bb. इतकलि ही ।

4 B. drops the verse after mentioning पारणगे आदम । 5 Bb. उन्हाण्ड ।

तथा सस्पृष्टाऽसस्पृष्ट प्रथमं वि भिक्षा वर्ज्यां करी बीजा उद्धृतादिकं पाच भिक्षा तीह नउ ग्रह्णु । नियमा नियम सउ करेवउ । पुनरपि दिनि दिनि विह^१ भिक्षा तणउ अग्रह्णु अग्रह्णु करेवउ । किसउ अर्थु । पाच भिक्षा माहइतउ विउ भिक्षा लेवा तणउ अभिग्रह्णु इच्छानुसारि करिवउ । विई जि भिक्षा मइ लेवीं इसी परि तिहा ई एऊ भक्त विपइ एक पानक विपइ । एउ चउत्थादिकु परिहारकह तणउ तपु । जि पुणि कल्पस्थितादिक पाच तीह माहि एकु वाचनाचार्यु चत्तारि अनुचारिया । ति पुणि इसी ही जि परिभिक्षा^५ भिमह सहित ह्ता प्रतिदिनु आविळु करइ । इसी परि छ मास सीम तपु करी पाउइ जि पारिहारिक ति अनुचारक हुयइ छ मास सीम^१ । जि अनुचारक ति पारिहारिक हुयइ छ मास सीम । पाउइ कल्पस्थितु वाचनाचार्य छ मास सीम परिहार तपु करइ । बीजा आठ जि पारिहारिक अनुचारक ह्ता तीह माहइतउ एकु कल्पस्थितु वाचनाचार्यु हुयइ बीजा सातइ अनुचारक हुयइ मास छ सीम । इसी परि अदाररे मासे परिहारक तपु पूजइ । एउ तपु तीर्थकर कन्हइ कीजइ अथवा तीर्थकर कन्हइ जिणि कीधउ हुयइ तेह कन्हइ कीजइ । 10 सातिशयश्रुतसभनि कीजइ ३ सूक्ष्मसपरायु दसमउ गुणठाणउ ।

तऊ जु चारित्तु सूक्ष्मसपराय चारित्तु ४ यथाख्यात चारित्तु केजलज्ञानावस्थाभावि ५ ए पाच चारित्र तीह नइ मीलनि कीधइ वावन अनइ पाच सत्तावन भेद सवर तणा हुयइ ।

§402) अथ निर्जरा अनइ बधभेद लिखियइ ।

वारसविहो तवो निज्जरा य वंधो य चउधिगण्णो य ।

15

पगइ ठिइ अणुभाग एएसभेएहिं नायव्वो ॥

[५०७]

बाह्यतपभेद उ अतरगततपभेद उ ।^१ ए वारहविह निज्जरा १ प्रकृतिवधु १, स्थितिबधु २, अनुभाग बधु ३, प्रदेशबधु ४, इतिचतुर्धा बधु ।

यथा—

स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्ता स्थितिः कालावधारणम् ।

20

अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशो दलसंचयः ॥

[५०८]

जह कर्म नउ जिसउ स्वभावु सु तिसी परि वाधियइ । एउ स्वभावु ग्रहु ॥

यथा—

पठ पठिहार सि मज्जा इडि चित्तवुल्लाल भंडगारीण ।

जह एएसिं भावा कम्माण वि जाण तह भावा ॥

[५०९] 25

निर्मल इ इष्टि पठि आवरी ह्ती जिम देखइ काई नही तिम ज्ञानावरणि आवरिउ ह्तउ जीवु ज्ञानमयि ह्तो ई जाणइ काई नही । इणि कारणि पठ सद्भावु ज्ञानावरणु कर्मु १ । जिम पठिहार जट रइइ माति न मेल्लइ तेइ रइइ राजा देखणहारु ह्तउ देखइ नही तिम दर्शनावरणि करी आवरिउ ह्तउ जीवु सर्व यस्तु सामान्यज्ञानसद्भावु ह्तउ सामान्यज्ञान ररिउ हुयइ । इणि कारणि पठिहारसद्भावु दर्शनावरणु कर्मु २ । जिम मधुलित तीक्ष्ण खड्गधारा जीम करी लिहीती ह्ती पठिलउ मधुरासाददायक हुयइ पाउइ छेदाधान 30 हेतु करी कउदायक हुयइ तिम सातवेदनीय कर्मु सुगरेतु असातवेदनाय कर्मु दुम्भरेतु हुयइ तिणि कारणि मधुलितखड्गधारासद्भावु वेदनीय कर्मु ३ ।

जिम मद्यु पीधउं सचेतनावस्था फेडइ अचेतनावस्था करइ तिम मोहनीउं कर्मु जीव रहई चारित्रं
चेतना अपहरइ । अचेतना करइ तिणि कारणि मद्यपानसद्भावु मोहनीउं कर्मु ४ ।

जिम चोर हटि घातिक हटि वियोग पाखइ छूटइ नहीं तिम आयुःकर्म तणइ सद्भावि जीवु
भवांतरि जाई न सकई तिणि कारणि जिसउ हटि सद्भावु तिसउ आयुःकर्म सद्भावु ५ ।

5 जिसउ चित्रकर नउ सद्भावु तिसउ नामकर्मतणउ सद्भावु ६ ।

जिसउ कुंभकार सद्भावु तिसउ गोत्रकर्म सद्भावु ७ ।

जिसउ भंडारी तणउ सद्भावु तिसउ अंतरायकर्म तणउ सद्भावु ।

तथा च भणितं—

सरउग्गय ससिनिम्मलयरस्स जीवस्स छायाणं जमिह ।

नाणावरणं कम्मं पढोवमं होइ एवं तु ॥ [५१०]

इ निम्मला वि चक्खु पढेण फेणावि छाइया संती ।

मंदं मंदतरागं पिच्छइ सा निम्मला जइवि नाणावरणं ॥ [५११]

जह राया तह जीवो पडिहारसमं तु दंसणावरणं ।

तेणि ह विबंधणं न पिच्छए सो घडाईयं ॥ दंसणावरणं ॥ [५१२]

15 महुलित्त निसियकरवालधार जीहाइ जारिसं लिहणं ।

तारिसयं वेयणिय सुहदुह उप्पायगं मुणइ ॥ [५१३]

महुआसायण सरिसो सायावेयस्स होइ हु विवागो ।

जह असिणा तहिं छिउजइ सो उ विवागोः असायस्स ॥ वेयणीयं ॥ [५१४]

जह मउजपाणमूढो लोए पुरिसो परव सो होइ ।

20 तह मोरेण वि मूढो जीवो वि परव्वसो होइ ॥ [५१५]

मोहेइ मोहणीयं तंपि समासेण होइ दुविहं तु ।

दंसणमोहं पदमं चरित्तमोहं भवे वीर्यं ॥ [५१६]

दंसणमोहं तिविहं सम्मं मीसं च तह य मिच्छत्तं ।

सुद्धं अद्धविसुद्धं अविमुद्धं तं जहा कमसो ॥ [५१७]

25 फेवलनाणुवल्लदे जीवाइ पयत्थ सद्दे जेण ।

तं समत्तं कम्मं सिवसुह संपत्ति परिणामं ॥ [५१८]

रागं नवि जिणधम्मं नवि दोसं जाइ जस्स उदएणं ।

सो मीसस्स विवागो अंतमुहुत्तं हवइ फालं ॥ [५१९]

जिणधम्मंमि पओसं, वइइ य हियए ण जस्स ।

35 उदएणं तं मिच्छत्तं, कम्मं संकिट्ठो तस्स उ विवागो ॥ [५२०]

जं पि य चरित्त मोहं तं पि हु दुविहं समासओ होइ ।

सोलस जाण कसाया नवभेया नोकसायाणं ॥ [५२१]

- कोहो माणो माया लोभो, चञ्चरो वि हुंति चञ्चभेया ।
अण अप्पच्चक्खाणा, पच्चक्खाणा य संजलणा ॥ [५२२]
- कोहो माणो मायालोभो, पढमा अणतवंधीओ ।
एयाणुदए जीवो, इह संमत्तं न पावेइ ॥ [५२३]
- कोहो माणो माया लोभो, वीया अपच्चक्खाणाओ ।
एयाणुदए जीवो, विरयाविरयं न पावेइ ॥ [५२४] 5
- कोहो माणो माया लोभो तइया च पच्चक्खाणाओ ।
एयाणुदए जीवो, पावेइ न सब्ब विरइं तु ॥ [५२५]
- कोहो माणो माया लोभो, चरमा च हुंति संजलणा ।
एयाणुदए जीवो न लहइ अहक्खाय चारित्तं ॥ [५२६] 10
- नव नोऊसाय भणिमो, वेया तिन्नेव हास छक्के च ।
इत्थी-पुरिस-नपुंसग तेसि सरूवं इमं होइ ॥ [५२७]
- पुरिसं पइ अहिलासो, उदएणं होइ जस्स कम्मस्स ।
सो फुंफुम दाह समो इत्थी वेयस्स च विवागो ॥ [५२८]
- इत्थीए पुण उवरिं जस्सुदएणं तु रागमुप्पज्जे ।
सो तण दाह समाणो होइ त्रिवागो च पुमवेए ॥ [५२९] 15
- इत्थी पुरिसाणुवरिं, जस्सुदएणं तु रागमुप्पज्जे ।
नगर मही दाह समो, जाण विवागो अपुमवेए ॥ [५३०]
- सनिमित्त निमित्तं वा जं हासं होइ इत्थ जीवस्स ।
सो हास मोहणीयस्स होइ कम्मस्स च विवागो ॥ [५३१] 20
- सचित्ता चित्तेसु य वाहिर दब्बेसु जस्स उदएणं ।
होइ रईरइ मोहे सो च विवागो मुणेयव्वो ॥ [५३२]
- सचित्ताचित्तेसु य वाहिरदब्बेसु जस्स उदएणं ।
अरई होइ हु जीवे सो च विवागो अरइमोहे ॥ [५३३]
- भय वञ्जियंमि जीवे जस्सिह उदएण हुंति कम्मस्स ।
सत्त भयङ्गाणाइं भयमोहे सो विवागो च ॥ [५३४] 25
- सोय रहियंमि जीवे जस्सिह उदएण होइ कम्मस्स ।
अक्कंदणा इ सोगो तं जाणह सोग मोहणियं ॥ [५३५]
- दुग्गंध मल्लिणंगेसु य अन्धितर वाहिरेसु दब्बेसु ।
जेण विलीयं जीवे उप्पज्जइ सो दुग्गुच्छाओ ॥ मोहनीच ॥ [५३६] 30
- दुक्खं न देइ आउं न वि य सुइं टेइ चञ्चसु विगईसु ।
दुक्खसहाणाभारं धरेइ देइद्वियं जीवं ॥ आयुःरुम्मं ॥ [५३७]

जह चित्तयरो निम्णो अणेगस्वार्हं कुणइ स्वार्हं ।

सोहणमसोहणाइं, चुग्गामचुक्खेहिं वनेहिं ॥

[५३८]

तह नामपि य कम्मं अणेगस्वार्हं कुणइ जीवस्स ।

सोहणमसोहणाइं इद्धानिग्घाणि लोयस्स ॥ नामकम्मं ॥

[५३९]

जह इत्थं कुंभकारो पुदवीए कुणइ एरिसं रुवं ।

जं लोयाओ पूयं पावइ इह पुन्न फलसाइं ॥

[५४०]

भुंभुल्लमाइं अन्नं मुच्चिय पुदवीइ कुणइ रुवं तु ।

जं लोयाओ निदं पावइ अरुए वि मज्जंमि ॥

[५४१]

एवं कुलालसमाणं गोयं कम्मं तु होइ जीवस्स ।

उच्चा नीय विवागो जह होइ तहा निसामेह ॥

[५४२]

लोयंमि लहइ पूयं उच्चागोयं त यं होइ ।

सधणो रुवेण जूओ बुद्धीनिम्णो वि जस्स उदएणं ॥

[५४३]

अधणो बुद्धिविहीणो रुवविहीणो वि जस्स उदएणं ।

लोयंमि लहइ निदं एयं पुण होइ नीयं तु ॥ गोत्रुक्खं ॥

[५४४]

जह राया इह भंडारिण विणएण कुणइ दाणाइं ।

तेण उ पडिक्खलेणं न कुणइ सो दाणमाइंणि ॥

[५४५]

जह राया तह जीवो, भंडारी जह तहंतरायं तु ।

तेण उ वि वंधएण न कुणइ सो दाणमाइंणि ॥ अंतरायक्खं ॥

[५४६]

एउ स्वभावबंधु प्रकृतिबंधु कहियइ ।

20 जेह कर्म नी जिली स्थिति छइ सु कर्म्म तिली स्थिति करी बांधियइ एउ स्थितिबंधु कहियइ ।

जेह कर्म नउ जिलउ रसु छइ सु कर्म्म तिलइ रसि करी बांधियइ एउ अनुभाग बंधु कहियइ ।

जेह कर्म रहइ अतला कार्मण वर्गणा गृहीत पुद्गल कहिया छइ सु कर्म्म तैतले कर्म वर्गणे पुद्गले करी

बांधियइ एउ भेदबंधु कहियइ ।

इति सामान्यहिं चतुर्विध कर्मबंध तणउं स्वरूप कहिउं । विशेषइतउ कर्मग्रंथ विचार वसइतउ

25 जाणिवउं ।

इति द्वादशविध निर्जरा । चतुर्विध कर्मबंध तणउ स्वरूप भाणिउं ।

§ 403) अथ मोक्षतत्त्व तणा नव भेद लिखियइं ।

संतपय परूवणया १ दन्वपमाणं २ च खित्तफुसणा ३ य ।

फालो ४ य अंतरं ५ भाग ६ भाव ७ अप्पा ८ वहुं ९ चेव ॥

[५४७]

30 संतिपदानि सत्पदानि । ति पुणि गत्यादिक । यथा-

गइ १ इंदिए २ य काये ३ जोगे ४ वेए ५ फसाय ६ नाणे ७ य ।

संजम ८ दंसण ९ लेसा १० भवि ११ सम्भे १२ सनि १३ आहारे १४ ॥ [५४८]

तत्र गति चत्तारि—त्रैगति १, मनुष्यगति २, तिर्यग्गति ३, नरकगति ४, पंचमी मुक्तिगति ५ ।
इन्द्रिय पांच—फरसन १, रसन २, घ्राण ३, चक्षु ४, श्रवण ५, उपलक्षण तउ एकैन्द्रियजाति, वैन्द्रियजाति

चन्द्रियजाति चउरिन्द्रियजाति पंचन्द्रियजाति पुणि जाणिवी । काय छ—पृथिवीकाय १ अप्काय २ तेउकाय ३ वाउकाय ४ वनस्पतिकाय ५ द्रासकाय ६ लक्षण । जोग— मन वचन काय रूप त्रिद्धि ।

वेद—पुरुषवेद स्त्रीवेद नपुंसकवेद रूप त्रिद्धि ।

कसाय—क्रोध मान माया लोभ रूप चत्तारि ।

ज्ञान—मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्यवज्ञान केवलज्ञान लक्षण पांच तद्यथा-

आभिणिबोहीनाणं मुयनाणं चेव ओहिनाणं च ।

तह मणपज्जवनाणं केवलनाणं च पंचमयं ॥

[५४९]

आभिनिबोधिकज्ञानु मतिज्ञानु तेह तणा अट्टावीस भेद यथा-अर्थ अनह इंद्रिय रहई संबंधु एउ व्यंजनावमहु कहियइ ।

सु पुणि चउं भेदे फरस फरसनेन्द्रिय संबंधु १, रस रसनेन्द्रिय संबंधु २, घ्राणघ्राणेन्द्रिय संबंधु ३ 10 दाह्य ध्ररणेन्द्रिय संबंधु ४ । चक्षुरिन्द्रिय अनह मन विहुं रहई अर्थ सउं संबंधु हुयइ नही इणि कारणि व्यंजनावमहु चतुर्धा हुयइ । तथा च भणितं-

पुट्टं सुणेउ सइं ख्वं पुण पासई अपुट्टं तु ।

गंधं रसं च फासं च वद्धपुट्टं वियागरे ॥

[५५०]

अर्थावमहु सामान्यज्ञानु सु पुणि छ ए भेदे । पांच इंद्रिय छट्टउं मनु तीह करी अर्थ सामान्य धर्म 15 विचारणि हूंतइ ।

किंचित् रूपु । कोपि रसु, कोपि गंधु, कोपि फरसु कोपि सहु इसी परि पांचे इंद्रिये करी हुयइ । मनि करी पुणि इसी परि पांचहीं विषयहं विषइ सामान्यार्थ विचार हुयइ इति अर्थावमहु छए भेदे ।

तथा ईहा पुणि छ ए भेदे इसी टी जि परि हुयइ । नवरं ईहा' वितर्कु कहियइ । सु पुणि वितर्कु उभयकोटि फरसी हुयइ । 20

यथा किंचित् रूपु इसउ जु छइ । अर्थावमहु तेह नउं अनंतरकालि किं पुरुषरूपं किं वा स्त्रीरूपं । इसी परि 'एवं रसे गंधे फरसे सहे च' यथा—कोपि रसु एह अनंतरकालि मधुरो वा कटुको वा । इसी परि कोपि गंधु एह अनंतरकालि असुरभि वा सुरभि वा । इसी परि कोपि फरसु एह अनंतरकालि शीतो वा उष्णो वा । इसी परि कोपि सहु एह अनंतरकालि शरव संबंधी वा भेरि संबंधी वा । इसी परि पांचहीं इंद्रियं करी पंच प्रकारे ईहा हुयइ । मन एकलार्इ ररइ सविहुं विषयहं विषइ इसी परि ईहा' संभइ । इति 25 ईहा' तणा छ भेद हुयइ । तथा अपोह पुणि छए भेदे सु पुणि एक कोटि फरमी । यथा—पुरुषहीं जिनउं रूपु अथवा स्त्रीहीं जिनउं रूपु । इसी परि एवं मधुक् जु रसु अथवा कटुक जु रसु । इसी परि असुक् जु गंधु अथवा सुरा जु गंधु । इसी परि एवं शीतल जु फरसु अथवा अशीतल जु फरसु । इसी परि एवं शरस्वरु अथवा भेरिस्वरु इसी परि एवं मन एकलार्इ ररइ पांचहीं विषयहं विषइ अपोह ऊपजइ इति अपोह तणा छ भेद । एवं धारणा पुणि छए भेदे । अपोहि करी जु अर्धु निश्चित कीधउ हुयइ सु अर्धु मझा जु मन माहि 30 धरियइ स धारणा । स पुणि पांच इंद्रिय छट्टउं मनु सीं करी छए भेद हुयइ ।

इसी परि मतिज्ञान तणा अट्टावीस भेद हुयइ । अर्थावमहु ईहा अपोह धारणा ईहं चउहं तणा मयेक मयेक छ छ' भेद एवं चउयति भेद ।

चत्वारि व्यजनावमह तणा भेद इति अट्टावीस भेद ।

अर्थ श्रुतज्ञानभेद लिखियह ।

अक्षरश्रुत १, अनक्षरश्रुत २, सादिश्रुत ३, अनादिश्रुत ४, सातश्रुत ५, अनतश्रुत ६, गमिकुश्रुत ७,

अगमिकुश्रुत ८, अगप्रविष्टश्रुत ९, अनगप्रविष्टश्रुत १०, सम्यक्श्रुत ११, असम्यक्श्रुत १२, सक्षिश्रुत १३

१ असक्षिश्रुत १४ । तथा च भणित-

अक्षर सची सम्मं साईपं खलु स पञ्जवसियं च ।

गमियं अंगपविट्टं सत्त पि एए स पडिक्खवा ॥

[५५१]

तत्र अक्षर श्रवण दर्शनह करी अर्थप्रतीति निमित्तु अक्षरश्रुत १ । द्वािररूप हस्तचालनादि सज्ञा विशेष भावइतउ हकारह छहं निवारह छह इसी परि जु बुद्धिनिमित्तु सु अनक्षर श्रुत २ । सम्यक्त्वलाभा 10 नतर भावइतउ सम्यग्दृष्टि रटह ज्ञानात्मकु सादिश्रुत ३ । अज्ञानात्मकु सम्यक्त्वभ्रष्ट मिथ्यादृष्टि रटह सादि श्रुत ३ । अलवधसम्यक्त्व मिथ्यादृष्टि रटह अज्ञानात्मकु अनादिश्रुत ४ । सातु सपर्यवसितु भयह रहह केवलज्ञानानतह पर्यवसानभावइतउ स पर्यवसितुश्रुत ५ । अभव्यह रटह अपर्यवसितुश्रुत ६ । केवलज्ञान सभव तणा भावइतउ अनतश्रुत पुणि तेऊ जु ६ । अनेरह अनेरह अर्थि तेई जि जि अक्षर जिहा हुयह सु गमिकुश्रुत ७, असहदाक्षर अगमिकुश्रुत ८, आचारागादि अगप्रविष्ट ९ श्रुत । प्रकीर्णकादि अनगप्रविष्ट १० 15 श्रुत । सम्यग्दृष्टि रटह जिनप्रणीतु अथवा मिथ्यात्वि प्रणीतु सर्वु श्रुत सम्यग्श्रुत ११ । तेऊ जु मिथ्यादृष्टि रहह जिनप्रणीतु अथवा मिथ्यात्वि प्रणीतु सर्यश्रुत असम्यक्श्रुत १२ । समनस्क पचदिय रहह मन सदिह इन्द्रियह करी जनित श्रुत सक्षिश्रुत १३ । मनोरहह इन्द्रिय जनित तेऊ जु असक्षिश्रुत १४ । इति श्रुतज्ञानभेद १४ ।

अथ अयधिज्ञानभेद लिखियह ।

अवधिज्ञान छप भेदे । यथा-

20 अनुगामि लोचन जिम १ । अननुगामि स्थानस्थयीप जिम २ । अवस्थितु अप्रतिपात स्वभावु आवित्थमडल जिम ३ । लवणसमुदवेला जिम जु प्रतिपतइ सु अन्वस्थितु ४ । जु अगुलासख्येयभाग क्षेत्रविषह ऊपजी करी विशुद्धि प्रकपांनुसारि जा लोकु ता देखह पुनरपि सक्लेश वशइतउ क्षह जाइ सु हीयमानु । जिणि अलोकागत पक्क प्रदेष्टु दीउत सु क्षय न जाह ५ । जु अगुलासरयेयभागादि विषह ऊपजी करी पुनरपि वृद्धि विषह विस्तारात्मिक जाह जां लोक प्रमाण असख्यात अलोकाकादा^{१०} खड देखह सु 25 वर्द्धमानकु ६ इति अवधिज्ञान तणा छ भेद ।

मन रहह इणि करी आत्मा पयति जाणह इणि कारणि मन पर्यायज्ञानु कहियह । सु क्रजुमति विपुलमति नामह करी द्विधा हुयह । तत्र क्रजु पाथरी साक्षात्कृत अनह अनुमति जि छह अर्थ तीह नह विषह अल्पविशेष विषयता करी मुग्धमति विषय परिच्छिउत्ति जह रहह हुयह सु क्रजुमति कहियह । तेह हती इतर विपुल वहतर विषय परिच्छिउत्ति करी मति जह रहह हुयह सु विपुलमति कहियह । तत्र क्रजुमति रटह 30 अहह आगुलह करी ओउउ मनुष्यलोकु क्षेत्रइतउ विषउ । तेऊ जु मनुष्यलोकु विपुलमति रटह सपूर्ण निर्मलतह विषउ । कालइतउ एतल क्षेत्र^{११} माहि भूतभावि सक्षि मनोरूप मनोद्रव्य पत्थोपमा सरयेयभाग सीम देखह द्रव्यइतउ तेई जि मनोद्रव्य देखह । भावइतउ तीह तणा पर्याय चिंतानुगुण परिणामरूप क्रजुमति रटह विषउ ।

तेह^{१२} मन पर्यायि करी चितनीउ जु मूर्त्तु स्तंमकुंभादिक्कु वस्तु छइ सु वस्तु मन.पर्यायज्ञानी अनुमानि करी जाणइ । मन तणा पर्यायि साक्षात्कारि देखइ । इसइ परिणामि परिणत मनोद्रव्य तउ हुयइ जउ इसउं वस्तु एहे च्चितविउं हुयइ इसी परि जिम लेखाक्षर दर्शनइतउ लेखार्थ परिज्ञानु हुयइ तिम मनोद्रव्य-दर्शनइतउ चितनीयवस्तु अनुमिणइ सु इउं ब्राह्म्य अनइ आभ्यंतरु विपउं बहुतर स्फुटतर विशेष जोगि करी विपुलमति रहइं विपुलतरु जाणिवउ इति मनःपर्यायज्ञान विचारः । 5

केवलु एकु ज्ञानु केवलज्ञानु कहियइ । तेह नइ भावि छइस्य सर्वज्ञ ज्ञानदर्शन तणा अभावतउ जिम सूर्यि जगिइ अनेरा ग्रह नी प्रभा न हुयइं तिम केवलज्ञान तणइ उदइ अनेरा ज्ञान नी प्रभा न हुयइं ॥

‘उपप्लंमि अणंते नट्टमि य छाउमत्थिए नाणे’

इति घचन भावइतउ ॥ इति केवलज्ञानविचारः ।

मिध्यादृष्टि तणउं मतिज्ञानु श्रुतज्ञानु अवधिज्ञानु । 10

मत्यज्ञानु १, श्रुताज्ञानु २, विभंगवाधि ज्ञानु ३, इसी परि जिन्हइ अज्ञान कहियइं । तथा दंसण इहो^{१३} चत्तारि कहियइं : यथा-

चक्षुदर्शनु १ अचक्षुदर्शनु २ अवधिदर्शनु ३ केवलदर्शनु ४ ति पुणि कहीसिइ । एतलइ

नाणं पंचविहं तह अन्नाणातिगंति अट्ट सागारा ।

चउ दंसणमणगारा वारस जिय लक्खणोवओगा ॥ [५५२] 15

इति द्वादश संख्य जीवलक्षणोपयोग जीवतत्त्व परिज्ञानकारण पुणि प्रसंगिहिं भणिया । गतं ज्ञानद्वारं । ज्ञानप्रसंगि दर्शनद्वारं च ।

अथ संजमभेदु लिखियइं ।

संजम सामायिकादिक ५ पूर्विहिं जिम भणिया तिमहीं जि जाणिवां । संजमशब्दि करी संजमप्रतिपक्षु असंजमु पुणि देशविरतिसंजमु पुणि जाणिवउं । 20

अथ लेइया लिखियइं ।

कृष्ण नील कापोत तेजः पद्म शुक्ररूप कर्मपुद्गलोदयवशइतउ जीव रहइं स्फटिक जिम तथा परिणामतारूप छ लेइया कहियइं ॥ यथा । कृष्णलेइया १ नीललेइया २ कापोतलेइया ३ तेजोलेइया ४ पद्मलेइया ५ शुक्रलेइया ६ । तथा च भणितं -

कृष्णादि द्रव्यसाचिव्यात्परिणामो य आत्मनः । 25

स्फटिकस्येव तत्रायं लेइयाशब्दः प्रवर्त्तते ॥ [५५३]

प्रसंगिहिं लेइयाविपद उदाहरण लिखियइं ।

जइ जयुंतरुवरेगो सुपक्क फलभार नमिय साहगो ।

दिट्ठो छडिं पुरिसेहिं ते चिंती जंबु भन्खेमो ॥ [५५४]

निह पुण ते चितिको आरुहमाणण जीवसंदेहो । 30

तो छिदिऊण मूले पाडेइं ताइं भन्खेमो ॥ [५५५]

वीयाऽऽइ इदहेणं किं छिन्नेणं तरुण मर्द्धति ।

साहामहल्लच्छिदइ तइओ वेइ पसादाओ ॥ [५५६]

गुच्छे चउत्यओ पुण पंचमओ वेइ गिन्दफलाइं ।

छट्ठो वेइ पडियाइं एउंशिय खायाऽऽच्छिनुं ॥ [५५७] 35

द्विद्वं तस्सोवणओ जो वेदं एयन्धिदिमो मूले ।
सो वट्ट किन्दाए साल महल्लाड नीलाए ॥ [५५८]

द्वइ पसाहा फाऊ गुच्छे तेऊ फलाड पम्हाए ।
पडियाइं मुक्केसा अहवा अन्नं इमाऽऽहरणं ॥ [५५९]

चोरा गाम वहत्थं विणिग्गया एगु वेइ घाएइ ।
जं पासइ तं सच्चं दुपयं च चउप्पयं वावि ॥ [५६०]

बीओ माणुस पुरिसेय तइयओ साइहे चउत्थोय ।
पंचमओ जुज्जेते छट्ठो पुण तत्थिमं भणइ ॥ [५६१]

इक्कंता हरइ धणं वीयं मारेह मा कुणइ एयं ।
केवल हरइ धणं ता उवसंहारो इमो तेसिं ॥ [५६२]

सच्चे मारेहत्ती वट्ट सो किन्हा लेस परिणामो ।
एवं कमेणं सेसा जा चरमो सुक्कलेसाए ॥ [५६३]

गतं लेश्याद्वारम् । अथ भव्यस्वरूपु लिखियइ ।

भव्यु सिद्धिगति योग्यु जीवु कहियइ । तथा भव्य प्रतिपक्षु अभव्यु पुणि ईहां भव्यशब्दि करी
15 जाणिवउ । गतं भव्याभव्यद्वारम् ।

सम्यग्जीवु कहियइ तेह नउ भावु मोक्षाविरोधीं प्रशस्तु परिणामु सम्यक्त्वु कहियइ । सु
पुणि आत्मधर्मु सु पुणि त्रिविधु ।

औपशमिक, क्षायौपशमिक, क्षायिक, भेदइतउ ।

तेह ना प्रतिपक्ष मिश्र सासादन पुणि जाणिवा । गतं सम्यक्त्वद्वारम् ।

20 संज्ञी प्राग् भणित स्वरूपु । तेह नउ प्रतिपक्षु असंज्ञी पुणि जाणिवउ ॥ गतं संज्ञीद्वारम् ।
अथ आहारक द्वारु कहियइ ।

ओजो लोम प्रक्षेपरूपु आहार जु आहारइ सु आहारइ । तेह नउ प्रतिपक्षु अनाहारकु पुण
जाणिवउ । उक्तं च -

विग्गहाइमावन्ना केवलिणो समुहया अजोगी य ।
25 सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारगा जीवा ॥ [५६४]

विग्रहगति । वक्रगति ष्ठ तेह प्राप्त विग्रहगतिमापन्न जीय कहियइ । ति मध्यम समय सीम
अनाहारक हुयइं । केवलिणो समुहया इति । समुद्घातु कर्म समाकरण निमित्तु केवली करइ । यथा -

यस्स पुनः केवलिनः कर्म भवत्यायुपोतिरिक्ततरम् ।
स समुद्घातं भगवान्ज्य गच्छति तत्समीरुत्तुम् ॥ [५६५]

30 दण्डं प्रथमे समये कपाटमथ चोचरे तथा ।
समये मंधानमथ तृतीये लोक्क्यापी चतुर्थे तु ॥ [५६६]

संहरति पंचमे त्वंतराणि मंधानमथ पुनः पष्ठे ।
सप्तमे तु कपाटं संहरति ततोष्टमे दण्डम् ॥ [५६७]

औदारिक प्रयोक्ता प्रथमाष्टमसमपयो रसाविष्टः ।

मिश्रौदारिक योक्ता सप्तमपष्टद्वितीयेषु ॥

[५६८]

कार्मण शरीर योगी, चतुर्थके पञ्चमे तृतीये च ।

समयत्रयेषु तस्मिन् भवत्यनाहारको नियमात् ॥

[५६९]

तिणि कारणि त्रिन्दि समय सीम समुद्धात गत केवली अनाहारक । तथा अयोगी चऊदमइ ५
गुणठाणइ वर्त्तमानु साधु कहियइ सु पुण अनाहारकु । तथा 'सिद्धा य अणाहारा' सिद्धमोक्षगत जीव
पुण अनाहारक कहियइ । 'सेसा आहारंगा जीवा' इति । ईहं चउं हूता बीजा जीव सर्वइ आहारक
कहियइ । गतं आहारकद्वारम् ।

ए गत्यादिक चऊद संतपद कहियइ ।

ईह माह चउं संतपदे सिद्ध लाभइ । दसे संतपदे सिद्ध न लाभइ । तथा च मणितं - 10

तत्थ य सिद्धा पंचमगइइ नाणे य दंसणे सम्भे ।

संति त्ति सेसपसुं पपसु सिद्धे निसेहिजा ॥

[५७०]

यथा - पंचमगतिइं सिद्ध लाभइ १ । केवलज्ञानि सिद्ध लाभइ २ । केवलदर्शनि सिद्ध लाभइ
३ । क्षायिकि सम्यक्त्व सिद्ध लाभइ ४ ।

'सेस पपसु निसेहिजा' इति सिद्ध अर्णिद्रिय हुयइं तिणि कारणि इंद्रियसंतपदि सिद्ध न¹⁵
लाभइ १ । सिद्ध असरीर हुयइं तिणि कारणि कायसंतपदि सिद्ध न लाभइ २ । सिद्ध अयोगी हुयइं
तिणि कारणि योगसंतपदि सिद्ध न लाभइ ३ । सिद्ध अवेद हुयइ तिणि कारणि वेदसंतपदि सिद्ध न
लाभइ ४ । सिद्ध अकपाय हुयइं तिणि कारणि कपायसंतपदि सिद्ध न लाभइ ५ । सिद्ध क्रियायोगरहित
हुयइं संयमु पुण क्रियारूपु तिणि कारणि संयमसंतपदि सिद्ध न लाभइ ६ । सिद्ध अलेश्य हुयइं तिणि
कारणि लेश्यासंतपदि सिद्ध न लाभइ ७ । अमद्य सिद्ध कदाकालिहिं न¹⁵ हुयइं तथा स्वभावइतउ 20
मद्य मुक्ति जायणहार जीव कहियइं, तिणि कारणि मद्यामद्यसंतपदि सिद्ध न लाभइ ८ । सिद्ध न
संज्ञी न असंज्ञी तिणि कारणि संज्ञि असंज्ञिसंतपदि सिद्ध न लाभइ ९ । सिद्ध अनाहारक तिणि
कारणि आहारकसंतपदि सिद्ध न लाभइ १० । इसी परि सत्पदमरूपणालक्षण पहिलउ मोक्षतत्त्वभेदु १ ।

§404) द्रव्य प्रमाणमिति ।

जेह मुक्तजीव नउं जेयठउं पूर्वमवि चरमु देहु हुयइ तेह तणइ श्रीजइ भागि करी माउउं जीव 20
द्रव्यप्रमाण सिद्धिसेनि हुयइ । अथवा -

जत्थ य पणो सिद्धो तत्थ अणंता भवस्वय विमुक्का ।

अनुन्न समोगादा चिद्वंति तहिं सयाकालं ॥

[५७१]

इसा आगमवचन इतउ अणुं एक एक सिद्ध द्रव्यप्रमाण इति श्रीजउ मोक्षतत्त्वभेदु २ ।

§405) 'गिरत फुसणे' ति । जेतलउ सिद्धायगाहनायगाडु आकाशु अनइ जेतलउ तेह 30
सिद्धायगाहना पारतिषां हगु आकाशु संतला सगलाई होउ तणी फरसना सिद्ध रहइं । अथवा
लोकाकाश तणइ असंख्यातमइ भागि एक सिद्ध राई फरसना छइ । अनइ सर्व सिद्धक्षेत्रगत सिद्ध पुण
लोकाकाश तणइ असंख्यातमइ भागि अवगाड छइ । जेवटउं सिद्धसेनु मगइं छइ तेयटा वंड लोकाकाश
तणा पुण असंख्यात वंड हुयइं । अनइ एक सिद्धायगाहनायगाड आकाशावंडप्रमाण पुण लोकाकाश-
तणा असंख्यातवंड हुयइं । विदेषु पुण एतलउं एक वंड मोटा बीजा वंड मोटा नहिं । मंग्या करी 33

गणाईं नहीं वे तिणि कारणि असंख्यात तिणि कारणि एकही सिद्ध रहईं लोकाकाश असंख्यातभाग फरसना । अनईं सर्व सिद्धहं रहईं पुण लोकाकाश असंख्यातभाग फरसना ॥

इति क्षेत्रस्पर्शानारूपु व्रीजउ मोक्षतत्त्वभेदु ३ ।

§406) 'कालो य' इति ।

5 एक सिद्ध नी अपेक्षा करी सादि अपर्यवसितु कालु सिद्ध तणउ छइ । सर्व सिद्ध नी अपेक्षा करी अनादि अपर्यवसितु कालु सिद्धहं तणउ छइ । नहि सु को कालु छइ जिणि सिद्ध नथी सिद्धगति रहईं अनादिता भावइतउ । इति कालरूपु । चउथउ मोक्षतत्त्वु भेदु ४ ।

§407) अंतरमिति । पंचतालीस लक्षयोजनप्रमाण मंडलाकाराऽयामविक्रलंभ एक योजन चउवीसां सप्रमाणपिंड सिद्धक्षेत्र माहि सर्वत्र सिद्धावगाहना भावइतउ सिद्धहं रहईं परस्परईं अंतर 10 नथी । इति अंतररूपु मोक्षतत्त्वु भेदु पांचमउ ५ ।

§408) भागेति ।

चइह अणंता जीवा उपरि ज्वरि अणंतगुणियाओ ।
अभविय सिद्धा भविया जाईंभव्या चइत्याओ ॥

[५७२]

इसा वचनइतउ चउं भेदे अणंतजीव उपरि उपरि अणंतगुणित हुयईं । यथा अभव्य अणंत 15 सिद्ध अणंत भव्य अणंत जातिभव्य अणंत तत्र अभव्यस्तोक । किसउ अर्थु जघन्ययुक्तानंतकामिधान चतुर्यअनंतसंख्या भेद समान । तथा च भणितं -

'थोवा जइह जुत्ताणं तय तुहा य ते अभव्य जिथा' इति ।

तीहूं कन्हा सिद्ध अनंतगुण । तीहूं कन्हा भव्य अनंतगुण छईं । सि पुण निर्वाणगमन योग्य 20 जीव कहियईं । तीहूं कन्हा जातिगुण भव्य अनंतगुण छईं । ति पुण जाति करी भव्य छईं मुक्ति'पुण कदाकालिहिं नहीं जाईं । तथा च भणितं -

सामग्गि अभावाओ ववहारियरासि अप्पवेसाओ ।
भव्वावि ते अणंता जे मुत्तिमुहं न पाविंति ॥

[५७३]

जइ मुक्तिईं नहीं जाईं तउ भव्य किम कहियईं । मुक्तिगामियाईं जि रहईं भव्यता भणनइतउ । 25 जिम मलयाचलगत सार चंदनदारु संभार ईहां आवईं सूत्रधार हाथि चडईं तउ तीहूं हुंती जिनप्रतिमा घडईं, न ईहां ति आवईं न प्रतिमा घडईं, पुण योग्यता लगी तिहां ईं जि छता ति चंदन संभार जिनप्रतिमाईं कहियईं । तिम जातिभव्य पुण जइ ईहां व्यवहाररादि माहि आवईं सुगुरु समायोगु लहईं तउ ति पुणि मुक्तिईं जाईं न ईहां व्यवहाररादि माहि आवईं न गुर्वादि सामग्री लहईं न ति मुक्ति' जाईं । किंतु अव्यवहारराशि माहि अनादिअनंतकाल लगी छताईं योग्यताईं जि लगी भव्य कहियईं । तिणि कारणि भव्यहं अनईं जातिभव्यहं तणइ अनंतमद भागि सिद्ध छईं । इति भागरूपु 30 छट्टउ मोक्षतत्त्वभेदु ६ । अथवा

जइया पुन्छा होठी जिणिंद समयंमि उत्तरं तइया ।
एगस्स निगोयस्स य अणंताभागो न सिद्धिगओ ॥

[५७४]

इसा वचनइतउ एक निगोइ जीवहं तणइ अनंतमद भागि सिद्ध छईं इति भागरूपु छट्टउ 5 मोक्षतत्त्वभेदु ६ ।

§409) भावेति क्षायिक पारिणामिक लक्षणह विहुं भावहं वर्तमान सिद्ध छईं । 'मुक्करो 6 कम्माभावो', इसा वचनइतउ सिद्धहं रहईं कर्मतणु अभावुछइ । तउ पाउइ कर्मोदधि करी निष्पन्न औदायिकु भावु कहियईं ।

कर्मक्षयोपशमि करी निष्पन्न क्षायोपशमिकु भावु कहियइ । कर्मोपशमि करी निष्पन्न औपशमिकु भावु कहियइ । सानिपातिकु भावु औदायिकादिभाव संनिपातरूप कहियइ । तिणि कारणि तीहें चउहें तणउं अभावु मुक्तहं रहइं । इति भावरूप सातमउ मोक्षतत्त्वभेदु ७ ।

§ 410) 'अप्पा बहुं' ति ।

जि मनुष्यगति हुंतां मनुष्यगतिई आगी सिद्धिई गया ति अनंतरसिद्ध कहियइं । मनुष्यगति 5 रहइं मनुष्यगति करी अंतर तणा अभावइतउ ।

जि तिर्यचगति नरकगति देवगति हूतां मनुष्यगति आगी सिद्धिई जाई ति परंपरासिद्ध कहियइं । तिर्यचादि गति रहइं मनुष्यगति करी व्यवधानइतउ परंपरता भावइतउ । तत्र अनंतरसिद्ध थोडा तीहें कन्हा परंपरासिद्ध असंख्यातगुण इति । सिद्धहं तणउ अल्पत्व स्वरूप आठमउ मोक्षतत्त्वभेदु ८ ।

बहुत्वरूप नवमउ मोक्षतत्त्वभेदु संक्षेपिहि जाणिवउ । 10

§ 411) विस्तरइतउ पुण अल्पबहुत्व वक्तव्यता सिद्धहं तणी अनेके प्रकारे सांभलियइ ।

यथा -

खित्ते १ काले २ गति ३ लिंग ४ तित्थ ५ चारित्त ६ बुद्ध ७ नाणाईं ८ ।

अवगाहं ९ तर १० संखा ११ अप्पबहुत्तं च सिद्धाणां ॥ [५७५]

इसा वचनइतउ पूर्वावस्थ क्षेत्र विपइ १, पूर्वावस्थ काल विपइ २, पूर्वावस्थ गति विपइ ३, 15 पूर्वावस्थ लिंग विपइ ४, पूर्वावस्थ तीर्थ विपइ ५, पूर्वावस्थ चारित्र विपइ ६, पूर्वावस्थ बुद्ध विपइ ७, पूर्वावस्थ ज्ञान विपइ ८, पूर्वावस्थ अवगाहना विपइ ९, पूर्वावस्थ अंतर विपइ १०, पूर्वावस्थ संख्या विपइ ११ सिद्धहं रहइं अल्पबहुत्व भावना कहिवी । ५ ।

§ 412) अथ पहिलउं क्षेत्र विपइ कहियइ ।

मनुष्यक्षेत्रहीं जि हंती मुक्ति हुयइ । तत्रापि एकि संहरण वदाइतउ स्वक्षेत्रइतउ परक्षेत्रि 20 वर्त्तमान मुक्तिई जाई एकि स्वक्षेत्रिहिं जि वर्त्तमान मुक्तिई जाई । तथा एकि ऊर्ध्व गिरि मस्तकादि वर्त्तमान मुक्तिई जाई । एकि हेठइ गिरि विवर कूप कुहरादिकि स्थानि वर्त्तमान मुक्तिई जाई । तथा तिर्यग् एकि समुद्रि जायता मुक्तिई जाई । एकि द्वीपि जायता मुक्तिई जाई । तउ संहरण करी परक्षेत्रसिद्ध थोडा ।

स्वजनमोपलक्षित क्षेत्रसिद्ध तीहें कन्हा असंख्यातगुण । तथा ऊर्ध्व सिद्ध थोडा तीहें कन्हा 25 असंख्यातगुण अधः सिद्ध । तथा तिर्यक् समुद्रसिद्ध थोडा तीहें कन्हा द्वीपसिद्ध असंख्यातगुण ।

इति क्षेत्रविपइ सिद्धहं तणी अल्पबहुत्वभावना भणी ।

§ 413) अथ कालविपइ कहियइ ।

उत्सर्पिणि ओसर्पिणि कालो भरहाइ दसगु खित्तेमु ।

अनुभयरूपो कालो सेसम्मि य मणुयखित्तंमि ॥ [५७६] 30

इसा वचनइतउ । एकु उत्सर्पिणी कालु । एकु अवसर्पिणी कालु । एकु अनुभयरूप कालु । तत्र भरतादिकहं दसहं क्षेत्रहं उत्सर्पिणी अवसर्पिणी लक्षाणु उभयरूप कालु वर्त्तद । सेस मनुष्यक्षेत्र महाविदेह पंचकादिक माहि अनुभयरूप कालु वर्त्तद ।

तत्रापि एकि उत्सर्पिणी सिद्ध । एकि अवसर्पिणी सिद्ध एकि अनुभयसिद्ध । तत्र उत्सर्पिणी सिद्ध थोडा । तीहें कन्हा अवसर्पिणी सिद्ध विशेषाधिक । तीहें कन्हा अनुभयसिद्ध अमन्यता गुण । 35

इति कालविपइ सिद्ध नी अल्पबहुत्व भावना भणी ।

§ 414) अथ गति विपइ भणियइ ।

मनुष्यगतिइ जि अनंतरमुक्तिगति रहई कारण परंपरा करी तिर्यचगति नरकगति देवगति पुण मुक्तिगति रहई कारण छई । तत्र तिर्यचगति हुंता उद्धृतसिद्ध थोडा तीहं कन्हा त्रिन्हि नरकगति उद्धृत-मनुष्यगति उद्धृतदेवगति उद्धृतसिद्ध संख्यात गुण ।

इति गतिविषइ सिद्ध नी अल्पबहुत्व भावना भणी ।

§415) अथ लिंग विषइ अल्पबहुत्वभावना कहियइ ।

ईहां नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग पुरुषलिंग लक्षण लिंग लीजई । तथा । निजलिंग अन्यलिंग गृह-लिंग लक्षण द्रव्यलिंग तथा भावपूर्व स्वलिंग लक्षण भावलिंगु पुण लीजइ ।

तत्र नपुंसकलिंग सिद्ध थोडा तीहं कन्हा स्त्रीलिंगसिद्ध असंख्यातगुण । तीहं कन्हा पुरुष-लिंग सिद्ध असंख्यातगुण । तथा द्रव्यलिंग सिद्ध थोडा तीहं कन्हा भावलिंगसिद्ध असंख्यात गुण ॥

इति लिंग विषइ सिद्धहं तणी अल्पबहुत्वभावना भणी ॥

§416) अथ तीर्थ विषइ कहियइ ।

तत्र एकि तीर्थसिद्ध हुयइ । एकि अतीर्थ सिद्ध हुयइ । तत्र अतीर्थ सिद्ध थोडा तीहं कन्हा तीर्थसिद्ध असंख्यातगुण ।

इति तीर्थ विषइ सिद्ध नी अल्पबहुत्व भावना भणी ।

§417) अथ चारित्र विषइ कहियइ ।

जेहे सामाइकच्छेदोपस्थापनक परिहारविशुद्धि मूझसंपराय यथाग्यात नामक पांच चारित्र फरसियां हुयइ पूर्वावस्थाकालिति 'फासिय पंच चरित्तसिद्ध' कहियइ । तथा जेहे पहिलउं चारित्तु फरसिउं न हुयइ बीजां चत्तारि चारित्त फरसियां पूर्वावस्था हुयइ ति अपदम चरणसिद्ध कहियइ । तथा बीजउं परिहार नामक चारित्तु फरसिउं नहीं बीजां चत्तारि चारित्त पूर्वावस्थां जेहे फरसियां ति अतृतीय चरणसिद्ध कहियइ । तथा बीजउं छेदोपरस्थान चारित्तु न फरसिउं बीजां चत्तारि चारित्र 20 जेहे फरसियां पूर्वावस्थां ति द्वितीयवर्ज चरणसिद्ध कहियइ । तत्र 'फासिय पंच चरित्त सिद्ध' थोडा तीहं कन्हा 'अपदमचरणसिद्ध' संख्यातगुण । तीहं कन्हा अतृतीयचरणसिद्ध संख्यातगुण । तीहं कन्हा सामायिक परिहारवर्ज चरणसिद्ध संख्यातगुण । तीहं कन्हा द्वितीयवर्ज सेत चरणसिद्ध संख्यातगुण ।

इति चारित्र विषइ सिद्ध नी अल्पबहुत्व भावना भणी ।

§418) अथ बुद्ध विषइ कहियइ ।

तत्र एकि स्वयंबुद्ध हुयइ । एकि बुद्धबोधित हुयइ । तत्र प्रत्येकबुद्ध सिद्ध थोडा । तीहं कन्हा बुद्धबोधित सिद्ध असंख्यातगुण ।

इति बुद्धविषइ सिद्ध नी अल्पबहुत्व भावना भणी ।

§419) अथ ज्ञान विषइ कहियइ ।

तत्र पहिलो मतिज्ञान धृतज्ञान लक्षण वि ज्ञान पूर्वावस्थाकालि जीहं रहई हयां ति द्विज्ञान सिद्ध । तथा मतिज्ञान धृतज्ञान अवधिज्ञान लक्षण त्रिन्हि ज्ञान जीहं रहई पूर्वहिहं हयां ति त्रिज्ञान सिद्ध ।

तथा मति धृत अवधि मनःपर्यायज्ञानलक्षण चत्तारि ज्ञान जीहं रहई पूर्वहिहं हयां ति चतुर्ज्ञान सिद्ध । जीहं रहई मति धृत अवधि मनःपर्याय केवलज्ञान नामक पांच ज्ञान हयां नि पंचज्ञान सिद्ध ।

तत्र द्विज्ञान त्रिज्ञान चतुर्ज्ञान सिद्ध थोडा । तीहं कन्हा पंचज्ञान सिद्ध अमंग्यातगुण । इति 20 ज विषइ अल्पबहुत्वभावना सिद्ध नी भणी ।

§420) अथ अयगाहना विषइ कहियइ ।

तत्र जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदरतउ त्रिविध अयगाहना शरीर हुयइ । तत्र मनइमनमान पन्यायगाहना । तेह ऊपरि उत्कृष्ट हेटी ज हुयइ स मध्यमायगाहना । पंचज्ञान धनुष्कमान उत्कृष्ट

अवगाहना । जु पुण कुर्मापुत्तु एकहस्तावगाहनु सिद्धउ श्रीमरुदेवास्वामि नी पांचसय पंचवीसा धनुर्मान तनु सिद्धा सांभलियइ सु आश्चर्यु इसउं जाणिवउं । जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अवगाहनामानु पूर्ण भणित् जु सांभलियइ । तत्र जघन्यावगाहना सिद्ध थोडा । तीहं कन्हा बीजा वि उत्कृष्टावगाहना सिद्ध मध्यमावगाहना सिद्ध, असंख्यातगुण ।

इति अवगाहना विषइ अल्पबहुत्व भावना सिद्ध संबंधिनी भणी ।

§421) अथ संख्या विषइ कहियइ ।

वचीसा १ अडयाला २ सट्टी ३ वावत्तरी ४ य वोधव्वा ।

चुलसीइ ५ छन्नइइ ६ दुराहिय ७ अट्टुत्तर सयं ८ च ॥

अट्टु १ य सत्त २ य छ ३ पंच ४ चेव चत्तारि ५ तिन्रि ६ दो ७ इकं ॥ [५७७]

इसा वचनइतउ । वत्रीस वत्रीस एक निरंतर^१ उत्कर्षपदि आठसमय सीम सिद्धइ जाइं एवं^{१०} सात समय सीम अठितालीस अठितालीस निरंतर सिद्धिइ जाइं । साठि साठि छ समय सीम निरंतर सिद्धिइ जाइं । बहत्तारि बहत्तारि पांच समय सीम निरंतर सिद्धिइ जाइं । चउरासी चउरासी चत्तारि समय सीम निरंतर सिद्धिइ जाइं । छन्नंवाइ छन्नंवाइ त्रिन्ह समय सीम निरंतर सिद्धिइ जाइं । बिडो-त्तरसउ विडोत्तरसउ वि समय सीम निरंतर सिद्धिइ जाइं । उत्कर्षपदि सगले जाणिवउं तथा अठोत्तर सउ उत्कर्षपदि एक जु समउ सिद्धिइ जाइं ।

§422) निरंतरं । अंतर उवारिंति । तज पाछइ निश्चइसउं अंतर हुयइ । सु जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भावइतउ त्रिविधु हुयइ ।

तत्र जघन्यु अंतरु एकु समउ वि समयदि एक समय ऊन छ मास सीम मध्यसु अंतरु छ मास उत्कृष्ट अंतरु ।

§423) तत्र जघन्यपदि एक समइ एकु सिद्धिइ जाइं उत्कर्षपदि अठोत्तरसउ सिद्धिइ जाइं ।^{२०} मध्यमपदि वि आदि धरी सत्तोत्तर सय सीम एक समइ सिद्धिइ जाइं इत्येवं रूप संख्या ॥

§424) तत्र अट्टुसमय सिद्ध थोडा । तज पाछइ क्रमि करी सत्त समयदिक सिद्ध । संख्यात-गुण । तथा एकसमय अठोत्तर सय सिद्ध थोडा । तउ पाछइ एकैक हानि करी सत्तोत्तर सयादिक मध्यमपद एकसमयसिद्ध क्रमि करी एकसमय पंचाससिद्ध सीम अनंतगुण अनंतगुण जाणिवा । तउ पाछइ क्रमि करी एकैक हानि करी इगुणपंचासादिक मध्यमपदैकसमयसिद्ध असंख्यातगुण तां जाणियां^{२५} जां पंचवीससंख्य मध्यमपदैक समयसिद्ध । तउ पाछइ क्रमि करी एकैक हानि करी चउवीसादि मध्यम पदैकसमयसिद्ध संख्यातगुण तां जाणिवा जां एक समयभावि एकैक सिद्ध ।

इति संख्याविषइ सिद्ध संबंधिनी अल्पबहुत्वभावना भणी । इसीपरि ए वक्तव्यता नयांगवृत्तिकार श्री अभयदेवमूरिकृत गाथावंधानुसारि करी मुग्धजनावबोध कारणि विस्तरि करी लिखी ।

इति नवविधु मोक्षतरु भणितं ।

जीवाइ नवपयत्थे जो जाणइ तस्स होइ सम्मत्तं ।

भावेण सइहंते अजाणमाणेनि सम्मत्तं ॥

[५७८]

सच्चाई जिणेसर भासियाइ वयणाउं न अन्नहा हुंति ।

इय शुद्धि जस्स मणे सम्मत्तं निचलं तस्स ॥

[५७९] ३५

§ 420) 1 Bh. has another sentence, it seems to be a correction : ए अवगाहना तीर्थकरइ नी जघन्य उत्कृष्ट जाणिवी । बीजा सामान्य जीवइ नी भोजी अधिक पुणि होइ त्रिणि कारणि द्मर्षितु अट्टगुणधिक एक हस्तावगाहनु सिद्धउ श्रीमरुदेवास्वामि नी पांच सय पंचवीसा धनुर्मान तनु पिदा सांभलियइ ।

§421) 1. Bh. adds सिद्धिइ जाइ ।

अंतोमुहुत्त मित्तंपि फासियं जेहिं हृज्ज सम्मत्तं ।
तेसिं अवड्ढु पुग्गल परंतो होउ संसारो ॥

[५८०]

॥ समाप्तं नवतत्त्वविवरणम् ॥

§425) तेह सम्यक्त्वगुण रहइं आधिर्भावकु श्री नरवर्म महाराज कथानकु लिखियइ ॥

० ईही जि जंबूद्वीप^१ माहि भरतक्षेत्र माहि मगध नामि जनपदु छइ । तिहां विजयवती नामि नगरी । तिहां नरवर्मु नामि राजा । रतिसुंदरी नामि पद्ममहादेवी हुंती । हरिदत्तु नामि पुत्रु हुंतउ । मति-सागरादिक अनेक^२ महामात्य हुंता । अनेरइ दिवसि राजेंद्र आगइ सभा माहि धर्मविचारविषयी आलापु नीपनउ । तत्र एकि कहिउं धर्मुं दाक्षिण्यौदार्यादिकहं गुणहं^३ करी हुयइ । तथा परोपकारइतउ लोक-विरुद्ध त्यागइतउ पुणि धर्मुं हुयइ । बीजइं कहिउं वेदोक्तु अग्निहोत्रादिकु धर्मुं । बीजइं कहिउं कुलकमागतु १० धर्मुं । चउथइं कहिउं धर्माधर्म प्रत्यक्ष प्रमाण करी गगनारविंद जिम दीसइं नही इणि कारणि नथी । इसी परि सम्य धर्मविवाडु करता देखी करी विवेकयंतु नरवर्मु राजा मन माहि चींतवइ । दाक्षिण्यादिकहं गुणहं करी तां धर्मुं न होइ । ति दाक्षिण्यादिक गुण पुरुषव्रतु । वेदोक्तु पुणि धर्मुं नही । हिंसादोष वृषितत्त्वइतउ । क्रमागतु पुणि धर्मुं नही । इसी परि कुण^४ रहइं धर्मुं न हुयइं ।

§426) नास्तिकवचनु जगज्जत सुखदुःखपादिदर्शन भावइतउ घटइ नहीं । सर्वदोषरहितु शुद्ध-
१५ फनक जिम किसउ धर्मुं हुयइ । इसउं मन माहि जेतलइ नरवर्मु राजा चींतवइ तेतलइ पडिहाक राजा रहइं वीनवइ । 'देव ! महाराज ! तम्हारउ^५ बालमिचु मदनदत्तु चिरागतु झारवेसि वत्तइ' । राजादेसइ-
तउ मदनदत्तु माहि भेलिइउ । राजेंद्रि समाहित सन्मानवहुमान पूर्वकु पृष्ठिउ । 'मित्र ! एतलउ कालु किहां थाकउ ? किसउं उपाजिउं ?' सु पुणि राजा रहइं प्रणामु करी वीनवइ । 'महाराज अनेकि अनेकि देस अनेकि अनेकि आश्रयं दीठां । प्रभतु धनु उपाजिउं एउ नक्षत्रश्रेणि-सहोदर एकावली हारु, महाराज !
२० मइं लाधउ । राजा भणइ, 'मित्र एए हार नउ लाभु मू आगइ आमूलचुलु कहि' । सु कहइ "महाराज ! तदाकालि हउं पुर^६ हुंतउ नीसरिउ । प्रभतु देगांतर भमतउ हुंतउ ह्रुपदिकाटयी माहि गयउ । हुपाकांतु तेह माहि ओरएउ परएउ घणउं भमिउ । तिहां फिरतइ हुंतइ गुणधरमुरि नामि आचार्यु भेटिउ । तेह मत्तामा^७ आगइ एकावली हार सारालंकार धारखु देवु एकु देवी सरितु मत्तामा तणा भुए हुंतउ धर्मुं जिनप्रणीतु सामलतउ मइं दीठउ । हउं पुणि वादी करी तिहां बइठउ । मू रहइं पुणि
२५ धर्मुं सांभलता तुस सर्वथा नाठी । आपणा बाधय जिम मू देखता हुंता तेह देव रहइं मू ऊपरि मर्तात प्राति उल्लसी । तउ पाउइ तिणि देवि महात्मा पृठिउ 'मू रहइं एए ऊपरि किसा कारण लगि स्नेह तणउ अतिदाउ' । 'महात्मा भणइ-^८ एए भय तउ पूयं भयि कौनाबी नगरी माहि जयराजेंद्र तणा तुम्हे विजय वेजयंत नामहं करी प्रमिद्ध पुत्र हुता । तुम्हारी माता देवजोगइतउ परलोकि गईं । धात्री प्रति पालीता हुंता तुम्हे यौवन प्राप्त हया । जयराजेंद्र तुम्ह रहइं यौवराज्यपदु देणहाक जाणी करी
३० उद्यानवनि^९ क्रीडा करिया गया हुंता मता नी मउकि विसु दिगारिउं । तदा कालि तिहां अशोकतम^{१०} तलि दियाकरु मुनि गरुडोपपाताध्ययनु गुणतउ हुंतउ । तेह नइ प्रभायि तिहां सुगठेद्रु^{११} आयिउ । महामुनि तेह रहइं मेवापरायणु हुयउ । गरुडेद्रु^{१२} तणा प्रभावइतउ तुम्ह रहइं विषमू यिपु प्रभविउं^{१३} नहीं । गरुडराजु तेह मुनि रहइं प्रणामी करी^{१४} महामु हुंतउ गरुडोपपाताध्ययनु^{१५} सांभलिया लागउ । त्रिपापातर प्रभावइतउ विस्मित चित्त हुंता तुम्हे पुणि तेह मुनि रहइ प्रणामी करी^{१६} आगइ आ गी^{१७} बइठा ।
१ गरुडेद्रि कहिउं । 'जइ दियाकरु मुनियरु ईहा न होयतइ तउ^{१८} तुम्हे^{१९} मूया हउत । तिणि कारणि एउ

§ 425) 1 Bh जंबूद्वीप । 2 Bh अनेकि । 3 B. P omitt. 4 P इन्द्र ।

§ 426) 1 Bh दुन्दुभइ । 2 B. Lh पुत्र । 3 P भमतउ । 4 Lh मत्तामा । 5 P अतिवइ । 6 P देवयोगतउ । 7 P omitt-न- । 8 B omitt-न- । 9 B. P गरुडेद्रु । 10 Ph मूवेइ । 11 P विषम विपु प्रभावइत । 12 Bh गरुडो- । 13 Lh drops words between प्रभायि वरि । 14 Lh omitt । 15 P omitt words between आगइ आगइ तुम्हे ।

महात्मा तुम्ह रहई जीवितव्य दाता मातापिता समानु । एह महात्मा तणी भलिपरि सेव करिजिउ ।
इसउ मणी करी गरुडेउ आपणइ थानकि पहुतउ ।

§427) तुम्हे पुणि ज्ञाततत्त्व तेह मुनि कन्हइ सजसु ले करी डुप्कर तप नियमपर हया । तुम्ह
माह ज्येपु मरी करी प्रथमि देवलोकि विद्युत्प्रभाभिधानु देवु हयउ । तउ लहुडउ प्रियुत्सुदरु नामि तिहा
जि देवु हयउ । तिहा हुतउ वडउ भाई चवी करी विजयवती नगरी माहि भवणदन्तु नामि नरवसुं⁵ राजेंद्र
नउ मित्तु वाणिग्या नउ पुत्तु हयउ । सु पुणि इउ धनकारणि फिरतउ¹ हिण्डा तह दीठउ । तिणि कारणि
पूर्वभवाम्यास वसइतउ तू रहइ² एउ विपइ स्नेहातिसउ । इसउ सामली करी तिणि देवि एउ एकावली
हार मू रहइ दीधउ । महात्मा पूछिउ 'मू रहइ निद्रादिक अपलक्षण किसइ कारणि ?' महात्मा कहिउ,
'तू रहइ मरणु हकडउ वचई ।' तिणि भणिउ, 'किहा मू रहइ ऊपत्ति मिसी परि³ बोधिलाभु ?'
महात्मा भणिउ, 'तउ नरवसुं⁴ राजेंद्र तणउ पुत्तु हरिदन्तु नामि होइसि ।' एउ⁵ एकावलीहार देवी¹⁰
प्रतिबुमिसि ।' इती परि छिदासशय हुतउ सुरी नमी करी गयउ ।

§428) तउ मह गुरु पूछिउ¹ । 'शगवन् एउ हारु किसउ ?' सुरि भणिउ, 'पूर्विहि नयोत्पत्तु
अमरेण्डु इद्रस्थानि गयउ । इद्रि हाकिउ नाठउ ।' अधोगुख नासता हुता एउ हारु गला हुतउ ईण हुतउ
असख्यातमह ह्रीणि पडिउ । इणि वनि लाधउ ।' इसउ सामली गुर वादी पचवीस वरिस सीम देसानरि⁵
परिभ्रमी धनु प्रभूतु उपाजी करी हउ हउउ। स्वामिन्¹ आधिउ । स्वामिन्¹ सु दनु तुम्हारउ पुत्तु हयउ कि³ नही ।'
राजेंद्रि कहिउ, 'मिन्¹ हरिदन्तु रहइ हारु दिखालउ ।' हरिदन्तु तडी हारु दिखालिउ । हार दर्शनइतउ तेह रहइ
जातिसमरणु¹ ऊपनउ । राजेंद्रि पूछिइ हुतह हरिदन्ति कुमारि तिम हिं जि पूर्वभयतवधु ऋडिउ जिम पूर्वहिं
मदनदन्ति¹ कहिउ । राजा चित्त माहि चीतवइ 'जु आगइ धर्मविपइ विगडु हयउ सु विवाहु एह पुन गइ
चरिप्रि करी उच्छदिउ । एउ विश्व माहि धसुं जिप्रणोतु जु¹ छइ भव्य रहइ भवभयउदकु भोक्षसुखदायहु ।'²⁰

§429) एतलइ प्रस्तावि उद्यानवालकि राजहु वीनारउ, 'दप¹ आजु पुष्पावतसकि उद्यानि
बहुनिष्य परिबुतु चतुर्दानी सुरासुर-नरेश्वर-नमस्कृतु श्री गुणधरु¹ नामि सुगुरु समासरिउ उइ ।'
जिम मेघ तणउ गर्जितु सामली करी मधुरु नाचइ तिम तेह नउ वचनु सामली करी राउ हारिउ ।
हस्तिस्कध समारुहु पुत्र-मित्रादि परिवारि¹ परिवुतु महात ऋद्धिससुदय करा गुरुपाद वादिवा राउ पुहुतउ³ ।'
विधिपत्त वादी करी यथास्थानि वइठउ । अमुतरस सारणि समान धर्मवेगना सामलइ ।

यथा- 'भो भज्या ! सर्वधर्मसुलु शिवपुरदारु सम्यक्त्वे वचई । सु सम्यक्त्वे द्य गुरु धर्म विपइ
देव गुरु धर्म बुद्धिस्वरुपु कहियइ । अदय अगुरु अधर्म विपइ द्य गुरु धर्म बुद्धि स्वरुपु सम्यक्त्वे विपरीतु
मिथ्यात्वे कहियइ । तत्र जित-राम-द्वैप-मोह देवु जिनु महाव्रत-धरु गुरु । इयामुलु धसुं इति । एणि
सम्यक्त्वे लाधइ नरकगति तिर्यगगति गमनु न हुयइ । मनुष्य-द्व-मोक्ष-सुख जीव रहइ स्वाधीन हुयइ ।
तथा च भणिउ -

सम्भ्रंमि उ ऋद्धे उद्याई नरयतिरियदाराई ।

दिवाणि माणुसाणि य मुनखसुहाइ सहीणाई ॥

[५८१]

§430) इसउ सामली करी राजा पुन सरितु सम्यक्त्वे पूर्वु गृहधर्मु ले करी मत्तु हुतउ आपणइ
घरि गयउ । अनरद दिवसि सुधर्मा सभा माति बइठउ सीधमै¹ नराम¹ राजेंद्र तणउ सम्यक्त्वे देवही रहइ

30

§ 427) 1 Bh-वर्म। 2 Bh alls हउ¹। 3 P रई। 4 Bh पु (पुणि or ए-) गणउ। 5 P omits
6 Bh-वर्म। 7 Bh had होइसि, but final -इ is cancelled P दादियि। ५ P omits

§ 429) 1 Bh वृष्टिउ। 2 Bh इवग इउ। 3 P omits. 4 P-स्वत्तु। 5 Bh मन ।
6 P पङ्क। (in B उ app ars like पङ्क)

§ 430) 1. P गुणधरु। 2 B₁ परिवार। 3 P पुनउ।

अचालनीउ कटइ । तउ पाछइ सुगेण देवु इन्द्रपचन विपद सदेहु धरतउ हंतउ बेकियन्नद्धि' विस्तार सहित
 परीक्षा निमित्तु आविउ । तिणि बेवि दिव्यशक्ति बलि मायामउ' साधु समूहु अकार्य करतउ राजेंद्र रहइ
 तिम दिखालिउ जिम जउ अनेरउ देखइ तउ धर्म हतउ निश्चइ सउ पउवडइ । नरवर्मु राजेंद्रु पुणि तिम
 साधुवुडु देरी मन माहि चीतवइ । 'कपाविकट' करी हेम जिम शुद्ध जिन धर्म एकु छइ । किंतु ए पुण
 5 मुनि गुरु कर्मभारभावि करी विनडिया' हुता जिन धर्म रहइ लाघवु करइ । सु लाघवु जि मतिमत
 हुयइ तेहे शक्ति हुती अवश्यु राशिपउ' इसउ चीतवी करी सामभाविति' जि करी अकार्य हुता मुनि
 निवारिया । देवु सम्यक्त्वविपद निश्चलु जाणी करी नरवर्म राय रहइ प्रणमी करी साक्षात्कारि होई कटइ-
 'महाराज धन्यु तउ' जेट तू रहइ सभा माहि वदठउ इन्द्र महाराजु सम्यक्त्व तणी स्तुति करइ ।' इसउ भणी
 आपणउ मउडु आपी करी आपणइ थानकि गयउ । नरवर्मु महाराजु सम्यक्त्वमूल गृहिधर्म' चिरकालु
 10 प्रतिपाली करी पुत्र मित्रादि सहितु दीक्षा ले करी सुगति पटुतउ ॥

नरवर्म नरेन्द्रस्य दृष्ट्या सम्यक्त्वजं फलम् ।

स्वर्गापमर्गदं भव्याः सम्यक्त्वे सन्तु निश्चलाः ॥

[५८२]

§431) अथ सम्यक्त्वातिचार प्रतिक्रमणु प्रस्तुतु कटइ ।

16 जीवादि तत्त्वविपद सदेह करणु शका कहियइ १ अहिसादिलेस दर्शनइतउ 'हू धर्मु जिनप्रणिउ
 पुणि धर्मु इसी परि अन्य धर्म तणी सद्दहा आकाक्षा कहियइ २ । 'विगच्छि ति धर्मफल विपद सदेहु
 विचिकित्सा कहियइ । विउच्छ ति पाठि हुतइ विइइ यथास्थितु जीवादि तत्त्वु जाणइ तिणि कारणि विइ
 साधु कहियइ ३ ।' अहो महामलिणा एव इसी परि साधु निंदा विउच्छा कहियइ ३ । 'पसस तह सयवी
 कुलिगीसु' कवित्व वचनचातुरी चेदकसिद्धयादिनु अनिसउ को एकु मिथ्यादृष्टि तणउ देखी करी 'अहो
 20 महाकवि एउ' इसी परि स्तुति मिथ्यादृष्टि कुलिगी तेह तगी प्रशंसा कहियइ ४ । तथा सस्तवु मिथ्यादृष्टि
 कुलिगी तेह सउ मैत्री कहियइ ५ ॥

§432) ईहा शका विपद उदाहरणु । यथा-

नगरि एकि सडि एक' तगा रि पुत्र लेसाल पढइ । तीह रहइ आरोग्य बुद्धि वृद्धि निमित्तु
 25 माता सप्रभाव ओसरी पया एकातस्थानि थिकी' करावइ । तीह माहि एक रहइ मक्षिकादि शका लगी
 मनि सूग ऊपजइ । मानसदुक्खपूर्वक सरीरदुक्ख इणि कारणि तेह रहइ बलगुली रोगु ऊपनउ । भूयउ ।
 इहलोक सुख हुतउ चूकउ । बीजउ पुनु मन माहि' चीतवइ 'माता अहितु कदाकालिहि' न चीतवइ ।'
 तिणि कारणि नि सदेहु थिकउ' पेयापानकु करतउ आरोग्य बुद्धि वृद्धि सहितु चिरजीवी हुयउ इहलोक'
 सुखमागी हुयउ ।

30 इसी परि सम्यक्त्व विपद पुणि जु जीवु सदेहपढ हुयइ सु सासयसुह न रहइ । नि'सदहु
 हुतउ सासयसुह लहइ ।

§433) आकाक्षा' विपद उदाहरणु-

राजा अनद महामात्यु वे जणा अश्वापहारइतउ अटवी माहि गया । भूखिया हुया । वणफल
 35 खाधं । नगरि आविया । राजा सूपकार तडी करी कटइ, 'जि के मक्ष्यमद' समउइ ति खगलाई करउ ।'

§ 430) 1 P विक्रि ; (in B वे looks like वि) 2 Bh. मायमउ । 3 Bh. gloss कपवटि । B
 and Bh. have cancelled ' या alter क्या-न । 1 P विनडि । 5 Bh. P सम । 6 P तू । 7 P रहइ-1

§ 431) 1 Bh. reads the sentences differ ntly ' विउच्छि' ति पाठि हुतइ विइइ यथास्थितु जीवा' तत्त्वु
 जाणइ तिणि कारणि विइ साधु कहियइ । तीह रहइ मल मन्त्रवप्रणाराग दियो वगी निग न बीपद स ' विउच्छा' कहियइ ३ ।

§ 432) 1 B P onnt 2 P थकी ; 3 P मनि । 4 P चकउ । 5 P इहलोकि ।

§ 433) 1 P अकाक्षा । 2 P भाषेद ।

सूपकारे कीथा । राजा आगइ आणिया । राजेंद्रि चीतविउं 'मधुरमोदक पूषकादिक भक्ष्यभेद पाछेई माणिसिइ' इणि कारणि पहिलउं वाकुल³ ढोकलादिक भक्ष्यभेद भरवी करी पाछइ मधुराहार भक्षणु कीधउं । किसइ कारणि जिम 'सवहीं आहार तणा स्वाइ लिउं' । महंतइ⁴ पुणि जीमी करी वमन विरेचनादिकु कीधउं । राजेंद्रि पुणि सर्वाहार भोगलुब्धि हंतइ वमनविरेचनादिकु न कीधउं । तिणि आहारदोपि राउ मूयउ । इहलोक सुख चूकउ । महामात्यु जीविउ । इहलोक सुखभागी हुयउ । तिम जीवु पुणि अन्यान्य⁵ धर्मतत्त्वबुद्धि करी वांछतउ मोक्षसुख हंतउ⁶ चूकइ । अवांछतउ⁷, मुक्तिसुखभागी हुयइ । इणि कारणि जिम लगण अनइ कर्पूर रहइ, तिमिर अनइ प्रकाश रहइ, गोक्षीर अनइ अर्कक्षीर रहइ, खल⁸ अनइ गुल रहइ समता न कीजइ तिम शिवशर्मदायक⁹ जिनधर्म अनइ¹⁰ जन्मजरामरणाद्यनंतदुरंतदुक्खदायक मिथ्यादृष्टि धर्म रहइ समानता लक्षण आकांक्षा न कीजइ ।

§434) धर्मफल संदेह विपइ वणिय तस्कर त्रिहुं तणउं उदाहरणु । तथाहि—यसंतपुर नामि नगरु¹⁰ जिणदास नामि श्रावकु । तेह तणउ महेशरदत्तु नामि मित्रु । जिणदासु आशासगामिणी¹ विद्या तणइ चलि नंदीश्वरि द्वीपि² श्राव्वत चैत्य वांदिवा गयउ । आविउ हंतउ महेशरदत्ति भणिउ, 'मित्र ताहरइ देहि अपूर्व सुगंधु³ गंधाइ' । तिणि नंदीश्वर यात्राबुत्तांतु कहिउ । तउ महेशरदत्तु भणइ, 'मू रहइ पुणि आकाशगामिनी विद्या आपि' । तउ अतिनिर्धमि कीधइ हंतइ जिणदासि⁴ महेशरदत्त रहइ विद्या⁵ दीधी । कुण्ण चतुर्दशी रात्रि समइ इमसानि⁶ जाई, हेतइ अग्निकुंडु ज्वलइ, ऊपरि वृक्ष तणी शारा छीकउं⁷ बांधी करी¹⁶ आपणपई तिहां चढी करी विद्या जपइ । जापि संपूर्ण हंतइ एक एक तणी सट्ठग घाइ छेइइ । जेतीवार चउथी तणी छेइया चार हुयइ तेतीवार मन माहि संदेहु ऊपजइ 'विद्यासिद्धि होसिइ' किंवा नदी होइ, पुण मू रहइ भरणु निश्चई होइसिइ' । तउ वलीवली छीकउं वांइ वलीवली संदेहु करइ । एतलइ प्रस्तावि चोरु एकु चोरी करी तिहां आविउ । केइइ वाहर पुण¹⁰ आवी । चोर इमशान वनगहन माहि पइठउ । वाहर वाहिरि वेहु करी रही । चोरि महेशरदत्तु चढतउ ऊतरतउ देखी करी बोलयविउ ।²⁰ 'तउं जे¹¹ विद्या साधइ छइ स मू रहइ आपि । एउ माहरउं धनु तउं¹² लइ' । तिणि चीतविउं, 'मलउ मू रहइ एतला फल तणी प्राप्ति छइ' इसउं भणी करी विद्या चोर रहइ अपी, चोर तणउं धनु आपणपई लीयउं । चोरि निःसंदेहि थिकइ¹³ एक वार रुढी परि जापु करी सट्ठग नइ एक घाइ करी चियारद तणी छेदी करी¹⁴ आकाशि ऊपरमिउ¹⁵ । प्रभाति चोर पणि लागी वाहर वन माहि आवी महेशर-²⁵दत्तु वस्तुसंयुकु चोरु करी वाधउ । मारिया लीजतउ देखी करी चोरि आकाशगति विद्यायुक्त भणी नगर रहइ घीह्यवी करी मेल्लायिउ ।

इमी परि जु धर्मफल¹⁶ विपइ संशउ करइ सु महेशरदत्त जिम अपाइ पढइ जु संशउ न करइ सु चोर जिम सकल अनर्थ हंतउ वृट्टइ । मनोवांछितु लहइ ।

30

§435) साधु निंदा विपइ दुर्गंधा उदाहरणु । मिथ्यादृष्टि प्रशंसा परिहार विपइ सकटाल महामात्यु उदाहरणु । मिथ्यादृष्टि संस्तवु¹ मिथ्यादृष्टि सउं मैत्री कहियइ ।

तेह विपइ जिणदासु उदाहरणु । यथा—

ऊजीणी¹ नामि नगरी । जिणदासु नामि सुप्रायकु² । तिहां एकादशमी प्रतिमा वहतउ मुनि भरसउ विहार करतउ सार्यभद्रु हंतउ बौद्धतं तणइ सार्थि मिलिउ । मार्गि मूयउ । आपणउ आचारु करी बौद्धे^{3,5}

433) 3. P. बाहुत । 4. B. मद्दइ । 5. B. has added words between ३३...३३...in the margin. 6. B. भगउ । 7. P. तल । 8. B. गय- ।

§134) 1. P. भाऊण- । 2. P. दीपि । 3. P. नंय । 4. B. शि- । 5. P. omits. 6. B. P. रणगणि । 7. P. शैव । 8. P. होइसिइ । 9. P. एइ । 10. P. पुणि । 11. B. P. ज । 12. P. १ । 13. P. पइइ । 14. P. omits. 15. B. करि- । P. ऊपरि । 16. B. omits.

§135) 1. दुर्गंधा । 2. P. इयिउ । 3. P. वरुंती । 4. B. धाइइ । 5. B. केइ ।

रक्तमग वेष्टितु करी तिरां गेलिरउ । सु नमस्कार रमरण परायणु^६ मरी करी देवु ह्यउ । अवाधिहानि
आत्मवेष्टु देरी वौद्धमकु^७ ह्यउ । इणि कारणि मिथ्यादृष्टि परिचउ न कीजइ । वौद्धं रहइ रत्न स्वर्णा-
लंकारालं वृति एथि करी अहम् एतउ भोजनु विपइ । लोकमध्यभागि इसउ अतिसउ घोद्धं रहइ ह्यउ ।
'अरी धन्यु वौद्धशासनु !' श्राववु लोवु लोके अवलेहियइ ।

१ अनेरइ विवसि श्राधर्मधोपमूरि नाम' आचार्यमिश्र तिहां आविया । श्रायके चांदी करी तिहां नउ
वृत्तातु कहिउ । आचार्य उपयोमि धीधर सगल्ल वृत्तातु जाणी करी एरु साधु संघाडउ मौकलिउ ।
भाणिउं " वौद्ध देव कन्हा भिक्षा दिवारिसिदं, पुणि तुम्हे म लोजिउ^{१०} । हाथु सानी इसउं भणिजिउ ।
गुज्जगा ! गुज्ज, गुज्ज, मा गुज्ज । " इसउं तेहे कीधउं । देव रहइं सुभ कर्मोदय लगी प्रतिबोधुं अपनउ ;
भवांतग जाणिउ । मुग्गपादमूलि आयी ' मिथ्या दुग्गु' कीधउं । यली माधु रहइं भक्ति करिया लागउ ।
१० इहं सम्यक्वातिचार तणइ आचरणे जु कम्मं वाधउं सु ' पडिकम्मे देसियं सव'ं' पूर्ववत् ।

§436) सम्यक्त्वं प्रकर्षइतउ तीर्थकर नामकर्म^१ तणी उपाजना जीव रहइं ह्यउ । सम्यक्त्वं
प्रकर्षु पुण वीस थानक संलेपना करी ह्यइ । तिणि कारणि वीस थानक विचार लिहियइ ।

अहंकाराधनु १, सिद्धाराधनु २, प्रवचनाराधनु ३, गुर्वाराधनु ४, स्थविराराधनु ५, धृतधरारा-
धनु ६, तपस्विगुश्रूपा ७, अभीक्ष्णज्ञानोपयोग ८, सम्यक्त्वनिरतिचारता ९, विनयनिरतिचारता
१५ १०, आपश्यकनिरतिचारता ११, मूलोत्तरगुण निरतिचारता १२, क्षणलवसंक्षिप्तालिहिं आर्तौद्रपरिहार
धर्मध्यानासेवना १३, तपश्चरणकरणता १४, सुपाददानता १५, वैयावृत्त्यकरणता १६, मन समाधि संपा-
दना १७, नवज्ञानग्रहणता १८, धृतभक्तिकरणता १९, प्रवचनप्रभावना^१ २० ।

§437) तत्र-अरहंतहं रहइं तिहं काले विधिवत् पूजा सद्गुणस्त्वन यथादर्शनप्रणमनादि
२० करणु अहंकाराधनु पहिलउं थानकु ।

लोकाप्रमात प्रक्षीणक्षेपकर्मजाल अनंतज्ञान अनंतदर्शन अनंतसम्यक्त्य अनंतवीर्य अनंतानंत
छइं सिद्ध तीहं तणइ विपइ एकागता मन माहि ज कीजइ स बीजउं थानकु ।

चतुर्विध श्रीसंघरूप प्रवचनु अथवा द्वादशांग लक्षण प्रवचनु तेहं^१ विपइ शक्ति^१ तणइ अनुसारी
आज्ञाप्रतिपालनु जु कीजइ सु प्रीजउं थानकु ।

२५ पंचमहाद्रत प्रतिपालक द्वादधर्मोपदेशदायक गुरु तणइ विपइ परतंत्रता करी सर्व धर्म कर्म
विपइ जु प्रवर्त्तनु सु गुर्वाराधनु चउथउं थानकु ।

समवाचागधर अथवा बयोवृद्ध जि छइं स्थविर तीहं तणइ विपइ जु निश्चल भक्तिकरण सु
३० स्थविराराधनु पाचमउं थानकु ।

सूत्रधर कन्हा अर्थधर प्रधानु अर्थधर कन्हा सूत्रार्थधर प्रधानु इवी परि बहुश्रुतहं तणइ विपइ
सातेतर भावि करी जु भक्तिकरण सु बहुश्रुताराधनु छट्टउं थानकु ॥

तीद्रतपु जि करइ तीहं तणइ विपइ श्रद्धानपरायण होई करी जु गुश्रूपा कीजइ सु तपस्वि
समाराधनु सातमउं थानकु ॥

३५ सिद्धात तणा पाठ विपइ गुणन विपइ प्रहृषण विपइ वारवार जु सावधानता भवनु सु अभीक्ष्ण
ज्ञानोपयोग आठमउं थानकु ॥

§436) 6 P सर (7 Bb, अवधि (8 Bb) मक । 9 Bb omits. 10 P मिलिउउ । evidently
confusing the preceding म with लेपिउ ।

§436) 1 Bb omits-कर्म । 2 Bb adds शीलव्रतनिर्गमना १० । ३ Bb. ...
४ Bb. adds सपादना ।

§437) 1 Bb, adds हणइ । 2 Bb, मक्ति ।

सर्वज्ञोपदिष्टु सिद्धिसुग संपादकु जु छइ सम्यक्त्तु तेह तणइ विपइ जु निश्चलमन.करणु जु दर्शनाराधनु नवमउं थानकु ।

ज्ञान तणइ विपइ ज्ञानाधारपात्र तणइ विपइ जु विनयकरणु अतिचाररहितु सु विनयनिरति-
चारता लक्षणु दशमउं थानकु ॥

§438) संसाराकूपारपारकल्प¹ जि छइ संजमव्यापार पोढावशायक लक्षण² तीहं तणइ विपइ ज 5
निरतिचार प्रवृत्ति स आवश्यकनिरतिचारता इग्यारमउं³ थानकु ॥

सिद्धि लक्ष्मी केलि शीलु छइ शीलु अनइ व्रत मूलोत्तर गुण तीहं माहि शीलि लाधे हुंतेइ भिन्नु
शीलप्रहणु शील रहइ प्रधानता प्रकटन निमित्तु । तउ पाछइ तीहं तणइ विपइ ज निरतिचारता सु
शीलव्रत निरतिचारता लक्षणु वारमउं थानकु ॥

अष्टादशनिमेषाः स्युः काष्ठा काष्ठादयं लवः ।

10

फला तैः पंचदशभि लेशस्तद्वितयेन च ॥

क्षणस्तैः पञ्चदशभिः क्षणैः पडिभश्च नाडिकाः ॥ [५८३]

इसा भणनइतउ घडी नउ छट्टउ भागु क्षणु कहियइ । छत्रीसे निमिपे लवु कालु कहियइ ।

‘ सत्तपाप्पणि से थोवे सत्त थोवाणि से लवे ’

इसा परमागम वचनइतउ । साते स्तोके एकु लवु कहियइ । तउ पाछइ क्षण लव प्रमाणाहि¹⁶
कालि जु प्रमाद करण तणउ अभावु अप्रमत्तभावता करी अवस्थानु सु क्षणलवलक्षणु तेरमउं थानकु ।

ज्वलितु जु छइ तपो वैश्वानरु तिणि करी काय मूपांतर्गतु जु छइ जीव सुवर्णु तेह तणउं जु
संशोधनु सु तपश्चरण करण लक्षणु चरुदमउं थानकु ।

प्रासुक्येणीयान्नपान संपादना करी जु साधुजन प्रतिनिर्देष आहार तणउं प्रदानु सु पात्रदान
लक्षणु पनरमउं थानकु ।

20

वाल वृद्ध ग्लान रत्नाधिक गुरुजन प्रति जु आदरकरणपूर्वकु वेयावच्चु कीजइ सु वेयावच्च
करण लक्षणु सोलमउं थानकु ।

किणिहिं कारणि करी असमाधानि गयउं छइ मनु तेह रहइ जु समाधान माहि आणिवउं सु
समाधिलक्षणु सत्तरमउं थानकु ।

जु जु अपूर्व अपूर्व सिद्धांतपट्टु विचारचारु⁴ सु सु ज्ञानावरणकर्म क्षयकारणि जु पदियइ सु²⁵
अपूर्व ज्ञानोपयोगु अट्टारमउं थानकु ।

तथाहि जिम जिम अपूर्व सिद्धांतु श्रद्धा करी सांभलइ जिम जिम पदइ जिम जिम गुणइ जिम
जिम चखणइ तिम तिम ज्ञानावरणकर्षु गलइ¹ । तथा च भणितं –

✓ अपूर्वः शब्दकोशो यं विद्यते तव भारति ।

व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चितः ॥

[५८४]

80

एवं रोमांचितमात्र रोई करी सिद्धांत विपर ज भक्ति कीजइ सिद्धांत पुस्तक लिरावियई विधिसउं सारवियइ जु सु श्रुतभक्ति लक्षण इगुणवीसमउं थानहु ।

धर्मव्याख्यान प्रतिवादि निराकरण कविता कलादिकहं करी जु तीर्थ प्रभावना कीजइ सु प्रभावना नामकु घीसमउं थानहु ।

5 §439) तथा च भणितं -

अरहतं १ सिद्ध २ परयण ३ गुरु ४ थेर ५ बहुरुसुए ६ तनस्तीसु ७ ।

वच्छलयाइ एगुं अभिसख नाणोवभोगे य ८ ॥

[५८५]

दंसण ९ विणए १० आससए ११ सीलव्वए १२ निरट्टयारो ।

खण लव १३ तव १४ चियाए १५ जेयाव्वे १६ समाही १७ य ॥

[५८६]

अपुव्वनाणगइणे १८ सुयभत्ती १९ पवयणे पभावणया २० ।

एएहिं कारणेहिं तित्थयरचं लइइ जीयो ॥

[५८७]

10 §440) अथ चारित्रातिचार प्रतिक्रमण करिवा वाछतउ हंतउ पहिलउं सामान्यार्ह आरंभ निंदा निमित्तु भणइ ।

छक्काय समारंभे पयणे पयापणे य जे दोसा ।

अत्तट्टा य परट्टा उभयट्टा चेव तं निंदे ॥

[५८८]

15

20 धृषिबी सलिल अनल अनिल वनस्पति त्रस उक्षण जि छई पटकाय तीहं नइ समारंभि परितापनि तथा संरंभि आरंभि इसउं पुणि जाणिवउं । तत्र संरंभु संकल्पु आरंभु विद्रावणु । ईहं छक्काय जीव संबंधिया समारंभ संरंभ आरंभ हुंता जि दोष पाप समाचरण न पुण अतिचार अंगीकरण तणइ अभावि हुंतइ मालिन्य तणा अभावइतउ किसइ हुंतइ । दोस इत्याह-
 25 'पयणे' पचनि हुंतइ 'पयावणे य' अनइ पचावनि हुंतइ चकारइतउ अनुमति हुती पुण जाणिवउं । कउण निमित्तु 'अत्तट्टा य परट्टा' आपणया निमित्तु, पर प्रापूर्णहु तेह निमित्तु । 'उभयट्टा' आप पर विहुं निमित्तु । चकार अनर्थक राग द्वेषादि दोष संसूचकु । ए चकार प्रकारहं रहइ ईयत्ता सूचकु आप पर उभयलक्षण छइ तिन्हि पक्ष तीहं हुंतउ चउथउ पशु नही इणि कारणि । अथवा अतिमुग्धता लगी साधु रहइ असनि पचिइ मू रहइ पुण्यु होइसिइ इसी परि आपणया निमित्तु । तथा पर मातादिक तीहं रहइ पुण्यु होइसिइ इसी परि 'परट्टा' परनिमित्तु । पुणि अहं विहुं रहइ साधु निमित्तु पचनादिकि
 25 कीजतइ हुंतइ पुण्यु होइसिइ इसी परि उभयट्टा उभयनिमित्तु पुणि । अथवा छक्काय समारंभादिकहं विपर सचित्त पुट्टविकाय लवणादिक । अट्टकाय सचित्त जउादिक । वाउकाय अग्नि सधूपणादि कारणि वात-करणादिक । तेउ काय अग्नि प्रज्वालनादिक । वनहरतिकाय वनउदेन क्षेत्र नीदान करण सृष्टण करणादिक । त्रसकाय कीटिकादि मृटप्रमार्जन रउन पेयण अणउाणिया जल दयापारणादिक पटकाय जीव सावधव्यापार । तेते करी अनैराई जि के जीव आरंभु करता विणसइ तीहं करी जि के पाप कांथा ति
 30 पाय निंदउं । पूर्ववत् ।

§441) अथ सामान्यार्ह चारित्रातिचार प्रतिक्रमण भणइ ।

पंचइमणुव्वयाणं गुणव्वयाणं च तिन्हमइपारे ।

सिसखाणं च चउइं पडिकमे देसियं सव्वं ॥ सुगमा ॥

[५८९]

विशेषु पुणि इसउ सम्यक्त्वइतउ अणु पाछइ कीजई । इणि कारणि अणुव्रत कहियई ॥
अथवा महाव्रतहं हंता अणु लहुडां इणि कारणि अणुव्रत पांच कहियई ॥
तथा च भणितं -

धूलु सुहुमा जीवा संकप्पारंभओ य ते दुविहा ।

सावराह^१ निरवराहा सावित्त्वा चेव निरवित्त्वा ॥

[५९०] ५

अत्र धूलु जीव बेंद्रियादिक सूक्ष्म एकेन्द्रिय पृथिवीकायादिक । तत्र श्रावक रहई एकेन्द्रिय जीव-
रक्षा सर्वथा पलइ नहीं तिणि कारणि दशविशा जीवदया । धूलु जीव बेंद्रियादिक संकल्पार्हि करी
विणासिवा नहीं । आरंभिहिं करी विणासिवा नहीं । तत्र आरंभइतउ विनासरक्षा श्रावक रहई सर्वथा
पलइ नहीं । तिणि कारणि पांच विशा ।

तथा ति सापराधइ राखिवा निरपराधइ राखिवा । तत्र सापराध नी रक्षा श्रावक रहई सर्वथा 10
पलइ नहीं तिणि कारणि अट्टाई विशा ।

सापेक्षबुद्धि करी पुण न हुहवेवा निरपेक्षबुद्धि करी पुण न हुहवेवा । तत्र श्रावक रहई सापेक्ष-
बुद्धि करी हुहवण निपेधु न संभवइ तिणि कारणि सगडु विशउ एकु जीवदया श्रावक रहई हुयइ ।
तिणि कारणि मेरुसमान महाव्रत तणी अपेक्षा करी श्रावकव्रत अणुव्रत कहियई ति पांच मूल गुण
कहियई । तीहीं जि रहई विशेष गुणकारिता करी दिग्व्रतादिक तिन्हि गुणत कहियई । पांच अणु- 15
व्रत तिन्हि गुणव्रत यावज्जीव पालनीय हुयई । शिक्षाव्रत पुणि चत्तारि सामायिक देशायकाशिकादिक
कड़ाचित्पालनीय । जिम दिव्य रहई विद्या पुनपुन अभ्यासयोग्य । तिम तिम सामायिहादिक अभ्यास-
योग्य । तथा च भणितं -

‘जाहे खणिओ ताहे सामाइयं कुज्जा’ इणि आलावइ ‘रणिओ’ इसइ पाठि जेतीवार गृह-
वायु काई न हुयई तेतीवार श्रावकु क्षणिकु धर्मावसरवंतु हंतउ सामायिकु करिजिउ । इसउ अर्थु । 20

‘रणियं’ इसइ पाठि जेतीवार क्षण प्रस्तावु हुयइ तेतीवार सामायिकु ‘कुज्जा’ कुर्याव
करिजिउ न पुण दिनावसानिहिं जि’ अथवा निशायसानिहिं जि ।

§(५९१) अथ प्रथमव्रत प्रतिक्रमणु भणइ ।

पदमे अणुच्चयंमी धूलग पाणाइवाय विरईओ ।

आयरियमपसरथे इत्थ पमायणसंगेणं ॥

[५९१] 2;

प्रथमि सर्वव्रत माहि सारता करी धुरि वर्त्तमानि अणुव्रति महाव्रत तणी अपेक्षा करी लघुतरि ।
‘धूलग पाणाइवाय विरईओ’ गत्यादिकहं स्वप्रहं लिंगहं करी धावाहीं रहई जीवत्व बुद्धि करी परिज्ञात
स्थूल इंद्रियादिक जीव धूलगपाण कहियई । तीह नउं मांस रुधिर इंत नय अरिय धुण चर्म्मदिकहं
तणद कारण अतिपातु विनासु तेद नी विरति निवृत्ति धूलग पाणाइवाय विरति तेह सकामइतउ
‘आपरियमपसरथे’ । ‘अतिवरिउं’ अतिक्रमिउं क्रिमइं इंतर । अग्रशक्ति भावि इंतइ । किरउ अर्थु । 10
कोषादिक उदयमानि इंतइ । ‘इत्थ पमायणसंगेणं’ अत्र प्राजातिगत विषइ प्रमाद मयादिक पांच’ तीह
नउं विषइ प्रसंगतु प्रसंगि करी प्रसंगतु प्रमाद प्रसंगु तिणि करी प्रमाद प्रसंग प्ररणि करी सजातीयं
आवृत्त्यादिक जि छई तीह नउं पुणि प्ररणु हुयइ ॥ इति गाथार्थं ।

§(411) 1. B. Bl. गवराह । 2. Bl. omits

§(412) 1. Bl. दंव । 2. Bl. गाथादिह ।

प्राणिवधु न करेत्तु । तथा च भणितं -

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविषं न मरिञ्जितं ।

तम्हा पाणिग्रहं घोरं निगंथा वज्जयन्ति पं ॥

[५९२]

जीवहिंसा अनेरेई निषेधो छइ ।

५ 'न हिंस्यात्सर्वभूतानि' । तथा 'आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति' तथा -

भूयतां धर्मसंरसं, श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिफलानि, परेषां न समाचरेत् ॥ ✓

[५९३]

सर्वधर्मसारभूतं जीवदया अनेरेई कही । यथा -

सर्वे वेदा न तत्कुपुः सर्वे यज्ञाश्च भारत ।

१० सर्वतीर्थाभिषेकाश्च यत्कुर्यात्प्राणिनां दया ॥ ✓

[५९४]

§443) अथ विरति आश्रयी हून्ति तु आतिचरितं तेजु जु कहइ ।

बंध १ वह २ छविच्छेप ३ अइभारे ४ भक्त पाण जुच्छेप ५ ।

पढमवयस्सइयारे पडिकमे देसियं सर्वं ॥

[५९५]

वधु-भो घृषभादिकह तणउं रोरू करी गाढउ बधनु बंधु कहियइ १ । वतु-कर्मकर कर्म करी
१५ वतुपदादिकह ररई निदयता करी ददादिकप्रहार प्रदानु कहियइ २ । छविच्छेदु-कणादि कर्त्तनु गल
केवलादिकह तणउं शोभा निमित्तु समुच्छेदनु वा ३ । अनिमारु-शक्ति ऊपरउं मारारोषणु ४ ।
भक्तपान दयवच्छेदु अन्नपाननिषेधु ५ । सर्वही थानकरं काधइतउ इसउं गमियइ । प्रथमव्रत अतीचार
आश्रयी करी जु बाधउ कर्मु 'पडिकमे देसिय सत्र्यं' ॥ पूर्ववत् ।

§444) अत्र शिष्यु भणइ ।

२० बंधादिकरं ररइ अनिषिद्धत्वइतउ किसी परि अतिचारता । प्राणातिपातु जु निषेधित छइ ।
प्राणातिपात रहई अकृतचरइतउ अतिचारभाय तणी अनुपपत्ति । अत्र कहियइ ।

मुख्यवृत्ति करी प्राणातिपातु जु प्रत्यारयानु छइ. बंधादिक प्रत्यारयान नथा, तथापिहिं परमार्थ-
वृत्ति करी बंधादिक पुण प्रत्याख्यत जाणिया । तीर ररइ प्राणातिपात हेतुत्वइतउ । जइ इसउं तउ बंधादि-
करणि व्रतभंगु जु ह्यइ । अतीचारु न ह्यइ । इसउं पुण न भणिरूं । व्रतु विटुं भेदे बाह्यवृत्ति करी
२५ अंतरंगवृत्ति करी । तत्र जेतधार कोपावेशइतउ बंधादिकरं विषइ प्रसई तेतीवार दयाशून्यता करी
अंतरंगवृत्ति करी व्रतु भंगउ । स्वकीय जीवितव्य ररइ अतिप्रबलता करी प्राणी विणसइ नही । तेतलइ
बाह्यवृत्ति करी व्रतु पालिउं तउ पाउइ भंगाभंग स्वरुपु अतीचारु ह्यउ । तहुकर्म -

न मारयामीति कृतव्रतस्य निमैव मृत्युं क द्हातिचारः ।

निगद्यते यः कुपितो यथाहीन् करोत्यसौ स्पान्निद्यमानपेक्षः ॥

[५९६]

३० मृत्योरभावान्निद्यमोन्ति तस्य कोपादयाहीनतया तु भयः ।

देशस्य भंगादनुपालन्नाच्च पूज्या अतीचारमुदाहरति ॥

[५९७]

§445) अनाभोगातिक्रमादिना वा सर्वदा अतिचारता जाणिवी ।

अत्र प्रथमव्रतविषइ चंद्र सूर राजपुत्र कथा लिखियइ ।

हिंसा निरन्तरं दुःखमहिंसा तु परं सुखम् ।

जन्तोर्देदात्यहो मरचन्द्रयोरिव तद्यथा ।

[५९७ अ]

जयपुर^२ नामि पुरु । शत्रुज^३ नामि राजा । मूर चंद्र नामहं करी प्रसिद्ध^४ वि पुत्र । जेष्ठा-
नुरागि करी राजेंद्रि ज्येष्ठा युवराजा कीधउ । वृत्ति करी । चंद्र पत्तिमात्राई^५ करी गणित नहीं । तउ
अपमान वशाइतउ^६ चंद्रि देशांतर लीधउ । रत्नपत्तनु नामि नगर । तेह नइ उद्यानवनि शीतलि तरुतलि
विश्राम^७ निमित्तु नइतइ हंतइ श्रुति सुधासारगि समानु स्वरू सांभली करी महाधनुर्धर^८ शर जिम
स्वरानुसारि जायतइ हंतइ वन माहि सुदर्शनु नामि मुनिवरु डीठउ । प्रणमी करी धर्मदेशना सांभली
करी नियमु लीधउ । “ मई कृतापराधइ जीव राजेंद्रादेशिहिं न्युर्वृत्ति मूकी करी वीजी परि मारिवा
नहीं । ” तिणिहिं जि नगरि जयसेनु राजा ओलगिउ । औच शौर्य द्वाक्ष्य^९ दक्षिण्यौचित्यादिकह^{१०} गुणहं
करी राजेंद्र रहई अतिवल्लभु हूयउ ।

10

§446) अनेरद दिनि जयसेनि राजेंद्रि एकांति^१ बइसाली चंद्रु भणिउ । “ अनीति मदिरा कुंभु
कुंभु नामि चोरु उत्कन्दु ऊठिउ छइ । अहो वीर कोटिर ! सु तू पाखइ अनेरद किणिहिं भरद नहीं । तिणि
कारणि तउ^२ सु माहरा हिया नउं शल्यु ऊपरि ॥ यत^३

स्त्रीश्च गात्र हरत्येप क्रूरो हंति यतीनपि ।

चमूरुद्धो यमस्यापि दुर्गमं दुर्गमंगति ॥

[५९८] 15

तिणि कारणि प्रकृष्टवृत्ति सु मारी न सकियइं । माहरद कथनि शुतवृत्ति जाई करी सूता हंता
तेह रहई^४ मारि । ” इसइ कथनि जयसेनि राजेंद्रि कहियइं हूंतइ चंद्रु भणइ । “ महाराज ! संग्राम पाखइ
भूं रहई जीव मारिवा नियमु छइ । संग्रामिहिं नासता निरायुध^५ मारिवा नउ निपेधु छइ । ” तउ
पाउइ तेह नउ तिसउ निश्रउ जाणी करी राउ जयसेनु घणेरउं चित्त माहि रंजिउ । अंगरक्षकहं माहि मदा-
मात्यहं माहि सु मूलिगउ कीधउ । अनेरद दिवसि सु कुंभु चोरु देस माहि पसरिउ । तउ पाउइ राजा 20
देसइतउ^६ सारसुभट परिवार सहितु चंद्रु तेह पूठि धायउ । आघइ जाई करी दुर्ग नउ मार्गु लंघिउ ।
सर्वदिसि मिलित सुभटहं वन माहि गज जिम वेष्टिउ । अशरण^७ भावइतउ तिणि चंद्र रहई आची करी
प्रणासु कीधउ । सुरि वृणउं पशुभास संसृचकु लीधउं । चंद्रु उत्तम प्रकृतिता करी चित्ति चीतवद ।
' पादाघनामातु कोपु संतहं रहई ' तिणि कारणि उपगातु हूतउ चंद्रु तेह ऊपरि तूठउ । अठाडी करी
भाई जिम साई लीधउ । आपणपा सरसउ रत्नपत्तनि आणिउ । देसदापन^८ पसाउ करावी राजेंद्र कन्हा
मेल्लायिउ । जयसेनु राजा पुत्रहीं कन्हा राज्यलक्ष्मीहीं^९ कन्हा^{१०} चंद्रु अधिकु करी मनइ^१ ।

25

§447) चंद्र नउ वठउ भाई मूर युवराज्यलक्ष्मीलाभिहिं अतुप्तु हूतउ राज्यलक्ष्मी लेवा कारणि
शत्रुजय राजेंद्र आपणा घाप रहई मारणमनु हूयउ । अनेरद दिनि मृतउ हंतउ^३ शिब्वस्तु शत्रुजय राजेंद्रु
तिणि मारिउ । मारी जायतउ देवी डीठउ । “ घातकु जाइ, जाइ, ” इसीपरि वाहविउं^४ । आरक्षक द्वार
पाल्यादिकहं धायतां हूतां कंडागतप्राणु राजा कहइ, — “ कउण तणउ णउ इमी परि जाणियउं मारिवउ
नहीं । ’ इमउ राजादेसु सांभली करी तेरे सुतु जाणी करी देस हंतउ निर्धांठिउ । रत्नपत्तन हंतउ चंद्रु^५
अणाची^६ करी राज्य घइमालिउ ।

- §448) शत्रुजय राजा सूरपुत्र विषइ समत्सरु थिकउ मरी वन माहि चित्रकु ऊपनउ । पितृ
वधकलकपातकी सुरु पुणि दसातर फिरतउ हुतउ जिणि वनि बापजीवु¹ चित्रकु उइ तिहा आविउ ।
तिणि चित्रइ वीउठ । अनइ पूर्वभय वैरइतउ भारिउ । तिहाई जि मरी करी भीलु हुयउ । आहैउउ
करतउ हुतउ तिणिहिं जि चित्रकि वीजी वार पुणि मारिउ । सु चीत्रउ तेह तणा वाधवह भिल्लह मारिउ ।
5 तिहा ई जि² पर्यंत वन माहि वे जीउ शूकर हुया । त्रिहु वरसह तणा हुता आपणपा माहि झुझता
पुलिदे मारिया । तउ पाउइ अनेरइ किणिहिं वनि मुग³ ऊपना । समत्सर⁴ हुता भीले⁵ मारिया । किणिहिं
गजजूथि गजपोत हुया । झुझ करता यूथभ्रष्ट हुता भीले⁶ वाधी करी चंद्रराजेद्र तणइ राजिय⁷ आणी
वेचिया । तिहाई युद्ध करता हुता पऊतारे महाकाष्टि राणियइ । एक दिवसि तिहा केवलालोकभास्कर
सुदर्शनमुनि आविउ । भक्तिभारभासुरु सात पुरु चतुरग सेना परिवृहुत चहु नरेंद्रु आवी करी प्रणतु हुयउ ।
10 देसनापसानि तीह विहु वारणह⁸ तणउ वारणु घेर कारणु पूउइ । केवली सरुलु⁹ तीह नउ पूर्वभव
वृत्ताउ करइ । सु तीह नउ चरित्रु सामली करी चहु राजेंद्रु अति वैराग्य सवेगवतु¹⁰ हुतउ पुनु राजिय
निवेसी करी वीक्षा प्राप्तु हुयउ । सु हुस्तपु तपु करी चहु देवलोकि गयउ । ति गजराज वर्द्धमान विरोध
युद्धि हुता मरी करी पल्लिइ नरकि गया । तिहा हुता उद्धृत्ति करी पापजोनि माहि अनत भवु भमिया ।
चंद्रजीवु देवलोक हुतउ चर्चा करी शुद्ध मनुष्यभवु लही करी वीक्षा ले करी केवलज्ञान लाभक्रमि¹⁰
15 करी मोक्षि पहतउ ।

ये चंद्रमूरनरनायकयोरहिंसा हिंसाफले शिवभवास्थितिहेतुभूते ।

✓ शुत्ना त्यजन्ति समजन्तुवध दयाद्रां वृत्तिं भजन्ति लघु ते मुगतिं लभन्ते ॥ [५९९]

प्रथमा अष्टव्रत विषइ सूर-चंद्र कथा ॥

§449) अथ बीजउ व्रतु भणइ ।

20 वीण अणुध्वयंमि परिपूलम अलियवयण विरईओ ।

आयरियमप्पसत्थे इत्थ पमायप्पसंगेण ॥

[६००]

बीजइ अणुव्रति परि किसउ अर्थु ।

अतिसइ करी राजविरुद्ध अकीर्तितेतु दुर्गतिकारण कन्याऽलीकादिक वचन 'परिधूलग अलिय
वयण' कहियइ । तीह नी विरति निवृत्ति परिधूलग वयण विरति कहियइ । तेह सकासइतउ

25 'आयरियमप्पसत्थे इत्थ पमायप्पसंगेण' पूर्ववत् । तथा च भणित -

मुसावाओ य लोयंमि सध्वसाहृदिं गराहिओ ।

अविस्सामो य भूयाण तम्हा मोस विवज्जए ॥

[६०१]

§450) परट पुण असत्यवचनु न बोलिचू इसउ करिउ ।

सत्य द्रूयात्तिय द्रूयाच द्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

30 ✓ प्रिय च नानृत द्रूयादेपः धर्मः सनातनः ॥

[६०२]

तत्र-द्वपयसइतउ अविपकन्या विपकन्या भणता कन्यालीकु १ । इसीपरि अल्पदुग्धगाड बहु
दुग्ध गाद¹ अत्रदुग्ध भणता गवालीकु २ । पर तणी भूइ आपणी कहुता भूमिअलीकु ३ । कन्यालीकु
द्विपदालीक¹ रइइ समुचकु फीधउ । गवालीकु चतुष्पदालीक रइइ समुचकु फीधउ । भूम्यलीकु हट्ट
गुरालीकादिक¹ रइइ सुरु³ । न्यासु धन धान्यादि थापणि तह नउ अउलवेयउ⁴ न्यासापहान ४ ।

§448) 1 1 वाप नउ जीवु । 2 P दि । 3 P omit^o 4 P मत्सर । 5 P भोल । 6 Bb रायि ।
7 Bb वारह । 8 Bb omits 9 Bb omits वंदु । 10 P भाग्यनि ।

450, 1 Bb अल्पदुग्ध गाद बहुदुग्ध भणता गवालीकु- । B also does not have बहु दुग्ध गाद ।
2 Bb omits-इ । 3 B drops words between first समुच सुचु । 4 Bb अउलवेयउ ।

न्यासापहार कूटसाक्षि विहुं अदत्तादान माहि संभविहि हूंतइ । ईहां वचन रहई प्रधान भावना करी
अलीक वचन भावना लगी ईहां तीहें नउं^५ भणनु कीजइ । लभ्यदेयवस्तु विपइ जु मानिउं छइ द्रव्यु
तेह नइ विपइ राग द्वय भावना लगीं अलभ्य अदातव्यता भणनु कूडीं साणि कहियइ ५ । ए वे द्विपदा-
लीक माहि आवइ । पुणि लोक माहि ए वे अतिनिन्दित इति जुयउं भणनुं ईह नउं कीधउं । एह पंचविध
अलीक तणी ज विरति तेह तउ 'आयणिए'त्यादि पूर्ववत् ॥

एह व्रत नां अतीचार नउं प्रतिक्रमणु कहइ ।

सहसा रहसदारे मोसुवएसे य कूडलेहे य ।

वीयवयस्सऽ इयारे पडिकमे देसियं सव्वं ॥

[६०३]

तत्र^६ सञ्च सूचकु हुयइ तिणि कारणि सहसापदि करी सहसात्कारि अणआलोर्चा करी 'चोर
तउ' 'पारदारिकु तउं' इसी परि कही एक रहइ अभ्याख्यानु अणहूता दोष तणउं रोपणु सहसाभ्याः^{१०}
रयानु जाणियउं १ ।

तथा रहः शब्दि करी रहोमंत्रभेदु जाणिवउ-सु पुण इसी परि । रहसु एकांतु तिणि एकाति
मंतु आलोचु करतां देखी करी इसउं इसउं राजविक्रद्ध आलोचइ छइ । २ 'दारे' इति विश्वास' लगी
स्वदारहं स्वकीय कलत्रहं जि कथन कहियां ह्यइ तीहें नउं द्वेषइतउ अनेरा आगिलइ गमइ कथनु
दारमंत्रभेदु कहियइ । उपलक्षणत्वइतउ मित्रमंत्रभेदु पुण दारमंत्रभेदि करी जाणिवउ ३ ।

अणजाणिया ओसह-मंत्रादिकहं तणउं कथनु मृपोपदेशु ४, कहियइ । 'कूडलेहे य' ति ।
कूडा अर्थ नउं लेखनु कूडलेहु कहियइ ५ ।

'वीयवयस्से'त्यादि पूर्व जिम ।

§451) अत्र मृपावाद परिहारत्रिपद हंसराजेंद्र कथा लिपियइ ।

अणुव्रतं द्वितीयं तद्यद्दान्यं कापि नाऽवृत्तम् ।

20

भू-कन्या-गोधनन्यास-साक्ष्येषु च विधिपतः ॥

[६०४]

जन्तूनामहितं यत्तन्न वान्यं सत्यमप्यदो ।

सुप्रीभिर्धीप्रपञ्चेन बोधनीसोऽत्र पृच्छकः ॥

[६०५]

ईहं सत्यागिरां वक्ता यथा राजपुरीपतिः ।

वैभवं त्रिभरामास हंसः संश्रूयतां तथा ॥

[६०६]

25

राजपुरी नामि पुरी । हंसु' राजा । सम्यक्त्वमूल श्रायकधर्मपुरा धीरियता धरतउ अनेरइ
दियसि मास घस' लंध्यमार्गं रत्नशुंगगिरि पूजकारिति श्रीरूपमदेव देवमृति तीर्थयात्रा कटिया
सकललोक महितु सत्यवचनमहितु गर्वरहितु हुंतउ चालिउ । अर्द्धमार्गि संधि गयइ हुंतइ पाउउ हुंतउ
एकएतु आविउ । राजेंद्र रहई धीनवइ, "महाराज! हुंत् चालियां पाउइ दसमइ दियसि अमुंनुं नामि
सीमाहु पुरी लेवा आविउ । तुम्हे जि के रत्नपाल मेलिया हुतां ति सट्टे तिणि जीता । राजपुरी^{३०}
आपर्णा करी वइतउ । भयभीतु लोचु वेसासीं करी तुम्हारइ मितासनि उपविष्टु वसंइ । अनेरा नइ' घरि
नाउउ छइ सुमिटु नामि मंत्री तिणि टउं तुम्ह कन्इ मोकलिउ । इणि कारणि जु कांई युजु हुयइ सु
कीजउ ।" तदाकालि समीपगत जि छइ सुभट सेत कलिउ, "महाराज! एवटां पाछां वलियइ । अम्ह
हुंता कउणु' तादरइ पुरि विस्फुरइ " । तीहें आगइ राजा काइ-

§150) 5. Bh. omits 6. B. omits. 7. Bh. विभागद ।

§151) 1 Bh. adds नामि । 2 Bh. gloss' तिम । 3 P. अहंनु । 4 P. इ । 5 P. वर-

6 P. वाउ । 7 P. गनेना विदि ।

संपदो विपदोऽपि स्युः पूर्वकर्मवशाद्भृशम् ।

मूदो मुदं विशदं वा तत्संपत्तिषु तन्वते ॥

[६०७]

पुण्यप्राप्तिनिबंधु यात्राकरणु मेली करी पुण्यलभ्य राज्य तणइ कारणि पाउउं वलनु युक्तं नही । तथा सर्वनासिर्हि यात्रा अकरी हउं वलउं नही । यद्वाह-

5 प्रारभ्यते न सलु विग्मभयेन नीचैः प्रारभ्य विग्मचकिता विरमन्ति मयाः ।

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ [६०८]

10 §452) इसउं भणी करी हसु राजा आयउ चालिउ । परिवारु क्रमि क्रमि सगलू पाउउ वलिउ । एकु छत्रधरू आपणापा पासि देखी करि वसालकार तुरंगमादि वस्तु समस्तु दे करी पाउउ भोकलिउ । जउ एतलउ लोकु आयत तउ पुणि पुण्यविभागु लियत । लोकु पाउउ गयउ तउ हथ मू एकलाई जि रहई पुण्य होइसिइ । इसउं मन माहि हर्षित थिकउ चीतउतउ हंतउ तीर्थामिसुय एकलउ पाइचारिहि जि चालिउ ।

15 §453) कहीं एक अटवी माहि महीपति रहई देखताई जि हूता मृग एकु परा हंतउ नाउउ । आवी करी लतावितान माहि पइउउ । तेह नइ पगि लागउ भीलु एकु धनुष्कि चडाविइ सरि साधिइ आउिउ । राजेंद्र कन्हा पूइइ । “ महापुरुष ! इणि पत्रउजिं वनि मृग तणउ पगु वीसइ नही । सु पुणि मृग माहरउं भक्षु किहा गयउ ? ” तउ पाउइ राजा चित्ति चीतइइ । “ साचइ करिइ मृगविनासुं हुयई, कूडइ कहियइ द्वितीयव्रत भंगु हुयइ । तिणि कारणि बुद्धि करी एउ विप्रतारिउं । ” इसउं चीतनी करी राजा भणइ, “ अहो माहरउ स्वरूपु पूइइ । मार्गभ्रमु हउं ईहा आउिउ । ” भीलु भणइ, “ मूड वाउउ मृगु किहा गयउ ? ” राजा भणइ, “ हउ सु हंसु नामि पुरुषु । ” आटेडी गाटेई सरि कइइ, “ मृग नउं मारुं मूर्ख मू रहई कहि । ” राजा भणइ, “ राजपुरी माहरउ थानकु । ” आटेडी कोपि चडिउं भणइ, “ जु तू रहई बधिरता व्याधि गाउउ उइ सु गाटेउ होइजिउ । ” इसउं भणी करी भीलु अनेरइ मारुं गयउ । मृग रहई मतिप्रयोगि उोडवी करी आपणउं व्रत अर्लाकवचनपरिहारलक्षणु अलंडु प्रतिपालर ।

20 §454) तिहा हतउ आयउ चालिउ । सामुहा आयता मुनि रहई वादी करी मारुं मेली करी आयउ चालिउ । यम किंकर सरिखा भील वि कोषारुण लोचन धणुहिं चडाविइ सरि साधिई आवी करी राजेंद्र आपइ कहई । “ त्रिकालइतउ चौर्यनिमित्तु मरु नामि पलीपति नीसरिउ । दृइतउ एइ वर माहि मुंड पाखडि एक रहइ देखी करी, अणुवुतु एउ, इणि कारणि तेह माराधिया कारणि अमं भोकलिया । सुपाखडिकु जइ तइ डीउउ तउ अमं आगइ कदि । ” तउ राउ मनि चीतइइ । जउ हउं भीलु करी रहिसु अथवा व्याज वचन भणिसु तउ भीलु सरलइ मारुं जायता हूता मुनि रहइ विनासहतु होइसिइ । तिणि कारणि सामनु अमन्यु जइ कहियइ तउ सत्य कन्हा अधिक 25 पुण्यकारकु हुयइ । इति शब्द उलडतउ मत्यु अमत्यु राजा कइइ । “ जिणि मारुं तुमं जाउ उउ, तेह मारुं हंतउ जु वामउ मारुं तिणि मारुं मरान्मा जाइ उइ । विश्व जनु जात रक्षणि करी इक्षिण मुनि तणउ दक्षिण, मारुं मेली करी ति भील वामइ, सकल जीउ प्रियात भायि करी वामइ मारुं जिम पूर्वोदि ति भील जायता हूता तिमहिं जि गया । मुनि कुगलि क्षेमि पटुतउ । ति भील त्रिदु प्रकार करी अमारुं गया ।

§452) 1 P इतिउ । 2 P पुण्यभागु । 3 P थकट ।

30 §453) 1 ms. वहा । 2 Bh लणु । 3 P. -उड । 4 P म्यु । 5 Bh ग्यु- । 6 P वनी । 7 P पाकि ।

§454) 1 B Bh पगइ । 2 Bh सल । 3 P विनाय - । 4 Bh रंजिनि ।

§455) राजा वचनसुधासेक समुल्लासित कीर्त्ति कल्पलतावितानु हंतत आघउ चालिउ ।
 संध्यासमइ महाद्रुम एक अधोभागी वासइ रहिउ । “संधि समुद्रि धनवंति चउथइ दिवसि पडिसियां ।
 धनसलिल माहि विलसियां । दारिद्र्यधुलि ऊतारिसियां ” इसी घात करता वनांतरित¹ चोर राजेंद्रि
 तिहां जाणिया ‘किसी परि ए चोर संघ विघात कारक नही ह्यइ’ जंतलइ मन माहि राजेंद्रु इसी
 परि चीतवइ तेतलइ दीपिकादीपिताशावकाश उदायुध महायोध तिहां आविया । राजेंद्र आगइ भणइ, 6
 “तउ कवणु ! के² एक चोर संघ विघातकारक हेरकहं अम्ह आगइ ईहां कहिया छइ । जइ तउं जाणइ
 तउ कहि । जिम ति चोर मारी करी संघ रक्षा करी यशु³ अनइ पुण्य वि वस्तु ऊपार्जा⁴ । जिणि कारणि
 श्रीपुर नगर नायकि श्रीगाधि नामकि जितशासन भक्ति तीहं चोरहं मारिवा निमित्तु अम्हे मोक-
 लिया छं । ” राजा पुनरपि चिन्ति चीतवइ । ‘साचइ भणिइ चोर घात पातकु लागइ । कूडइ⁵ भणिइ
 संघ लुंउन दूपणु लागइ । इसउं चीतवी करी राउ भणइ । “तुम्हे संधि जाऊ⁶ । तिहां गया हूंतां रहइ⁷ 10
 संघरक्षा पुण्य अनइ यशु ब्रे बोल होइसिइ⁸ । ति पुरुष राजा नइ वचनि करी रंजिया संघ माहि गया ।
 लतावितानु हूंता चोर नीसरिया राजेंद्र ने पगे आयी करी⁹ पडिया । इसउं वीनवइ, “अहो महापुरुष !
 तइं अम्हे ईहां छता जाणिया पुण अम्हारी दया करी तइं न कहियाई । तिणि कारणि तउं अम्ह रहइं
 जीवितव्यदाता परमोपकारी पिता । ” इसउं भणी प्रणमी करी वली गया ।

§456) प्रभाति राजा आघउ चालिउ । केतली कल गया हूंता ऊतावला असवार के एकि 15
 राय रहइ मिलिया । राय आगइ कहइ, “जिणि अम्हारउ ठाकुर दंडिउ सु हंसु ईहां किहांई वीठउ । जइ
 वीठउ तउ कहि, जिम सु मारी करी आपणा¹ ठाकुर तणउं वैरु सोधउं ” इसउं सांभली करी राजा मन माहि
 चीतवइ । ‘आपणा जीवितव्य तणइ कारणि कउणु विचक्षणु कूडउं बोलइ’ ? इसउं चीतवी राउ भणइ,
 “हउ सु हंसु राजा ! ” आयुध ले करी आगइ ऊभउ ह्यउ । तउ एक गमइ अनेकि अश्वाधिरूढ प्रौढ²
 सुभट³, बीजइ गमइ एकु हंसु राजा । तउ पाछइ धर्मप्रभावइतउ युहु करतउ राजा धणै असवारे 20
 पाछउ करी न सकिउ । किंतु पंचपरमेष्टि महामंत्र समरण परायणु तेऊ जु एकु सर्वे निजिणी करी
 संघाम भूमि पीठि रहिउ ।

§457) ‘सत्यवादिन् जयजये’ति वादपूर्वकु देवदंडुभि नाइ करण समकाल पंचवर्ण कुसुम नी
 वृष्टि राजेंद्र नइ मस्तकि करतउ तेह वन तणु अध्यक्षु व्यशु नामि यशु प्रत्यशु आगिलइ गमइ ह्यउ¹ ।
 साहरइ सत्यवादि करी प्रसन्नचिनु हउं व्यक्षारणुं यशु ताहरा चररी सव्वे निजिणी करी तू आगइ इसउं 25
 कहइ, “रत्नशुंगाभिधानि गिरि जिणि दिणि यात्रा हुयइ, आजु सु दिवसु, तिणि कारणि शणि विमानि²
 साहरइ चडि, जिम ह्यडाई जि तिहां जाइयइ । तउ राउ विमानि चडिउ । आपणपउं दिव्यालंकार
 शृंगारधारकु देखइ । आगलिइ गमइ दिव्य संगीतकु स्वकीय गुण तणइ गानि करी मनोहरु सांभलउ ।
 शुद्धक नइ अर्द्धासन समासीनु हंतउ हंसु देवगृहि आविउ । दिव्य कुसुम गंधसार घनसार कस्तूरिका 5
 शुभ्यारहं करी निर्वाहइ रहइ महापूज करी यात्रा संपूर्ण करइ । विमानाधिरूढ राजपुरी³ परिसंगेयानि 30
 आविउ । यक्षि अर्जुनु⁴ रिपु बांधी करी पगे आणी घातिउ । सु रिपु दया परिणाम वसतउत⁵ मेल्ली करी
 हंसु राजा राजपुरी भादि आयी राजि चडठउ । “दिव्यभोग राजेंद्र रहइ मुम्हे पूरिया ” इसउ
 आइसु दे करी चत्तारि यक्ष हंस रहइ अंगरक्ष व्यक्षयशु मेल्ली करी राउ मोकलायी आपणउ थानकि
 पहुतउ । हंसु राजेंद्रु राजपुरीजन रहइ महाहर्षु ऊपजावतउ सत्यप्रभावि पुरंदर जिम प्राज्यु राज्यु
 मतिपाली करी देवलोकि गयउ ।

35

§455) 1 Bh. P. विलसिया । 2 P.-रिना । 3 P. पद । 4 P. या सु thus confusing it
 with previous वरी । 5 P. क्यानी । 6 P. वड । 7 Bh. जायउ । 8 Bh. होभिइ । 9 P. omits.

§456) 1 P. आपणा । 2 Bh. added in margin. 3 Bh. omits.

§457) 1 P. वृषउ । 2 P. प्रसाद्यु । 3 Bh. adds-गी, but it is cancelled later.
 4 B. P. अर्जुनु । 5 P.-वसतउ । 6 P. omits.

हंसरानजतंसस्य सत्यत्रादफलं कलम् ।

श्रुत्वा भव्यजनाः सत्यं ब्रूथ याथ महोन्नतिम् ॥

[६०९]

द्वितीयाणुप्रत विपश् हंसराजेत्र कथा समाप्त^६ ॥

§458) अथ त्रीजउं व्रतु भणइ ।

तडए अणुव्ययमी भूलग परदव्वहरण विरईओ ।

आयरियमप्पसत्ये उत्थपमायप्पसंगेणं ॥

[६१०]

त्रीजइ अणुव्ययि स्थूलकु राजनिग्रहादि हेतु जु छइ परद्वयु तेह नउ हरणु ग्रहणु थूलग परद्वयु हरणु कहियइ । तेह तणी विरति निउत्ति तेह सकासइतउ इत्यादिकु प्रव्व जिम जाणितउं । परद्वयापरणु महापातहु । चटुक -

एवस्यैकं क्षणं दुःखं मार्यमाणस्य जायते ।

सपुत्रपौत्रस्य पुनर्यावज्जीवं हृते धने ॥

[६११]

तथा-

सम्भ्रन् यपि निगृह्येत चौर्यान्मण्डिकवन्तृषः ।

चौरौपि त्यक्तचौर्यः स्यात् स्वर्गभाग्य रोहणेयवत् ॥

[६१२]

§459) अथ अतिचार प्रतिकमणु कहइ ॥

तेनाहडणयोगे तप्पडिरुवे य विरुद्धगमणे य ।

कूडतुल कूडमाणे पडिक्के देसियं सब्बं ॥

[६१३]

रतेन चोर तेहे आहूत देनातर समानीत वस्तु स्तेनाहटु वस्तु कहियइ । अथवा आपणार्इ जि यानरु हूंतउं आणित' वस्तु तेनाहटु कहियइ । तेह नउ ग्रहणु १ स्तेन प्रयोगु ।

चौरट रहइ ऊघारि वस्तुदानु तिणि करी चौरट रहइ चोरी त्रिपइ प्रेरणु स्तेन प्रयोगु २ ।

'तप्पडिरुवे य' । तत्प्रतिरूपु घृतादि मादि वसादि मेलनु तत्प्रतिरूपु कहियइ ३ ।

'विरुद्ध गमणे य' । विरुद्ध वृषह तणइ राजिय गमनु विरुद्ध राज्य' गमनु' ४ राजा देश पाखइ धनलाभ लोभि करी गमनु विरुद्ध गमनु कहियइ ४ ॥

'कूडतुल कूडमाणे' । तुला लोहदड पिणेपु मानु भेतिकादिकु । तीरं रहइ कूडतारुडइतउं

25 अधिक करणु अथवा ऊणता करणु । कूडतुल कूडमाणु कहियइ ५ ।

§460) ईहा अनिचारता वणिक्कला ण चोरी नहीं । इसी परि व्रत सापेक्षता हती । यदाह-

उच्चियं मुत्तूण कलं दव्याड कमागय च उक्करिसं ।

निवडियमपि जाणंतो परस्स संतं न गिन्देइ ॥

[६१४]

उचित राजनिग्रह रइइ अयाग्य कला लगार एक अधिक लगार एक ऊणता करण लक्षण

7) वणिक्पटुता उचितकला कहियइ । तेह मेल्ली करी 'कमागय' । पितृ पितामहादि कामि करी आगटु द्रव्यादिकु मेल्ली करी । 'उक्करिस' अधिकु । 'निवडियमपि जाणंतो' । भूमि पडिउ जाणतार्इ हूंतउ 'परस्स सत न गिन्देइ' । पर तणउं लिउं नहीं । तथा चोत्त-

पतितं त्रिस्मृतं नष्टं स्थितं स्थापितमाहितम् ।

✓ अटचं नाददीत स्वं परकीयं क्वचित्सुधीः ॥

[६१५]

ईह स्तेनाहतादिकह कीजता हुता जु कर्मु बाधउ सु 'देवसिउ' दिवसकृत सव्व सगल्ल 'पडिकमे' पडिकमिउ ।

§461) अत्र अदत्तादान परिहारविषय लक्ष्मीपुज कथा लिखियइ ।

अदत्तादानविरतिप्रतनिश्चलनिश्चयः ।

लक्ष्मीपुंज उवाप्नोति सर्वं सर्वमर्चिततम् ॥

[६१६]

तथाहि-

हस्तिपुरु नामि पुरु । महादारिद्रमादिषु सुधर्मु इसइ नामि धर्मकर्म कर्मतु श्रेष्ठि एकु हतउ । सु कउडा¹ वडइ वस्तु लेइ करी घेचइ । केई एक कउडा² उपाज्जतउ हतउ कालु अतिक्रमावइ । धन्या नामि¹⁰ तेह नी मेहिनी । तिणि³ अनेरइ दिनि रात्रि स्वप्नु लाधउ । दिव्यालकार सार गणार तारछइ श्रीदेवी जिनेद्रपूजा करती पद्महृद माहि बइठी, जाणइ हउ देखउ उउ । ते तीहीं जि वार जागी हूती हर्प रोमाच कुचकित गात्र⁴ ऊठी करी प्रियतम आगइ आवी स्पन्नु कहइ । तिणि कहिउ, "प्रियतमि⁵ श्रीमतु धीमतु धर्मवतु तू रहइ पुत्र होसिइ⁶ ।" तिणिहिं जि दिणि⁷ तह ना प्रभावइतउ तेह सुधर्म श्रेष्ठि रहइ वि गुणउ लाधु हूयउ । लाभादय कर्मोदय लगी सु श्रेष्ठि सुखलेसह रहइ तह दिन लगी प्राहुणउ हूयउ । धन्या रहइ¹⁶ सुभकाति सौभाग्यादिकह गुणह करी सु गर्भु भाग्ययतु सुधर्मु समापिउ । आप्रहायणीय दिणि सु सुधर्म श्रेष्ठि धनार्चिताकुं पाद नइ अगूठइ करी घर नी सुइ ररवलतउ हूतउ कल्याण मणि माणिअय पूर्णु बिलु देखी निधिलाभइतउ आनन्दमदिरु हूयउ । तउ पाउइ जि सु⁸ इद्र नउ विमानु हुयइ तिसउ मदिरु करापिउ । रूपवत सालकार सगगार दास दासिका परिवारु तिम⁹ हिं तेह नइ घरि सापडिउ । आप्रहायणीय महोत्सवु सविस्तरु करापिउ । तह नइ मणि सुवर्णि¹¹ दानि करी जि दातार हुता तई²⁰ याचक हूया । जिम जले¹⁰ नीसरत ई¹¹ कृपु भरिउ ई जि दीसइ तिम रत्ने¹² काटीते ई सु बिलु तिम हीं जि भरिउ दीसइ । तिणि विभूति करी हइ सपूर्ण दोहदकालि धन्या सुपुत्रु प्रसवइ । देवर्ती रहइ विस्मयकारकु दानु दियतइ हूतइ श्रेष्ठि पुन तणउ जन्ममहोत्सवु करापिउ । इणि आवियइ अम्हारइ घरि लक्ष्मी तणा पुज हूया । तिणि कारणि अम्हारु पुत्र रहइ यथार्थु लक्ष्मीपुज इसउ नामु हूयउ । इसी परि भणी करी वडइ विस्तरि लक्ष्मीपुज नामकरण पितरे कीधउ । मनोवाञ्छित वस्त्रालकारादिकह²⁵ करी सु³ बालकु जन्म लगी सुभभागी हूयउ । कलावत जिम सकल कलाकलापवतु हूयउ ।

§462) आठ दिसि सभूत जिस्सी आठ लक्ष्मी हुयइ तिसी स्वयंवर आगी आठ घर कन्या¹ परिणित । देवादास सभा निवास निवासी यथाकाम सुखसभोगभगीसपुत्रु हूतउ न्यूयास्तादय अजाणतउ हूतउ जु जु इन्द्रियानुकूल सु सु यथारुचि भोगवइ, जु जु दुःखकरु सु सु सत्तार्इ करी न जाणइ । पचोत्तर सूर जिम सुखसागर निमगनु हूतउ सु कालु अतिक्रमावइ ।

§463) अनरइ दिवसि कात¹ काताजनाकदाव्यासुत हुता तह रहइ जतलइ चित्त माटि इसी चिंता ऊपजइ जु 'सू रहइ किंसा कारण लगी इसी देव समान ऋद्धि हई' तेतलइ आगिलइ गमइ दिव्य वस्त्रालकार भासुरु जिसउ सुरु हुयइ तिसउ पुरुषु प्रकहु हई करी अजलिकरण पूर्वकु भणइ । "देव

§ 461) 1 B. P- ननु । 2 P क्वडा । 3 P ति । 4 Bh P - कुचकित- । 5 Bh P हयवइ । 6 P दिनि । 7 Bh P असउ । 8 P तिणि । 9 Bh दुवपण । 10 Bh तउ । 11 P नीसरे तोइ । 12 Bh रत्न । 13 Bh P स ।

§462) 1 B omits पर-

§463) 1 P वत । 2 P हइ ।

धन्याहुक्षिसरोरंस ! भाग्यसौभाग्यपात्र ! जनावर्तंस ! मणिपुरु इसइ नामि पुरु छइ । तिहां पुण्यधरु
गुणधरु इसइ नामि सार्थग्राह हुंउ । सु अनेरइ दिनि विशदाभिधान मुनि समीपि वन माहि गयउ ।

जन्तोः स्याद् दुःखं द्रव्यहरणं मरणादपि ।

अतः सकृत्किंचिदपि कार्यं चौर्यचर्याविमोचनम् ॥

[६१७]

एवमाकर्ण्य पुण्यात्मा स विप्राररसंसदि ।

अदत्तादानविरतिं व्यथात्तत्र तदा मुदा ॥

[६१८]

पुरु माहि आग्रिउ हुंतउ द्यवसायनिमित्तु भूरि भांडसंभारु ले करी देसांतरि चालिउ । आपणा
वेस तणइ अंति सार्थि अटगी माहि पडइइ इतइ आपणपई सार्थग्राहु घोडइ चडिउ आगइ यिकउ
जादरा लागउ । पाउइ मारुं मुंकी करी प्रौढ पदप्रचारि किणिहिं दांडइ पडिउ । सुवर्णलक्ष मूल्य रत्नावली
10 एक तिहां भुइं पतित देरइ । व्रतभंग भयप्रदाइतउ वली बीजीवार तिणि गमइ इष्टि अकरतउ हुतउ
आघउ गयउ । सार्थ संचल भाव तणा अलामइतउं ' किंसुं सार्थु दूरि गयउ ' इसी परि मन माहि शंका
ऊपनी तउ पाउइ सार्थग्राहु आपणउ वाहु आघउ ऊताविलउ चलावइ खुरक्षुणिणि मार्गि मूर्धण्युर्णु त्रांश
नउ धुमु देरइ । व्रतभंगइतउ तिमाहिं जि मूकी करी आघउ गयउ । ऊतापला जायता हुंता सहसाकारि
15 वाहनवाहु मूयउ । पापभय भीतु चीतवइ ' मू वाहतां हुंता एउ मूयउ एा हतोस्मि । जु को एउ रइइ
जीवाडइ तेह रइइ एउ तुरंगमु हउं आपउं । अनइ ऊपरि घणउ धनु आपउं ' इसउं मन माहि चीतवतउ
हुतउ सार्थग्राहु पादचारिहिं जि आघउ चालिउ । तृपाकांतु हुंतउ वृक्षशाखानिवद्ध वारिपूरित दीयडी
देरइ । तउ अदत्तादानव्रतभंग' बहैतउ ऊचइ स्वरि करी कहइ, " कउण तणी ए दीयडी " ? इसी परि
वार वार भणतउ हुंतउ सामली करी तीहं जि तरु नी शखा वापउं छइ पाजरउ, तिहा छइ मूयडउ,
20 तिणि भणिउं, " वन माहि ओसही लेवा गयउ वैद्यपुतु तेह नी ए दीयडी । हउं तेह आगइ काई नही
कहउं तउ शीतलु जलु पी' , इसउं शुक्र तणउं वचनु सामली करी कर्ण हाथे टांकी करी शुक्र आगइ
सार्थग्राहु कहइ । " वृम वरि माहरा प्राण हरउ, पुण तोई वैद्यि अणदीधउं जलु पीयउं नही, महापापभय
भायइतउ । " तउ पाउइ शुक्र नउं रूपु सहरी करी वृक्ष हुंतउ ऊतरिउ को एकु वरु पुरुपु । सार्थग्राह
आगइ हर्षितु यिकउ' कहइ ।

§ 464) " वैताल्यि नामि पर्वति विपुला इसइ नामि नगरी । तिहा नउ हउं मूर्धु इसइ नामि
25 विद्याधरु । अनेरइ दिनि ताहरइ मणिपूरु इसइ नामि करी प्रसिद्धि नगरि विशदाभिधानु माहरउ
जनकु विद्याचारण मुनिवरु उद्यानयनि समोसरिउं हुंतउ हउं तेह रइइ वांदिवा तिहां' आविउ । वादीं
करी यथास्थानि बइठउ । तदाकालि मूं उदिसी करी महात्मा भणिउं ।

अनादानमदत्तस्याऽस्तेयव्रतमुदीरितम् ।

वाद्याः प्राणा नृणामर्थो हरता तं हता हि ते ॥

[६१९]

10 तथा—

वरं भिभयन् यता मुजनभावभाजा नृणाम् असाधुचरिताजिता न पुनरुजिताः संपदः ।

कृजत्प्रमपि शोभते सहजमायनौ सुंदरं, विपात्ररिरसा न तु श्वययुसंभवा स्स्यूलता ॥ [६२०]

ताहरइ तउ धनु घणुं आगे'उइ । किसइ कारणि परद्रव्यापहारु करइ । इत्यादि चोरि
परिहरण विषद घणउं भणिउं । तथापिहिं हउ चौर्यव्यसनी फिटउ नही । तउं पुणि मू देवता तदाकालि

§ 463) 3 Bb gloss समागाम् । 4 P omitt 5 Bb. अन्नभयन । 6 Bb फियत । 7 Bb गयउ ।

8 P omits -भग । 9 P थकउ ।

§ 464) 1 Bb omitt 2 M^o स्वयउ- । 3 Bb पय । P वणउ । 4 P भागउ ।

परद्वय लेवा नियमु लीधउ । मूरहई महाविस्मय ह्यउ⁵ । 'जोयउ न, ए वाणिया धनलवलाभ⁶ निमित्तु सतीरू सर्वस्वु जोखिमि घाती करी दूर विषम देशांतर पूर फिरई तीहं रहई अदत्तादानधिरति नियमु⁷ किसी परि प्रतिपालइ⁸ । तिणि कारणि एह तणी हउं परीक्षा करिखु । इसउं चीतवी अइपु थिकउ तू पाखती⁹ फिरिउ । फिरतइ हूंतइ आजु मई अवसर लाधउं । तउ मई तू रहई स्वर्णलक्ष्य मूल्य रत्नावली पतित दिखाली । निधानु पुण¹⁰ दिखालिउं । अनइ घोडउ मूयउ दिखालिउ । मई तउं पुण लोभि जीतउ⁵ नहीं । वसिया हूंत तू रहई पाणी भरी दीयडी दिखाली । शूक नइ रूपि तू रहई जलपान विषइ प्रेरणा कापी । तई पुण मोटेई प्राणरक्षणलक्ष्मि कारिय उरस्थितइ हूंतइ तई अल्पु पाणीपानमातु अदत्तादानु करावी न सकिउ ई ।”

§465) इसउं भणी करी सूर्यि विद्याधरि आपणा सेवक विद्याधर तेडिया । ति अदृश्य हूंत सवै दृश्य हूया । तीहं कन्हू मणिमाला अणावी निधानु अणाविउं । अनेरउं घणुं¹ धनु अणाविउं ।¹⁰ मूयउ हूंतउ जु घोडउ सु जीवाडिउ । सार्थवाह आगइ सूर्यु विद्याधरु भणइ, “ सार्थवाह ! एउ ताहरउ घोडउ आपणउ साति ” इसउं भणी करी सार्थ माहि आणी सार्थवाहु मेलिउ । धनु सार्थवाहु आगइ मेलिहउं । सार्थवाहु भणइ, “ किसउं एउ धनु ” । सु भणइ, “ काई एकु माहरउं, काई एकु कउतिग लगी पर हूंतउं अरहरिउं² । तदाकालि राजक्रुपि विशदमुनि वचनि ज मूरहई चोरी तणी निवृत्ति न हुईयइ³, स ह्यडा⁴ ताहरा साहसदरदानइतउ मूरहई चोरी निवृत्ति ऊपनी । तिणि कारणि तुम्ह रहई मई धर्म-¹⁵ गुरु भणी धनु पावमेट⁵ कीधउं । ” इसउं कहता सूर्य विद्याधर आगइ गुणधरु भणइ । “ जु धनु जेह नउं तई हरिउं छई सु तेह रहई पाछउं दइ ” । तिणि तिमइ जि कीधउं । “ पाछिलउं माहरउं धनु गुणधर ! तउं लइ ” इसउं भणता सूर्य आगइ गुणधरु कहइ, “ अहो विद्याधर ! तउं एउ माहरउं धनु⁶ सगळ⁷ लइ । जिणि कारणि इसउं मई मनिउं हूंतउ ‘जु को माहरउ घोडउ जीवाडइ तेह रहई सगळ⁸ आपणउं धनु आपउं’ । तई माहरउ घोडउ जीवाडिउ, तिणि कारणि तउं माहरउं धनु लइ । किंच दानु⁹ पात्रि²⁰ दीजइ । हउं पुण दानयोग्यु पात्रु नहीं । तिणि कारणि ताहरउं धनु कथमपिहिं लिउं नहीं ।”

§466) इसउं भणता गुणधरु आगइ विद्याधरु भणइ, “ हउं ताहरा उपदेश रहई इणि भवि करिणु¹ नहीं हूउं । मई माया लगी ताहरउ घोडउ मूयउ दिखालिउ, तिणि कारणि किसी परि ताहरउं धनु हउं लिउं । माहरउं धनुं तउं न लियई, ताहरउं धनु हउं न लिउं । तउ पाछइ एह धन रहई कउणु धनिकु होइसिइ ? ” सार्थवाहु कहइ, “ धरुं जेह रहई देसिइ तेउं धनिकु होइसिइ । तिणि कारणि आवि, जिम²⁵ सर्वेश देसिति धर्मि वेचां, लक्ष्मी कृतार्थ नीपजायां ” । तेह नइ वचनि विद्याधरि अंगीकरियइ³ हूंतइ तेह, विहुं आपणी लक्ष्मी समक्षेत्री माहि वाधी । तउ पाछइ गुणधरु मरी करी तउं लक्ष्मीपुंजु ह्यउ । हउं पुण ताहरा उपदेशइतउ सुवात्रि धनु दियतउ आयु पूरी करी व्यंतरु ऊपनउ ! ताहरई पुणिय करी हउं पुण आवगितु हूंतउ तू रहई आजन्महिहु कालोचित्तु यस्तु पूरउं । ” इसउं व्यंतरवचनु संभली करी मूच्छां गयउ हूंतउ सीतोपचारइतउ मूच्छांपगमइतउ जातिसमरणु लही करी लक्ष्मीपुंजु प्रमोदपुंजु ह्यउ⁴ ।³⁰ पावजीवु विनुदु जिनधरु प्रतिपाली करी अंतकालि अनसन⁵ करी ममाधिसउं मरी अच्युतदेवलोकि वैवु होई पुनरपि मनुष्यभवु लही, दीक्षा ले, कैवलज्ञानु ऊपाटी, मोक्ष पहुतउ ॥

§465) 5 P. हुइ । 6 P. omits. - क - । 7 P. नियमि । 8 B - परइ । 9 P. इ. (?) वा. omits - गनी 10 P. पुनि.

§465) 1 Bh. वचउ । 2 P. अणइत । 3 P. इयइ । 4 P. हइ । 5 P. वारमेटि । 6 P. drops words between माहरउं धनु .. माहरउं धनु । though it retains गुणधर । 7 Bh. has added words between सगळ⁸.....सगळ⁸ in the margin. 8 Bh. दइ ।

§466) 1 P. ऊण । 2 P. तउ । 3 P. - करिइ । 4 Bh. तेइ । 5 P. इउ । 6 P. अणनु । 7 B. omits. 8 P. ३१

लक्ष्मीपुञ्ज-कथा श्रुत्वा भव्याः स्तेयविवर्जनम् ।

— कुरुचं येन रस्तूर्णं पूर्णं भवति मङ्गलम् ॥

[६२१]

॥ अदत्तादान परिहार विषय लक्ष्मीपुञ्ज कथा ॥

§467) अथ चउथउ व्रतु कइइ ।

चउथये अणुव्वयंमी निचं परदारगमण विरईओ ।

आयरियमप्पसत्थे इत्थ पमायपसंगेणं ॥

[६२२]

चउथइ अणुव्वति नित्यु सदा पर अनेरा पुरुष तीह तणा दार कलत्र परिणीत समहीतादि भेदवध अनेकविध यनिता तीह नइ विषइ गमनु आसेवनु तेह नी विरति नित्य परदारगमन विरति कहियइ । स पुण परस्त्रीसेवा इहलोक परलोक विरुद्ध अपकीर्ति दुर्गति जनक तिणि कारणि श्रावक इतइ परस्त्रीसेवा 10 निवृत्ति अवश्यमेव करेवी ॥ तथा च भणित-

प्राणसेदेहजननं परमं वैरकारणम् ।

✓ लोमद्वयविरुद्धं च परस्त्रीगमनं त्यजेत् ॥

[६२३]

✓ विप्रमाक्रान्तविश्वोपि परस्त्रीपु रिरंसया ।

कृत्वा कुलक्षयं प्राप नरकं दशकन्धरः ॥

[६२४]

1) तिणि कारणि परदारगमनविरतिइतउ 'आयरियमप्पसत्थे इत्थ प्पमायपसणेण' पूर्ववत् ।

§468) ईही जि व्रत तणा अतीचार तणउ प्रतिकमणु मणइ ।

अपरिग्गहिआ-इत्तर-अपंग वीवाइ तिच्च-अणुरामे ।

चउथयवयस्सउयारे पडिद्वमे देसियं सव्वे ॥

[६२५]

अपरिगृहीता गिधया तेह नइ विषइ गमनु अपरिगृहीतागमनु १ । 'इत्तरस्ति—इत्तरु अल्पकालु भाटी 20 दानइतउ ज वेस्या किणिहिं आपवसी कीधी हुयइ स इत्तरा कहियइ । तेह नइ विषइगमनु इत्तरगमनु २ । 'अणग 'स्ति—अननु कामु तत्प्रधानक्रीडा यनिता तनुस्पर्शादि क्रिया अनगक्रीडाइ । 'परवीवाह'स्ति पर तणा अपत्यइह तणउ स्नेहादि भावइतउ परिणयनु करावणु परवीवाहकरणु ४ । आपणार्इ अपत्यविषइ सख्याभिमहु करिया युक्तु हुयइ । 'तिच्चअणुराम'स्ति—कामभोग विषइ माटी आसक्ति तिउअ अणुराम कहिइ' सदा विषयाध्यवसायु इत्यर्थं ॥५ ।

2) जु स्वदारसतोपी श्रावहु हुयइ तेह रहइ उएत्ता त्रिन्नि अतीचार आय वि अतीचार भगइ जि हुयइ । तथा च भणित-

परदारराजिणे पंच द्रुंति तिच्चिउ सदारसंतुट्टं ।

इत्थीइ तिचि पंचउ भंग विगप्पेहिं नायव्वा ॥

[६२६]

ति आश्रयी करी जु कर्म वाधउ—इत्यादि पूर्ववत् ॥

§469) च्चुर्थव्रत विषइ नागिलकथा लिखियइ ॥

30

✓ अहो ब्रह्मव्रतं मुक्तेः संसृज्वीकामकारणम् ।

नीयते नागिलस्येव विषदासुपदाइइत्तु ॥

[६२७]

तथाहि-

महापुरु नामि पुरु । मोजु नामि राजा । लक्ष्मणु नामु श्रेष्ठि जिनधरु मर्यमान् मनइ । तेह नी नदा नामि विवेकिनी नदनी । स पुण' मतीमतल्लिका परिणयन योग्य इती पिता आगइ कइइ-

§468) 1 Bh कहियइ ।

§469) 1 Bh has corrected मानइ to मनइ । P. नमइ । 2 Bh जोस पुत्रिका । P' नंशिका ।

निरञ्जनं दशोन्मुक्तं निःस्नेहव्ययमन्वहम् ।

धत्ते विवेकं^१ दीपं यः परिणेतो ममाप्सु सः ॥ ✓

[६२८]

इसउं तेह नउं वचनु सांभली करी पिता चिंताकुलु ह्ययउ । तेह रहई वरु आवइ तेह तेह आगइ 'निरंजनं' इत्यादि श्लोकु पढइ । को^१ एकु श्लोकु परमार्थवृत्ति करी परीछइ नहीं । बाह्यार्थवृत्ति करी परीछइ ।

§470) तिणिहिं जि नगरि नागिलु नामि जुयारी^१ एकु छइ ।। सु पुणि रूपि करी जिसउ कंदर्पु हुयइ तिसउ छइ । तिणि नागिलिं अनेरइ दिनि अनेकि लंघन करी विरूपाख्यु^२ यक्षु आराधित^३ हुंतउ^४ प्रत्यक्षु ह्ययउ कहइ । "अहो वरु मागि" । तिणि भणितं, "जउ तउं मू रहईं तूउउ तउ जिसउ^५ दीपु नंदा कहइ छइ तिसउ दीपु तउं^६ माहरइ धरि था" यक्षि कहितं "होइसु" । तउ पाछइ लक्ष्मणश्रेष्ठि तणइ धरि जाई करी नंदा मागइ । श्रेष्ठि भणइ, "नंदा जिसउ दीपु भणइ तिसउ दीपु जउ थाहरि^७ धरि हुयइ तउ^८ नंदा लहइ" । तिणि भणितउ, "आवी माहरइ धरि जोयउ" । श्रेष्ठि जोयइ तउ तिमहीं जि परि दीपु देखइ । नंदा तेह रहईं परिणायइ । यक्षमभावि दरिद्रताभावु^{१०} नाठउ । लक्ष्मी प्रभूत आवी । तथापि नंदा तिसइ दीपादि दशनाश्रार्थिहिं^{११} करी निरानंदा ई जि ह्ययई । सु पुण नागिलु स तिसी देवतासमानरूप नायिका लहिऊ करी द्यूतव्यसन तणी निवृत्ति न करई । जिम जिम धनु हारइ तिम तिम नंदास्नेह लग्यी लक्ष्मणु-श्रेष्ठि पूरइ । जदपिहिं धनु हारी बाहिरि अपर पणांगना रमी धरि मउडउ आवइ, तथापि हिं नंदा सानंद^{१२}, थकी तेह रहईं परचर्या करइ । तउ पाछइ नागिलु आपणइ मनि चींतवइ । 'हउं पइ रहईं प्रिय^{१३} नहीं । जु एवडेई अपराधि मू ऊपरि क्रोध^{१३} न करई' ।

§471) अनेरइ दिवसि तिणि नागिलि धणउं धनु हारिउं । कितवहं कन्हा नाठउ वन माहि पइठउ । तिहां ज्ञानवंतु मुनि धर्मध्यानि वर्तमानु तिणि दीठउ । धांदी करी प्रस्तावि पूछिउं । "भागवत माहरी भार्या सुभसङ्गायइ हूँती मूं रहईं चित्ति काई न करई" । इसइ पूछिइ हूँतई महात्मा मनि चींतवइ, 20 'योग्यु छइ, एउ प्रतिबुद्धिसिइ' । तिणि कारणि महामुनि कहइ । "स विवेकिनी कांतु^१ पुणि^२ विवेकवंतु परिणिधा कारणि विवेकु निरंजनादिगुण तिणि कहिउ । तउ विवेकु दीपु^३ जु धरइ सु मू रहईं वरइ इसउ तेह नउ अभिप्राउ हूंतउ । सु अभिप्राय को जाणइ नहीं । तई दीपु^४ निरंजनादिगुणु दिखाली करी परिणी । यतः-

निगद्यतेऽञ्जनं माया नवतत्त्वच्छिचिर्दिशा ।

स्नेहव्ययः प्रेमभङ्गः कंपः सम्यक्त्वखण्डनम् ॥ ✓

[६२९]

तेह मायादिके द्वेष विवर्जितु विवेकु दीपु जु धरइ सु मूं रहईं वरइ । तिणि पुण जेतीवार तिसउ दीपु यक्ष विरचितु दीठउ, जेतीवार मौनवंतु हूँती तई परिणी । जेतलइ सती तेतलइ तू रहईं अपराधवंतही विपइ न रुसईं । जेतलईं तउ अविवेकी एतलइ तू ऊपरि न तूसईं । नू रहईं चित्तिहिं न करईं ।" मटासती नऊ सु समाचारु साधु भणितु अनइ विवेकु सांभली करी प्रतिबुद्धइ । महात्मा कन्हा जिसउ विवेकु पूर्वार्थि^{१०} कहिउ तिसउ विवेकु अनइ स्वदारसेतांपन्नतु तदाकालि नागिलि अंगीकरिउे ।

४ P. विवेकी । ५ P. कोइ ।

§470) 1 Bh. जहारी । 2 P. विरूपायु । 3 P. आभारित । 4 P. तउ । 5 B. जिउउ (-3 appears to have been cancelled). 6 P. तू । 7 P. भणित । 8 Bh. याहरः । P. किनई ताहरइ । 9 P. adds न । 10 P. दसि- । 11 B. आपर्येहिं । 12 P. प्रिय । 13 Bh. सेपु ।

§471) 1 P. कवि । 2 P. पुण । 3 B. drops words between दीपु.....दीपु ।

§472) घरि आवी स्नानु करी विधिवत् देवपूजा करइ । सुपात्रहं रहइ दानु प्रवर्तावइ । यथेच्छा कामसुख भोगवइ । तउ पाछइ विवेकवंतु कांतु देखी करी नंदा सानंदा हूती भणइ, “शील सलिल परिसिक्त हूती जिनभक्ति कल्पलता आजु मू रहइ सफल हुई । कांत जु मइ तउं विवेकवंतु दीठउ ।” नागिलु भणइ, “प्रियतमि ! जु मइं व्यसनु मेल्ही करी विवेकु अंगीकरिउ’ तेह अर्थविपइ शुरु नउ आदेशु’ कारणु । यत उक्तं—

मनो न निश्चलं तावद्यावत्तत्त्वं न विंदति ।

✓ विदिते तु परे तत्त्वे मनो नौकूपकाकवत् ॥

[६३०]

तेह दिवस हूती तीहं रहइ एकचित्तता हुई । नागिल नंदा विहुं आधिरहितहं समाधिसहितहं समान धर्म-रूप-कला-योगनवंतहं तीहं तणी कायकांति अतिशय प्राप्त हुई ।

10 §473) अनेरइ दिनि किणिहिं पविं नंदा पीहरि गई । नागिलु आपणा घर तणी सातमीं थुइं नइ मणिकुट्टिमि देवपत्यंकोपमान शयनीय उपरि सूतउ चंद्रविधि दत्तलोचनु वसंइ । कइ’ एक’ विद्याधरी प्रिय विरहिणी’ आकाशमार्गि जायती नागिल रहइ देखी करी सकाम हुई हूती नागिल’ आगइ आवी करी भणइ । “कामाग्नि-संतत-गात्र’ हूती हउं अहो महापुरुष । तू रहइं शरणइ’ आवी । स्वामिन् ! स्वांगसंग-सुधातरंगरंगकेलीसुख’ मू रहइं करावि । हउं पुण विद्याधरशिरोमणि छइ हंसु विद्याधरु तेह नी गेहिनी, 15 तइं दीठइ तेह हूंतउ माहरउ मनु ऊनीठउं ह्यउं । चंद्र नाम खेचरेश्वर नी हउं दीकिरी नामि करी आगइ लीलावती, तइं आदरी तउ हउं कर्मिहिं करी लीलायती होइसु । अथ मू रहइं जइ किमइ नहीं अंगीकरइ तउ तउं नहीं हुयइ अथवा हउं नहीं हउं । तेतीवार धर्मज्ञ तउं किसउं लीहत्यापातकी’ हुयइ ? पति तणी विद्या पिता तणी विद्या हउं सदा’ 11 ति’ 12 जाणउं ति विद्या तू रहइं देखु, पति अनइ पिता तू रहइं साध्यकरिसु । तिणि कारणि हउं’ 13 मू रहइं अंगीकरि । माहरउंयचनु अन्यथा म करिसि ।” 20 इसउं भणी करी तेह ना पाद आपणइ मस्तकि धरिवा कारणि जेतलइ धाई तेतलइ ‘परस्त्री संस्पर्शु माहरां पगहीं रहइं म हुउ’ इणि कारणि नागिलि जिम दहन हूता दासता पाछा कीजइ तिम कीधा ।

§474) तउ पाछइ स विद्याधरी कोपवशागत हूती आकाशगत अतीवाऽऽरक्तलोचन थिकी अश्रियणु लोहगोलु अतिविलोलु विकुर्वी करी नागिल तणा मस्तक ऊपरि मूकइ । “दाधउ रे दाधउ रे” इसी परि गगनगत हूती चाहइ । तेह रहइं वीहइ । तउ पाछइ नागिलु पंचपरमेष्ठि नमस्कार मन माहि 25 समरइ । नमस्कार नइ प्रभावि लोहगोलउ विलइ गयउ । स विद्याधरी पराजित हूती लाजी करी अदृश्य हुई । नागिलु हर्ष रोमांच कंशुकिन गात्रु ह्यउ । “सुहृद् पाखइ पितुमंदिरिहिं मू रहइं रति नहीं ।” इसउं भणती’ हूती नंदा नइ रूपि नंदा नइ स्वरि स खेचरी गृहद्वारि आवी । परिवार कन्हा द्वार ऊचडावइ’ नागिलु स्वरि करी नंदा ओलखतु हूंतउ खेचरी कपटाशंका’ करी संकीर्णस्थानस्थु होई तउ नंदा बोलायइ । “हे अरविदाक्षि, दाक्षिण्यनिधे यदि त्वं नंदांमि तदा मामेहि । अथाऽऽन्या कापि तदा धर्मवृप- 30 प्रभावाद्भ्रमगतिर्भव ।”

इसा कथन कथनानंतरु धर्म नइ प्रभावि स खेचरी स्तंभितगति हूती तेह नइ चरित्रि करी विस्मयापन्न हूती विद्याधरी आगइ ऊभी रही । नागिलु कपटांतराऽऽनंकी’ शीलरक्षा कारणि आपणे व्रतु लियइ । सासनदेयतादत्तु’ वेसु धरतउ हूंतउ गृहस्थितु जु छइ यक्षदंगु तेह आगइ इसुं कहइ । “अहो अराध्य ! नंदा नइ लोभि मइं तउं गृहदीपतां पमाडिउ’ हूंतउ । सांप्रतु हउं कृतकृत्यु ह्यउ ।

§472) 1 P अंगीकरिउउ । 2 P आदेशु । 3 P. रहइइ ।

§473) 1 Bh. गयई । 2 P. के । 3 P. एकि । 1 P. -विरहिणि । 5 P. नागिलइ । 6 P. omits -गात्र । 7 Bh. शरण । 8 P -मुगर्ग-केवरी- । 9 P. omits. 10 B. Bh. add नहीं । 11 P. सवै । 12 Bh. इ । 13 Bh. तउ ।

§474) 1 P. गनीति । 2 Bh. क्पाशयइ । 3 P. omits कपटा- । 4 B. P. -शंका । 5 P. गयना- । 6 Bh. इसउ । 7 P. पमाडिउ ।

विरूपाक्षाय^१ यक्ष ! तउ आपणइ थानि पहुचि । ” तउ दीप हर्ता भापा नीसरी, “ जा तउं^२ जीविसि तां हउं तू सरसु^३ रहिसु ” । तथा शीलमहिमा देरी करी स सेचरी अतिरजितचित्त हंती प्रभात समइ महाविस्तरि^४ दीक्षा महोत्सवु करावइ । सूर्योदयार्हं दीपभासु^५ जु छइ यक्षदीपु तिणि अनुगम्यमानुं विस्मय स्मर लोचनहं^६ लोकह विलोक्यमानु नागिलु भवसमुद्रकूलि गुरुपादमूलि पहुतउ । नदां सहितु दीक्षा ले करी हुस्तरि^७ तपक्रियाकलाप^८ करतउ हुतउ गुरु सरिसउ विहरिउ । रातिहिं^९ यक्षदीप^{१०} ६ तणइ प्रयोति श्रुनपाउ करतउ^{११} थोडे दिवसे ज्ञात ज्ञातवुपु गीतार्थशिरोमणि ह्ययउ संजमघरणपूर्वहिं आयु कर्म वाधउं^{१२} हुतउं, तिणि कारणि हरिवर्षक्षेत्रि कल्पवृक्षतलि नडा स्नेह लगी जुगलियउ ह्ययउ । सु जुगलु भाग्यशेष तणइ प्रभावि स्वर्गभोग भोगवी करी महाविदेहि क्षेत्रि मनुष्यता लही सिद्धिहिं गयउ ।

शीलं स्वर्णभरणं परीक्ष्य हीरान्वितं नागिलन्नधिषाय ।

10

आसंसृतिं साररमामवाप्य श्रेयाश्रियं भव्यजना लभन्वम् ॥

[६३१]

चतुर्थव्रत विपद नागिलयूतकार कथा समाप्ता^० ॥

§475) अथ पाचमा व्रत तणउ प्रतिकमणु भणइ ॥

इत्तो अणुव्वए पंचममि आयरियमप्पसत्थमि ।

परिमाण परिच्छेए इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥

[६३२]¹⁵

‘इत्तो’ इति । एह चउथा व्रत अनंतरुधन १, धान्य २, क्षेत्र ३, वास्तु ४, रूप्य ५, सुवर्ण ६, कुपित ७, द्विपद ८, चतु पद ९, लक्षण नवविध परिग्रह तणइ इच्छापरिमाण परिच्छेदि प्रमाणकरण रूपि पाचमइ अणुव्रति जु आचरिउ अप्रशस्ति लोभोदयरूपि भावि श्रद्धाविशेषि हुतइ । किंसा विपद ? इच्छा परिग्रह प्रमाण विपद । किंसउ अर्थु^१ प्रमाणाधिकता विपद लपटवणउं कीधउ । ‘पमायपसंगेण’ इत्यादि पूर्ववत् । अयस्यमेव श्रावकि परिग्रह परिमाणु करिवउ । यत्

संसारमूलमारम्भास्तेषा हेतुः परिग्रहः ।

तस्मादुपासकः, कुर्यादल्पमल्पं परिग्रहम् ॥ ✓

[६३३]

तृप्तो न पुनैः सगरः, कुचकर्णो न गोधनैः ।

न धान्यैस्तिलकः, श्रेष्ठी न नन्दः कनकौत्करैः ॥ ✓

[६३४]

वह्निस्तृप्यति नेन्द्रनैरिह यथा नाऽम्भोभिरम्भोनिरि

स्तद्गम्भोहधनो धनैरपि धनैर्जन्तुर्न सन्तुष्यति ।

नत्वेवं मनुते विमुच्य विभवं निःशेषमन्यं भवं

यात्यात्मा तदहं मुधैव विदधाम्येनासि भूयासि किम् ॥

[६३५]

§476) अथ एह व्रत तणा अतिचार तणउं प्रतिकमणु भणइ ॥

धण धन्न रिउत्त-वत्थू-रूप-सुउन्ने य वुपियपरिमाणे ।

दुप्ये चउपपमंमि य पडिउमे देसिपं सव्वं ॥

[६३६]

§477) तत्र- धनु गणिम धरिम मेय परिच्छेय भेदइतउ चउ प्रकारे । तत्र-गणिमु-पूर्णाकल जातीफलादिकु १, धरिमु-गुट, खंड, खजूरादिकु २ मेउ-घृत तैल मद्यादिक् ३ पारिच्छेयु-रीरक

माणिक्यादिकु ४ । धान्यु व्रीहि-भोधुमयवाद्रिकु अनेक विधु । ईहं धनधान्य विहुं नइ अतिक्रमि अतीचारु १ तत्र धनधान्य रहइ प्रमाणप्राप्ति हुंती अधिक लाभ भावि हुंतइ जेतलइ आगिलउं वेचइ तेतलइ संचकारादि दानि करी धनधान्य आपणां करी बीजा नइ घरि अथवा क्षेत्रि खलइ मूटकादिकि बंधावी राहवइ । आगिलइ वीकिइ हुंतइ आपणइ घरि आगइ । इसीपरि धनधान्यातिक्रम रूपु प्रथम अतीचारु ।

6 §478) क्षेत्रु सेतुकेतुकृतसंभु भूखंडविशेषु । वास्तु खातु सरांवर वापी कृपादिकु । उच्छिद्रु गृह हह्रु भंडशालादिकु । तउ पाछइ सेतु पालि कहियइ । केतु स्तंभादिकु कहियइ ।

सु सेतु ऊतारी करी केतु ऊतारी करी विहुं क्षेत्रहं तणइ थानाकि एक क्षेत्र तणउं करणु^१ । अंतरभित्ति ऊतारी करी विहुं घर अथवा विहुं हाट थानाकि एक घर तणउं एक हाट तणउं करावणु जु कीजइ सु क्षेत्र वास्तु अतिक्रमलक्षण बीजउ अतीचारु २ ।

10 रूप्यु-रजत सुवर्णु कनकु तीहं तणइ प्रमाणि आगइ पूगइ हुंतइ भार्यादि निमित्ति । भूषणमिपं-तरि करी अयधि सीम दानि हुंतइ । रूप्य सुवर्णातिक्रम लक्षणु व्रीजउ अतीचारु ३ ।

कुपितु-थाल कचोलकादिकु तीहं नउं लाभनिमित्तु स्थूलता कारावणु^२ कुपितातिक्रमलक्षणु चउथउ अतीचारु ४ ।

15 §479) 'दुष्पण चउष्पयमी'ति-द्विपद्मादि दास्य दास्यादिकु । चतुष्पद्म गो महिपी वृषभ करभ तुर्गमादिकु । द्विपद चतुष्पदावधि पूरण निमित्तु पाछेरउं गर्भग्रहणु करावइ । तिणि करी द्विपद चतुष्पद-मानातिक्रमु पांचमउ अतीचारु ५ । 'पडिक्रमे देसियं सव्वं' पूर्ववत् ।

§480) परिग्रह परिमाण करण विषइ विद्यापति महोपति कथा लिखियइ ।

परिग्रहप्रमाणाख्यव्रतकल्पद्रुद्रुतः ।

निविध्यमानमपर्थं दद्याद्विद्यापतेरिव ॥

[६३७]

20 शृंगारसुंदरी इसइ नामि श्रेष्ठिनी, रूपि करी जिसी सुरसुंदरी हुयइ तिसी । ति वे जिनभक्त अनंतफल लाभ-वांछा करी सप्तक्षेत्रीतलि^१ धनवीजु वावतां हुंतां यथाकामु वृषपोषणु करइ । धनु उपार्जतां^२ जिनधर्मु विधिवत् करतां सुखमय हर्षमय विस्मयमय समय नीगमतां हुंतां तीहं रहइ अनेरइ दिवसि रात्रि समइ स्वप्न माहि विद्यापति रहइ का एक स्त्री कहइ, “ हुउं ताहरा घर नी लक्ष्मी एतला दिवस ताहराइ पुण्यि गुणि करी वाधां हुंती तू रहइ वश^३ हुंती । हव^४ हुउं दैवि मोकेली तिणि काराणि आज हुंती दसमइ दिवसि ताहरा घर हुंती जाइसु^५ । इसउं दुभ्रष्टु यचनु तेह नउं विद्यापति सांभली करी जागिउ । ‘दरिद्रु हुउं होइसिउ’^६ इसीपरि चिंतायस्थु हुयउ । प्रभातसमइ शृंगारसुंदरी विद्यापति चिंतापतितु देरी^७ भणइ । “ कांत ! रविद्विज जिम तुम्हारइ मुखि मालिन्यु अदृष्टपूर्वकु किसइ काराणि आजु दीसइ ? ”

30 §481) स्वप्न स्वरूपि विद्यापति भणिइ हुंतइ पुनरपि शृंगारसुंदरी भणइ, “ निर्वाननगर-प्रदेश^१ निपेधार्गला लक्ष्मी संतहं रहइ दृढयशाल्यतुल्यु जइ जाइ तउ जाउ । विचकु पशु सर्वसमीहित^२ संपादकु तुम्ह कन्हा म जाइजउ । तथा धन तणउं फल सुगामदानु तुम्हे भव्य परि^३ एतला दिवस सीम लीधउं । मोक्षमार्गं मंगवियइ वाडि ए लक्ष्मी जइ भाग्यवदि भागी तउ ताहरी पुण्यवृत्ति जागी । तिणि-काराणि हर्षस्थानि^४ किसइ काराणि विपाडु करउ ! किसीपरि ए लक्ष्मी दमभइ दिवसि जाइमिइ । आत्मा यत्त हुंती आजु जु सप्तक्षेत्री माह वायउ । परिग्रह परिमाणु व्रत करउ । असुभकाल तणउं हरणु करउ^५ । ”

§ 178) 1 Bb. केतु ऊतारी करी विहुं हाट यानकि एक घर तणउं करणु । 2 Mes. वराणणु ।

§ 480) 1 P. तालि । 2 P. क्पात्रेता । 3 Bb P पुण्य- । 4 Bb वणि । a later correction over वस । 5 P. हिउ । 6 Bb. होइसु । 7 Bb. add. करी ।

§ 481) 1 Bb. -प्रदेशि । P प्रदेशि । 2 P. नामीदित । 3 P. -पदि । 4 P. इवि- ।

इसी प्रियतमाभाषा सांभली करी हर्षितु हृतउ प्रभातिहिं जि समस्त लक्ष्मी सप्तक्षेत्रीं वेचइ । देह मात्रोप योग्यु स्वल्पु धनु राहयी करी मध्यंदिनि जिनपूजा करी इसउं कहइ, “ एक शृंगारसुंदरी भार्या, एक शय्या, वि वख पात्रु एकु, आहारु, दिन भोजन मातु मूकी करी अपर समस्तवस्तु परिग्रहकरण नियमु । जिनेंद्र सेग निमित्तु धणूं वस्तु धरउं ” । इसी परि परिग्रहप्रमाणु करी समस्त दिवसु धर्मध्यानपरायण थिकउं^६ नीगमइ । ‘ धन पाखइ प्रभाति किसी परि वाचकमुख देखीसिइं ! इणि कारणि रात्रि समइ लौकि सूतइ ७ हृतइ देशातरि गमनु करिया युक्तु ’ इसउं शृंगारसुंदरी सउ आलोची करी सूतउ । रात्रि प्रहरद्वय समइ देशातरि चालिया जउ ऊठिउ तउ घर तिमहीं जि धन भरिउं देखइ । तउ विस्मयापलु हृतउ विद्यापति प्रियतमा प्रति भणइ, “ दसमइ दिनि आकारितइ^८ जि हंती श्री जाइसिइ, दस^९ दिवस सीम दीयमानइ हंती माहरा घर हूती नदीं जाइ । तिणि कारणि ‘ धनदानु धनक्षयहेतु धन तणउं अदानु धनसंचय हेतु ’ इसउं^{१०} सुग्धजन सुधा बोलइ—

न याति दीयमानापि श्रीश्वेदीयत एव तत् ।

तिष्ठत्यदीयमानापि नोचेदीयत एव तत् ॥

[६३८]

§482) इसी वार्ता तणइ विस्मयरासे वर्त्तमानहं हूतां तीह रहइं सूर्यु उगिउ । बीजइ दिनि प्राणे तिमहिं जि लक्ष्मी सुपात्रि दे करी परिग्रह परिमाणु करी सूतउ । प्रभाति तिमहिं जि श्री देखइ । वली तिमहिं जि ऋद्धि सुक्षेत्रि यावइ । इसी परि नव दिवस सीम करइ । इसुं कारं एकु सुपात्रु दानु प्रवर्त्ता^{१६} विउ जिसइ कलवट्टुमाधि देवीं रहइं पुण विस्मउ ऊपनउ । ‘ पूर्वपुण्यपथ पंकु^१ मुक्तिमार्ग रहइं दूपकु श्री नउ पुरु मूरइ प्रभाति शोपि जाइसिइ ’ इसी परि हर्षपूरितु हृतउ रात्रि सूतउ । स्वप्न माहि श्री^२ आवी करी भणइ । “ अहो महापुरुष ! ताहर दानधर्महं करी दुहु वैहु दूरी कीधउं हउं^३ जायती वली धाहरावी ।

अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमश्नुते ।

इति सूक्त त्वया कारि मातिसार यथातथम् ॥

[६३९]

फदाचन न मुञ्चामि तदहं सदनं तव ।

यथेच्छं भाग्यभङ्गीभिरुत्सङ्गीकृत भुंक्व^४ माम् ॥ ”

[६४०]

तदाकालिहिं जि जागिउ हंतउ भार्या आगइ^५ आगिलइ गमइ स्वप्रविचारु कहइ । प्रतिज्ञा निवाहनिमित्तु कहइ, “ प्रियतमि ! भोगमात्रफल श्री दानव्यसनिहिं जि हा ! माहरउ जन्मु जाइसिइ !^{२५} मुक्तिफलं तपि किसी परि प्रवर्त्तिसु^६ कदाकालिहिं लोभलोलितु मनु नियम भंगु पुण^७ कराविसिइ^८ तिणि कारणि श्री पुरपूरितु मद्रि रु मूकी करी किण्णिहिं देशातरि जाइयइ । तउ श्री प्रहृइ^९ छुट्टियइ^{१०} इसउं भार्यासउ आलोची करी जिनविन करंडिका ऊपाडी करी शृंगारसुंदरीमार परिवार हंतउ घर^{११} हंतउ^{१२} चारिउ नीसरिउ । पंचपरमेष्ठि नमस्कार समरणा करतउ नगरइतउ चालिउ ।

§483) नगरी एक जाई करी सूतउ । तिरा अपुत्रु राउ विणठउ । प्रधानपुरुषे पांच दिव्य^{३०} अधिवासिया, जिहा विद्यापति हृतउ तिरां आवियां । घोदरं टोपारु कीधउ, छत्रु आर्या माथर रहिउ, चामर विष्णुगमे टलिवा लाग्ग, पट्टास्ति गलगर्जिकरणपुर्वु तीर्थजलपूर्ण कलसे^{३१} करी राज्याभिषेकु करी भार्यासरितु ऊपाडी^{३२} करी शुदादडिं^{३३} करी कुंभस्थलि चढाविउ । तउ पाउइ मद्रि मामत मटलेखक विमरपरिवृत्त^{३४} राजा^{३५} सौध ऊपरि आवतउ मन मादि च्यैतयइ । ‘ जिम पुनिम नउ चंद्रमा मेलपटल^{३६} हृतउ

§ 481) 5 P omit. 6 P वचउ । 7 P दसमइ । 8 P आशुभइ । 9 P दस । 10 B omits

§ 482) 1 B-पया- । 2 B adds it in the margin. 3 B omits P ह । 4 P भुं । 5 B omit. 6 P पुनि । 7 P भीमदण्ड । 8 B omit.

§ 483) 1 P कलसे । 2 P उपा^{३२} । 3 P शुदादि । 4 B. gloss over तिरा गमइ । 5 B Bh राउ । 6 P वचउ ।

नीसरिउ राहुग्रस्तु हुयइ, तिम्ह हउं अल्पधनपंक हंतउ' कथमपिहिं नीसरिउ, प्राञ्चराज्य महापैरु
 माहि पडिउ । भद्रासनि बइसाली करी महामात्य राज्याभिषेकु करावइ । विद्यापति भणइ, " मूं रहुइ
 राज्य माहि कार्यु नहीं " प्रधान कहइ, " इम किम हुयइ ! देवता तू रहइं राज्यु द्वियइ " । विद्यापति
 भणइ, " तथापिहिं मू राज्यु कार्यु नहीं " । इसीपरि वार वार राज्याभिषेक निषेधु करतइ हंतइ आकाश-
 भापा ऊछली, " अजी ! भोगफलु प्रभृतु कर्मु छइ तिणि कारणे राज्यलक्ष्मी पाणिपीडनु करि " इसउं
 निज भाग्यदेवता वचनु सांभली करी सिंहासनि जिनेंद्रप्रतिमा बइसाली करी तेह नइ पादपीठि
 आपणपइ बइसी करी जिनप्रतिमा रहइं राज्याभिषेक तणइ व्याजि आपणया रहइं त्रिभुवनाधिपत्यनिमित्तु
 अभिसींचावइ । जेतलउं अंगीकरिउं छइ तेतलउं आपणइ लेखइ करी बीजउं समस्तु वस्तु दास्त' हस्ति
 तुरंगम' भांडागारादिकु जिन नामांकितु करइ । सदा तीर्थयात्रादि प्रभावना करावइ । देवगृह करा-
 10 वइ । जिनिबिभ भरावइ । अभयघोषणा अमारिघोषणा करावइ । लोक कन्हा करु न लियइ । कहइ,
 " अहो लोकउ जु राजु¹⁰ भागु आवइ सु धनु धर्मिहिं जि वेचउ " । तउ पाछइ जिनधर्म नइ एकातपत्रि
 राज्य प्रवर्त्तइ¹¹ हंतइ ' मार'¹² इसा अक्षर दादपनाम मूर्की करी अनेरइ थानकि, न केवलं जीवविपह
 कोइ¹³ न कहइ, अजीव छइं जि छूत माहि सारि सीहीं आगइ को न कहइं मारि । जिम जिम विद्यापति-
 राजा धनु वेचइ तिम्ह तिम्ह तेह नी भाग्यदेवता राजमंदिरि धनु वरसइ । अनेरइ दिनि समीपगत राजेंद्र
 15 मिली करी तेह ना राज्य रहइं लेया आविया । विद्यापति धर्म मूर्की बीजी यात जाणइ नहीं । जिनाधिप्रा-
 यक छइं यक्ष तेहे तीहं रहइं रोग ऊपजावी करी नासविया । विद्विपियां तणउं विकटु कटकु देखी करी
 विद्यापति चित्ति चीतवइ ।

§484) " अहो ! शक-विक्रमवंत शत्रु राजेंद्र छइं, तेई धर्म तणइ प्रभावि भाजी गया । भूं
 रहइं अल्प परिग्रहता देवी करी महापरिग्रह शत्रुलोक जिणिवा कारणि आपणा सेवक' भर्णा' धर्मि
 20 निश्चइं साहाय्यु कीधउं ।

तदहं यद्यमुं सेवे, त्यस्त्वानेपपरिग्रहः ।

तदन्तरायभङ्गेऽपि, भवत्ययमुपक्रमः ॥

[६४१]

इसउं चीतवी करी शृंगारहुंदरी संभनु शृंगारसेनु सनु राज्य बइसाली करी संजमसूरि समीपि
 संजमु ले करी कल्याणमउ आपणउ आत्मा तपोनि तापि नृशयी करी विद्यापति राजक्रापि देवलोकि;
 25 गयउ । मनुष्य देव भय पंचकि हुयइ हंतइ मुक्ति गयउ ।

विद्यापतिकृतपरिग्रहमानयामं

श्रुत्वा युधा भवत सम्पदि निसृष्टा भोः ।

येन स्वयंवरधुः शिवसम्पदेपा

जातस्पृष्टा शिपति यः सन्नमाशु कण्ठे ॥

[६४२]

इति परिग्रह परिमाण करण व्रतफलविषय विद्यापति राजक्रापि कथा समाप्ता ।
 §485) अथ त्रिन्दि गुणव्रत करियइ ।

तत्र प्रथम गुणव्रत प्रतिक्रमणा निमित्तु भणइ—

गमणस्त य परिमाणे डिमानु उट्टं अहे य निरियं च ।

शुद्धि-सद्-अंतरद्धा पदमंषि गुणव्यप निद्रे ॥

[६४३]

गमनु भणियइ गति तेह तणइ परिमाणि एतलां जोयण जाइसु इमीपरि छंदि प्रमाणि अंगी-
 30 रिइ हंतइ । किस्ता नइ चिपइ ?

§ 483) 7 P. हंतउ । 6 B. P. वस्तु । 9 P. श्रुत । 10 B. शत्रु । 11 B. L. Inter corrected to प्रवर्त्तइ । P. प्रवर्त्तिः । 12 B. मारि । 13 B. को ।

§ 484) 1 P. मेव । 2 P. ली । 3 P. omits

पूर्वा दक्षिणा पश्चिमा उत्तरा लक्षणासु दिसासु । तथा आग्नेय नैऋति वायव्य ऐशान लक्षणासु विदिसासु तथा 'उर्द्ध'- उर्द्ध्वदिसि 'अहे' अधोदिसि विषदं तु अतिक्रमिउं सु अतीचारु तदेवाह— ।

'उर्द्ध' ऊर्द्ध्वं योजनद्वय मानि कीधइ हंतइ अनाभोगादिवशाइतउ अधिक गमनि हंतइ उर्द्ध्वदिकपरिमाणातिक्रमु प्रथमु अतीचारु १ ।

एवं अधोदिकपरिमाणातिक्रमु बीजउ अतीचारु २ ।

तिर्यग्दिकपरिमाणातिक्रमु त्रीजउ अतीचारु ३ ।

तथा 'बुद्धि' ति एक दिशि ना जोयण बीजी दिसि वधारियइं प्रयोजनवशाइतउ तिणि दिशि प्रोडियइं । यथा पूर्वपश्चिमादिषु समू तु दिकपरिमाणु कीधउं छइ पाछइ दहोत्तरशय ऊपरि कार्यु ऊपनउं पाछइ पश्चिमदिशि नवइ योजन चींतिवी करी पूर्वदिसि दहोत्तरसउ जाइ । इसी परि क्षेत्रवृद्धि चउथउ अतीचारु ४ ।

§486) 'सइ अंतरद्वि' ति- 'सइ' स्मृति तेह तणी अंतर्द्धा व्रतप्रमाण विस्मरणु । स स्मृत्यंतर्द्धा कहियइ । यथा पूर्वदिसि गमनि उपस्थितइं हंतइ मनि संदेहु हुयइ । किसउं मू रहइं शउ अथवा पंचाश जोयण मोकलां छइ इसी परि स्मृत्यंतर्द्धानि हंतइ अधिकगमनि स्मृत्यंतर्द्धानु पांचमउ अतीचारु ५ ।

इसी परि नियमित भूभाग मेलही करी अपर चतुर्दश रज्जुप्रमाण लोकगत जंतुजात रक्षालक्षण गुण निमित्तु व्रतु गुणव्रतु कहियइ । तिणि प्रथमि गुणव्रति तु अतिचरिउं - इत्यादि पूर्ववत् । तत लोह-गोलक सरीखउ छइ गृही तेह रहइं एउ प्रधानव्रतु । तथा च भणितं—

तत्तायगोलकणो पमत्तजीवो निवारियप्पसरो ।

सव्वत्थ किं न कुज्जा पावं तक्कारणाणुगओ ॥

[६४४]

चराचराणां जीवानां विमईननिवर्त्तनात् ।

तप्तायो गोलकल्पस्य सद्व्रतं गृहिणोऽप्यदः ॥

[६४५]

जगदाक्रममाणस्य प्रसरल्लोभवारिधेः।

स्वलनं विदधे तेन, येन दिग्विरतिः कृता ॥

[६४६]

§487) दिकपरिमाणव्रतकरण विषदं सिंहकथा लिखियइ ।

गतौ संकोचयत्येवं, यः स्वं दिग्विरतिव्रतम् ।

संसारलङ्घनोत्तालफलारम्भः स सिंहवत् ॥

[६४७]

यासंती नामि नगरी । कीर्त्तिपालु नामि राजा । भीसु नामि तेह तणउ पुट्टु । पुत्रहीं कन्हा अतिवल्हु सिंहनामि श्रेष्ठि । सुपुण परम श्रावकु जिनभक्तिचंतु वरुई । अनेरइ दिनि सत्ता माहि कीर्त्तिपालु राजा सिंहश्रेष्ठि मुखकमलु भ्रमर जिम जोयतउ हंतउ वरुई । तेतलइ प्रस्तावि प्रतीहार आवी राजेंद्र रहइं वीनवइ । " महाराज ! तुम्हं रहइं देखणहार एकुं पुरुषु विद्याकारु द्वारि आविउ छइ । " राजा भणइ " माहि मेलिह " तउ पाछइ प्रतीहार मुकु हंतउ सु पुरुषु माहि आवी राजेंद्र रहइं प्रणमी ३० करी आसनि सभासीनु वीनवइ ।

§488) " महाराज-नागपुरु नामि नगरु । तिहां चंडु नामि नरेंद्रु । रत्नमंजरी नामि राज्ञी । तीहं नी गुणमाला नामि दीकिरी । स ताहरा पुत्र भीम रहइं देवा कारणि स्वामिन् । तुम्ह कन्टइ हउं

§ 486 1 B. Bh. have उपस्थितइ ।

§ 487) 1 B. Bh. -काल- । 2 B. begins with तथादि । 3 B. Bh. ही । 4 B. पुणु । 5 B. has अनेर.. वरुई in the margin. 6 P. omits.

पाठिविउ'। तिणि कारणि, अहो महीपाल ! स राजपुत्रिका रूपशोभा करी रति रहई वसजयपत्रिका
 वरसई । रूपलक्ष्मी करी जितलक्ष्मीपुत्र जु छइ भीमू नामि तुम्हारउ पुत्र तेह रहई प्रमाण करउ । दूति
 इसइ अर्थि वीनविइ हंतइ सिंहश्रेष्ठि मुख सामुहउं जोयतउ हंतउ कीर्तिपालु राजा भणइ । " सिंहश्रेष्ठि !
 आपणपा रहई आगे भेदु को' नही । तिणि कारणि माहरइ थानकि थाई, तुम्हे भीमू नागपुरि ले करी
 5 पहुचउ । बांधव ! ए संबंधु करउ । " दिग्विरति विरति-व्रत भंग अनइ अनर्थदंड-विरति व्रत भंग भयभीतु
 हंतउ सिंह अधोमुखु थाई रहइउ । राजेंद्र रहई उतरु न दियई । लगार एक कुपितलोचन हंतउ राउ
 भणइ, " किसउं बांधवु ! एउ संबंधु बंधरु नही जु तउं ऊतरु कोई न दियई ? " आकारइंगितादिकहं
 चिद्धहं करी सक्रोपु राउ जाणी करी सुधादीतलवाणी राउ जिम शीतलु थाइ, तिणि कारणि सिंह
 बोलइ । " ईहां हंतउ जोयण सउ अधिकेरउं नागपुरु हुयइ । इणि कारणि व्रतभंगभय वशइतउ हउं
 10 नागपुरि न जाउं । " इसइ भणइ हंतइ सिंह ऊपरि कीर्तिपालु राउ कोपि चडिउ । जिम घृतसेकि करी
 वैश्वानरु ज्वलइ तिम प्रज्वलिउ । तउ राउ कोपवदि हंतउ भणइ । " जइ किमइ जोयणसय ऊपरि नहीं
 जाइ तउ हउं तू रहई बांधीकरी जोयणसहस्र ऊपरि निक्षिपाविसु । " तउ सिंहं समुत्पन्नमति हंतउ
 पुनरपि भणइ । " महाराज ! ताहरउ विरहु हउं सही' सकउं नही, तिणि कारणि अहंकाररहितु हंतउ
 ' जोयण सय ऊपरि हउं जाउं नही ' इसा ऊतर तुम्ह आगइ कहउं " इसइ वचनि राउ उपशांतकोपानलु
 15 हंतउ सरसउं प्रबलु दलु दे करी भीम सरसउ सिंहु चलावइ । कटक आगइ, कुमार भीमकुमार आगइ
 भणिउं । " जं कोई सिंहु कहइ तं तुम्हे करियउं " तउ पाछइ रायाभियोगि अकामू थिकउं सिंह
 भीमकुमार सरसउ चालिउं हंतउ कुमार आगइ संसारसारता' गुतवृत्ति' करी कहइ—

वहिरन्तर्धिपर्यासः स्त्रीशरीरस्य¹⁰ चेद्भवेत् ।

✓ तस्यैव कामुरुः कुर्याद्गृध्रगोमायुगोपनम्¹¹ ॥

[६४८]

यकृतशकृन्मलश्लेष्म, मज्जास्थिपरिपूरिताः ।

✓ स्नायुस्पृता वहिरंम्याः, स्त्रियधर्मभतेविकाः ॥

[६४९]

§489) तउ भीमकुमार रहई महोपशम वशइतउ भववासना ब्रूटी गई । मुक्तिकन्यानुरक्त
 चिनु' हंतउ भीमकुमार श्री' अनइ स्त्री तृण ही सरीरगी न देखई । जोयणशत मार्गि आविउ हंतउ सिंहु
 आघउं पियाणउं करइ नही । जेतीमार बीजा महता पूउई तेतीवार कूडा ऊतर करइ । जइ दिन ५-६
 20 हया तिहां तउ पाछइ बीजे महते भीमकुमार आगइ करिउं । " कुमारवर ! राजेंद्रि अहं आगइ सिंह
 छानऊं इसउं' कहिउं छई । ' जइ किमइ किहाई गयउ हंतउ सिंह आघउ न चालई तउ तुम्हे बलान्कारि
 सिंहु बांधी करी आघउ पियाणउ करावि जिउ' । तिणि कारणि जु तुम्हे भणउ तउ सिंहु बांधी करी
 चलावियइ । " भीमू कहइ, " आजु जउ पियाणउं आघउं' सिंहु न करई तउ कालिइ' तुम्हे राजादेशु'
 करिजिउ " । इसउं मत्रिवचनु एकांति भीमू सिंहु आगइ कहइ । संसार निराम बुद्धि हंतउ सिंहु भीम
 30 आगइ भणइ—

न किञ्चिदत्र संसारं, निम्मारंम्य शरीरिणः ।

✓ शरीरमपि न स्वीयं, स्यायमस्नीह कस्यचित् ॥

[६५०]

इत्यादि वैराग्यकारकु वहु भणी करी कटक हंतउ रात्रि समइ प्राहरिक लोकि भूतइ हंतइ
 नीसरिउ, कुमारु पुण सरसउ नीसरिउ । " किण्हिं गिरि यणोद्देशि' जाई करी पादपोपगमनु अनशनु"¹⁰

§ 488) 1 P पाठिविउ । 2 P जयदल- । 3 P. आगइ । 4 Bh. को भेदु is corrected to भेदु को ।
 5 B adds न । 6 P. यकउ । 7 P. चालियउ । 8 P. मवाता । 9 P. गुणि । 10 P. श्रीशरस्य
 11 P' गोमाय- ।

§ 489) 1 P मुक्त- । 2 P omits* । 3 P पयाणउ । 4 Bh omits* । 5 Bh adds it in the margin
 P. omits. 6 P. कलि । 7 P. राजादेशु । 8 Bh चइइ । 9 Bh. ->गि । 10 P. omits अन-

करिषु। तउ ति महामात्य माहरउं किसउं करिसिंहं ? किम मू रहइं वांधी लेसिंहं ? जु शरसि लेसिंहं सु हउ पहिलउं मुकी रहिषु ” इसउं भणी करी भीम आगद आघउं¹¹ जाइवा लागउ। भीमु भणइ “ मू रहइं तुम्हे ईं जि शरणु ” । इसउं भणतउ सरसू जु चालिउ¹² । गिरि एकि जाईं शुद्ध शिलातलि बिहुं पादपोपगमनु अनशनु कीधउं । प्रभाति प्रधान महामात्य कुमार भीम सिंहश्रेष्ठि बिहुं रहइं अदेखता हुंता पादानुसारि नीसरिया । घणी हुंइ गया । किणिहिं पर्वति शिलातलि गृहीतवीक्ष कृत पादपोपगमन सिंह भीम देखी 5 करी विलक्षवदन थिका प्रणमी करी चाटुकारकरणपूर्वुं घणउं स्वमावइं । पाये¹³ लागीं मनावइं, “ पसाउ-करी अम्हारउ अपराधु खमिजिउ । ऊभा थाउ, जिम नामपुरि जाइइइ¹⁴ । एउ वृत्तांतु जाणी करी तिलहं जिम घाणइ, धाती राउ कींत्तिपालु अम्ह रहइं पीडाविसिंह । तिणि कारणि तुम्हे कृपासमुद अम्ह ऊपरि कृपा करी अम्ह सांसुहउं कांइ देखउ नहीं ? कांइ अम्हसउं बोलउ नहीं ? ”

§490) ‘ इत्येवमादिकु ब्रह्मधा भणी करी महामात्यहं विलक्षहं पाछा वली सु वृत्तांतु 10 कींत्तिपाल महीपाल रहइं जाणाविउ । ‘ सिंधु बध्यु, कुमारु परिणाविउ ’ इसउं राउ मनि चींतवतउ हुंतउ विहलउ तिहां आविउ । इसइ महा विरुद्ध मनि हुंतइ राउ ति महापुरुष महासत्त्व सिंह व्याघ्र चित्रक शुक¹⁵ वृक प्रमुख दुष्ट स्वापद संसेव्यपाद देखी करी मनि चींतवइ, ‘ महा सप्रभाव ए महासत्त्व, मइं ए पराभवी नहीं सकियइ किंतु सेवायोग्य ए ’ इसउं ध्यायतउ राउ तीहं कन्हइ गयउ ।

स्वापदैर्दत्तमार्गं तं, मार्गन्तं वीक्षणान्यपि ।

16

नमन्तं चादुमन्तं च नैक्षान्चतुरप्यभू ॥

[६५१]

मासोपवासावसानि सुरासुर नराधीश संसेव्यमान शुक्रध्यानानल दग्ध कर्मधनवितान शुक्तिपद प्राप्त ह्यया ।

न योजनशतादूर्ध्वं यामीति तव निश्चयः ।

असङ्ख्यैर्योजनैर्मित्र मां मुक्त्वा किमगाः शिवम् ।

[६५२] 20

§491) इसी परि विलपतउ हुंतउ राउ सिंह अनइ भीम बिहुं रहइं संस्कार करी आपणपईं शोकानल दह्यमानमानसु हुंतउ देवे संबोधित, भणितं, “ महाराज शोकु तीहं नउ कीजइ जि अकृतकृत्य हुयइ । ए महात्मा स्तुत्यपाद ” । इसी परि तउ पाछइ, पाछउ चली राउ वासंतीनगरी गयउ ।

सङ्कोच्यसिंह इयसौवगतिं यथाऽऽप

श्राद्धाग्रणीर्ज्ञांगेति भीमयुतः स सिंहः ।

25

उच्चैः पदं ममदमन्दिरमिदशर्म

भव्यास्तथैव विलसन्तु वसन्तु तत्र ॥

[६५३]

विग्नतविपइ सिंहश्रायककथा समाप्ता ।

§492) अथ द्वितीउ¹ गुणव्रतु भणइ ।

सु पुण द्विविधु-भोगइतउ, कर्मइतउ । भोग पुण द्विविधु-उपभोग परिभोग भेदइतउ । तत्र उप 30 किसउ अर्थ ? एक वार जेह तणउ भोगु हुयइ सु आहार, माल्य, तांबूलदिकु उपभोगु कहियइ ।

परि किसउ अर्थ ? वार वार जेह तणउ भोगु हुयइ सु भवनांगना वसनादिकु परिभोगु कहियइ । तथा उपभोगु भोगु पुण कहियइ । तथा च भणितं-

§ 489) 11 P. आपद । 12 Bb. चालिउ । 13 P. पाए । 14 Bb. जाइइ ।

§ 490) 1 P. परिणाविवा । 2 B. P. put it after हुंइ । 3 P. गूर । 4. Bb. adds in the margin हुंतउ । 5 P. किमग ।

§ 491) 1 P. omits.

§ 492) 1 Bb. द्वितीय । 2 B. Bb. have तव भुविगति । 3 Bb. प्रायुकि । 4 Bb. पाए ।

सऽ भुज्जइत्तिभोगो सो पुण आहारपुप्फमाडओ ।

परिभोगो य पुणो पुण परिभुज्जइ भरणविलयाई ॥

[६५४]

तथा—भोगोपभोगद्वयतपक्षि जिसउ अर्थ परिभोग तणउ तिसउ उपभोग तणउ पुण जाणिवउ ।
तथा च हेमाचार्यमिश्राः प्राहुः—

5 सङ्घेन भुज्यते यः स भोगोन्नस्रगाटिकः ।

पुनः पुनः पुनर्भोज्य उपभोगोऽङ्गनाटिकः ॥

[६५५]

तथा—उत्सर्गइतउ श्रावकि प्रासुक' वस्तु भोजकि होइवउ । किमउं अर्थु ? जि आपणइ माण्णि
फासु' ह्यइं तीर रइं भोजकि होइवउ । प्रासुक नइ अभावि सच्चित्त परिवर्जकि होइवउ । किसउ
अर्थु ? आपणपा निमित्तु फामु करी अथग करावीतउ तीर रइं भोजकि होइवउ । तीहं नइ अभाधि
10 हंतइ बहु सायद्य जि छई मद्यादिक तीहं रइइ परिवर्जकि होइवउ ॥ तथा च भणितं—

निरवज्जाऽहारेणं निज्जीवेणं परित्तमीसेणं ।

अत्ताणुसंधणपरा सु सावया एरिसा हुंति ॥

[६५६]

§493) इणि कारणि प्रस्तइतउ जाणाविवा कारणि वर्जनीय वस्तु लितियई ।

मयं मासं नयनीतं, मधुदुम्वरपञ्चकम् ।

अनन्तकायमज्ञातफलं रात्रौ च भोजनम् ॥

[६५७]

आमगोरससंपृक्तं, द्विदलं पुष्पितौदनम् ।

दध्यहर्द्वितीयातीतं फुधितान्नं च वर्जयेत् ॥

[६५८]

मदिरापानमात्रेण बुद्धिर्नश्यति दूरतः ।

✓ वैदग्धी वन्दुरस्यापि टौर्भाग्येणैव कामिनी ॥

[६५९]

20 पापाः कादम्बरीपानविवशीकृतचेतसः ।

✓ जननी हा मियीयन्ति जननीयन्ति च मियाम् ॥

[६६०]

न जानाति परं स्वं वा मद्याचलितचेतनः ।

✓ स्वामीयति वराकः स्वं स्वामिनं किङ्करीयति ॥

[६६१]

मद्यपस्य शवस्पेव लुठितस्य चतुष्पथं ।

✓ मूययन्ति मुखे श्वानो व्याते विवरशङ्कया ॥

[६६२]

मद्यपानरसे मद्यो नद्यः स्वपिति चत्वरे ।

✓ गूढं च स्वमभिप्रायं प्रकाशयति लीलया ॥

[६६३]

वारुणीपानतो यान्ति कान्तिर्कीर्त्तिमतिथियः ।

✓ विचित्राश्विनरचना विलुट्क्जलादिव ॥

[६६४]

30 भूतात्तयन्नरीनत्ति रारटीति सशोकवत् ।

✓ दाहज्वरार्चवद्भूमौ सुरापो लोलुठीति च ॥

[६६५]

चिदधत्यङ्गशैथिल्यं ग्लपयन्तीन्द्रियाणि च ।

✓ भूर्छामतुच्छां यन्ञ्जन्ती हाला हाला हलोपमा ॥

[६६६]

विवेकः संयमो ज्ञानं सत्यं शौचं दया क्षमा ।

✓ मद्यात्प्रलीयते सर्वं तुष्णा वदिकणादिव ॥

[६६७]

55

दोषाणां कारणं मद्यं मद्यं कारणमापदाम् ।

रोगातुर इवापथ्यं तस्मान्मद्यं विवर्जयेत् ॥ ✓

[६६८]

इति मद्यदोषाः ।

§494) विखादिपति यो मांसं प्राणिप्राणापहारतः ।

अन्मूलयत्यसौ मूलं दयाऽऽख्यं धर्मशास्त्रिनः ॥ ✓

[६६९] °

अशनीयन् सदा मांसं दयां यो हि चिकीर्षति ।

ज्वलति ज्वलने ब्रह्मं स रोपयितुमिच्छति ॥ ✓

[६७०]

हन्ता पलस्य विक्रेता संस्कर्त्ता भक्षकस्तथा ।

क्रेताऽनुमन्ता दाता च घातका एव यन्मनुः ॥ ✓

[६७१]

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्त्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ✓

[६७२]

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिव्रधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ✓

[६७३]

ये भक्षयन्त्यन्यपलं स्वकीयपलपुष्टये ।

त एव घातका यन्न वधको भक्षकं विना ॥ ✓

[६७४] 15

मिष्टान्नान्यपि विष्टासादमृतान्यपि मूत्रसात् ।

स्युर्यस्मिन्नङ्गकस्यास्य कृते कः पापमाचरेत् ॥ ✓

[६७५]

मांसाशने न दोषोऽस्तीत्युच्यते यैर्दुरात्माभिः ।

व्याधगृध्रवृकन्याघ्रशृगालास्तेर्गुरूकृताः ॥ ✓

[६७६]

मां संखा दयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वे निरुक्तं मनुरब्रवीत् ॥ ✓

[६७७]

मांसास्वादनलुब्धस्य देहिनां देहिनां प्रति ।

हन्तुं प्रवर्त्तते ब्राह्मिः शाकिन्या इव दुर्धियः ॥ ✓

[६७८]

ये भक्षयन्ति पिशितं दिव्यभोज्येषु सत्स्वपि ।

सुधारसं परित्यज्य भुञ्जते ते हलाहलम् ॥ ✓

[६७९] 27

न धर्मो निर्दयस्यास्ति पलाटस्य कुतो दया ।

पललुब्धो न तद्वोचि विद्याद्वोपदिशेन्नहि ॥ ✓

[६८०]

केचिन्मांसं महामोहादश्नन्ति न परं स्वयम् ।

देवापित्रतिधिभ्योऽपि कल्पयन्ति यदूचिरे ॥ ✓

[६८१]

क्रीत्वा स्वयं वाऽऽप्युत्पाद्य परोपहृतमेव वा ।

देवान् पितॄन् समभ्यर्च्य ग्वाटन्मांसं न दुष्यति ॥ ✓

[६८२]

मन्त्रसंस्कृतमप्यद्यात्रवाल्पमपि नो पलम् ।

भवेज्जीवितनाशाय हालाहललवोपि हि ॥ ✓

[६८३]

10

20

27

30

सद्यः संमूर्च्छितानन्तजन्तुसन्तानद्विपितम् ।

नरकाध्वनि पाथेयं कोऽश्रीयात्पिशितं सुधीः ॥

इति मांसदोषाः । [६८४]

§ 495) अन्तर्मुहूर्त्तपरतः सुमूक्ष्मा जन्तुराशयः ।

यत्र मूर्च्छन्ति तन्नाथं नवनीतं विवेकिभिः ॥

[६८५]

एकस्यापि हि जीवस्य हिंसने किमघं भवेत् ।

जन्तुजातमयं तत् को नवनीतं निषेवते ॥

इति मांसखण्डोपः । [६८६]

§ 496) अनेकजन्तुसंघातानिघातनसमुद्भवम् ।

जुगुप्सनीयं लालावत् कः स्वादयति मांसिकम् ॥

[६८७]

भक्षयन्मांसिकं क्षुद्रजन्तु लक्षक्षयोद्भवम् ।

स्तोरुजन्तु निहन्तृभ्यः शौनिकेभ्योजनिरिच्यते ॥

[६८८]

एकैककुसुमकोडाद्रसमापीय मक्षिकाः ।-

यद्रमन्ति मधूर्च्छिष्टं तदश्नन्ति न धार्मिकाः ॥

[६८९]

अप्यौषधकृते जग्धं मधुभ्रनिवन्धनम् ।

भक्षितः प्राणनाशाय कालकूटकणोऽपि हि ॥

[६९०]

मधुनोऽपि हि माधुर्यमवोधेरहृदोऽन्यते ।

आसाद्यन्ते यदा स्वादान्चिरं नरकवेदनाः ॥

[६९१]

मक्षिकामुखनिष्ठचूतं जन्तुयातोद्भवं मधु ।

अहो पवित्रं मन्वाना देवस्तान्ते प्रयुञ्जन्ते ॥

इति मधुदोषाः । [६९२]

§ 497) उदुम्बरवटप्लक्षकाकोदुम्बरशाखिनाम् ।

पिप्पलस्य च नाश्रीयान् फलं कृमिकुलाकुलम् ॥

[६९३]

अमानुवन्नन्यभक्ष्यमपि क्षामो बुभुक्षया ।

न भक्षयति पुण्यात्मा पश्वोदुम्बरजं फलम् ॥

[६९४]

आद्रेः कन्दः समग्रोऽपि सर्वः किशलयोऽपि च ।

स्तुही लवणवृक्षत्वक् कुमारी गिरिकर्णिका ॥

[६९५]

शतावरी विरूढा निगुड्डीची कोमलाम्लिका ।

पल्यङ्गोऽमृतघ्नी च बल्लः शूकरसंज्ञकः ॥

[६९६]

अनेन्तकायाः सूत्रोक्ता अपरेऽपि कृपापरैः ।

मिथ्यादृशामविज्ञाना वर्जनीया प्रयत्नतः ॥

इति अनन्तकायरिचारः । [६९७]

§ 498) स्वयं परेण या ज्ञातं फलमद्याद्विशगटः ।

निपिद्धे विषफले वा भा भूदम्य प्ररर्त्तनम् ॥

इति अज्ञातफलनिर्णयः । [६९८]

§ 499) अन्नं प्रेतपिशाचाद्यैः संचरन्निर्निर्द्धुयैः ।

बन्धिष्टं क्रियते यत्र तत्र नाद्यादिनान्ययं ॥

[६९९]

घोरान्धकारमुद्गाभैः पतन्तो यत्र जन्तवः ।

नेत्र भोज्ये निरीक्ष्यन्ते तत्र भुञ्जीत को निधि ॥

[७००]

मेधां पिपीलिका हन्ति यूका कुर्याज्जलोदरम् । कुरुते मक्षिका वान्ति कुष्ठरोगं च कोलिकः ॥	[७०१]	
कण्टको दारुखण्डं च वितनोति गलव्यथाम् । व्यञ्जनान्तनिपतितस्तालु विन्याति वृश्चिकः ॥	[७०२]	
विलग्रश्च गले बालः स्वरभङ्गाय जायते । इत्यादयो दृष्टदोषाः सर्वेषां निशि भोजने ॥	[७०३]	5
नापेक्ष्य मूक्षमजन्तुनि निश्यद्यात्पाशुकान्यपि । अप्युद्यत्केवलज्ञानैर्नादृतं निशि भोजनम् ॥	[७०४]	
धर्मविनैव भुञ्जीत कदाचन दिनात्यये । बाह्या अपि निशाभोज्यं यदभोज्यं प्रचक्षते ॥	[७०५]	10 तद्यथा ।
त्रयी तेजोमयो भानुरिति वेदविदो विदुः । तत्करैः पूतमखिलं शुभं कर्म समाचरेत् ॥	[७०६]	
नैवाहुतिर्न च स्नानं न श्राद्धं देवतार्चनम् । दानं वा विहितं रात्रौ भोजनं तु विशेषतः ॥	[७०७]	
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे । नक्तं तद्विजानीयान्न नक्तं निशि भोजनम् ॥	[७०८]	16
देवैस्तु भुक्तं पूर्वाह्ने मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा । अपराह्ने तु पितृभिः सायाह्ने दैत्यदानवैः ॥	[७०९]	
सन्ध्यायां यक्षरक्षोभिः सदाभुक्तं कुलोद्ग्रह । सर्ववेलां व्यतिक्रम्य रात्रौ भुक्तमभोजनम् ॥	[७१०]	20

आयुर्वेदेभ्युक्त—

हृन्नाभिपद्मसङ्कोचचण्डरोचिरपायतः । अतो नक्तं न भोक्तव्यं मूक्षमजीवाटनादपि ॥	[७११]	
संसज्जिवसंधातं भुञ्जाना निशि भोजनम् । राक्षसेभ्यो विशेष्यन्ते मूढात्मानः कथं न ते ॥	[७१२]	25
वासरे च रजन्यां च यः खादन्नैव तिष्ठति । शृङ्गपुण्ड्रपरिभ्रष्टः स्पष्टं स पशुरेव हि ॥	[७१३]	
अहो मुखेऽवसाने च यो द्वे द्वे घटिके त्यजन् । निशाभोजनद्रोपज्ञोऽश्नात्यसौ पुण्यभाजनम् ॥	[७१४]	30
अकृत्वा नियमं दोषाभोजनाद्दिनभोज्यापि । फलं भजेन्न निर्व्याजं न दृद्धिर्भाषितं विना ॥	[७१५]	
ये वासरं परित्यज्य रजन्यामेव भुञ्जते । ते परित्यज्य माणिरयं काचमाट्टदते जडाः ॥	[७१६]	

वासरे सति ये श्रेयस्काम्यया निशि भुञ्जते ।

ते वपन्त्युपरक्षेत्रे शालीन् सत्यपि' पन्वले ॥

[७१७]

श्रूयते ह्यन्यशपथाननादृत्यैव लक्षणः ।

निशाभोजनशपथं कारितो वनमालया ॥

[७१८]

फरोति विरतिं धन्यो यः सदा निशि भोजनात् ।

सोऽर्द्धं पुरुषायुषस्य, स्यादवश्यमुपोषितः ॥

[७१९]

रजनीभोजनत्यागे ये गुणाः परितोपि तान् ।

न सर्वज्ञाहते ऋश्चिदपरो वक्तुमीश्वरः ॥

[७२०]

इति सत्रिभोजनपरिहारश्लोकाः ।

§500) आपगोरससंपृक्तद्विदलपिण्डेषु जन्तवः ।

दृष्टाः केवलिभिः सूक्ष्मास्तस्मात्तानि विवर्जयेत् ॥

[७२१]

इति द्विदलपरिभोगनिषेधः ।

तथान्यत्रापि सिद्धान्त माहि भणितं ।

जइ मुग्गमासपमुहं विदलं कञ्चमि गोरसे पडइ ।

तो तसजीवुप्पत्ती भणिया दहिण विनि दिणुवरिं ॥

[७२२]

द्विदल स्वरूप लिखियइ ।

जंमि य पीलिज्जते मणयं पि न नेहनिग्गमो हुज्जा ।

दुन्नि य दलाइं दीसंति मित्थिगाईण जह लोए ॥

[७२३]

संगरिहलिमुग्गमुहइ मासकंइ पशुक्ख वियलाइं ।

सह गोरसेण न जिमे एयं रायत्तियं न करे ॥

इति द्विदल विचारः । [७२४]

जन्तुमिथं फलं पुप्पं पत्रं चान्यदपि त्यजेत् ।

इति प्रत्येक जीवमिश्रितपुष्पफलपत्रनिषेधः ।

सन्धानमपि संसक्तं जिनधर्मपरायणः ॥

[७२५]

संधानु अथाणउं संसक्तु संसुच्छिंम जीय संयुक्तु जिनधर्मपरायणु जिनधर्मतत्परु 'त्यजेत्'
इसउं क्रियापट्टु ईहां पुण जोडियउं ।

एवमादिक वर्जनीयवस्तु परिज्ञानि हंतइ पाउइ यथाशक्ति व्रतु करेयउं ।

§501) यथा—

भोगोपभोगयोः सहस्रव्या शक्त्या यत्र विधीयते ।

भोगोपभोगमानं तद्वैतीयिकं गुणव्रतम् ॥

[७२६]

अत्र प्रतिक्रमणमाह—

§499) 1 These stanzas, commencing with the author's comment in the paragraph—

§492) upto this stanza, are taken from Hemacandra's Yogasāstra III. 5-66.

मज्जंमि य मंसंमि य पुप्फे य फले य गंधमल्ले य ।

उबभोगपरीभोगे वीर्यंमि गुणव्वए निंदे ॥

[७२७]

अत्र बहुदोष पोष कारणता लगी पहिलउं मद्य तणउं ग्रहणु कीधउं ति पुण मद्यदोष-पूर्वल्लिखित योगशास्त्रश्लोकहं हूँता जाणिया । तथा वली भणियइं—

गुरु-मोह-कलह-निदा-परिभव-उवहास-रोस-मपहेऊ ।

मज्जं दुग्गइमूलं सिरि-हिस्मिइ-धम्मनासकरं ॥

[७२८]

तथा—मांसु पिशितु तेऊ महा निंदनीउ तेह ना दोष पूर्वलिखित योगशास्त्रश्लोकहं करी भणिया छइं । वली भणियइं—

आमांसु य पक्कासु य विपचमाणासु मंसपीसीसु ।

भणिओ निगोधनीवाण संभवोणंतनाणीहिं ॥

[७२९]

मज्जे महुंमि मंसंमि नवणीयंमि चउत्थए ।

उप्पज्जंति अणंता तव्वना तत्थ जंतुणो ॥

[७३०]

पंचिंदियवहभूयं मंसं दुग्गंधमसुइ वीभच्छं ।

रक्ख परित्तुलियभक्खगमामायजणयं कुगइमूलं ॥

[७३१]

‘मज्जंमि य मंसंमि य ।’ ईहां छइ चकार तेह तउ दोष अभक्ष्यभेद अनंतकाय पंचोदुंवारि प्रमुख जाणियां ति पुण पूर्वहिं योगशास्त्रश्लोकहं करी कहिया छइं जि तिहां नहीं कहिया ।

हिम विष करक सर्वं मृत्तिका बहुवीज वंशण प्रमुख ति पुण जाणिया । ‘पुप्फे फले ये’ ति । फूल करीर कुसुम बहुयादिक चकारइतउ संसक्त पत्रादिग्रहणु जाणियाउं ।

‘फले ये’ ति—वंशण जंबू पीलुकादिक फल जाणियां ।

ईहं मद्यादिकहं तणइ विपइ राजज्यापारादि वर्त्तमानि हूँतइ जं काई क्रयादिकु कीधउं तेह नइं विपइ । तथा ईहं करी अंतभोगु सूचिउ । बहिभोग पुण ‘गंधमल्ले य’ इणि करी जाणियाउ ।

तत्र ‘गंध’ वास, ‘माल्य’ फूलमाला गंधमाल्य उपलक्षण, वीजाई जि के भोगभेद चंदन कुंडुम कस्तुरिका धुरति जवाधि कर्पूर गंधराजागुरु प्रमुख छइं ति जाणिया । तउ पाछइ गंधमाल्यादिकहं भोगहं तणइ विपइ । उबभोग परीभोग इति नामि वीजइ गुणव्रति जु काई अतिक्रमिउ ‘तं निंदे’ इति पूर्ववत् ॥

§502) अत्र भोगइतउ अतिचार प्रतिक्रमण निमित्तु भणइ—

सच्चित्ते १ पडिबद्धे २ अप्पइल ३ दुप्पोलिए य आहारे ४ ।

तुच्छोसहिं भक्खणया ५ पडिकमे दोसियं सच्चं ॥

[७३२]

जिणि सच्चित्त नउं प्रत्याख्यानु कीधउं हुयइ अथवा सच्चित्त तणउं परिमाणु कीधउं हुयइ तेह रहइं अनामोणादि कारणइतउ सच्चित्ताहार अतीचार १ ।

पयं नालिकेर गोलक पक्काप्रफलादिक सच्चित्त प्रतिबद्धाहार कहियइं तीहं नउ आहार सच्चित्त प्रतिबद्धाहार अतीचार २ ।

पयं अचालित कणिक्कादिक अपरिणत अग्नि करी असंस्कृत अपक्क कहियइं तेह नउ आहार अपक्काहार अतीचार ३ ।

पयं पुद्दुक होलादिक दुःपक्क कहियइं तीहं नउ आहार दुःपक्काहार अतीचार ४ ।

§501) 1 Bh. पुणि । 2 Bh. adds तं च ।

§502) 1 Bh. पडिबुद्धे ।

मुद्ग चपलकादि कोमल फलिका 'तुच्छोवाहि' कहियं । तीरं नी भक्षणता तुच्छोवाहि भक्षणता अतीचारु ५ ।

ईहं नद विपद पठिक्रमे दोसियं सध्यं । इति पूर्ववत् ।

5 §503) ईहां भोगोपभोग रहइं कारणु बहूपावनियंधन । अंगारकर्मादिक पंचदश संख्य छइं कर्मादान तीव्र कर्मादाननिदान । ति पुण आरुकि जाणिया ह्यइं समाचरिया पुण न ह्यइं । इणि कारणि तीहं नइं विपद जं काई अनाभोगादि घशदतउ आचरिउं तेह रहइं पडिच्चामिमा तणइ कारणि वि गाह भणइ—

इंगाली १ वण २ साडी ३ भाडी ४ फोडीमु ५ वज्जए कम्मं ।

वाणिज्जं चैव दंत ६ लख ७ रम ८ केस ९ विस १० विसयं ॥ [७३३]

10 एवं सु जंत गीलणं कम्मं ११ निहंछणं १२ च दवदाणं १३ ।

सर-दइ-तलय सोंसं १४ असईधोसं च १५ वज्जिज्जा ॥ [७३४]

§504) तत्र अंगार कर्मु—अंगार करणु इसी परि अनेकं जु काईं अस्सित्तमारंमहेतुकु आजीविका कर्मु सु अंगारकर्मु ।

अंगारा जीविका१, अंगारकर्मभेद सूचक गाह लिखियइं—

15 अंगारकरणमिट्टगपयणं मुन्नारलोहयारचं ।

कुंभार-भाड-भुंजय-उट्टारत्ताइ वित्तिकए ॥

[७३५]

तह जलणारंभाओ तउ तंय सीसमाइ निष्फत्ती ।

अंगारियाण वणिज्जं, २ कारवणं तं पि अंगारं ॥

[७३६]

इति अंगारा जीविका १ ।

30 §505) 'वण' इति वनशब्द वनगत पुष्पफलादि सूचकु तीहं नउं कर्मु वनकर्मु । तथा चाह—

फुल्ल-फल-वन्न-तण-कट्ट-पणिय-कंदाईयाण विक्रणणं ।

आराम कच्छया फरणयं च वणकम्म माईसु ॥

[७३७]

इति वनकर्माजीविका ॥ २ ॥

§506) 'साडी'ति—सकट गाडां तीहं ना अवयय ऊट्टि पद जुसरादिक सव्वे साडी इणि करी

25 कहियइं । आजीविका कारणि तीहं नउं घडणु घडावणु धीकिणिवउं सकटाजीविका ३ ॥

तथा चाह—

सगढाणं घडणघडावणेण तव्विकरण जा विसी ।

सा सागडियं कम्मं तइंय विक्रणणमवि विनिये ॥

इति साकटाजीविका ३ ॥

30 §507) 'भाडी'ति—भाडा वडइ गाडां भरी बलद गाइह करह वेसर भरी पर तणउं क्रयाणउं जु वेशांतरि आपडावी करी आजीविका कीजइ सु भाडी कर्मु भाटकाजीविका । तथा च भणितं—

भाडीकम्मं भाडय नियगोणाईहिं परकयं भंडं ।

देसंतरेसु नयणं आणयणं अत्यलाभेणं

इति भाटका जीविका ४ । [७३८]

§508) 'फोडी'ति—फोडी कर्मु पृथिवी तणउं हल कुट्टालादिकहं करी रणणु फोडणु अथवा

85 घण अंडुयादिकहं करी पाहण राणि फोडणु फोडी कर्मु फोटिकाजीविका ५ । तथा च भणितं

- फोडीकम्मं पुढवीह्णं फोडणं हलकुदालमाईहिं ।
 तह घण अंडुयमाईहिं पाहाणाईणं जं हणणं ॥ अथवा [७३९]
- पुढवागराण खणणं तत्र तंदयरुप सीसमाईणं ।
 सिंघवसोवच्चलमाईयाण तत्थेव य वणिज्जं ॥ [७४०]
- इति स्फोटिकाजीविका ५ । 5
- §509) अथ इंतवाणिज्जं ।
 दंतवाणिज्जं चम्माइ तसजियंमाण आमरवणिज्जं ।
 संखण्णसिप्पमुत्तियवराडनहचमरमाईणं ॥ [७४१]
- इति इंतवाणिज्जं ६ ।
 अथ लाक्षा वाणिज्जं— 10
 लक्खवणिज्जे लक्खा धाइ इयं सक्कूड तह कुमुंमाई ।
 अन्नंपि य संसत्तं दव्वं तह पाणियविसयंमि ॥ [७४२]
- इति लाक्षावाणिज्जं ७ ॥
 अथ रसवाणिज्जं
 रसवाणिज्जंमि वसा महु मज्जं मंस सोणिय विरुद्धा ।
 अविरुद्धा घय-गुल-तिल्लमाइ वाणिज्जविसयंमि ॥ [७४३] 15
- इति रसवाणिज्जं ८ ॥
 अथ केशवाणिज्जं ।
 केसवाणिज्जं जीवाण विक्कयं मणुयं-तिरियमाइणं ।
 गोत्तुरय-हत्थिमाइसु नरपक्खीणं च जं कहवि ॥ [७४४] 21
- इति केशवाणिज्जं ९ ॥
 अथ त्रिपवाणिज्जं ।
 विसवाणिज्जंमि विसं धावराविस-जंगमाइ बहुभेयं ।
 लोह-हरियाल-मणसिल-सत्याइ-अणेगभेयं च ॥ [७४५]
- इति त्रिपवाणिज्जं १० ॥
- §510) अथ यंत्र पीढणकमुं । 25
 जंता इह बहुभेया तिलजल उच्छृण गोहुमाईणं ।
 लाभट्टा नियगेहे पीलेड तदन्न पीलावे ॥ [७४६]
- इति यंत्रकमुं ११ ॥
 अथ निर्लांछनकमुं ।
 निर्लांछणं च वद्वियकरणं तह नक्कन्न वेधाई ।
 तह सोहाइ निमित्तं अंरुण करणाइ जीवाणं ॥ [७४७] 30
- इति निर्लांछन कमुं १२ ।

§511) अथ दयवानं ।

गोवाइं जिट्टाइसु नवहरियाणं पयद्धण निमित्तं ।

जुन्नतणाण य द्दहणं दावग्गीट्टाणु तं धिंती ॥

[७४८]

इति दवदानं १३ ॥

5 §512) अथ मर-दह-तडाग सोसकमुं ॥

चणमाइ गोहुमाण य वीहीमाईण सिंचणानिमित्तं ।

दह-सर-पवहुद्धिंचण अरहट्टाईहिं जंतेहिं ॥

[७४९]

इति सर-दह-तडाग सोसकमुं १४ ॥

§513) अथ अमती पोस कमुं ।

कुललाइ-वेस-कुवुर-विराल-सुयमाइ पोसणं जं च ।

जोषी पोसं च तथा तुरगुट्टीणं च विचिरुए ॥

[७५०]

इति असती पोसकमुं १५ ॥

पन्नरसंगाराइं कम्मादाणाइं हुंति एयाइं ।

विसयविभागो किंची सुयाणुसारेण इइ लिहिओ ॥

[७५१]

15 सूत्र भाहि 'एवं सु' शब्दु छइ सु छेहि संबंधियउ । तउ पाउइ इसउ अर्थु एवं प्रकार अनेराइं जि निक्कट्ट निर्दय कर्म छइं गुत्तिपाल तलार प्रमुव । 'सु' भिसउ अर्थु निश्चयतउं सुभावहु अनेरइ प्रकारि आजिविका संभवि हुंतइ विचरंइ ।

§514) अत्र भोगइतउ अनइ^१ कर्मइतउ भोगोपभोग परिमाणकरण व्रत विपइ धर्म तणी कथा लिरियइ ॥

कृती मित्तीकृताहारः सप्तमव्रत लीलया ।

मुच्यते सञ्चितेनापि कर्मरोगेण धर्मवत्^२ ॥

[७५२]

तथाहि—

श्रीनिवासकमलु श्रीकमलु इसइ नामि नगरु । दूरीकृत्ताऽमत्यु सत्यु इसइ नामि राजा । जेह नउ खड्डु जिस्सउ शत्रु कालरात्रि^३ तणउ दर्पणु हुयइ इसउ लोके दीसइ । सु पुण गुणवंतु कलावंतु लक्ष्मीवंतु भोगी त्यागी जिम स्वागं शत्रु राज्य करइ तिम^४ राज्य करइ ।

25 अनेरइ द्विवसि राजसभा माहि नैमित्तिकु एकु^५ कहइ । “ महाराज ! इणि वरसि^६ इसउ प्रदयोउ दुमु पडिउ छइ, जिस्सइ वारह वरस^७ दुभिभु पडिसिइ । ” राजा प्रधानहं सामुहउं जोयइ । प्रधान भणइ, “ महाराज ! एह ना वचन नउ संगारु आमइ अनेकि वार अहइ एहं हुयउ ” । तउ पाउइ तिणि नैमित्तिक वचनि^८ करी, जिम वाति करी नृणु धूजइ तिम, राजइ नउं मनु धूजिउं । तउ पाउइ राजेद्रि वृण कण संग्रह कीधउ ।

30 तथा कण वृण संग्रहण ट्यग्रि समग्रि जनि हुयइ हुंतइ तदाकालि का एक दुर्भिक्ष्य वर्षिका^९ आग्री । तउ राउ^{१०} नीतवइ, हा ! निर्धन्य निर्धन जन किहं आइसिं ? किम थाउमिं^{११} ? इमी चिंता करी संततचित्त राजेद्र रहइं वर्त्ता हुंता प्रमोदनिमित्तु आसाठ मास नई पल्लि जि पक्षि दिवस समइ

§514) 1 P. अनेरइ । 2 P. धर्मवत् । 3 B. —राउ । 4 P. omits तिम राज्य करइ । 5 B. omits.

6 P. वरिणी । 7 B. महाराज । 8 B. नैमित्तिकि — । 9 P. omits—नालि । 10 P. दुर्भिक्ष्य । 11 B. add's मनि । 12 P. धादहि । 13 P. मइ ।

पूरवात् वाइउ । सुभक्ष फलह निपइ उइ फलहु अलुय तेह नउ जिसउ¹⁴ अंकूरु हुयइ इसउ जलदलवु
 पूर्वीदिसि¹⁵ समुवित राजेदिं दीठउ । जिम भाग्यवत पुरुष रहइ श्री प्रवर्द्धइ तिम सु जलदलवु विस्तरिउ ।
 धीजइ भणित अगुली हुई, तिणि करी दुर्मिश्यहेतु जि उइ दुष्टग्रहु तीह रहइ तर्जतउ हृतउ वीहायतउ हंतउ ।
 बलाकाइ भणित दत्त हूया । तीह करी जोइसी तणा वचन हसतउ हृतउ दर्शनमात्रिहिं जि दुर्मिथु भाजी
 करी गाजतउ हृतउ । धारा भणित मुसल नीपाता, तेहे करी जन तणा हुक्खकण खाडतउ हृतउ । दक्षिणात्तर 5
 लक्षण विहु समुद्रइ तणउ जिसउ जलाकर्षकु नालु हुयइ इसउ धनुष्यु ताडी करी सु मेधु वूठउ । जाणियइ
 किरि दुर्मिश्य रहइ देवु रुठउ । लोक रइ तूठउ । 'शणि एक हिं'¹⁶ जि वृष्टि करी काल निष्पात्ति हुई, इसउ
 एाकु तदाकालि बोलतउ साभली करी सजजन जिम काजु करी गुणस्तजन कीर्त्ति भय वीहतउ जाणे मेहु
 तिरोहितु हुयउ ॥

§515) निवृत्त चिंता सताप महिपति रहइ धीजइ दिवसि उद्यानपालु वीनइ, ' देव ! महाराज !¹⁰
 तुम्हारइ क्रीडोद्यानि चउमासि रहिया हूता श्रीयुगधर सूरियर रहइ आजु¹ केवलज्ञानु रूपनउ । उद्यानपाल
 रहइ पारितोषिकु प्रभुतु दानु दे करी तउ राउ उद्यान वनि चालिउ । त्रिन्दि प्रदक्षिणा दे करी मुनिवर रहइ वादी
 करी उचितस्थानि समासीनु दसना साभल । तउ पाउइ प्रस्तापि राजा कृताजलि हृतउ पूउइ । " भगवन् !
 तीह नैमित्तिकइ नउ वचनु किसि परि विघटिउ " ? कवली कहइ " ग्रहदुर्योगि करी द्वादश-वार्षिकु दुर्मिश्यु⁴
 हृतउ, पुणि जिणि कारणि सु दुर्मिथु न नीपनउ सु कारणु ईह नैमित्तिक रइ⁵ गाचरु नही ॥ तथाहिं⁶— 15

§516) पुरिमतालु इसइ नामि पुरु । तिहा प्रवरु इसइ¹ गुणह करी प्रवरु नरु एकु हृतउ । सु पुण
 नइ यौवनि कर्मवशाइतउ² रोगपीडितु हुयउ । सु पुण रसनिंदिउ जिणी सकइ नही । पाछइ जु जु आहार
 आहरइ सु सु आहारु तेह रइइ आधारु हुयइ । तउ पाउइ प्रवरु नरु जापणा मन माहि चितवइ । " जु
 आहारु शरीर रइइ अहितकारकु तह नउ प्रत्याख्यानु हउ काइ³ करउ नही । अनाहार प्रत्याख्यान तणउ
 फलु काइ लिउ नही । " इसउ चीतमा करी गुरु नी साखि इसउ भणइ, " जि त्रिगध लवण मधुर आहार ति²⁰
 हउ आहरिसु नही । जि तिक कउक कपाय आहार ति हउ आहरिसु । जनुदरता व्रति वर्तमानि हृतउ जह
 तणा सगवशाइतउ ईर्ष्यालु थिकी मुक्ति पुरुषइ रहइ सामुहउ¹ न जोयइ स स्त्री सर्वथा परिहरउ । इसउ
 अमीकरी² व्रतु सु अखडु पालतउ हृतउ धर्म तणा प्रभावग्रइतउ³ इह लाकिहिं रोगमुक्त हुयउ । अथवा
 धर्म रइइ किसउ काई असाध्यु उइ⁴ नीरागु हुयउ हृतउ सु प्रवरु नरु आपणउ⁵ व्रतु अमलहतउ हृतउ,
 स्वयंवर प्रभुत लक्ष्मीवरु हुयउ । जाणियइ तेइ नी विभूति आगइ स्वयं अल्पविभूति जाणी⁶ करा दासी²⁰
 तणइ मियातरि तह नइ धरि दयता सया वृत्ति करिया कारणि आवि । तथापिहिं सु विपयाशकु⁹ न
 थियई⁰ । मार्ग नी कोटि करी जु तेह नइ धरि धनु आवइ सु धनु पाउदान¹¹ दयादान उचितदान लक्षण छइ
 गहूया¹² त्रिन्दि मार्ग तह करी नीसरइ । अनरइ वरसि रकलरुह रहइ हु प्रभु दुर्मिथु¹³ नीपनउ । जिम निदाघ
 समइ जलासय सुमइ तिम यदाकालि सामानाजन¹⁴ दान धर्म रिसइ, तदाकालि प्रवर ना दान धर्म
 धरणउ उल्लसइ । 30

ग्रीष्मे सरासि शुष्यन्ति, सत्कडोलथ वारिधिः ।

दुष्काले स्तपता यान्ति नीचा उच्चाथ दानिनः ॥

[७५३]

तउ पाछइ जिम ससारभयभीतह एहु जु जिनधर्मु सविद्यइ तिम दुर्मिश्यभय¹⁵ भीतह जनः पशु जु
 प्रवरु नरु सेत्रिउ । दिगत समागत साधुदात सहस्रलक्ष सग्य¹⁶ प्राप्तुकुपणीय पक्कान् दधि दुग्ध धृतादिकइ

514) 14 B P omits 15 P लिशि । 16 I एहही ।

515) 1 P omits 2 P omits 3 P omits —न । 1 P दुर्मिथु । 5 B Bh नी मलि रहइ ।
 6 P omits

516) 1 P १lb नामि । 2 P वसनउ । 3 B had पर, प्रत्याख्यानु करउ । but a later

correction alter it to प्रत्याख्यानु कार करउ । P follows this correction 4 B चापु । 5 B

अमीकरी । 6 P प्रभावउ । 7 B आपणउ । 8 P नाणि । 9 B नियमानउ । 10 B धिभोर । 11 B मुपादान ।

12 P गहूया । 13 P omits 14 P omits 15 दुर्मिथु । 16 P संख्या ।

करी विहरावइ । श्रावक पुण वय नइ अनुसारि पितु मातु भ्रातु समान देवतउ¹⁷ इतउ घरहिं जि रत्तावइ¹⁸
 वस्त्रभोजनादि आपणया समु शू करावइ । इसी परि सुशाजदानैकव्यसन पोपी करी अटंडु व्रत प्रतिपाली
 करी कालयोगवदाइतउ प्रवरु मरी करी देवलोकि सुरवरु हयउ । जिसउ इंद्र ह्यइ भद्रि करी तिसउ इंद्र
 सामानिकु हयउ । शाश्वतार्हत यात्रादि सुकृत¹⁹ करी आयु पूरी चिन्ति चीतवइ । 'प्रधानि श्रावक नइ कुलि
 १५ इउं ऊपजिजिउं । मिथ्यादिबलि राजेद्रु म हंइजिउं' । तउ पाउउ ताहरा नगर समीपि छइ चित्रशालु
 दसइ नामि विचित्रशालु पुरुष²⁰ तिरा छइ सुव्रतुहि इसइ नामि श्रावकु जिणि इसी दुर्भिक्ष वाचाइ
 धान्य तणउ समए²¹ न स्वीधो । तेर नइ तिमला रमइ नामि गुणए करी अति तिमला श्राविना । तेर नी
 कुक्षि संभृत सु वेतु पुनु हयउ । तेर मलाभाग²² तणइ जन्मि द्वादश वार्षिक दुर्भिक्ष हेतुक²³ घट निर्जिणी
 करी सुमिथु²⁴ कीपउ ।" इसउ कोली वयनु सामली करी केपली रहर थांडी करी । चित्रशालि नगरि
 १० जाई सु बालकु उत्संगी करी इसी परि स्तुति करइ ।

दुर्भिक्षपङ्कमप्रोपि¹ व्यापार वीर नमोस्तु ते ।

राजा त्वमेव मे राज्यं तलारारयोस्मि तावकः ॥

[७५४]

मूर्तिमानिर धर्मोपमित्यं दुर्भिक्षभङ्गं कृत् ।

इति तस्याभिधा धर्म इति धानीभूता कृता ॥

[७५५]

१५ §517) तउ पाउउ सु बालकु जातमात्र इतउ प्रसिद्धउ हयउ । अनेराई जि के पापतियां राजा
 छइ तेरे पुण आपणइ राजिय धर्म नी आणि प्रस्तावी करी मेर वरसाविया । समस्त राजमडल तणा
 कालोचित वयोचित प्राप्त दिनि दिनि तेर ररई आपइ । चिम मंदरकडरागु कटरवाइपु निषपद्रु विकउ²
 प्रवर्द्धइ तिम सु बालकु प्रवर्द्ध । यौगले आदिइ हुनइ जिम सधुद्र ररइ नदी स्वयंवर आगइ तिम सवही
 दिनि तणा जि उइ राजेद्र नीह नी दीकिरी³ स्वयंवर आगन अनेकि सु धर्मबालकु परिणिउ । धर्म समरत
 २० महिभरतक विरित्तलु देवगुरु भक्तिमत्⁴ धर्मवतु नमा कर्मा अगमतउ पूर्व पुण्यफल भोग भोगमतउ प्रस्तापि
 संयमु ले करी केवलज्ञानु जगदी⁵ मोक्षि⁶ पहतउ ॥

भोगोपभोगविरति प्रतिपाल्य पूर्व धर्मो यथा शिवमयाप निरस्तपापः ।

यूयं तथेह भविनाः प्रतिपत्र सत्रः सिद्धिधियं वृणुत तिष्ठत लोपमौलौ ॥ [७५६]

भोगोपभोग परिराणवत प्रतिपालन विषय धर्मराजेद्र कथा समाप्तः ।

२० §518) अथ अनर्थदउ विरतिलक्षणु नीजउ गुणवतु लिखियइ ।

तत्र अर्थु देह स्वभनादि कार्यु, तट नउ अभावु अनर्थु । तउ पाउइ प्राणियउ कार्य पावइ पुण्य
 धनापहारि करी पापकर्मट दडियइ लुडियइ जिणि करी सु अध्यानाचरितादिकु अनर्थु दउ करियइ । तेर
 तणउ सुदुर्तादि कालावधि करी निषधु अनर्थदंडविरति व्रतु करियइ ॥ तथा च भणित

तद्वणत्पदंडविरर्दं अन्न स चउरिहो अयज्ञाणे ।

पमयाचारिण हिंसप्याण पावो व एसे य ॥

[७५७]

३०

तथा अनर्थदंडवतुर्था चउ भेद हयइ । यथा अपध्यानाचरितु, १ प्रमादाचरितु २, हिंसवतु प्रदानु ३
 पापोपदेशु ४ ।

516) 17 P दोषतउ । 18 P रत्तावितु । 19 Bb P पुरवइ । 20 P समह्यु । 21 B मया ध्याय¹

22 P omits -हं । 23 Mss have सुगज । 24 Bb ममोप्योधार ।

517) 1 Bb P आणी । 2 B Bb कावचवितु । 3 P धकउ । 4 P पावियइ । 5 P दीरती ।

6 Bb भक्तिवतु । 7 P ऊपणी । 8 P भोग । 9 P om ts

तत्र अपच्यानु आर्त्तध्यानु अनर रोद्रध्यानु, यथा—

वैरित्रजोद्वन्धप्रधव्यथादेविद्याधरेन्द्रत्वनरेन्द्रतादेः ।

रोद्रार्त्तं भावानुलितस्य चिन्तापभ्यानमेतन्निगदन्ति तज्ज्ञाः ॥

[७५८]

पापोपदेशो यथा—

दृतभुजामिह देहिक्षेत्रदेशे हयाना

कुरु वृषणमिनाशं मुञ्च सस्यैषु कुल्याम् ।

दमय वृषभनुन्द घातय प्रत्यनीना-

निति दिशति विवेकी को हि पापोपदेशम् ॥

[७५९]

द्विस्त्रप्रदानु अनर प्रमादाचरितु अनर्थदुडु विहु¹ गाहा करी सूत्र माहि कहइ ॥

सत्यग्निमुसलजतगतणरुद्वे मंतमूलभेसज्जे ।

दिन्ने ट्ठाविण वा पाडिकमे देसियं सच्चं ॥

[७६०]

न्हाणुत्तृणवन्नगविलेवणे सइ ख्व रस गंधे ।

वत्यासणआभरणे पडिकमे देसिय सच्चं ॥

[७६१]

शस्त्र अग्नि मुशाल प्रसिद्ध । यत्रदाकटादिक, वृणवारि बुहारी बहुरादिक,² काष्ठ अरघट्ट यष्ट्यादिव,
मनु म्पापदारादिक, मूल नागदमनी प्रसुरगु । ज्वराद्युपशममूलिका वा । अथवा गर्भजातनादि मूलकम्¹⁵
भसज्जु । उच्चाटनादि निमित्तु द्रव्यमेलनु कहियइ । एउ शस्त्रादिकु प्रभूत भूत सघात विघात हेतुभूत
वाक्षिण्यादिह तणइ अभावि अनेराई निमित्तु जु दीधउ दिवारिउ तेह हूतउ 'पडिकमे' इत्यादि पूर्ववत् ।

§519) स्नानु अभ्यगपूर्वु शरीरप्रक्षालनु ।

तिहा व्रसनीवाकुल भूमितलि । तथा सपातिम जीवाकुलि । अथवा कालि¹ अथवा अत्राणिइ जालि
अयतना करी जु कीधउ ऊयटणउ² तेह नी दीगलेटी राउ माहि मसली नहीं, भूमितलि मर्ही नहीं वा³ ।²⁰
तउ पाउइ ति कीटिका मक्षिका कटक सकुल कृतिरे खाजइ अथवा लोक तणा पायट मर्दियइ । वर्णक
कस्तूरिकादि मडनु । चदन कुकुमादि अगराणु विलेपनु । सपातिम जीवाकुलि कालि अयतना करी कीधा
हयइ । वर्णक वेलपन वणु वीणादि समण्डि शब्दु कैतुकवशि रागवशि सामलिउ हुयइ । अथवा रात्रि समइ
उच्चै स्थिर करी शब्दु कीधउ हुयइ । नाटकादिकह मादि रूप अनकविध दीठा हुयइ । रसु मधुरादिकु
अनेराई रट्टइ जिम राणु हुयइ तिम वर्णविउ हुयइ । एव गधादिकइ जाणिया ।

25

ईह विषयट तणा ग्रहणइतउ मद्यादि पचविध प्रमादग्रहणु पुण जाणियउ ।

पज्जं विसय कसाया निडाविगहा य पचमी भणिया ।

एए पच पमाया जीव पाडति ससारे ॥

[७६२]

तउ पाउइ स्नानु उद्धर्त्तनु वर्णउ विलेपनु शब्दु रूप रस गंध फरस ईह सयहीं नइ म्पिह तथा मद्यादिकह
नइ विपइ जु⁴ आचरिउ । तथा 'वत्यासण आभरण । पट्ट कूलादिक वख । 'आसरी मूटकादिक आसन ।³⁰
'आभरण' हीरालग मोतीलग सुअर्णादिमय । तीह नइ विपइ जु आचरिउ मूच्छा⁴दिकु प्रमादाचरितु तेह हूतउ
'पडिकमे' इत्यादि पूर्ववत् ।

518) 1 Bh विउ । 2 Bh बुहारा—

519) 1 Thus may be अथवाऽभादि । 2 B omits. 3 Bh erases this वा । 4 Dh. omits.

§520) अत्र अतिगर प्रतिक्रमण निमित्तु भण्ड ॥

कदप्ये १ वृत्तुङ्ग २ मोहरि ३ अह्विगरण ४ भोग अउरिचे ५ ।

दंडमि अणट्टाए तइयंमि गुणव्यए निंदे ॥

[७६३]

कदप्यु मोटोद्वीपन कारखु लामउ १ । कौकुच्यु-भेरादि त्रिक्रिया गर्भित हास्यननक विट चट्टा २
5 मौरयु-असज्ज उहुवचनता ३ । अधिहरण उद्वरल मुदालादिक ति सयुक्त धरियइ, यथा उगल मुदाल^१
वे एकटा करी धरइ । अथवा घट्टी माकठी ने एकठी करी धरइ ।

वाहिणि पइ^२ जूसर^३ एकटा करी धरइ । एणमादि अनेकविध सयुक्ताधिकरणता ४ जु विवेकी
हुयइ सु सयुक्त शकटादिकु अधिकरणु न धरइ । सु देरी करी लेयतउ हूतउ पर रासी वारी न सकियइ ।
विसयुक्ति पुण हूतइ अधिकरणि आपटे निवारितु पर हुयइ ।

10 भोगातिरकता-भोगोपभोगाधिकता ततए ररइ अधिकता हूती लाकु पुण मागइ मूर्च्छावृद्धि पुण
हुयइ । 'दंडमि अणट्टाए' अनर्थदंड विरत्याटिय श्रीजइ प्रति^१ इत्यादि पूर्ववत् ।

§521) अनर्थदंड विरतिव्रत^१ विपद सुरसेनकथा लिखियइ ।

अनर्थदण्डविराम व्रतधीरा^२ महोदयम् ।

लभन्ते सुरसम्भारभासुराः सुरसेनवत् ।

[७६४]

16 तथाहि^३—

वसुधरावधुरा^४ वधुरा इसइ नामि नगरी । तिहा वीरद्विरामणि वीरसेनु नामि राजा । सुरसेन,
महासेन नाम ति पुत्र । अनेरइ द्विनि महासेन तणी जीम सूणी । जिम इधनह करी वैश्वानर प्रज्वलइ तिम
ओपघट^५ करी सु शोषु रोमि वृद्धि गयउ । 'धर्म एकु एह रहइ ओसहु' । इसउ भणी वैद्यह सु मेलिटउ ।
कमिक्रमि तेह नी जीम कुही । मारणीए मयुमडप जिम बगाली । उगु हुगंधु इसउ उउलितु जिसइ
20 मातु पितु भार्यादिकह बहुजनह मलिहउ । तेह कन्हइ भाडाई वडइ को रहइ नहीं । तदाकालि सुरसेनु भाई
भाई^६ नइ स्नेहि दुर्गंधु जिणी करी कन्हइ रहिउ । तथा च भणित—

वसणे मितपरिक्खा, दाणपरिक्खा य होइ दुक्काए ।

विणये सीसपरिक्खा, सुहडपरिक्खा^७ य सगाभे ॥

[७६५]

सुरसेनु महासेनु आगइ कहइ " भ्रात ! जा तू ररइ एउ जभिरंगु छइ ता तउ प्र याएयानु करि
25 हउ काई तउ आहरउ^८ जउ मू ररइ रागु म जाइ । अन्यथा न आहरू तिणि पुण तिमहीं जि कीधउ । पुनरापि
सुरसेनु कहइ, " भ्रात ! महासेन ! जइ किमइ इणि प्र याएयानि विरुइ तउ मरिसि तउ अनशन तणउ फलु
लटिसि । ' इसउ भणी करी भाई आगइ^९ थाई सुरसेनु वट्टांचालि मारणी^{१०} श्रीजइ । निश्चलु थिरुउ^{११}
पचपरमेष्टि नमस्कार गुणइ । नमस्काराभिमन्त्रि जालि करी महासेन नी जभि सींगइ । महासेन कन्हइ
नमस्कार समरावइ । जिम जिम जीम माहि सु नीच परिणमइ तिम तिम रोगोपद्रमु हुयइ ।

30 निर्व्यथ निर्ण^{१२} नीरुग् निर्दुर्गन्ध^{१३} सुगानि च ।

सुहृचान्ते^{१४} मुख जज्ञे क्व न धर्मः प्रभावभारु ॥

[७६६]

520) 1 Bb मूउ । 2 Bb पइ ॥ 3 Bb मूर । 4 Bb गुणनति ।

521) 1 P विरतिव्रतव्रत । 2 Bb gloss विराम विराम । P विरे । 3 Bb omits 4 B वसु धर
P omits वउरा । 5 Bb P ऊपरा । 6 P om ts 7 P सि व । 8 P परेहया । 9 P आहारइ । 10 Bb.
adds थाया । 11 P माते । 12 P वरइ । 13 Bb निरगु । 14 Bb निर्णव । 15 P मुदइ ति ।

रोगमुक्त महासेनु देवी करी लोक सहर्ष ह्यय । ति पुण सुरसेन महासेन वे सहोदर धर्मविपद्
अति सादर ह्या¹⁶ । श्रीभद्रवाहु नामि श्रीमदाचार्यमिश्र एक वार तिहां समोसरिया । अवाधिज्ञान बलि करी
ति महात्मा अनक भविक लोकहं तणा संदेह उतारइं । सुरसेन महासेन वांशिया आविया । त्रिन्दी प्रदक्षिणा
दे करी वांड़ी करी धर्मदेशनामृत पानु करइं । देशनावसान¹⁷ सुरसेनि¹⁸ महासेन जीभ रोग कारण पूछिउ ।

§522) मुनि भणइ “मणिपुर नामि पुरु तिहां जिनधर्माधिवासितु मदनु इसइं नामि सुभट्ट¹⁹ एकु 6
हंतउ । तेह तणा धीर वीर इसां नामहं प्रसिद्ध बि पुत्र हूता । जिनवचनामृतपान व्यसनभावइतउ मिथ्यात्व-
विप मूच्छागोचर न²⁰ ह्याई । कदाकालिहि²¹ ति उयानवनि गया । वसंताभिधान मुनिप्रधान निज
मातुल मुनि भूमिपतितु तेहे तिहां डीउउ । “किसउं ह्यउं ? किसउं ह्यउं ?” इसी परि आरुलद धीरि
पूछतइ²² हूतइं, पुरुपु एकु तिहां वर्त्तमानु कहइ । “प्रतिमा वर्त्तमान मुनि रहइं देणी करी इट्ट भुजंगमु एकु
मुनि रहइं इसी करी विलि पइठउ, जिम चोरु चोरी करी दुर्गि पइसइ ।” तदाकालि मातुलमोहवशइतउ¹⁰
वीर कहइ । “रे रांकउ ! सु सापु²³ नासतउ²⁴ तुम्हे मारिउ कांइं नही ?” धीरु तेह आगइ कहइ¹⁰ “सार्थि
जीवतइ गयइ आ महापुरुप किसइं कारणि जीभ करी पापु वांधइ ?” कोप लगीं वीरु वलीं कहइ
“जिणी महामुनि डसिउ तिणि मारिणइ²⁵ धर्मु जू ह्यइ, किसी परि पापु ह्यइ ? क्षत्रिय तणउ धर्मु पणु
जु जु¹² इमु निग्रहिइ दिपु पालियइ । इसउं किमइ असत्यु वचनु तउ¹³ मू रहइं जिद्धपातकु आयउ ।” धीरु
तेह नउं वाक्यु चीतवतउ हंतउ अपारङ्कपारससागरु मणिमंत्रोपाधि बलि करी मुनि रहइं जीवाडइ ।¹⁵
सुनीद जीवतइतउ सुभट्ट रहइं अतिबल्लभ ह्या । धीर वीर वे सुत सर्वजनस्तुत सुभु धर्मु पालता पातकु
प्रज्वालता कीर्ति करी आपणपउं ऊजालता सुचिर कालु नांशिया । धीरु पूर्णायु हंतउ, सुरसेन ! तउं ह्यउ ।
अनालोचित ताहग्यचन पापकर्मा वीरु ताहउर भाई महासेनु ह्यउ । सर्व वैयहं रहइं असाध्यु सर्पवात
वचन पापइतउ तेह रहइं जिद्धा रोगु ह्यउ¹⁴ । भवांतरि जु तइं यति जीवाडिउ तेह नइ प्रभावि तू रहइं
रोगमंग लखि हूई । तिणि कारणि नमस्कारभिमंत्रितजालि करी तइं भाई जीवाडिउ रोगु नसाडिउ ।²⁰
इसउं पूर्वु भवु सांमली करी विहुं रहइं जातिसमरगु ऊपनउं । विहुं व्रत लीधउं । तीव्र तपधरणु कीधउं
तिणिहिं जि¹⁵ भवि केवलज्ञानु ऊपाडी¹⁶ करी मुक्ति पहुता ।

अनर्थदण्डस्य फलं दुरंतं श्रुत्वा महासेननरस्य भव्याः ।

शिवं निवृत्तेः सुरसेनपुंसस्तं वर्जयध्वं कुशलं लभध्वम् ॥

[७६७]

॥ अनर्थदंड विरतिव्रत¹⁷ विपद् वीरजीव महासेनकथा समाप्ता ॥

25

प्रतिपक्षे सुपक्षे¹⁸ सुरसेनकथा ॥

§523) अथ चत्वारि शिक्षाव्रत ।

तत्र प्रथमु सामायिकु व्रत । सु पूर्वहिं सामायिकुग्रहण समइ वंशानिउं । सामायिक व्रत तणा छइं
अतीचार तीहं तणा प्रतिक्रमण करिया निमित्तु भणइ ।

तिविहे दुष्पणिहागे अणवद्वाणे तदा सइ विहणे ।

सामाङ्ग वितहरूप पदमे सिक्खान्ण निंदे ॥

[७६८]

30

क्रिषिषु दुःप्रणिधानु जिणि सामायिकु कीधउं ह्यइ तेह रहइं मानि करी गृहव्यापारचित्तनु मनो-
दुष्प्रणिधानु १, । वचानि करी सावय फकंडा भाषादिकु वाग् दुष्प्रणिधानु २, अप्रतिलेखिनि दुष्प्रतिलेखिति
अनिरीक्षिति दुर्निरीक्षिति स्थानाफि स्थानापनादि विधानु कायदुःप्रणिधानु ३, अनयस्थानु सामाङ्ग

521) 16 Bh. हुआ । 17 P. देना ।—

522) 1 P. सुभु । 2 P. इय । 3 P. omits. 4 P. वृत्त- । 5 Bh. does not repeat. 6. P. पउिनइ ।
7. P. omits. 8 Bh P. साउ । 9 P. नाहनउ । 10 B. omits. 11 P. मारिइ । 12 Bh. P. omit.
13 Bh. हु । 14 B. drops the whole sentence. 15 P. omits. 16 P. ऊपाडी । 17 P. omits व्रत ।
18 Bh. एण्णे ।

523) 1 B. omits.

तणउ कालु जघन्याहिं मुहत्तात्मकु छइ उत्कर्षिं समाधानु नीमु छइ । तेह तणउं अपूरणु अथवा अनाइर करणु पृवुं अवरथानु अनवस्थानु थ, सामायिकु जेतीवार मृहव्यापार चिंता न हुयइ तेतीवार करिवउं ।

तथा चाह चूणिकारः

5 'जाहे खणिओ ताहे करेइ सामादयं श्यसो' त भंजेइ' ति ।

तथा स्मृतिविहीनं निद्रादि प्रमादवदाइतउ शून्याकारता करी कीधउं सामायिकु स्मृतिविहीनता पांचमउ अतीचारु ५ ।

ए पांच अतीचार आश्रयी करी कीधुं सामायिकि पहिलइ शिक्षावृत्ति । अविताथिकृति- अविधि पूर्व विरचिति सम्यग् अकीधर जु अतिचरिउं सु निदउं ॥

10 §524) अत्र शिष्य भणइ- 'दुविहं तिविहेणं' इतइ प्रत्याख्यान भणिइ हुंतइ मनोदुःप्रणिधान वर्जन रहइ अशक्य करणता करी प्रतिपेधु संभवइ नही । तउ पाछइ सामाइक व्रत तणउं मंगु हुयइ । किसी परि सामायिकु संभवइ ! तिणि कारणि सामायिक प्रतिपत्ति कन्हा अप्रतिपत्ति भली । इतउं न कहिबूं । मनि करी न करूं १. वचनि करी न करूं २. कायि करी न करूं ३. मनि करी न करावूं. ४. वचनि करी न करावूं ५. कायि करी न करावूं ६.

15 इति छ पद्यकरणेण तीहं माह मनोदुःप्रणिधानि करी मनि करी न करूं एह णइभंगिहिं हुंतइ वीजा पांचहं तणा संभवइतउ प्रतिपत्ति इ जि भली । तथा मनोदुःप्रणिधानतउं जु अतिचरिउं तेह रहइ मिथ्या-दुःकृत मात्र भणनि करी झुद्धि तणा भणनइतउ सामायिक तणा अप्रतिपत्ति न भलियइ किंतु प्रतिपत्तिइ जि भली । तथा अविधिकृत कन्हा अकृत भलउं । एह वचनु युक्तउं नहीं । यदुक्तं—

अविधिकया यरमकयं अमूयवयणं भणंति समयन् ।

पायच्छिउं जम्हा अकए गुरुयं कए लहुयं ॥

[७६९]

§525) सामायिकव्रत विपइ केसरी नाम धावकपुत्रकथा लिखियइ ।

क्रूराचारोपि संसारकारया मुच्यतेद्भूतम् ।

केसरीव वृत्कर्मदामा सामायिकव्रतात् ॥ ✓

[७७०]

तथाहि—

35 कामपुत्र नामि पुरु त्रिहं विजउ नामि राजा । सिंहदत्तु नामि श्रेष्ठि । अनेरइ दिवलि सिंहदत्तु श्रेष्ठि राजेंद्र रहइ प्रणमी करी वीनयइ, "महाराज ! केसरी नामि माहरउ पुत्रु चोर छइ पाउइ मू रहइ दूषणु म देजिउ । हुउं तुम्ह आगइ वीनयी करी निकसग हुयउ ।" राजा केसरी रहइ वेमवटउ विषइ । सु पुण केसरी राजेंद्र तणा भय लग्गी नगर हुंतउ नीसरिउ, देसांतरि गयउ । श्रांत हुंतउ किणिहिं वनगहनि स्वच्छ शीतल स्वाडु जल सरोवर तीरि बइठउ चीतवइ । 'मइ जन्मलग्गी चेतना संभवि ह्यइ हुंतइ अचोरिउं पाणीऊं पीधउं नहीं अहो अकार्य ! पिग्धिग् मू रहइ ! आनु मइ सु' अचोरिउं पीवउं । इतउं मन माहि

§523) 2 Bh सामायिकु । 3 Bh इउओ । 4 Bh. omits.

§524) 1. Bh मनोदुःप्रणिधानइतउ ।

§525) 1 Bh दुवं । Bh. 2 P. हुअउ । 3 P. omits-ऊ । 4. P. सु मइ । 5 P. पीधउं । 6 Bh. omit.

चीतवतउ हंतउ सु चोरु श्रांतु कांतार-सरोवरि जलु पियइ । सानु पुण करइ । तउ पाछइ श्रमरहितु हंतउ सरोवर पालिस्थित चूत तरु ऊपरि चडिउ फल खाई' तुतउ हूयउ' हंतउ मन माहि चीतवइ । 'ह हा मू रहई किस आञ्च नउ दिवसु चोरी पावइ जाइसिइ' ? इसउं तिणि चोरि चीतवतइ हंतइ एकु को' योगीहु मंत्रसिद्धपाडुकु आकाश हंतउ सरोवर तीरि उतरिउ । पाडुका तीरि मूकी उरहउ¹⁰ परहउ¹⁰ जोई¹⁰ करी भूमि लागता पगहं करी सरोवर माहि पडउउ । तदाकालि तिणि चोरि वृक्ष ऊपरि बडइ¹¹ थिकइ¹² इसउं 5 चीतविउं, 'एइ योगी रहई गगन गमनविपइ ए पाडुका ई'¹³जि कारणु, नहीं त किम ईहं पावइ भूमिगतिहि'¹⁴ जि होंडइ ? तिणि कारणि ए पाडुका चोरउं, दिन सफल करउं ।'

§526) इसउं चीतवी चूत हंतउ ऊतरी पाडुका पाए¹ पहिरी गगनि'गमनु करइ । तउ पाछइ त्रिनु किणिहिं वनगहनि रही करी रातिसमइ ति पाडुका पादे पहिरी आपणइ धरि गयउ । जनक सिंहदत्तश्रेष्ठि आगइ कहइ, "राउ वनिवी करी तई हउं नगर हंतउ कटावियउ" । इसउं भणी करी तां वंडे करी¹⁰ मारइ, जां मरइ । मूयउ वापु मूकी करी जि जि महद्धिक घर तीहं तीहं हंतउं सारु साग अपहरइ । इसी परि त्रिन्ही पहर रात्रि सीम स्वेच्छाचारि तेह पुर माहि विचरइ । रात्रि तणइ चउथइ पहिरी पुनरपि दुर्ग-मारण्यमंडनि तिणिहिं जि सरोवरि' गयउ । इसी परि राति राति सु चोरु तेउ जु नगर विविध प्रकारहं करी हंतइ । पापडुद्धि हंतउ साधु सती मुख्यलोक' रहई संतावइ । तउ पाछइ जिम जमागमु भयंकरु हुयइ तिम तिणि नगरि निसागमु हुयइ । तेह नउं स्वरूपु नगराधिपति ज्ञाणी करी तलारु बोलावइ । तलारु 15 विलक्ष्यवदनु' हंतउ अधोमुख होई करी वीनवइ । "महाराज ! जे भूमि गोचरु चोरु हुयइ तउ माहरउ पाडि हुयइ । एउ खेचरु कोइ चोरु माहरइ पाडि नहीं "

§527) तउ पाछइ राउ कोपाश्रितापसंतप्तु आपणउं मुखु, हुक्खितलोक दर्शनि करी हुई छइ कृपा तेह लग्गी, नेत्रहं हंतुं नीसरइ छइ जि अम्बुजल तीहं करी, शीतलु करइ । "तपोधनहं तणां जि छई तपोधर्म, शीलवती जि छई चुवती तीहं तणा छई शीलधर्म, तीहं तणइ प्रसावि 30 सु चोरु मू रहई इष्टिगोचरु होइजिउ" । इसउं भणी करी अल्पपरिवारु राउ आपणपई पुरी माहि फिरी चोरु जोयइ । जि के देवकुल, जि के आश्रमपइ, जि के जनसमवायपइ, जि के वेद्यापाटक, जि के कलालपाटक तिहां सगले जोइउ जइ न लाधउ' तउ राउ' नगर वाहिरि नीसरिउ । वापी कूप तडामा-रामादि स्थानि फिरिउ । जउ तिहांई न लाधो तउ राउ नगर वाहिरि' वन माहि गयउ' । तिहां दिव्यु गंधु' उपलभा करी गंधानुसारि जायतउ हंतउ वनवहुमध्यि चंडिका भुयनु देखइ । तेह माहि 25 चंडिकामूर्त्ति चंपकादि दिव्य कुसुम संभार' संपूजित देखइ । धूपोक्षेपु करतउ हंतउ पूजारउ राय कन्हेइ आवियउ । राइ' तेह तणां दिव्य वद्य देवी करी विस्मयापात्रि हंतइ पृष्ठिउ, "आनु किसइ उच्छवि' किसइ पविं, किणि भावियइ इसी पूजा¹⁰ करावी छइ ? इसी विभूषा¹¹ देवी रहई करावी छइ ? तू रहई देवदूष्यावतार तार वद्य किणि दीधां ?" इसइ राइ पृष्ठतइ हंतइ पूजाकारकु भणइ—

§528) "महाराज ! मू हुक्खित रहई देवी चंडिका तूठी । प्रभाति देवीपूजा निमित्तु आवउं 30 अनइ देवी तणां पाइहं आगइ धर्त्तमान स्वर्णरत्नसंतान टहउं । तिणि कारणि त्रिहुं काले देवी रहई पूजउं । देवी प्रभावि धनइ धन जयकारकु धनु लहउं" । तउ राजा चित्ति चीतवइ, 'निश्चइसउं रात्रि समइ देवीपूजा निमित्तु चोरु ईहां आवइ । देवी आगइ सुयण' रत्न मूरुइ' इसी परि चोरु संघारु तिहां

§525) 7 P. काई । 8. P. omits. 9 P. भीद । 10 B. Bh. omit. 11 P. पडउउ । 12 P. पडउ । 13 P. adds हि । 14 P. भमि- ।

§526) 1 Bh. पादे । 2 P. गगन विपइ । 3 P. सरोवरि । 4 P. गनीहं मनुष्य । 5 P. विलक्ष- ।

§527) 1 Bh.-पडक । 2. Bh. रागो । 3. B. P. omit. 4. Bh. omits. 5. Bh. गदउ । 6. B. P. omit. संपू उपलभा करी । 7. P. omits. 8. P. राय । 9. P. इत्यदि । 10. Bh. पूज । 11. B. पूजा ।

§528) 1 P. स्वर्णे । B. स्व on the recto and वणं on the verso.

संभावी करी प्रभात समइ राउ वासरकृत्य करिवा कारणि आपणइ आवासि आविउ । रात्रि समइ सार परिवार सहितु भयरहितु निज नगरहितु राउ चंडिका देवकुलि आविउ । घरशूर सुभटपूर^१ दूरदूर^२ रहावी करी आपणपइ संभातरहितु होइ करी देवकुल माहि रहिउ । विटुं पहर रात्रि^३ समइ पाडुकासिद्ध तेह तस्कर ररइ तिरा आविया हूता राउ देराइ । पाडुका युगलु ऊतारी^४ यामि^५ करि लेई, देवकुल^६ माहि जाई, सु चोर प्रधानरत्नहं करी देवीपूजा करइ । पूजा करी देवी आगइ कहइ, “स्वामिनि ! चोरीकारिया स्वेच्छाचारिया मूर ररइ प्रभूत धनवा क्षणदा सदा होइजिउ” । इसउं भणी पाउउ वली सु महावली जायतउ हुंतउ द्वाभु संधी करी रहितु हुंतउ राइ^७ बोलाविउ ।

§529) “ रे ! जीयतउ नहीं जाइ ” इसी परि राइ^१ धरिपितु हुंतइ बोलाविउ हुंतउ सु चोर प्रस्तावोचित हथियाम पाडुका युगलु राय ना भालस्यल उदिसी करी लांसइ । तेह 10 नइ प्रहारि^२ करी वेदनाक्रान्ति राइ ह्यइ हुंतइ, “ एह हउं जीवतउं जाउं^३ उउं ” इसउं भणतउ सु चोर प्राहिरि नीसरिउ क्षणातरि राइ वेदनारहिति ह्यइ हुंतइ ‘जाइ’ ‘जाइ’ इसी परि राइ भणतइ हुंतइ पारातियां राहविया हुंता जि उदइ^४ सुभट ति तेह ररइ केडइ घाथा । आकाशगति हेतु पाडुका युगलु मंत्रिप्रचनइतउ ले करी राउ पुणि^५ चोर पुठि द्रवडिउ । सु चोर गतिवेगी करी दूरमुक्त शूरपूर^६ पुर ग्रामातर मार्गांतर लोकसंचार माहि पग गोपाधिया कारणि गयउ । 15 भयवशाइतउ^७ काई एउ वैरागिय गयउ हुंतउ चीतवइ । “ आगु माहरउं पापु निश्चइसउ फलिउं ” कही एक ग्राम तणइ आरामि ध्यानतत्तु उपदिशतउ छइ मुनि तेह तणउ इसउं वचनु सांभलइ^८ ।

“ सर्वत्र ध्यानसमतारचिमुन्येत पातरैः ।

जनः सद्योपि तिभिरैः कृतद्रीप उनालयः ॥ ” ।

[७७१]

“ जिम शीवइ कीधइ आलउ घरु तिमिरह अंधकारह मेलिह्यइ तिम ‘जन’ लोकु, ध्यानवदाइ 20 तउ सर्वत्र^{१०} ‘समतारुचि’ कित्तउ अर्थु^{११} सर्वभाव विपइ समानबुद्धिपरिणामु, न करी विपइ सरागु न कही विपइ सत्रेपु शु ह्यइ सु सर्वत्र समतारुचि^{१२} कहियइ । इसउ समता वर्त्तमानु जनु पातकरं पापए ‘सय’ कित्तउ अर्थु^{१३} तेतीही जि वार ‘मुच्येत’ मिलिटइ^{१४} । ” इसउ ध्यानतत्तु साभली करी सु चोर तिहाई जि रहितु सारवस्तु ति असारवस्तु निंदाविरहितु, मध्यस्थभावि निमगनु शैपरान्ति, आगामिउ दिनु ध्यानस्थितु थाकउ तिम, जिम परमात्मा नइ विपइ मनु स्थिरु ह्यउं । घातिकर्मक्षयवशाइतउ शुक्र 26 ध्यानांतरिका वर्त्तमान हुंता संध्या समइ केलग्यानु उपनउ । तथा च भणित—

तय तविण जव जविण बहुविह कालेण हुंति भिद्धीओ ॥

निद्धरियपुत्रपावा ११ ज्ञापेण तत्तुग्गणा सिद्धी ॥

तथा ध्यान समता ऊपट्टरु ससारिसुखु पुण^{१५} कांइ नथी । तथा च भणितं—

जं च काममुहं लोए जं च दिव्वं^{१६} महारुहं ।

वीपरायमुहम्मसेइणंतभागे^{१७} न अगइ ॥

अज्जं वा कल्लं वा केवलनाणं भवेइ पा तत्ती ।

समरस तत्ते पत्ते कि अहियं भणनु सुत्तपे वि ॥

[७७२]

[७७३]

§529) 2 P नरहितु । 3 P -पूरइ । 4. Bh P omit 5 Bh गति । 6. P करी । 7 P वाम 8 P देवकुलि । 9 Mes read राउ तिरा बोलाविउ which is not supported by the context, hence the emendation.

§ 529) 1 Bb राउ । 2 Bb प्रारि । 3 P जीव- । 4 Bh जायउ । 5 P उदइ । 6 P पुण । 7 P शूरपूर । 8 P उमय । 9 P साभलीइ । 10 P नरुं जीव । 11 P गमानता । 12 Bb P नेरिह्यइ । 13 B -पाव । Bh -पाव । 14 P पुणु । 15 P -दिइ । 16 P चरम्मणेइ- ।

§530) तेतलइ प्रस्ताधि राउ पुण सर्वत्र जायतउ हंतउ तिहां आविउ । तउ पाछइ एक गमा सार सुभट संभार परिवृतु 'मारि मारि' करतउ राउ तेह कन्हइ आवइ । बीजा गमा विमानाधिरूढ देव विद्याधर तेह महात्मा रहइ केवलज्ञान महिमा करिया कारणि तेह कन्हइ आवइ । तउ पाछइ देवनिर्मित हेमकमलोपरि' बइठउ देवसेवितु सु चोरु देखी करी राजादिक मारिया आवता हंता ति सगलाई सेवा कारिया हूया । तउ पाछइ साधु केसरी सु केसरी', दंत कांति करी चंद्रकांति' सुभिधु' करतउ हंतउ 5 धर्मदेशना करइ ।

§531) देशनावसानि राजा पूछइ, " भगवन् ! किहां सु तुम्हारउं चोर चरित्तु, किहां एउ साधु चरित्तु ? तत्रापिहिं किहां एउ केवलज्ञानु समुदउ ? " तउ पाछइ केवली कहइ—

" राजन्नाजन्मतस्तादृक् पापभाजोप्यभून्मम ।

श्रीरियं मुनिवाग्लब्धसामायिकमनोलायात् ॥ "

[७७४] 10

" यद्वर्षकोटितपसामप्यच्छेद्यं तदप्यहो ।

कर्म निर्मूल्यते चित्तसमत्वेन क्षणादपि ॥ "

[७७५]

इसी परि राउ स्तुति करी पाछउ वली आपणइ नगरि गयउ । अनेक भविकलोक प्रतिबोध करतउ केसरी केवली वसुंधरातालि विहरियउ ।

पितृघातकरे सर्वजनसंतापकारिणि ।

15

चोरेऽपि दत्तनिर्वाणं सेव्यं सामायिकं बुधैः ॥

[७७६]

इति सामायिक व्रतविपद् केसरि चोर कथा ।

§532) अथ देशावकाशिकव्रतु लिरियइ ॥

दिग्रते परिमाणं यत्तस्य संक्षेपणं पुनः ।

दिने रात्रौ च देशावकाशिकव्रतमुच्यते ॥

[७७७] 20

जिम कुणही एक रहइं सर्प तणउं विपु द्वादशयोजन क्षेत्रव्यापकु मंत्रशक्ति करी संकोडी करी अंगुलप्रमाणादिकि अल्पक्षेत्रि आणिया' नी शक्ति मंत्रबलइतउ हुयइ अथवा शरीरव्यापकु विपु अंगुलीमात्र व्यापकु करइ अथवा डंकदेशगत करइ तिम जु पूर्वियहिं दिग्रतु योजनशतादि प्रमाणि चउहुं दिशि ऊर्ध्व योजनद्वयादि प्रमाणि अधो योजनैकादि प्रमाणि कीधउं छटं तेह तणउं सुहर्त्तादिकालावधि करी संकोचतु दिन समइ अनइ रात्रि समइ कीजइ सु देशावकाशिकु अथवा सर्वव्रत संक्षेपु करणरपु देशावकाशिकु । 25 यदुक्तं—

एग मुहुचं दिवसं राई पंचाहमेव परसं वा ।

वयमिह धारेइ ददं जावदयं उच्छेदे फालं ॥

[७७८]

§533) अथ अतिचार प्रतिक्रमण करिया कारणि भणइ ॥

आणवणे १ पेसवणे २ सदे ३ रुवे य ४ पुगुलरखेवे ५ ।

30

देसावगासियंमी वीए सिररावण निंदे ॥

[७७९]

§530) 1. P. repeats परि । 2. Bh. omits 3. P. repeats वगी चदछति । 4. P. कुणउ

§531) 1 Bh. P. विहगिउ ।

§532) 1 Bh. शानवा ।

जिणि गृहप्रमाण देशावकाशिकु कीधउं ह्यइ सु जउ घर वाहिर हंतउ वस्तु घर माहि अनेरा कन्हा अणावइ तउ आनयनु प्रयोग १, ।

अनेरा पाहई घर वाहिरि मोकलइ तउ प्रेषापण प्रयोग २, ।

घर वाहिरि वर्त्तमान नर रइ कार्य कराविया कारणि कासादि शब्दि करी आपणपउं घर माहि छतउ जाणावता ह्ता शब्दानुपाठ ३ ।

आपणपउ माहि छतउं जाणाविया कारणि आपणउ रूपु दिखालता अथवा ऊचु^१ होई पररूपु देवता रूपानुपाठ ४ ।

नियमित देशइतउ वाहिरि पुद्गल पारवाणादिक तीहं तणइ क्षेपणि करी आपणउ कार्यु समरावता ह्ता पुद्गल क्षेपु ५, ।

‘देशावगासियमी त्यादि पूर्ववत् ।

§534) देशावकाशिक व्रत विपइ सुमित्र मत्रि कथा लिखियइ ।

देशावकाशिकं यात्रकुस्ते श्रद्धया सुधीः ।

तदन्यत्रात्मना तेनाभयं दचं भवेदिति ॥

[७८०]

प्रभावात्तस्य नश्यन्ति विघ्नाः शुद्धात्मनामिह ।

सुमित्रस्यैव जायन्ते परत्र च शुभश्रियः ॥

[७८१]

तथाहि—

मालव्यदेशमडन^१ चद्रिका नामि नगरी । तारापीडु इसइ नामि राजा तिहा राज्य करइ । सुमित्रु नामि तेह तणइ मत्री । सु पुण जिनधर्मकाचकपूर पूरवासित सतथातु परम^२ सुभ्रायवु । शास्त्र रत्नदीपदीपिति जेह तणइ हृदयमदिरि जीराजीरादि वस्तु स्फुट इ जि वचंइ । तारापीडु राजा नय तारुण्यवतु पुण्यकर्म पराह्यु हुतउ सुमित्र मत्रि प्रति भणइ, “ देवपूजा शुरुपादप्रदना दानादिधर्म करी

किसइ कारणि मुधा आपणउ जन्मु नीगमइ^३ तू जिम विफलह ईह धर्मह करी सुमर्णु आपणउ देह कउणु दहर^४ ? इसीपरि राइ भणतइ हतइ सुमित्रु मत्री विकसितवस्तु^५ हतउ राजेद्र प्रति भणइ, “ महाराज ! इसीपरि अनुचित वचसु तुम्ह काइ बोलउ^६ ? हउ तुम्हरीं रइह धर्म विपइ उद्यमु कराविया बाउउ^७ ! तुम्ह पुण मूर्खीं रइह धर्मोद्यमु राविया बाउउ । हा मद्रा विपादो मम । सु धर्मु किम विफल हुयइ, जेह तणा प्रसादइतउ रगं मोक्ष तणा सुख पुण जीमि हेलाइ लाभइ ” अथ राजा प्राह “ महामात्य 25 मूर रइह विपत्ति निवृत्ति-संपत्ति प्रवृत्ति-लक्षण धर्मफल प्रत्यशु दिखालि । ”

§535) मत्री प्राह, “ महाराज ! तउ राजा, अनेरा ताहरा सेयक लोक, एउ प्रत्यशु धर्म तणउ फलु किसउ न ह्यइ ? ” तउ राउ मत्रि प्रति भणइ,

“ एकि पाखाणि त्रि राडि कीधइ हतइ, एकि^१ खदि देवतामूर्ति हुयइ बीजइ राडि सोपानु हुयइ । भणि^२ महामात्य ! किसउ एकि राडि पुण्य कीधउ, बीजइ राडि^३ पापु कीधउ छइ ? तिणि कारणि स्वमा 30 वरी जि तउ विश्व रइह भव्याभव्यता व्यस्त्यापिवी ” । इसइ वचनि राइ भणइ हतइ मत्री भणइ, “ राजन् ! पापाणु पापाणु अजीवु, तेह तणउ ह्यत्रात न हुयइ^४, काइ जउ धर्मा जीनु हुयइ तउ धर्म पुण्य पापु हुयइ । तथा जइ सजीवु पापाणु करियइ,

‘पृथ्वि चिन्तमतमङ्गलाया, अणेगे जीवा पुष्टो सत्ता । अन्नत्य सत्य परिणणण’ इमा आगमवचनइ

§533) 1 Bh क्वउ ।

§534) 1 P मन्त्र देगि । B has the same order but it is corrected later 2 P परमा । 3 P निरशित । 4 P omits वा - 5 Bh जीव । 6 B P छप्रति ।

§535) 1 P एक । 2 B भणइ । P भणइ । 3 Bh adde विजउ । 4 P हुइ ।

तउ। तउ तीहीं जि आगम वचनइतउ^१ अनेक जीव रूपु सु पापाणु, न पुनरेकजीगरूपु। तउ पाउइ तीहीं रहई भव्याभव्यता धर्माधर्म विनिर्मित इ जि जाणिवी।” तउ राउ भणइ, “महामात्य! तई हउं वचनि करी^२ निरुत्तर कीधउ। तथापिहिं प्रत्यक्षदृष्टिहिं जि धर्मफल^३ करी हउं नि.संईहु धरुं मानउ। अनेरइ प्रकारि मानउं नंही।” इसी परि राइ अनइ मंत्रि रहई नितु धर्म विपइ विवाहु हुयइ। तउ सु विवाहु प्रसिद्धउ^४ हुयउ।

5

§ 536) एकवार सर्व वासर कर्म नीपजायीं करी पाक्षिक प्रतिक्रमण करिवा कारणि संध्या-समइ आपणइ आवासि आविउ मंत्री गृहवाधि देशावकाशिहु^१ व्रत करइ। प्रतिक्रमणु विधिवत् सामा-चारी करी शुद्ध धर्म ध्यान परायणु पंचपरमोष्ठि नमस्कार परावर्तनु करिवा लागउ। तदाकालि राउप्र-तीहार आवी मंत्री आगइ कहइ, “महामात्य! गुरुकार्य करिवा^२ कारणि राउ तुम्ह रहइ तेइइ” तउ मंत्री प्रतीहार आगइ कहइ, “प्रभाति^३ सीम मंत्री गृहवाहिरि जाइया नियम निश्चलचित्तु हंतउ^४ 10 रटिसिद्ध धरिहिं जि। प्रभाति राज^५ समीपि आविसिद्ध”। इमउं मणी करी पडिहार रहई मोकलइ। पंचपर-मोष्ठि महामंत्रसंस्मरणु सुधासेकि करी मनुष्यजन्मु कल्पवृधु मंत्री तदाकालि विशेषि करी सींचइ। अथ पुनरपि पडिहार आवी करी भणइ, “मंत्रिन्! तुम्हारउ कथनु सामली करी आज्ञाभंग कारक^६ जिम तुम्ह ऊपरि राउ कइउ। वली हउ मोकलिउ, ‘भत्री न आवइ तउ म आवउ। तउं माहरी सर्वाधिपत्य मुद्रा छे आवि’। इणि कारणि हउ मोकलिउ”। इसउं प्रतीहार तणउं वचनु सामली करी ह्मत्तउ हंतउ^७ 16 जिम दुःशील दानी आपणा घर हूँही वाहिरि किजइ तिम राजमुद्रा मोकलइ।

§ 537) मान-मुद्रा कौतुकी हंतउ करि पिहरीं करी प्रतिहार हर्षितु हंतउ आपणा पायकट आगइ कहइ, “हउं मंत्री हुयउ। मंत्री मस्तक मुकुट शनै. शनै: पाउ धारउ” इसउ भणतां भट्टई परिवृतु घर हंतउ प्रतीहार राजमंदिर ऊपरि चालिउ जेतलइ, तेतलइ देवजोगइतउ कीही एकरु सुभटई निःशसि तासिउंइहं कूटी करी पाडिउ^१। यममंदिरि मोकलिउ। जि नाठा सि नाठा, जि केतलइ रटिया प्रतीहार^२ 20 तणा जण हंता तेहे बैरी पुण मारिया। ‘प्रतिहार मारिउ^३’ इसउ कोलाहलु ऊठलिउ। राजा कोलाहलु सामली करी क्रोधांध लोचनु^४ हंतउ चित्ति चीतवइ। ‘प्रतीहार अम्हारउं काजु करतउ दुष्टि मंत्री मारिउ। एउ मंत्रि तणउं मस्तकु आपणइ टायि छेदी करी ऊलालउ दंडा नी परि, तउ मूर रहई वलयंतपणउं सफल हुयइ निवृत्ति^५ पुण हुयइ’।

§ 538) इसउं बोलतउ कोपाटीप संयुक्तु गोपाति जिहां ति प्रतीहार धातक धातार्त्त कडागतमाण^१ 2, पटिया छइ तिहां आविउ। ‘महामात्य तणा ए धातक अथवा अनेरा को^२ वैदेशिक सुभट^३ होइसिद्ध’ इसउं ध्यायतउ हंतउ राउ दीपदीपिताशावकाशु ति देली करी बोलावइ। “कजणि तुम्हे? किसइ कारणि प्रतीहार मारिउ!” तउ पाउइ ति^४ भणइ, “महाराज! अम्हे वंउ कडागत प्राण हूया, अम्ह रहइ किसउं-पूइ? देवु हुराचारु पूठि, जिणि अम्हारा स्वामी तणउ मनोरथु त्रिफलु वीधउ। जिणि कारणि धराजाम नगराधीश सुरसेन राय तणा अम्हे सेवक, तिणी अम्हे सुमित्र मंत्री रहइ मारिया कारणि मोकलिया हूता।^५ 30 जिणि कारणि सु मंत्री सुमित्रु नामि करी छइ, अम्हारा स्वामी रहई पुण^६ अमिनु, नितु दूउइ वरसि वरसि। तउ अम्हारा प्रभु तणउ वररी तेइ रहई सुमित्रु सदा बोपइ। तिणि कारणि अम्हे स्वस्वामी आदेशइतउ सुमित्र तणउ मार्तु वाधिउ^७ हंतउ। किहां हंतउ एउ प्रतीहारमिह तणइ ओइइ अंयुक जिम पडिउ” इसी परि बोलता हंता ति चियारइ सुभट प्रतीहारधातक पचता प्रात हूया।

§ 535) 5 p वचन नउ। 6 p omits 7 Bb p. परिम 18 p प्रविणु।

§ 536) 1B - काउ। 2 Bb omits 3 Bb प्रमा। 4 P राजा 5 Bb -वरक।

§ 537) 1 Bb P रटिग। 2 P इउ। 3 Bb परिचउ। 4 Bb repeats 5 Bb. राजाउ। 6 B P,

निधि।

§ 538) 1 Bb वदर-। 2 Bb P. के। 3 P. पुम। 4 Bb omits 5 P रिउइ वागनि। 6 Bb,

इनि। 7 P. परिउउ।

§539) तत्र राजा पश्चात्तप मंयुक्तुं हंतुं पुरलोकं राजलोकं सहितं सुमित्रं मंत्रिं रहं स्वमायद । बाहुं साही करी इत्तं कइइ, “महामात्य ! तू तात समान प्रति मइं पापिष्ठिं तु अपराधुं चीत-
विउं सु पसाउ करी क्षिमि” । तात जे किमइं तउं व्रतु न करतइ तउ न जीवतइ । तू पासइ प्रभूत विमभु
राज्यु मू रहइं न होयतइ । तिणि कारणि आउ कल्याणकारक पुण्यकर्म तणउं फलु प्रत्यक्षुं मइं झीठउं ।
5 चिरकाल संचित धर्म विपद मोहु मू रहइं ऊतरिउ ।

सुकृतं जीवितव्यं ते व्रतेनानेन पोषितम् ।

शोषितं त्वत्कृतेनाथ दुष्कृतं दुर्यशश्च मे ॥

[७८२]

तत्सहस्वापराधं मे प्रसीद वद रात्स्विक ।

धर्मं कारय मां तात तारयाशु भवार्णवम् ॥

[७८३]

10 इती परि राइ स्वमायतइ हंतइ मंत्री भणइ, “महाराज ! तु तू रहइं एवइउ अनुतापु हूयउ,
तिणि करी तू रहइं अपराधु को नहीं” । तउ पाछइ राय वृउइ हंतइ पुनरपि सर्वाधिकारमुद्रा सुमित्र
रहइं वीधी । सुमित्र प्रेरिति हंतइ राइ पूर्णचंद्र गुरु समीपि गृह्णधर्म मुद्रा लीधी । अथवा युक्तउं छइ, राइ
अर्धमि हंतइ संसारांगदेशमुद्रां महामात्य रहइं वीधी । महामात्यि सधर्मि हंतइ प्रत्युपकारकरणं वांछा करी
राय रहइं भोक्षंगदेश मुद्रा गुरु कन्हा दिवारी । तउ धर्मविपद एकचित्ता छुइ हंतै तीहं रहइं धर्म
15 प्रोत्सर्पणा करता कालु जाइ ।

§540) सु वृत्तानु जाणी करी अनेरइ दिनि शूरसेनु सुमित्रमयभीत हंतुं कांधि कुहाउउ करी
राय नीं सेव' करिवा आविउ । राइ सन्मानितु हंतुं भक्तु सेवकु हुयउ । राजा देवार्चा धान सुध्यान
तीर्थयात्रा तीर्थप्रभावनादि धर्मकर्महं मंत्रि प्रदाशतहं करी आपणउं जन्मु जीवितु पाविशु करइ ।

तत्र स्नामिनि चालोपि, चण्डालोपि न सो भवेत् ।

20 न यो जिनाधिनाथोक्तधर्मकर्मठतां गतः ॥

[७८४]

इत्थं मन्त्री च भूपथ, कृत्वा धर्मं विशुद्धधीः ।

महाविदेहे मर्त्यत्वं प्राप्य लेभे शिवधियम् ॥

[७८५]

ततः सुमित्रदीपेन गमितेऽस्मिन् प्रकायताम् ।

देशावकाशिकपथे सञ्चरन्तु सुखं युवाः ॥

[७८६]

25 इति देशावकाशिकव्रत विपद सुमित्र मंत्रिवर कथा समाप्ता ।

§541) अथ पौषधव्रत भणियइ ।

धर्म तणउ पोपु पुष्टि करइ तिणि कारणि पौषधु कहियइ । सु पुण चतुःपर्वी विधेउ अनुष्ठानु विशेषु
तथा चाह-

चतुःपर्व्यां चतुर्धा हि कुव्यापारनिषेधनम् ।

30 ब्रह्मचर्य-क्रिया-स्नानादित्यागः पौषधव्रतम् ॥

[७८७]

पौषधव्रत विधि प्रस्तावि सिद्धांतालापक पुग परादिवसिहिं जि पौषधु करीवउं इत्ता अर्थ विपद
लिखिया छइ ईहां इणि कारणि न लिखियाई तेइ जि ईहां समरिवा ।

§539) 1 P. omits. 2 P. क्षमि । 3 Bh. होइतइ । P. होयत । 4 B. P. omit. 5 P.-वेद । 6 B
P.-वाण । 7 Bh. जायद ।

§540) 1 Bh. वेव । 2 Bh. अणउं ।

तत्र उपव्रसनु—उपवासु पौषध तणउ उपवासु पौषधोपवासु। तेक जु व्रतु पौषधोपवासु व्रतु कहियइ । सु पुण आहारादि परिहार भेदइतउ चतुर्द्धा हुयइ । तत्र आहारपरिहार पौषधु देसतो^१ भेदइतउ सर्वतो भेदइतउ द्विविधु । तत्र एकागनादि प्रत्याख्यानु देशत, आहारपरिहार पौषधु चतुर्विधाहार परिहाररूपु सर्वत आहारपरिहार पौषधु । इसी परि सरीर^२ संस्कार परिहार, अव्रह्म परिहार, अव्यापार परिहार, पौषधु पुण द्विविधु द्विविधु जाणिवउं । अत्र अतिचार प्रतिक्रमण निमित्तु भणइ ।

संथारुचारविही पमाय तह चैव भोयणाभोए ।

पौसहविही विवरीए तइए सिमखावए निंदे ॥

[७८८]

‘संथारुचार विही पमायसि । संथारउ कंवलकादिमउ । उपलक्षण भावइतउ शय्या काष्ठ पट्टमयी पुण जाणिवी ।

§542) उच्चार प्रसवण^३ भूमि द्वादशसंख्य यथा—

10

वारस वारस तिनिय य कार्इ-उच्चार काल भूमीओ ।

अंतोवहिं च अहियासि अणहियासी न पडिलेहे ॥

[७८९]

सर्वं दैवासिक कर्म करणानंतरु संध्यासमइ सिद्धार हुंता प्रविशमान कायिजा लघुनीति उच्चार यवी नीति । तीह नउ काल लघुनीति वृहद्वीति शं तायेगु । तेह नी भूमि तत्रिमिचु हस्तप्रमाण हस्तांतरित द्वादशमंडल वसति माहि कीजइ । कितउ अर्थु^४ ! पहिलउं अउं दृष्टि करी जोइयइ । पाछइ वंटाउंछणासउं^५ 15 विधिसउं दयापरिणामि वर्त्तमान हुंता पडिलेहियइ । वसति वाहिरि पुण दृष्टि करी वारह मंडल परि कल्पियइ । ‘अहियासी’ कितउ अर्थु^६ ! लघुनीति यवीनीति तणउ वेगु जउ धरी रदायी सकउं, न सकउं एउ अणहियासीनउ अर्थु^७ । ‘दूरे उच्चार पासण अहियासी’ इतउं भणतां वसति माहि सिद्धार हुंता एरुदिशि होइ हस्तप्रमाण हस्तांतरिन प्रविशमान वि मांडलां कीजइ । ‘मज्जे उच्चार पासण’ इतउं भणतां वि कीजइ । ‘आसजे उच्चार पासण अहियासी’ इतउं भणतां वि कीजइ । तथा संथारक^८ 20 समीवि ‘दूरे उच्चार पासण अणहियासी’ इतउं भणतां वि मांडलां कीजइ । ‘मज्जे उच्चार पासण अणहियासी’ इतउं भणतां वि कीजइ । ‘आसजे उच्चार पासण अणहियासी’ इतउं भणतां वि कीजइ । वसति माहि इसी परि वारस^९ मांडलां कीजइ । ‘तिनिय य’ कितउ अर्थु^{१०} ! जि^{११} छ छ मांडलां विउं थानके कीजइ तीह माहि त्रिन्हि लघुनीति निमित्तु त्रिन्हि यवीनीति निमित्तु इतउ ‘तिसिउ’ एह नउ अर्थु । वसति वाहिरि पुण इमीही जि परि वसति माहि थिकां पडिलउं दूरि छ मांडलां कल्पियइ^{१२} 25 पाछइ आसजे छ मांडलां कल्पियइ । वसति वाहिरि इसी परि वार^{१३} मांडलां कल्पियइ ‘तिसिउ’ तणउ जिम पूर्वोहिं अर्थु तिम ईहां अर्थु । इति थंछिल करण विधि ।

§543) तेह विवइ प्रमाडु कितउ अर्थु ! अमेक्षित दुःप्रक्षित शय्या संस्तारकी उपवेदानु । शय्यु करता अमेक्षित दुःप्रक्षित शय्या संस्तारकता एकु अतिचारु । अमतिलेपित दुःप्रतिलेपित शय्या संस्तारक उपवेदानु शय्यु^{१४} करता अमतिलेपित दुःप्रतिलेपित शय्या संस्तारकता धाजउ अतीचारु ।

30

एवं अमेक्षित दुःप्रक्षित शय्याक उच्चार प्रसवणुं करतां अमेक्षित दुःप्रक्षित उच्चार पाम- यणता धीजउ अतीचारु ।

अमतिलेपित दुःप्रतिलेपित धानिक उच्चार प्रसवणुं^{१५} करतां अमतिलेपित दुःप्रतिलेपित उच्चार पामयणता चउथउ अतीचारु । किमइ एंइइ इत्याह—

§541) 1. Bb. देवतो । 2. Bb. एरीर ।

§542) 1 B. Bb. उपवस । 2 Bb. देवप्रमाण । 3 Bb. विचारण । 4 Bb. repeats वि । 5 Bb. वाग । 6 Bb. नीति इ ।

§543) 1 Bb. omits. 2 B. Bb. उपवसु । 3 Bb. -ति ।

‘पमायी’ति त्रिकथादि प्रमादि इंतद । ‘तए चेव एदेऽणाभोए’ कित्तउ अर्थु ! ‘तथैव भवति’ तिसीहीं जि परि जिम प्रमादि इंतद तिम ‘अणाभोए’ असावधानता इती ‘पोसहविहि विवरीय’ इति चतुर्विधरी पौपध रत्त विपरीतता करणु असम्यक्पालना स्वरूप पांचमउ अतीचारु ह्यइ ।

‘भोयणाभोए’ इति पाठांतरपक्षे भोजन तणइ अभांगि चितनि इंतद । उपलक्षण भावइतउ । ५ शरीर संस्कार अन्नं वृद्ध्यापार पुण जाणिवा । तउ पाउइ तीहं तणइ चितनि इंतद पोसहविहि विपरीतता पांचमउ अतीचारु यथा—

पौपधि वर्त्तमानु मनि चीतवतइ ‘कालि’ ण्येविधु आहार कराविसु, तथा स्नान मस्तक भोंडना दिक्क कराविसु, कामसुए अनुभविसु, क्षेप रेटनादि कराविसु, इसीं परि पौपध विपरीतताऽचारु ह्यइ ।

§544) पौपधव्रत फलविपइ मित्राणंदनाम मंत्रीश्वर कथा लिखियइ ।

10 तच्च शुद्धोक्तचारिन्व्रतत्परिपालयते ।

अदोरात्रमथाशेषा रात्रिं यात्रजितेन्द्रियैः ॥

[७९०]

भवोरगगदच्छेदे पौपवत्पौपधं व्रतम् ।

आपत्तापभिदे मित्रानन्दमन्त्रिपतेरिव ॥

[७९१]

यथा—

16 पुण्यपुर इसइ नामि पुर । जिणि आपणी काति करी भानु जीतउ सु¹ भानु इसइ नामि तिहं राजा । तेह तणइ मित्राणंडु इसइ नामि मंत्री अतिरिथातु हूतउ जिणि आपणइ बुद्धिबलि करी वृहस्पति जीतउ ।

एक वार सभा माहि राजेंद्र मंत्री रइइं पुण्य व्यवसाय विपइ विगडु हयउ ।

यथा राजा कइइ, “व्यवसाऊ जु सयै समीहित संपादकु ।”

20 मंत्री कइइ, “पुण्य जु समस्त मत संपूरकु । तउ पाउइ मंत्रिवचनि करी सकोपु गोपति मंत्रिपति भणइ, “जइ किमइ व्यवसायु प्रमाणु नहीं पुण्य जु प्रमाणु, तउ महामात्य ! पुण्यबलमजित इंतउ तउं माहरउं राज्यु लइ” । जि को वू रइइ अनुगामनु करिसिइ² तेह ना प्राण माहरउ सन्नदंडु अपहरिसिइ³ । जा महामात्य ! तुच्छमति मदिर ! आपणउं वचनु प्रमाणु करि । धरि जाइवउं नही, ईहाई जि इंतउ अनेरइ थानकि जा⁴ । माहरउ देसु मेलिइ” । इसीं राय तणी आण लहीं करी महामात्यु आपणा वचन विपइ सनेठाउ इंतउ तिहा ई जि इंतउ पादचारिदि जि णकलु जु देवातरि⁵ चालिउ । जेदे पाए आगइ 25 भुईं छिधीं न हतीयइ⁶ तेहे पाए भूमि मायिइ⁷ नही, होंडतउ पुण्यप्रमाण प्रकटिया तणइं कारणि राइ तणी अममलिणी छइ मही, तेह नइ मायइ, जाणे पग धरइ⁸ छइ । इसीं परि जाइतउ⁹ इंतउ मध्यदिन समइ श्रांतु इंतउ वृसिउ¹⁰ ह्यउ इंतउ जिसउ चद्रकलाकोटिदि करी घटिउ¹¹ ह्यइ इसउं महासरोवरु एकु देलइ । भुंग भुंगार शब्द करी सहित¹² उइं कमल तेई भणित सुपर, बोलता, मुल ह्या । चालता छइं लोल कल्लोल तेई भणित हाय ह्या तेरे करी वृषित लोक रहइं जाणे सु सरोवरु करुणाकर पुरुष जिम हकारइ¹³ छइ । तिणि सरोवरि स्नानु पानु करी पालि तरुतरतलि रहितु आकाश इंतउ अति बेगि ऊतरतऊ आपणपा 30 आगइ आविउ दिव्यु पुरुष एकु देलइ । “संध्या समइ मनोवाडितु सैन्यु वू रइइं एउ मणि देसिइ । पाउइ पूजितु समाराधितु इंतउ प्रभूत लक्ष्मी पुण देसिइ” । इसउं भणी चिंतामणी हाथि दे करी “किसउं

§543) 4 Bb चीतवइ ।

§544) 1 B p omit

§544) 1 2 B P omit. 3 P रइइ । 4 P उ । 5 Bb कमि । 6 P. अपहरिइ ।

7 P. adds—दि, later 8 P adds परि । 9 P दमातरि । 10 Bb हतीइ । 11 Bb मायइ । 12 Bb

धर । 13 Bb P गायतक । 14 Bb वृषियउ । 15 P. omits. 16 P. थग । 17 P तहिल । 18 P हकारेइ ।

“Bb adds in the margin इसउ । P does not repeat विपउ ।

किसउं ?" आश्चर्यं चिन्ति चीतवइ छइ मंत्री तेह आघउं काई अकहिउ जु करी सु पुरुषु आकाशि²⁰ ऊप-
रमिउ ।¹

§545) अथानंतरु चंपकादि तरुकुसुमे चिंतामणि पूजी करी मित्राणंदु सानंदु संभृत हंतउ
चतुरंगु सैन्यु करावी करी संध्यासमइ गज वाजि रथ पदाति लक्षण चतुरंगदल सहितु प्रबलनिस्वान
निस्वनहं करी दस दिसीमुखं मुखर करतउ आपणा पुर प्रति पाछउ² आविउ । जिम महोरगु⁵
कंदिर रहइ वेहु घातइ तिम पुर रहइ वेहु घाती रहिउ³ । ' कउणि पुर⁴ वेहु घातिउ ?' इसउं भणी करी
राइ हेरक मोकलिया हंता, हेरक कटक माहि आविया । मित्राणंदु मंत्रिपतिइ देखी करी ओलखिया ।
भणिउ, " अहो हेरकउ भुजागर्वं गर्विउ छइ भूपति, सु तुम्हे माहरइ वचनि भणउ । ' पुण्यप्रभावि संप्रात'⁶
सैन्य संभारु मित्राणंदु मंत्रीहु वाहिरि आविउ छइ' । जइ किमइ तउं विक्रमाक्रांत समुद्रांत महीतलु छइ,
तउ वहिलउ⁸ प्रहार करिया निमिचु टुकि । " इसी परि हेरक आभीपी करी वस्त्रालंकारहं संभूपी करी¹⁰
राजेंद्र कन्हइ मंत्रीद्रि मोकलिया । ति पुण हेरक पाछा नगर माहि आवी करी राजेंद्र रहइ तिमहिं जि
वीनयइ । तउ पाछइ राउ अति विस्मयरस⁹ संप्रेरितु हंतउ सुस्थाचिचु¹⁰ होइ करी केतलाई एकह¹¹ लोकहं
परिवृतु हंतउ जिहां मित्राणंदु मंत्रीहु छइ तिहां आविउ । मित्राणंदु पूर्वप्रतिपन्नता लमी राय रहइ सामुहउ
ऊठिउ । ' इष्ट विरोधु तां हुयइ जां दर्शनु न होइ संतहं रहइ' । प्रणमी करी राउ सिंहासन बइसालीउ
महंतइ¹² । महंतउ¹³ राइ बलात्कारिहिं बइसाली करी भणिउं—

वरेण्यं¹¹ पुण्यमस्त्येव शौर्यादिव्यवसायतः¹⁵ ।

पुण्यभाजां हि जायन्ते किङ्करा व्यवसायिनः ॥

[७९२]

भवद्भ्रातृदयः कश्चिद् यस्मादिदं चमूचयः ।

येनाहं तव भर्तापि भृत्यवद्भ्रामि तेऽग्रतः ॥

[७९३]

§546) इसी परि राउ भणी करी पूछइ । " भणि¹ मंत्रीवर ! ए असांभूतिक विभूति त रहइ²⁰
किहां हंती हुई ? " मंत्री भणइ, " महाराज ! पुण्यप्रभावि किसउं किसउं न हयइ ? " दिव्यपुरुष तणउ
बृत्तंतु कहिउ । तउ पाछइ राउ कलियायितु³ थिय । महामहोत्सवि मंत्रीद्रि सहितु राजेंद्रु साश्चर्य पुरलोक⁴
विलोकीतउ हंतउ पुर माहि आविउ । तेह दिवसलगी चिंतामणि प्रभावि पूर्ण मनोवाञ्छित लक्ष्मीकु छइ
मित्राणंदु मंत्री, तेह सउं राय रहइ महा मैत्री हुयइ⁵ ।

§547) एक वार भानुभूपति सउं सभा माहि बइठा हंता महामात्य रहइ उद्यानपालु आवी²⁵
राय रहइ वधावइ, " महाराज ! सीमंधर इसइ नामि यथार्थाभिधानु गणधर तुम्हारइ क्रीडोद्यानि समोस-
रिउ । " उद्यानपाल रहइ सर्वांगविभूषण बहु द्रविणवितरणु करी भानुभूपति सउं मित्राणंदु मंत्रीश्वर-
मुनिवंदन निमिचु उद्यानि पहुतउ । तिहां नेत्राश्रुत वृष्टिकारक मुनिवर रहइ राजेंद्र मंत्रीद्रि वांदी करी देश-
नाश्रुतपानविधान निमिचु उचित स्थानक बइठा । देशनावसानि राजेंद्र मुनि कन्हइ पूछइ । " भगवन् !
मित्राणंद रहइ विपत्ति समइ संपत्ति किस्ता पुण्य नइ प्रभावि हुई² ? " मुनि भणइ, " महाराज ! जिती³
लक्ष्मी मारि करी भूमिपतित अमरावती हुयइ इसी पद्मपत्रा नामि पुरी हुई स पुण लोक माहि अतिप्रसिद्ध
हइ । तिहां प्रतापि करी जिसउ मीप्मकृत आदित्यु हुयइ इसउ आदित्यु नामि महीपति हयउ । राजेंद्र

§544) 20 Bh. आकाशि । P. आकाश । 21 B. ऊपरि- । P. ऊपरि गिउ ।

§545) 1 B. omits-मुख । P. पालउ । 3. Bh. omits रहि- । 4 P. पुर । 5 P. adds-मर्व । 6 p.
विग्राम । 7 p. छउ । 8 Bh. विहल . . . विस्मया । 10 p. रयन्- । 11 Bh. omits. 12 Bh. P. महतइ ।
13 Bh. P. महतउ । 14 P. चीं . . . 5 P. मूरादि ।

§546) 1 P. भणइ । 2 P. अ . . . not repeat. 3 P. रथियायितु । 4 P. adds विलोकी । 5 Bh. हुई
§547) 1 P. रहइ । 2 P. हुयइ । 3 B. . . . Bh. has it in the margin; P. has

रहई प्रतिविष समानु सुदनु इसर नामि श्रेष्ठि ह्ययउ । सु पुणु^१ जिणधर्म धुरंधरु ह्ययउ । पर्वदिवासि पाप संताप निर्वाप^२ विपद महोपधु योपधु ले करी विहुं पहर राति समइ समता वर्त्तमानु गृह तणइ एकदेशि रहिउ छइ । तदाकालि को एकु तस्कर अवस्वापिनी-विद्या विदारदु प्रभूत भूत भैरव सुभट परिवार परिवुचु तेह नइ घरि धादि पदठउ । चोर नी विद्या करी बीजा लोक रहई नीत्रि घशि करी मूच्छा आयी । पंचपरमेष्ठि नमस्कार महामंत्रानुभावि सुदत्तश्रेष्ठि विपद विद्या न प्रभविषइ । तेह सुदत्तश्रेष्ठि देसता रहई अदेखता हूतां ति तस्कर^३ गृहसान समस्तु हर्षित थिका^४ मुसई । कपाट फोडिया^५ लागा, मंजूष ऊघा-टिया लागा, द्रव्य तणइ कारणि भूमिगृह पुण फोडिया लागा ।

अहो महात्मनस्तस्य, धर्मावष्टंभयन्त्रितम् ।

जातेप्युत्पातजातेपि, न ध्यानाचलितं मनः ॥

[७९४]

10 अनागतेष्वथाऽगत्य, गृह्णत्सु धनपद्धतीः ।

तेषु यातेषु च ध्यानभेदोऽभूत्तस्य न क्वचित् ॥

[७९५]

प्रभात^६ समइ धननाशु देखां करी सकालि गृहजनि शोकु करतइ हूतइ श्रेष्ठि पोसहु पारी करी दिवसकृत्यविधि सउं करिया लागउ । पुण्यानुभावि तेह नइ घरि चली घणाई जि धन^{१०} ह्यां ।

§548) अनेरइ दिनि सु अवस्वापविद्या-चोरु सेठे ना घर हूती ज वस्तु चोरी^१ हूती तेह वस्तु

16 माहिलउ एकु अमूलिकु मुक्ताफल नउ हार^२ ले करी तिणिहिं जि नगरि वीक्रिया आघिउ । सु हारु सुदत्त श्रेष्ठि तणइ वाणउत्र ओलरिउ । सु चोरु धरी करी तलार रहई आपिउ । सु चोरधरण वृत्तानु सुदनु जाणी करी इसउं चीतवइ^३ ।

न सत्यमपि भापेत, परपीडाकरं वचः ।

लोकैपि श्रूयते यस्मात्कौशिको नरकं गतः ॥

[७९६]

20 इसउं चीतुवी वेगि आवां चोर रहई मेल्लावइ । किसी परि आपणा वाणउत्र^४ ऊपरि कोपु करतउ हूतउ तलार आगइ कहइ, “ एउ अम्हारउ वाणउत्रु काई^५ जाणइ नहीं । मई पूर्वहिं एकि दिनि एउ हारु एह रहई धूलि दीधउ हूतउ । एउ किसउं इसउं माणसु छइ जि^६ सु^६ चोरी करइ । एह वात माहि काई छइ नही । तुम्हे एउ परहउ मेल्लइ । ” तलारि चीतविउं, “ जु घणी जाणइ सु पाडोसी न जाणइ । तिणि कारणि सेठे साचउ, वाणउत्रु कूडउ । अनइ^७ द्वादशव्रतधारी श्रेष्ठि कूडउं बोलइ नहीं, तिणि कारणि 25 श्रेष्ठि नइ कथाने तलारि चोरु मेल्लिउ । बुद्धिमंत तणी बुद्धि रहई असाध्यु काई नहीं । श्रेष्ठि चोरु आपणइ घरि आणि जीमाडी कपाड पहिरावीं मोकलिउ । कहिउं, “ वली रणे^८ चोरी करतउ । मई दया करी^९ मेल्लाविउ छइ, पुण बीजउ को^{१०} नहीं मेल्लावइ^{११} । ” इसउं भणी करी घरि^{१२} मोकलिउ । श्रेष्ठि नइ उपकारि^{१३} चोरी^{१४} तणउं मनु भीनउ । तउ पाइइ अकृत्यकरण भय^{१५} तणी जाणिया वांछा ऊपनी । यहुकं-

जो जारिसेण संगं करेइ अचिरेण तारिसो होइ ।

कुसुमेहिं संवसंता तिला वि तग्गंधया हूति ॥

[७९७]

§547) 4 P. पुण । 5 P. - निर्वापि । 6 P. omits त- । 7 P. यका । 8 P. फाटिया । 9 P. प्रयाति । 10 P. omits घ- ।

§548) 1 P. चोर । 2 P. भार । 3 P. चोतनी, and omits the following couplet, and continues with चोर रहइ, haplography 4 P. वाणउत्रउं । 5 B. omits 6 Bh. जिणउं । P. जिणुं । 7 Bh. जाणइ । 8 B P. अन । 9 B. Bh. राणे । 10 Bh. लणी । 11 Bh. कोइ । 12 Bh. मेल्लावनि नही । 13 B. P. omit 14 Bh. adds करी । 15 Bh. चोरी । ; one expects चोरि । 16 P. -अण ।

§549) जेतलइ नगर बाहिरउ नीसरिउ तेतलइ उद्यान माहि धर्मोपदेशामृतवृष्टि करी¹ मद्यपादपवनी सींचतउ शुद्धप्रभाभिधानु प्रधानु मुनि देखइ । वांढी, धर्मदेशना सांभली, कृत्याकृत्य विवेकु जाणी करी, तीही जि कन्हइ दक्षु दीक्षामहणु करइ । सुद्धु चरिउ प्रतिपाली करी अंतकालि समाधिसहितु आयु पूरी सौधर्म देवलोकि महाद्विकु देवु ह्यउ । सुदनु श्रेष्ठि पुण आपणउं आयु पूरी करी महाराज ! एउ तुम्हारउ मंत्री² मित्राणंडु ह्यउ³ ।

सम्पत्सु हियमाणसु यद्धमञ्जु न पौपधम् ।

पदे पदे च तेनायं विचित्राः प्राप सम्पदः ॥ ✓

[७९८]

स तु चौरः सुरीभूतः स्मरन्नुपकृतीः कृती ।

चिन्तार्चाय ददां रत्नं प्रस्तावं प्राप्य मान्त्रिणे ॥

[७९९]

§550) राजा भणइ भगवन्, “ वली तेह देव रहइं मंत्री देखिसिइ ? ” मुनि भणइ, “ मंथि 10 रहइं जदाकालि¹ जीवितानु² होइसिइ तदाकालि तेह देव तणउं दर्शनु मुक्ति हेतु होइसिइ । जिणि कारणि नंदीश्वरि तीर्थ देववंदना मनाराथि मंत्री रहइं ह्यइइ हतइं प्रस्तावजु सु³ देवु विमानु आणी देखिइ । तिणि विमानि चडिया मंत्री रहइं जायता हंता शुद्ध शुक्लध्यानानुभावि लवणसमुद्र ऊपरि थिका⁴ केवलज्ञानप्राप्ति, आयु क्षिद्र, मुक्ति होइसिइ । ” इसउं मुनि वचनु सांभली करी राजादिकलोक महाधर्मवासि वासित मानस हंता खानेद निज निज मंदिरेि गया । 15

श्री मित्राणन्द मन्त्रीन्दोः श्रुत्वा पौपधसत्फलम् ।

सुमेधसः स्थिरध्यानासत्कृवन्तु सुपर्वसु ॥

[८००]

इति पौपधव्रत विषइ मित्राणंद कथा ।

§551) अथातिथि संविभागव्रतविचारु लिखियइ ।

तत्र तिथि भणियइ—लोकव्यवहार पर्व ‘ ति ’ जेहे मेलिहया ति अतिथि कहिइ¹, साधु । तथा चोक्तं—20

तिथिः पर्वोत्सवाः सर्वे मुक्ता येन महात्मना ।

अतिथिं तं विजानीयाच्छेषमभ्यागतं विदुः ॥

[८०१]

तीहं रहइं ‘संविभागु’ कियउ अर्थु ? निर्दोषु प्रसुकेष्यथि जि छइं अस्वयन तीहं तणउं यथा¹ रूमादि दोषपरिहार पूर्वु विदुद्ध अस्त्रा प्रकापि वर्त्तमान हूतां आत्मानुमह बुद्धि करी जु दानु सु अतिथि संविभागु कहियइ । 25

देहो एउ विधि । जिणि धायकि पोसहु कीधउ ह्यइइ तिणि अवइयु अतिथि संविभागु आसे-वियउ, पारणउं तउ करियुं² जउ महात्मा एहं संविभागु कराविउ ह्यइइ । अनरां रहइं अनियमु । कियउ अर्थु ! यथा समाधि । यथाह—

पदमं जईण दाऊण अप्पगा पणमिऊण पारेइ ।

असई य सुविदियाणं भुंनइ कयदिसालोओ ॥

[८०२] 20

§552) अघातिचार प्रातिक्रमणनिमित्तु भणइ ।

सायिणे निरिववणे¹ ? पिहिणे २ ववएस ३ मच्छरे ४ चैव ।

कालाङ्कमद्राणे ५ चउत्ये सिमत्वाए निदे ॥

[८०३]

§549) 1 P. omit. 2 B. place it after मित्राणंदु । 3 P. एउ ।

§550) 1 P. यदा- । 2 P. जीवनां मुद्धे । 3 P. omit. 4 P. धरा ।

§551) 1 B. करियउं । 2 B. करियउं ।

§552) 1. B. B. have निवगमने ।

दात-यु अदानादिषु तेर तणउं अदानयुद्धि वदाइतउ साच्चित् पृथिगीकायादिक तीरं माहि
निक्षिपणु साच्चित्त निक्षिपणता पहिलउ अतीचार ।

साच्चित्ति करी टाकतां हुंतां साच्चित्तपिधानता वीजउ अतीचार ।

आपणउं अदानादिषु अदानयुद्धि करी पर तणउ करतां परद्रव्य व्यपदेशु व्रीजउं अतीचार ।

6 किसउं ईहं कन्हां हउं हीनु इसी परि परु हीनधनु दितउं देगी मच्छर लग्गी वियतां हुंतां
मत्सरदानु चउथउ अतीचार ।

साधुभिक्षा वेलातिक्रामि ह्यइ हुंतइ भिक्षानिमित्तु साधु निमंत्रतां हुंतां कालातिक्रमदानु
पांचमउ अतीचार ।

ईहं नर विपइ चउथइ शिक्षाप्रति जं काई पापु वांधउ सु निंदउं ।

10 §553) अतियिसंविभागप्रत विपइ सुमित्रा नाम¹ परम श्रायिका, तेह तणी कथा लिखियइ ।
तथाहि—

एकामयवतोऽप्येतस्सेवितं श्रद्धयापियम् ।

सुमित्राया इवौश्रत्यै जायते द्वादशं व्रतम् ॥

[८०४]

श्रीरसतपुरु इसइ नामि पुरु । अतिविक्रमवंतु² इसइ नामि अतिविक्रमवंतु³ राजा तिरां राज्यु
15 करइ । तेह तणइ वसु इसिइ⁴ नामि मंत्रीवरु ह्यउ⁵ सदा पिकसिति जेह तणइ बुद्धिकमलि राज्यलक्ष्मी
सुरिगई घसी । जिनदासु नामि राजा ररइ अतिवह्लु श्रेष्ठि ह्यउ⁶ । सु पुण⁷ जिणधम्मधुराधोरिउ कल्याण
तणउं निधानु सकल पौरजन प्रधानु वरइ । तिणि एतलांके सुणरं रत्न उपाजिया जेह करी क्षिति माहि
अनेकि मेरुपर्यंत अनेकि रोहणपर्यंत उपाइइ । ‘ यक्षराजु धनाध्ययु ’ इमी परि जाचक⁸ लोकि भणिउ ।
धनुजु जिनदासु एकु संस्तविउ⁹ । वाणारसी नगरी वास्तव्यु धनु नामि छइ सार्थवाहु तेह तणी रत्नरती
20 नामि वीकिरी कलाप्रती लीलावती तिणि परणी । जिणदास ररइ विश्वासपातु लक्ष्मीधरु इसइ नामि
व्रातणु जिसउ लहुडउ भाई हुइइ इसउं परममिदु ह्यउ¹⁰ । राजेंद अतिविक्रमवत ररइ तिम न मत्री न
पुउ न कलउ वल्लु जिम जिनदासु वल्लु ।

§554) ‘ एह जिणदास मित्र ररइ राउ कदाकालि मंत्रिमुद्रा पुण आपिसिइ ’ इसी परि वसु
सचिवेश्वरु मन माहि संभावी करी जिनदास ररइ मारिगा विपइ मनु करइ । जिणदासु पुण दक्षता
25 लगी चभुर्मनोपिकारादिकह लक्षणह करी आपणपा ऊपरि त्रिद्वउ जाणइ । तउ पाउइ राजेंद ररइ
मोकलावी करी तीर्थयात्रा व्याजांतरि भायां रत्नवती पहिरि¹ मोकलइ । वसुमत्रींदि पुण तेह माराविया²
कारणि रात्रि तेह तणा घर तणउ मारुं आपणां जणह कन्हा रूंधाविउ । जिणदासु पुण मारुं वाधउ
जाणी करी अति सप्रभाव नमूल्य रत्न ले करी लक्ष्मीधरु मित्रसहितु कर्मकरवेषु करी पुरं हुंतउ
नीसरिउ । मारुं अजाणतो भयवशाइतउ निरुक्त जायतउ हुंतउ अरिण्य⁴ माहि पडिउ । तिरा जउ अति
30 श्राहु वृषाकातु ह्यउ⁵ तउ वस्त्राचलवद्ध सप्रभाप रत्नपरपरा मित्र लक्ष्मीधरु करि आपइ । जिसउं
साक्षात्कारि तेह तणउ जीवितव्यु हुइइ तिसी स रत्नपरंपरा छइ ।

§555) तउ पाउइ आपणपइं क्षिणारिं कृषि पाणी जोयतउ हुंतउं रत्न तणइ लोभि तिणि
लक्ष्मीधरि मित्रि पगे धरीक पडिउ हुंतउ कृषि पडिउ । पडतउ हुंतउ ‘ कउणु इ ? ’ इसइ वचनि करी
बोलाविउ हुंतउ आपणी प्रियतमा रत्नवती ओलरी करी भणइ, ‘ प्रियतम ! तउ पुण एह कृप माहि

§552) 2 B¹ ईहं । 3 B^h दियतउ । य is an introlinear addition

§553) 1 P नामि । 2 P अतिव्रतवतु । 3 P omits । 4 B^h P इइ । 5 P ह्यउ । 6 P पुणि ।
7 P याचक । 8 P वासुविउ ।

§554) 1 B^h पीहइ । 2 B^h वायुउ । 3 B^h पुर । 4 P अरण्य । 5 P ह्यउ ।

किसी परि पडी' सु ताह' परिवार किहा गयउ' ह'। धिग् धिग् वित्रि' विडवना रह'। 'सा ई अवस्थापतितु कातु सनिधि सप्राप्तु देखी करी हर्षविपादाभ्रुसकर सर्कीर्यु लोचनु करइ। प्रियतम मेलापकइतउ धन्यु आपणपउ तिहाई मनती हती भणइ, "ए हउ रत्नपती, ताहरी सुदरी प्रिया। तिहा हती जायती हती अटयी माहि आधी। सगल सार्थु चोरे लूसितउ। सु परिजनु नासी करी गयउ। चोरे जतीवार माहारा शीलभग करिवा कारणि समुग्रमु कीधउ, तेतीवार हउ धाई करी शीलरक्षा कारणि आकुली हती कृतातमुख प्रतिरूप णट कूप माहि पडी। तुम्हारा वदनालोक भोकव्य कर्मह करी जीवी। कहउ न तुम्ह रहई' एह कूप माहि किसी परि पतनु ह्यउ' तिणि सचिधि विद्वेपियद तुम्ह रहई' निरोधइतउ कीसउ कीधउ'।

§556) जिनदासु कहइ, "तिणि सचिधि मारणोत्सुकि ह्यइ हतइ हउ कर्मकरवेपि एकलउ नीसरिउ। निरतर विहारि ईहा आविउ। तूसिउ हतउ एह कूप माहि पडिउ। पाणी देसतउ पाद-10 स्खलना वसइतउ"। निर्जल तेह कूप माहि नाहिप्रमाणु जलु ह्यउ, पुण्य प्रभावइतउ। जिसउ सीर ह्यइ इसउ सु नीरु पी करि ति वे खेइ तस उपसमावी करी अति सुप्रतिचित्त ह्या'। अथ क्षणातरि' सार्थु एकु आविउ। जीसउ तहि तणउ पुण्यकुषु ह्यइ तिसउ कुषु रज्जु बाणी करी पाणी काहिया कारणि तेह कूप माहि किणिहिं मूकिउ। सु कुषु माहि जेतीवार' साहिउ तेतीवार तिणि पुरुपि माहि माणुसु' जाणी' अवर पुरुप आणी, ताणा करी वाहिरि, जिम जमसुग हता काहियइ तिम काहिया व जण। जेतलइ ति कृया हता नीसरिया ततलइ आगिलइ गमइ रहितु छइ सार्थु सु 'क्या हतउ मिथुनु नीसरिउ' इसउ कोलाहलु करइ। तेह शब्दइतउ कौतुकी सार्थवाहु पुण तिहा आविउ। भर्तार सहित कीकिरि देखी करी मन माहि विस्मयापन्नु ह्यउ। जिणदासु पुण 'सुसुरउ पउ' इसी परि धनसार्थवाह रहइ आलसी करी चमकृतचित्तु हतउ प्रणामु करइ। 'किसउ पउ' इसी परि स-विस्मय' थिका' सार्थवाह रहइ पूजता हता जिणदासि आपणउ वृत्तातु मूल एगी सगलु काहिउ। तिणि स्वजनि सवधि ह्यइ हतइ व्यसन तणउ दुहेलउ सगलु गली गयउ। ति सत्रे पुडकुटी माहि सुखिहिं रहिया। आथमण मिसातरि जाई करी आवितिय तीह तणइ आश्चर्यकारकि इसइ चरित्रि कहियइ हतइ जाणे जोइया' कारणि उदयमिसि सध्या समइ शशी आविउ

§557) अथ चद्रोदय समइ जिनदासु देहचिंता करिवा प्रचुरतरु वणातरि' गयउ। तिहा लक्ष्मीधर सूतउ देखी' जायइ, तउ मूयउ देसइ। अक्षतु सु दरी करी मित्रवच्छलु सर्पडकु तेह रहइ जाणी करी दुकिखतु ह्यउ'। तह कन्टा सप्रभाव' स्वकीय' रत्न ले करी पाणी ओहली तेह रहइ पाई जीवाइइ। तउ क्षणातरि सु जीवितु देखी जिणदासु कलियायतु' थिउ।

उपकृत्युपकुर्णा धियन्ते धरया न के।
अपकृत्युपकारी यस्तेन तु त्रियते धरा ॥

[८०५]

लक्ष्मीधर जीवितु हतउ तउ जिनदास रहइ देखी करी लज्जावनसमुखु ह्यउ'। तउ पाउइ जिनदासु' तेह आगइ कहइ, "मित्र' हउ तइ कृया माहि न घातिउ। किंतु पदस्खलना लगी हउ आप हे कृया माहि पडिउ'। तउ आपणा मन माहि किर्सयइ लाज न करि। जिसउ को कुणहीं मरता' पूठि मरी सकइ छइ' सू रहइ अदुना धन सार्थवाहु मिलिउ हउ तेहसउ वाणातरि नगरी जाइसु तउ ईहा

§555) 1 Bh ताहउ। 2 Bh हा हा। 3 B omits 4 B P रहि। 5 P हउउ। 6 P रई 7 P omits.
§556) 1 P हआ। 2 Bb abds तिहा। 3 B नेवार। Bb also has added - ती - later 4 Bb माणु। 5 P adds करी। 6 P omits स-। 7 P धग। 8 Bb जापदा।
§557) 1 B वनातरि। P वनातरि। 2 P adds करी। 3 P हउउ। 4 B स्वभाव। Bb सुप्रभाव P स्वभाव। Bbes- transmitted unorig. readings call for emendation. 5 Bb omits. 6 Bb सार्थवाह। 7 P जिन्दासु। 8 P पाडिउ। 9 I मारता।

निवारि। अथवा स्त्रीवशंगत निसत्त्व किसउं किसउं^१ न समाचरइं। सुमित्रा पुण तदाकालि इसउ अभियहु मन माहि करइ। 'जे मू रहइं प्राणसुक्ति हुयइ तो ई भोजनमावही दानि अकीषइं हउं भोजनु करउं नहीं'। आठ उपवास जउ सुमित्रा रहइं हूया, तउ पाछइ दुर्घशावाइ शंकित हूती जयां तेह नउ वृचांतु दत्त आगइ कहिउ। तउ पाछइ बंधुवर्ग सहितु दत्तु सुमित्रा रहइं पारणा कारणि महा निर्वैउ करइ। तउ सुमित्रा पारणा करिवा^२ कारणि उपवेशित हूती चित्ति चीतवइ। 'अभोजनविषइ पात्रदाना^३ भाव रूषु कारणु जाणतू^४ हूंतउ पुत्रु मू रहइं दानु विवारइ नहीं। धिग् धिग्! माहरा कर्म विडंबन रहइं^५ जइ किमइ एह आपणा परीसिया भोजन माह कही-एक महकूपि रहइं अथवा दयापात्र कही-एक रहइं संविभागु करावउं तउ माहरउ अभियहु भाजइ^६ नहीं। अपि तु श्लाघनीउ हूयइ। पुत्रु पुण्यवंतु अश्लाघ्यु न हूयइं'।

§561) इसउं ध्यायती सुमित्रा रहइं जिसउ भूर्तिमंतु पुण्यराशि हुयइ इसउ महासुनि एहुं^{१०} गृहांगणि आगिलइ गमइ आविउ देखइ। तदाकालि रोमांच कंठुकित गात्र हूती हर्षासुविदुवृष्टि नयन हूती मूकती भाजनु विहुं हाथे ऊपाडी करी सामुही ऊठी करी^१ महकूपि आगइ भणइ, "भगवन्! महांतु अनुमहु मू ऊपरि करउ। पात्रु धरउ। प्रासुकैणीउ^२ आहारु विहरिउ।" महाससु^३ प्रासुकैणीउ^४ जाणी करी विहरइ। तउ तेह तणइ सत्वि करी संतुष्ट हूती^५ श्री शासनदेवता गंधांबुवृष्टि गृहांगणि करी प्रत्यक्ष होइ करी कहइ। "धन्ये! मासोपवासी महकूपि सु तरं पारणउं कराविउ, तेह ताहरा सत्त्व प्रम-^{१५} यइतउ संभूतु जुं दानधर्युं^६ तेह तणा महात्म्यइतउ दुर्मिक्ष हेतुकप्रह उपशांत हूया।" इसउं गलगर्जितु करी देवि^७ मेहु वरसाविउ। दुर्मिक्षु प्रवासाविउ। राजा आषी करी महामहोत्सवु करावइ। सकल लोके^८ तनालिकेराक्षतपात्र^९पाणि दत्तमाता वधावइ। दत्तु जया सहितु पाए शामी सुमित्रा रहइं खमावइ। ति त्रिनहइ अयानंतउ उत्तरोत्तर धर्मु समाचरी करी आपणउं आयु संपूर्णु भोगवइं।

§562) सीहीं^१ माहा सुमित्रा जीवु महाराज! तउं हूयउ^२। दत्तात्मा जिनदासु ताहरउ मित्रु^३ २० हूयउ^४। जयात्मा रत्नवती जिनदास तणी युवती हुई। दानधर्मनिरोधइतउ ताहरा मित्र रहइं लक्ष्मी सांतर हुई^५। इती परि पूर्वभवु सांभली गुरु नमस्कारी करी^६ राजादिक सकललोक नगरि गया। धर्मध्यानपर अतिविक्रमवंत राजेंद्र जिनदास रत्नवती जीव तिणिहिं जि भवि संयमु प्रतिपाली केवल-^७ शानु ऊपाडी^८ भोक्षि गया।

पात्रार्थया सचितया रमया सुमित्रा-

25

श्रद्धया महानरवरेन्दिरया सदेह।

लेभे महोदयरमापि तथा भवाद्भि-

र्लभ्येत हन्त भविका भविकाम्यपुण्याः ॥

[८०७]

इति अतिथि संविभाग व्रतविषइ सुमित्रा कथा समाप्ता^१।

§563) अथ अत्र विषइ सु रागादि भावि करी ईषउं तेह प्रतिक्रिया कारणि भणइ।^{३०}

सुहिणसु य दुहिणसु य ज मे अस्संजणसु अणुऊपा।

रागेण व दोसेण व तं निंदे तं च गारिहामि ॥

[८०८]

संविभागव्रत प्रस्तावइतउ साधु अभोणयई जाणिवा। तीहं साधु किसान विषइ। इत्याह—

§560) 4 P. omits. 5 Bh adds इवइ। 6 P. omits. 7 P. जणतउ। 8 Bh. एवइ।

§561) 1 P. omits. 2 P. प्रासुकै-। 3 B P. -सुत्रु। 4 P. adds - उ। 5 Bh. omits. 6 Bh. दानु लु धर्मु। 7 P. देइ। 8 P. - पात्रि -।

§562) 1 Bh. सीहं। 2. Bh. हूयउ। P. हूउ। 3 P. हूउ। 4 Bh omits. 5 P. उपाडी।

6 P. omits.

‘सुहिप्सु’ य इत्यादि। सुपु अतिशय करी हितु ज्ञानादि त्रिकु जीहं रहं हुयद ति सुहित कहि-
यइं। तीहं नइ विप। तथा ‘दुहिप्सु ये’ ति। दुक्खितेषु रोगि करी तपि करी या जि क्लान्त हुयइं ति
दुक्खित कहियइं। तीहं नइ विपइ। अथ श्रमवदाइतउ मार्गि जि विन्न हुयइं ति क्लान्त दुक्खित कहियइं
तीहं नइ विपइ। तथा ‘अस्संजप्सु’। ‘सं’ किसउ अर्थु? आपणइं छंदि स्वच्छा करी यत उयत्त
5 विहारी इसा नहीं, किंतु गुरु तणी आण करी जि विहरइं ति असंयत कहियइं। तीहं नइ विपइ। भइं
अनुकंषा भक्ति कीधी ‘रागेण वे’ ति—रागि पुत्रादि प्रेमि करी न सुद्ध साधु बुद्धि करी। तथा ‘दोसेण
वे’ ति—द्वेषि करी द्वेषु ईहां साधुनिंदा स्वरूप जाणिवउ। यथा—

‘अदत्तदाना मलाविलदेहा ज्ञातिजनपरित्यक्ता क्षुधात्ताः सर्वथा निर्गतका अमी अत उपप्रभाहो’
इत्येवं निंदापूर्वं ज अनुकंषा सापि निंदाहोः। अशुभद्विर्घातुः कर्मबंधहेतुत्वात्।

10 §564) यदागमः—‘तदाह्वयं समणं वा माहणं वा संजय विरय पडिहय पच्चकखापि
पावकम्मं हीलित्ता निंदित्ता गरहित्ता’ अवमञ्जित्ता अमणुस्रेणं अपीइकारणेणं असणपाणराइमलाइमेणं
पडिलाहित्ता असुहद्वीहा उज्झत्तयाए कम्मं पकरेइ’।

एह आलापक नउ अर्थुत्थारूपु साधुगुणनुक्तु श्रमणु विविध कप्रानुपाननिरतु²। माहणु-ब्रह्मचर्ये
सहितु। संजतु-जिनेद्रियु। विरतु नानाविध तपविपइ ‘वि’ विगोपि करी रतु विरतु कहियइ। प्रतिहत
15 प्रत्याग्यात पापकर्मा। किसउ अर्थु। प्रतिहत स्थितिहामइतउ ग्रंथिभेदि करी। हेतु तथा अभावइतउ
पुनरुद्धिं भावाभावइतउ प्रत्याग्यानु निराकरिउं पापकर्मु चात्रिआचारादिकु जिणि सु प्रतिहित
प्रत्याग्यात पापकर्मा कहिइं। एवं गुणयुक्त महामुनि रइं हीला अवता न करी ‘हीलित्ता’ कहियइ।
निंदा अदत्तदाना इत्यादि। तत्र, पूर्वोहं एते दीधउं नहीं तिणि कारणि भिक्षाटनु करइं भिक्षाजीविया।
इति अदत्तदाना तणउ अर्थु। ‘मलाविलदेहा’ इत्यादि सुगमं। नवरं ‘सर्वथा निर्गतका’ किसउ अर्थु?
20 सर्वथी प्रकारहं करी इलोक सुख हंता ‘निर्गत’ नीमरिया। इलोकिकिहं परलोकिकिहं ईहं रइं सुपु
नहीं इसउ अर्थु। इमी परि परसागि निंदी करी। इमी हीं जि परि आपसासि गरिरी करी ‘गरहित्ता’
तणउ अर्थु। ‘अवमञ्जित्ता’। अम्युत्थानादि विनय तणइ अभावि भिक्षाचर मात्र गणना करी जु इणु
सु अयमान पूर्वु ‘अवमञ्जित्ता’ कहियइ। ‘अमणुस्रेणं’। पर्युपित शूद्रचणकादि अरस विरगाहारेणं।
‘अपीइकारणेणं’। गुणराग तणइ अभावि करी असणदिकि करी ‘पडिलाहित्ता’ विहरायी करी
25 शुभविपरीत अशुभदुक्खटेतुकु दीधं गह्यउं आयु कर्मु दाना हंतउ ‘पकरेइ’ किमउं अर्थु? चांधइ।

§565) जिम द्वीपदी जीवि पुसुक तुंभकादिदानि¹ करी कर्मु सांधउं तेइ तणउं फलु नरकादिकहं
मयहं प्रसुत कालु वेइं करी तउ छेहि तेइ तणा अणउद्वयइतउउं दीमंणु वेइंइं।

§566) अथवा ‘सुविनेषु दुक्खितेषु’ किमउ अर्थु। मानेगारयादि मान्य मन्ति सुगित चरक
परिवाजकादिक। अथवा पार्थिव्यादिक। अणान्ताक दुक्खित। ति कउणि? असंयत पटविध जीय-
30 निकाय यथक। अमाधु तीहं नइ विपइ ज मइ अनुकंषा अदानादि दानलक्षण भक्ति कीधी तथा च
अनुकंषा शब्द रइं भक्तिवाच्यता विपइ सिद्धीत माया।

आयारिय अणुसंपयाए गन्तां अणुसंपिउं महाभागो।

गन्तणुसंपयाए अब्युच्छित्ती कया निन्थे ॥

[८०९]

‘रागेण वा’—माहरा मित्र ए’ नगरादि संबंधिया ए इमी परि, अथवा एते अहं रइं नइ
35 निमित्तोपधादिकु प्रयोजनु इमी परि। दोसेण वा—‘दुल्लिमी’ नइ विपइ जिम धर्म निंदक ए तथा निवेउक
ए इती परि। पार्थिव्यादिकह विपइ।

§564) 1 Bb. मरिहिन। २ B

§565) 1 Bb. omits - कादि

§566) 1 Bb. omits.

द्वगपाणं पुष्पकफलं अणमणिजं गित्य किञ्चार्द्रं ।

अजया पञ्चैतंति य जड वेमविटंबगा नवरं ।

इसी परि तीर्तं ना दोष दृग्गी करी अतीतिमःपदनउ जु वीमर सु दोषेण या' एह णउ अर्थु ।
जिणि करी जु काऽ अशुभु कर्मु बांधउं 'तं निरे' इत्यादि पुर्यम् ।

§567) जु पुण उचित्तु दानु सु न निंदउं । जिणि कारणे तेह तणउ निषेधु तीर्थकराहीं कापउ ५
नहीं । तथा च भणितं-

' गित्तागयाणंमुचियं पटिमिद्धं भगवयारि न हे सुत्तं ' ।

§568) अथ माधुगिह जु वृषिउं नारी तेह पटिकमिवा जिमिनु कए-

माग्गु संरिभागो न कओ तर-वरण-वग्ण जुत्तेमु ।

संने कामुयदाणे तं निरे तं च गग्गिमां ॥

गुग्गा ॥ [८१०] 10

§569) नउरं वरण कण मत्तरी लिपिपट-

वय ५ समणधम्म १० संजम १७ वेयावणं १० च वंभगुणीभा ९ ।

नाणाइ नियं ३ तर १२ षोड निग्गा ५ उय चरणमयं ॥ [८११]

माणातिपात विरति, वृथाउद विरति, अदत्तादान विरति, मैथुन विरति, परिपद विरति, नामक
पांच महापत ५ । 15

वंतीय १ महर २ जय ३ मुची ५ तर ५ संजमे ६ य बांधवे ।

मयं ७ सोयं ८ भादिचणं च ९ वंभं च १० जडे धम्मो ॥ [८१२]

इति वृजयिषु वक्तिधम्मं ।

पञ्चासरादिग्गमणं पञ्चोन्टियनिग्रहः ।

वपावजयः दण्डप्रयविरातिथेनि संजयः सप्तदशभेदः ॥

[८१३] 20

इति मज्जइमाधा मयम ।

भापयि १ वरगशाए २ धेर ३ मरग्गी ५ पिप्पण ५ संदानं ६ ।

मारग्गि ७ वृत् ८ गण ९ संपमंमयं १० मपिह कायध्वं ॥ [८१४]

इति वृजयिषु विपावृग्गम ।

वगदि १ वर २ निगिनि ३ टिय ५ वृद्धिंनर ५ पुप्पणीनिय ६ ।

पनिउ ७ भःपापासा ८ विभुग्गना ९ य नव वंभगुणीभां ॥ [८१५] 25

इति वृजयिषु वृत् मरग्गम ।

काए १ विजण २ वृग्गणे ३ वरगणे ५ महर निन्दवणे ५ ।

वग्ग ६ भय ७ वरभय ८ भःरिती नाणपासागे ॥ [८१६]

पणिहाण जोगजुचो पंचहिं समिर्दिहिं तीहिं गुत्तीहिं ।

एस चरिचायारो अट्टविहो होइ नायव्यो ॥

[८१८]

इत्यष्टा चारित्राचारः ।

इसी परि ज्ञान दर्शन चारित्रहं रहई अष्टभेदता हूँतीहीं ईहां 'नाणाइ तियं' इसा भणनइतई

५ विन्हइ जि भेद लीजई ।

अणसण १ मूणोयरिया २ वित्तीसंखेवणं ३ रसचाओ ४ ।

कायाकिलेसो ५ संलीणया ६ य वज्झो तवो भणिओ ॥

[८१९]

इति षोढा बाह्य तपः ।

पावच्छित्तं १ विणओ २ वेयावच्चं ३ तदेव सज्जाओ ४ ॥

ज्झाणं ५ उस्सग्गो वि ६ य अत्थिभतरओ तवो होइ ॥

[८२०]

'कोहनिग्गहा' इति बहुवचनइतउ क्रोध मान माया लोभ रूप चत्तारिं कपाय तीहं तणा निग्गह ४ लीजई । 'इय चरणमेयं' इसा भणनइतउ सर्वहीं नइ मीलनि कथइ हंतइ सत्तारि भेदं चरण तणा हुयई । इसउ अर्थु ।

इति चरण सत्तरी भेदा ।

१५ §570) अथ करण सत्तरी लिखियइ ।

पिंडविसोही ४ समिर्-५ भावण १२ पडिमा १२ य इंदिय निरोहो ५ ।

पडिलेहण २५ गुत्तीओ ३ अभिग्गहा ४ चैव करणं तु ॥

[८२१]

एह नउ अर्थु-यति संबंधिया छई उत्तर गुण तीहं नइ प्रस्तावि लिखिउ छइ तिहां हूँतउ जाणि-वउ । नवरं 'इंदियनिरोहु' पांच इंदिय नउ विजउ । सर्वं मीलनि करणसत्तरी करण तणा सत्तारि भेद २० हूयई इसउ अर्थु ।

अत्र तपु चरणसत्तरी माहि आविउ छई पुण वली 'तवचरणकरण जुत्तेसु' ईहां तपमहणु निकाचित अवश्यवेद्य जि हुयई कर्म तीहीं तणउ क्षउ तपि करी हुयइ । इसी परि कर्मक्षय प्रति तप रहई प्रधानता जाणाविवा' निमित्तु । तथा च आगम —

पुंत्वि दूविभाणं दुप्पडिकंताणं वेइत्ता मुक्खो ।

नत्थि अवेइत्ता तवसा वा झोसइत्ता ॥

[८२२]

§571) अथ संलेखनातिचार परिहार रहई करिया वांछतउ हूँतउ मणइ ॥

इहलोए परलोए जीविय मरणे य आसंस पओगे ।

पंचाविहो अईयारो मा मज्झं हुज्ज मरणंते ॥

[८२३]

अत्र आशंशा प्रयोग इसउं सर्वत्रहीं जोडिवउं । यथा इहलोकाशंशा प्रयोगु । माणुस रहई मनुष्य- ३० लोकु इहलोकु तेह तणी आशंशा 'चक्रवर्ति हउं एह अनसन तणइ प्रभादि होइजिउं' इसी परि १ । देवलोकु तेह तणी परलोकाशंशा । यथा । 'देवु हउं होइजिउं' इसी परि २ । जीवितव्य तणी आशंशा 'जउ हउं घणउं जीउउं तउ मू रहईं घणी प्रभावना हुयईं घणी पूजा हुयइ महिमाविदुयाति हुयइ' । इसी परि । मरणशंशा 'मई अणसणु लीधउं मू रहईं महिमादिकु काईं नहीं तिणि कारणि दिव वडिहलउ जउ मरउं तउ रूढउं' इसी परि मरणाशंशा ॥ अथवा अनेरा रहईं रूढी महिमा अणसणु समइ देवी करीं महिमा निमित्तु अणसणु लीजउ ए पुण मरणाशंशा ४ ।

§569) २ B. drop words between चत्तार भेद ।

§570) 1 Bb जणाविवा ।

§571) 1 Bb cmitis

चकारइतउ कामभोगांशांश । तत्र शब्दरूप काम कहियई । गंध रस स्पर्श भोग कहियई । यथा ।
'एह तप तणइ प्रभावि मूरहई पइलइ' भवि काम भोग मनोवांछित होइजिउं ।' इसीं परि एउ पंचविधु ५
अतिचार मूरहई मरणते जां चरसु ऊसासु तेतीहीं वार म होइजिउ ५ ॥

§572) तत्र इह लोकशांशा विपइ चित्त तणउ भाई संभृत मातंगक्रपि दृष्टांतु । परलोकांशांशा
विपइ अनामिका दृष्टांतु ललितांग देपदर्शनानुरागि जिणि नियाणउं देवी भाव विपइ कीधउं । कामभोगा-
शांशा विपइ भविषेण कथा ।

§573) जीवितांशांशा¹ मरणांशांशा¹ विपइ धर्मघोप धर्मयशा इसा नामहं करी प्रसिद्ध छई मह-
क्रपि तीहं तणी कथा लिखियइ ॥

ईही जि भरतक्षेत्र माहि कौशांबी नामि नगरी हूँती । तिहां अजितसेनु नामि राजा । धारिणी
नामि राणी । अनेरइ वरसि बहुश्रुत गुणविश्रुत धर्मवसु इसई नामि आचार्य संजमगुण समाहित तिणि
नगरी वृद्धावासि रहिया । तीहं तणा त्रि शिष्य एकु धर्मघोपु बीजउ धर्मयशु । बिहुं तीहं महासत्तहं¹⁰
संलेखना करिवा² आरंभी । तिहां विगतभया इसइ नामि यथार्थनाम³ प्रवर्त्तिनी⁴ हूँती । तिणि संघु
पूछी करी अणसणु लीधउं । चमत्कारकारिणी⁵ तेह रहई प्रभावना संधि करावी । तिणि देवलोकि
गई हूँती पुनरपि तेह तणा कलेवर रहई सज्जनानंदकारिणी⁶ पूजा पौरजनहं करावी । सु पूजाडंबरु¹⁵
देखी करी धर्मघोपु क्रपि मन माहि चीतवइ, 'धन्य धन्य ए प्रवर्त्तिनी । जेह जीवतीही मृतही रहई इसीं
प्रभावना हुई । एह पुरी माहि किमइ हउं पुण⁷ ह्यडां⁸ अणतणु करउं तउ मूरहई पुण इसीं प्रभावना
हुइ ।' इसउं चीतवी करी धर्मघोपि अणसणु लीधउं ।

§574) बीजउ धर्मयशा मुनि चीतवइ 'लोकि जाणाविइ¹ किसउं छइ ? हउं आपहे एकांति²⁰
जाई साधना करउं ॥ तथाच भणितं—

किं परजण बहु जाणावइ वरमप्पसत्तियं सुकयं ।

इह भरहचक्रवट्टी पसन्नचंदो य दिट्ठता ॥

[८२४]

इसउं चीतवी करी शुरु नी अनुमति ले करी उज्जयिनी अनइ यच्छगना नदी अंतरालि गिरिकंदरि
जाई करी पादपोषगमनि अनशनि रहिउ । जिम सिंहु निर्माकु हुयइ तिम थाई एकाकी सुस्थिरचित्तु
ह्यउ¹ । एतलइ प्रस्तावि उज्जयिनी नगरीमंडनु चंड प्रयोतनंदनु धारिणी-कुक्षिसंभवु पालकु इसइ नामि
अयनिपालकु ह्यउ । तेह नउ लहुडउ भाई गोपालु इसइ नामि युवराजा । लघुकर्म भावइतउ सु सुगुरु
पादमूलि दीक्षामहणु करइ । पालक तणा अवंतियद्धन राष्ट्रवद्धन इसां नामहं² करी विख्यात वि पुत्र ह्यया⁴ ।²⁵
ति पुत्र राज्य अनइ यौवराज्य थापी करी पालकि पुण दीक्षा लीधी । धारिणी नामि राष्ट्रवद्धन तणी
भार्या, रूपि करी जिली कामभार्या हुयइ तिली, हुई । अवंतियसेनु इसइ नामि तेह तणउ पुत्रु ह्यउ³ ।

§575) अनेरइ द्विनि उद्यानयनि क्रीडा करिती¹ धारिणी अवंतियद्धनि ज्येष्ठि निज भैत्रकौमुदी
समानरूप दीठी । तउ पाछइ सकामु थिकउ² वृत्तिकामुलि भार्यवा लागउ । धारिणी भणितं, " महाराज !
जे आपणी लाज नहीं तउ किसउं भाई तणी लाज पुज³ नहीं ? " तउ पाछइ अवंतियद्धनि कामातुरि हंतइ³⁰
आपणउ भाई राष्ट्रवद्धनु कूडु करी मारिउ । अथवा कामी किसउं किसउं न करई ।

§571) 2 Note the solitary example where B. and Bb. both drop h -h- and write पइलइ for पहिलइ । 3 Bh. omits.

§573) 1 P. संता । 2 P. adds किमिनु । 3 P.-नामि । 4. P. प्रवर्त्तिनी । 5 P. चमत्कारक- । 6. P. संजना- । 7. Bh. omits । 8 Bh. हिवउं ।

§574) 1 Bh. जाणाविइ । P. जाणाविइ । 2 P. हउउ । 3. Bh. नामहं । 4 P. हया ।

§575) 1. Bh. करी । 2. P. पकउ । 3. Bh. p. omit,

सन्मार्गे तापदास्ते प्रभवति पुरुषस्तापदेनेन्द्रियाणां
लजां तापद्विधत्ते त्रिनयमपि समालंभते तावदेव ।
भूचापाट्टमुक्ताः श्रवणपथजुषो नान्यत्स्मान एते
यापह्नीत्यापतीनां न हृदि धृतिमुषो दृष्टिगणाः पतन्ति ॥

[८२५]

- 6 तदाकालि धारिणी गर्भधारिणी¹ आसन्नप्रसव हृती निज शीलरत्न सर्वस्य रक्षाकारिणी राष्ट्रवर्द्धनं² नाममुद्रा³ सहित हृती नामी करी तेती⁴ जि यार⁵ वेगि करी कौशात्री नगरी गर्दे । राय तणी यानशाला मारि ररी हृती महामती तीट कन्हइ दीक्षा लीधी । दीक्षाविघ्नकारणि गर्भु कहिउ नहीं । पाउइ प्रसिंतीनी गर्दिभ जाणियइ¹³ हंतइ प्रच्छन्नवृत्ति स ररागी¹⁴ ।

- §576) प्रस्तामि जिम मेरुभूमि कल्पतरु प्रसजइ तिम तिणि पुत्र जाइउ । साधमी रहइ पुत्र अनर्थु
10 जाणी करी जिम कोइ¹ जाणइ नहीं निम राजगृहागणि नाम मुद्राम्बित्तु पुत्र तिणि मेरिहउ । प्रभात समइ अजितसेनु राजा जिसउ मणिपुत्र ह्यइ इसउ न मालकु कातिमनु देखी करी, अपुत्र उइ अगणी राणी² तेह रहइ हर्षित थिकउ³ पुत्र करी जापइ । गृहगर्भो राणी हृती इमी परि प्रकाशी⁴ करी पुत्रजन्म महोत्सव अजितसेनु⁵ राजेद्रु करावइ । मणिप्रभु इमउ⁶ यथार्थु नामु करइ । प्रसिंतीनी पुत्री हनी धारिणी भणइ, “ मृत पुत्र जाइउ सु द्विषडाइं जि लारी करी हउ आमी । ”

- 16 §577) अथ पुत्रप्रेम भावइतउ राणी सउं धारिणी प्रीति करइ । अजितसेनि द्वियंगति हृतइ मणिप्रभु राजा ह्यउ¹ । सु अवंतिवर्द्धनु, अनुज राष्ट्रवर्द्धनु रहइ, धारिणी तणइ कारणि मारी करी राष्ट्रवर्द्धनु युवराजेद्र अनइ धारिणी विहुं हतउ भ्रमु ह्यउ² हतउ अति वैराग्य भागइतउ भाई नउ पुत्रु अवतिसेनु राज्य बइसाली करी दीक्षा³ लियइ । अनेरइ द्विनि अवतिसेनि उज्जयिनी नायकि कौशात्री नायकु मणिप्रभु दूतमुनि भणयिउ⁴, “ मू रहइं क्रमागतु दडु वे करी सुखिहं निर्भय थिकउ राज्यु
20 भोगवि । ” तउ पाउइ⁵ मणिप्रभु भणयइ, “ सव्याजु ताहरउ राज्यु हउ लेसु ” इमउ भणी करी तिणि दूत पाउउ मोकलिउ । तउ पाउइ⁶ दूतमुद्रइतउ सु अवतिसेनु राजेद्रु सामली करी जिम कलकलतउ धूत जलविन्दुपाति झाल मेरहइ तिम कोपि करी प्रज्जलतउ हतउ सर्वाभिसार⁷ मणिप्रभ ऊपरि कटकी करइ । त्वरितगति⁸ आवी कौशात्री नगरी विघ्नसमुद्धि हंतउ स विहु गमा वेहु⁹ घाती रहिउ । मणिप्रभु पुण सयामसज्ज सुभटवज्ज करी परसुभट वृणसमान मनतउ¹⁰ हतउ कोट्ट मारि प्रगुण याई रहिउ ।
25 तदाकालि नगरलोकु परकटक भयातुरु ह्यउ¹ । निवातोत्पातयिता करी व्याकुलु ह्यउ । विहारोच्चार भूमि रहइ सकीर्णता भावइतउ यतिलोकु असमारिहउ ह्यउ । पदि पदि सयम विराचना आत्मविराधना च² हाइवा लागी । तउ पाउइ जिणि धर्मघोषि¹⁰ मुनि अणसणु¹¹ कीधउ हतउ तेह रहइ सुरतप सुग संयम वात्ता रहइ पृणहार को ह्यउ¹² नहीं । जीविताशशी¹¹ सु धर्मघोषु मुनि पूजा प्रभायना तणा अभायइतउ आसंधयानि वर्त्तमानु हतउ म्यउ¹⁴ । जिम पापाणु लणियइ तिम कोट ऊपरवाउइ¹⁵ ऊठाली करी
30 लाविउ ।

§576) 4 B लजा । 5 Bb -युषो । 6 P omits 7 Bb सुभा । 1 सुषे । 8 P गर्भु- 9 P राष्ट्रवर्द्धनानु । 10 P omits नाम- 11 B omits 12 Bb P ज । 13 B. alls-v-liter 14 Bb राइवी ।

§576) 1 Bb को । 2 P धारणी । 3 P यरु । 4 P प्रसि । 5 P अजितु । 6 B Bb add नामु ।
§577) 1 P ह्यउ । 2 P omits दी- 3 P omits following the sentence 4 B drops words between तउ पाउइ तउ पाउइ । 5 Bb -मारि । 6 P -गत । 7 B P add वरी । 8 B. P समान इतउ मनतउ । B has afterwards tried to change-उ of इतउ to-अ and thus confuse । Bb समानइ अमनतउ । The whole passage from विहु गमा अणसणु कीधउ हतउ is added in the margin in Bb 9 P omits 10 Bb P -घोष । 11 Bb. अनसणु । 12 P हउ । 13 -शशी । 14 p म्यउ । 15 P ऊपरि-

§578) अथ धारिणीं मणिप्रभं वृत्तात् मूललगी कही करी प्रवर्तिनी रहइ वीनगइ, “ए सहांदर भाई वे अज्ञानभावइतउ राज्यकारणि विटइ^१ छइ । जुउ^२ तुम्हे भणउ तउ तउ वारउ । तउ पाउइ प्रवर्तिनी अनुज्ञात हूती धारिणी साधनी मणिप्रभ आगइ सर्व स्वरूपु कही करी भणइ । “तू रहई वडा भाई सउ युद्ध करिवा न वृद्धियइ ।” इसी परि भणिउ हूतउ अभिमान लगी जउ नियर्तइ नहीं तउ पाउइ धारिणी अवतिसेन कन्हइ शीघ्रु गई । अवतिसेनि प्रणमी करी पूठी हूती सगत्त वृत्तातु कहइ । “वच्छ । 5 आपणा अनुज लहुडा भाई सउ किसउ झुमु^३” तउ पाउइ समामु सरभु मुकी करी मणिप्रभ मिलिवा निमिचु अवतिसेनु ससेनु हूतउ चालिउ । मणिप्रभु पुण अवतिसेनु मिलिवा आवतउ^४ सामली करी साम्द^५ आविउ । जेतीवार दृष्टिमेलवउ ह्यउ^६ तेतीवार वे वाटन हूता ऊतरी^७ करी आपणवा माहि दिया माहि जिम पइसनहार हुयइ तिम साईप आविया । महाप्रवेदाक महोत्सवपूर्वु नगरी माहि आविया । फेतलाई दिवस प्रेमानुवधु वश हूता तिहा रही करी अवती ऊपरि चालिया । 10

§579) तीह समामत्रित हूती व्रतिनी पुण सरसी चाली । मागि जायता हूता वच्छुगा नदी नइ तटि कटक वसिया । ति महासती गिरिकदर हूतउ ऊतरतउ चढतउ लोकु अस्तोकु^१ देरी पूडइ । लोकमुखइतउ धर्मयशासुनि तिहा पादपोपगमनि अनसनि^२ वर्त्तमानु सामलइ । तेरे राजेंद्रं आगइ कटिउ । तउ पाउइ राजद्रं सहित हूती व्रतिनी गिरिकदरि^३ पहुती । मुनि नमस्कारिउ । मदिमा महात करावी राजेंद्र चालणहार हूता व्रतिनी पुण सरिसी तेडइ । व्रतिनी भणइ, “अम्हे अनसनी मुनि मुकी^४ 15 करी नहीं आपउ ” । तउ पाउइ राजेंद्र पुण रहिया । नितु नितु महात्मा रहइ वादइ, पूजइ । रास, भास, गीत, नाच, नाद^५, पूजा करावइ । महासती आराधनाऽऽहउ^६ पानु करावइ । पचपरमेष्ठि महामनु समरावइ । इसी परि धर्मयशा मटक्रपि^७ रहइ निस्सृष्टवृत्ति भाविदि हूतइ धर्मानुभावि शून्यदि स्थानि^८ मदिमा ह्यउ । समाधि सहितु सु महाभागु स्वर्गसुख भाजनु ह्यउ^९ । जिणि धर्मघोषि मटक्रपि^{१०} पूजा तणी सट्टा कीपी तेरे रहइ अपभ्राजना हुई । 20

छिन्नोर्वीरुहपातसन्निवधुः कृत्वा मनोप्यस्पृहं
येनैवं मुनिपुङ्गवेन विदधे प्रायो वतं निस्तुपम् ।

शून्येभून्महिमास्य धर्मयशसोऽन्यथाऽन्यत्र तु
युत्तेति त्रियतां तादित्यमुसामानुशैर्गीतं लभ्यताम् ॥

[८२६]

इति जीवितमरणाशाना^{११} विषय धर्मयश कथा, अन्ययविषय व्यतिरक्तिपइ^{१२} धर्मघापकथा 20

§580) सगले ई अतीचारु योगत्रय हूतउ हुयइ शणि कारणि याग उद्दिनी योगे ई जि करी पढिकमतउ भणइ—

काएण वाडयस्सा पडियमे राडयम्म वायाए ।

मणसा माणसियम्म^१ सच्चस्स वयाडयारम्म ॥

[८२७]

पचपचाविकाराकि कायि करी कथिउ व्रतातीचारु कोदहु वध^१ वधाविउ अतीचारु सह रहइ 30 काहादि जि तप वायोत्तवर्गादि अनुष्ठानकारकि करी ‘प्रतिकामेव’ किमउ अरु^२ निर्जसिजिउ इसी परि । ‘वाएण’ वागि करी यथा ‘चारु तउ’ परदारगामी तउ^३ इसी परि सहसाभ्यागयान दानादिरूप छइ धारणी तिणि करी कथिउ जु सु वाचियु तह रहइ वाहादि जि करी यथा मिच्छामिबुद्धदहनलक्षण छइ धारणी तिणि^४ जि करी ‘प्रतिकामेव’ निर्जसिजिउ ।

§578) 1 P मुनि । 2 P वेद । 3 P जउ । 4 Bb adds धारिणी । 5 P आपणा । 6 P गायुर्द । 7 P ह्यउ । 8 P क्वाति ।

§579) 1 P (omits) 2 P (omits) 3 Bb राजेन्द्र । 4 B Bb परि- । 5 Bb P मुकी । 6 B . omits 7 Ph -मुह । 8 P सरा- । 9 P स्थान । 10 P ह्यउ । 11 P -किनि (1) । 12 P -ना । 13 P omits

§580) 1 B B . have-ना । 2 R Bb संव ।

तथा 'मणसा' मनि देयभुग्धर्मशंकादि द्रोपि दृपितु छइ मनु तिणि करी कधिउ जु सु मानसिकु । तेह रदइं मनिर्हि जि 'हा दुहु चीतविउं' इसी परि शंकापरिणामापन्नु जु छइ आत्मा तक्षिदा-परिणतु छइ मनु तिणिर्हि करी 'प्रतिकामेत्' निर्वासिजिउ । 'सव्वस्स वयाइयारस्स' सगला ई त्रिविध ही व्रतातिचार हंतउ पडिब्रामिउं निवर्त्तउ' । सामान्यार्हि योगत्रयातिचार प्रतिकमणु कहिउं ।

6 §581) हिय विशेषु' करी तेऊ जु योगत्रयातिचार प्रतिकमणु कहइ-

वंदणवयसिखला गारवेसु सन्नाफसायदंवेसु ।

गुचीसु य समिईसु य पडिकमे देसियं सव्वं ॥

[८२८]

चतुर्थपादस्थानि 'जो अइयारो तयं निंदे' इति पाठांतरम् ॥ ३५ ॥

वंदनु चैत्यवंदनु पुण गुरुवंदनु पुण जाणिवउं । व्रतपूर्वार्हि जि द्वादश संख्य स्थूल प्राणातिपात

10 विरमणादिक भणियां ति जाणियां । शिक्षा ग्रहणाशिक्षा आसेवनाशिक्षा लक्षण द्विविध जाणेवी ।

तत्र सामायिकादिकादि सूत्रार्थ ग्रहणरूप ग्रहणाशिक्षा ॥ यद्वाहुः -

सावगस्स जह्वेणं अट्टय पवयणमायाओ ।

उक्कोसेणं छज्जीवणिया सुत्तओ ॥

[८२९]

अत्थओ वि पिंडेसणज्झयणं न सुत्तओ । अत्थओ पुण उट्ठावेणं सुणइति नवकारेण विवोहो

15 इत्यादि दिनकृत्य स्मरणलक्षण आसेवना शिक्षा । गौरव जत्थादि मइस्थानक यथा—

जाइकुलरुवयलसुयतवलाभसिरी य अट्टमयमत्तो ।

एयाइं वि य बंधइ असुहाइं बहुं च संसारे ॥

[८३०]

अथवा—ऋद्धिगारव रसगारव सातगारव रूपगारव च' ।

तत्र प्रभूत स्वजनादि गर्वकरणु ऋद्धिगारवु सु पुण दशार्णभद्रादिकहं जिम इहलोकिर्हि लाघव

20 निमित्तु हुयइ ।

रसमधुरान्नपानादिक तीहं विपइ लंपटता भलु रसगारवु ।

सु पुण मधुरामं गुप्रसुत्तहं जिम दुर्गदुर्गतिनिवंबनु सुहुल शय्या शयनादिकहं विपइ रागु सात-गारवु । सु पुण शशिराजादिकहं जिम दुर्ग नरकादि दुर्गति कारणु । तथा च भणितं—

पुरनिद्धमणे जक्खो महुरामंघू तहेव सुह निहसो ।

बाहेइ सुविहिजियणं विस्सइ बहुयं च हियएणं ॥

[८३१]

जावाउअसावसेसं जाव य धेवो वि अत्थि ववसाओ ।

ताव करिज्जएपाहियं मा ससिराया य सोयहिसि ॥

[८३२]

तउ पाछइ वंदनव्रत शिक्षागारहं सवहीं विपइ जु अतीचारु ।

§582) तथा 'सन्ना कसाय दंवेसु' तत्र संज्ञा चत्तारि यथा— आहारसंज्ञा भयसंज्ञा मेधुनसंज्ञा

30 परिग्रहसंज्ञा ।

तथा संज्ञा दश पुण यथा— क्रोधसंज्ञा मानसंज्ञा मायानंज्ञा लोभसंज्ञा लोकसंज्ञा ओघसंज्ञा लक्षण छ संज्ञा पाछिलियां चउं संज्ञा सउं जउ मेलियई तउ दश संज्ञा हुयई ।

§580) 3 Bb. निर्वासित ।

§581) 1 Bb. विशेषि । 2 Bb. omits.

§582) 1 Bb. देसिय । 2 Bb. omits.

तथा कप् निर्गणे धातु पाछइ कपियइ चउंगति माहि पांचियइ प्राणिया जीव एह माहि । इणि कारणि कपु संसार कहियइ । तेह तणउं आयुलाभु जीहं हूंतउ जीव रहइ हुयइ । इति कपाय क्रोध मान माया लोभ लक्षण चत्तारि कहियइ । तथा पुण्यधन तणइ अपहरणि करी जेहे प्राणी जीवु दांडियइ ति असुम मनवचनकायलक्षण त्रिन्हि अनर्थदंड कहियइ । अथवा मिथ्यादर्शन मायानिदान लक्षण त्रिन्हि दंड । तथा गुति अशुभयोग निरोधरूप त्रिन्हि गुति मनोगुति वचनगुति कायगुति ईह नउ विचारु पूर्वहि ६ लिखिउ छइ ।

समिति ईर्यासमिति प्रमुख पांच तीहं नउ अर्थु पुण पूर्वीहं लिखिउ छइ । चकारइतउ बीजाई सपही धर्मकर्महं तणइ विपइ निषिद्ध कर्मकरणादिकहं विपइ वा 'पडिक्रमे देवसियं सटवं' ॥ एतलां पूर्वोक्तहं कर्त्तव्याऽकर्त्तव्यहं विपइ सटवू सगळू देवसिउ^२ विवसकृत अजुकु पडिक्रमिउं, तेह हूंतउ निवर्त्तउं । 'जो अइथारो तयं निंदे' इति पाठांतरि^३ पूर्वोक्तहं वंदनादिकहं विपइ जु अतीचारु सु निंदउं । आपसाखि^{१०} अयुकु कीधउं इसी परि निंदउं ।

§583) अथ सम्यक्त्व माहात्म्य दिखालिया कारणि कहइ ।

सम्मद्वित्री जीवो जइवि हु पावं समायरइ किंचि ।

अप्पोसि होइ वंयो जेण न निद्वंधस संकुणइ ॥

[८३३]

सम्यक् अविपरीतु दृष्टि ज्ञानु जेह रहइ हुयइ सु 'सम्मद्वित्री' जीवु प्राणी कहियइ । सु अनिर्व-^{१५} हतउ हूंतउ 'जइ वि हु' जइपिहिं निर्वोह तणइ कारणि पापु कृपि करणादिकु काई एकु समायरइ 'जइ विहु' ईहां 'हु' शब्दु तथापि शब्द तणइ अर्थि छइ । तउ पाछइ 'हु' किसउ अर्थु? तथापिहिं पाप-समाचरणिहिं । बीजा छइ जि मिथ्यादृष्टि तीहं नी अपेक्षा करी 'अप्पोसि' । अस्य एह सम्यग्दृष्टि श्रायक रहइ अल्पु स्तोत्रु वंधु ज्ञानावरणादि कर्म तणउ संबंधु हुयइ । 'जेण न निद्वंधस संकुणइ' । जिणि कारणि निद्वंधसु निर्दय थिकउ न करइं । ^{२०}

§584) ईहां सम्यग्दृष्टि नी अपेक्षा बीजा मिथ्यादृष्टि कहियइ । जिम श्वेत नी अपेक्षा बीजउ कृष्णु कहियइ ति पुण गुणस्थानस्वरूपि मणियइ हूंतइ सम्यग् जाणियइ । तिणि कारणि गुणस्थान लिखियइ ।

मिच्छे १ सासण २ मीसे ३ अवरिइ ४ देसे ५ पमत्त ६ अपमत्ते ७ ।

निपट्टि ८ अनिपट्टि ९ सुहृदु १० वसप ११ खीण १२ सजोगि १३ अनोगिगुणा १४ ॥

[८३४] ^{२५}

गुण कहियइ ज्ञानादिक तीहं तणा स्थान शुद्धि प्रकर्ष अशुद्धि अपकर्षभूमिभूत आत्मपरिणाम-विशेष गुणस्थान कहियइ । ति पुण पूर्व पूर्व गुणस्थान कन्हा उत्तरोत्तर गुणस्थान विशिष्ट विशिष्टतर । शुद्धिप्रकर्ष अशुद्धि अपकर्षता करी हुयइ । जइ किमइ को कहइ मिथ्यादृष्टि रहइ ज्ञानादिकगुण छइ नहीं । पाछइ तीहं रहइ शुद्धि प्रकर्ष अशुद्धि अपकर्षु । तेऊ ज स्थान शब्द तणउ अर्थु किसी परि तीहां घटइ इसउं न कहिवू । मिथ्यात्वमोहनीय कर्म प्रकृति भेद असंख्यात छइ । तीहं माहि एक सर्वनिकृष्ट छइ ।^{३०} एक सर्वोत्कृष्ट छइ । तत्र ज सर्वोत्कृष्ट स सर्व कृष्णतम छइ । ज सर्वनिकृष्ट स सर्व शुद्धतर छइ । बीजी अंतराल वर्त्तमान सर्वनिकृष्ट तणी अपेक्षा करी अशुद्ध अशुद्धतररूप छइ । तउ पाछइ जे सर्वनिकृष्ट छइ तिणि, तेह आगिली प्रकृति छइ अशुद्ध, तेह तणी अपेक्षा करी शुद्धि प्रकर्षु छइ । अनइ अशुद्धि तणउ अपकर्षु छइ । तथा बीजी प्रभृति प्रकृति पुण बीजी प्रमुख प्रकृति तणी अपेक्षा करी शुद्धि प्रकर्ष अशुद्धि अपकर्षवंत जाणियी । तउ पाछइ मिथ्यात्व जीवहीं रहइ जीहं रहइ निकृष्ट मिथ्यात्वप्रकृति तणउ उदउ छइ तीहं रहइ ज्ञानादिगुण शुद्धि प्रकर्षु अशुद्धि अपकर्षु छइ ॥ तथा च मणितं—

§584) 3 B. पाठांतरं । and drops the rest.

§584) 1 B. drops upto तीहं रहइ ।

§590) दाष्टीतु' भणइ-

एवं अट्टविहं कम्मं रागदोस समज्जियं' ।

आलोयंतो य निंदितो' खिणं हणइ सु सावओ ॥

[८४०]

'एवं' इसी परि किसउ अर्थु !

5 जिम सु बालकु विपमूर्च्छितु मंत्राक्षरार्थु अजाणतो हंतउ मंत्राक्षर प्रभावइतउ निर्विपु ह्यउ तिम मुग्धजनु जदपिहिं प्रतिकमण सूत्रार्थु जाणइ नही तथापिहिं एकि के जीव इसा श्रद्धापरायण' हुयइं जि अजाणताई आपणउ शुद्धउं करइं । न पुण सव्वे । इणिहिं जि कारणि अतिप्रसंगनिपेध निमित्तु 'सु सावओ खिणं हणइ' न पुण श्रावकमनु इसउं कहइं । इसी परि दाष्टीत भावना करी ह्य गाथा-क्षरार्थु लिखियइ ।

10 'एवं अट्टविहमि' ति स विप बालक निर्विप भवन जिम । श्री गीतमस्वामि श्रीसुधर्मस्वामि नाम श्रीगणधरदेव विरचित सलक्षण सूत्राक्षर महाप्रभाववगइतउ अट्टविधु हानावरणीयादिक्कु कम्म 'रागदोस समज्जियं' रागद्वेषहं करी उपाज्जंउं । दिन समइ अनइ रात्रि समइ गुरु आगइ आलोयतउ वचनि करी प्रकासतउ । किसउ अर्थु । जिम बालकु कार्यु अकार्यु बोलतउ हंतउ काई विमरसइ नहीं जु काई मन माहि हुयइ सु कहइ तिम जु पापु जिम कीधउं हुयइ सु पापु तिमहीं जि कहइ, गुरु आगइ प्रकाशइ ।

15 कथनीयमिदमकथनीयमिदं' इसी परि विमासइ नहीं । तथा 'निंदतो' आपणा आत्मा आगइ 'हा दुट्टुकयं, हा दुट्टु चित्थियं अणुमयंपि हा' 'दुट्टु' इत्यादिकि क्रमि करी निंदतउ शोचतउ । 'सु सावओ' सु श्रावकु प्रकृष्ट गुणविशिष्टु गृहस्थ न पुण नाम श्रावकमात्तु । प्रकृष्ट गुणविशिष्टु पुण सु जु पदस्थान युक्तु हुयइ । छ स्थानक पुण ए कहियइ । यथा--

कृतव्रतकर्मा १, शीलवान २, गुणवान ३, ऋजुध्यवहारी ४, गुरुशुभ्रपाकर्ष ५, प्रयचनकुशल ६ ॥

20 तथा च भणितं—

कयवयकम्मो १ तह सीलवं २ च गुणवं ३ च उज्ज ववहारी ४ ।

गुरुसुसूसो ५ पवयणकुसलो ६ खलुभावसहृत्ति ॥

[८४१]

क्षिपु शीघ्रु हणइ निस्सार करइ इति गाथाक्षरार्थः ।

§591) अत्र अट्टविधु कर्म कहइं सु पुण कहिया पासइ जाणियइ नहीं तिणि कारणि संक्षेपिहिं

25 मुग्धजन जाणाविवा कर्मविचारु लिखियइ—

कीरइ जओ जिएणं मिच्छत्ताईहिं चउगइगएणं ।

तेणिह भन्नइ कम्मं अणाइयं तं पवाहेणं ॥

[८४२]

देव मनुष्य तिर्यंच नरकगति लक्षण चत्तारि गति, तिहां वर्त्तमानि जीवि प्राणियइ मिथ्यात्वादिकटं, हेतुहं करी जिणि कारणि कीजइ तिणि कारणि । इह किसउ अर्थु ! जिनशासनि कम्म कहियइ, सु पुण 30 वीजांकुरु जिम प्रवाहि करी अनादि किसउ अर्थु ! जिम वीज हंतउ अंकुर अंकुर हंतउं धीजु हुयइ इसी परि अनादि छइ, तिम पूर्व कर्म लगी संसार' हुयइ संसार लगी कम्म हुयइ । इसी परि अनादि कम्म छइ । एह जु अर्थु भणित 'अणाइयं तं पवाहेणं' । तेह कर्म नउ वंधु चतुर्विधु हुयइ । यथा—

§592) 'पगइबंधो त्रिबंधो अणुभागबंधो पपसबंधो तथ पगइबंधो अट्टविहो । तंजहा—

नाणावरणीयं १, दंसपावरणीयं २, वेयणीयं ३, मोहणीयं ४, आउयं ५, नामं ६, गायं ७

35 अंतरार्थं ८, मूलमेया इमे, एसिं उत्तर मेया । तंजहा— नाणावरणीयं पंचविहं— तंजहा—

§590) 1 i. e दशत । 2 B - विवज्जिय । 3 i. e निदता । Bh. 4 भदानपरायण. 5 Bh. सुश्रावरा

§591) 1 Bh. adds, in the margin, प्रबल ।

मइनाणावरणीयं, सुयनाणावरणीयं, ओहिनाणावरणीयं, मणप्पज्जयनाणावरणीयं,
केवलनाणावरणीयं ।

§593) दंसणावरणीयं नवविहं तंजहा-चक्खुदंसणावरणीयं, अचक्खुदंसणावरणीयं, ओहिदंसणावरणीयं, केवलदंसणावरणीयं, निद्दा निद्दानिद्दा पयला पयलापयला रथीणद्धी ।

§594) वेयणीयं डुविहं, तंजहा सायवेयणीयं असायवेयणीयं ।

5

§595) मोहणीयं अट्टावीसविहं, तंजहा-

तत्र - दंसणमोहणीयं तिविहं, मिच्छत्तं सम्ममिच्छत्तं सम्मत्तं च, चरित्रमोहणीयं डुविहं कसाय चारित्रमोहणीयं नोकसाय चारित्रमोहणीयं । तत्थ कसाय चारित्रमोहणीयं सोलसविहं तंजहा-

अणंताणुबंधि कोहकसाय चारित्रमोहणीयं, अप्पच्चक्खण कोहकसाय चारित्रमोहणीयं, सपच्चक्खण¹ कोहकसाय चारित्रमोहणीयं, संजलण कोहकसाय चारित्रमोहणीयं ४, अणंताणुबंधि माणकसाय 10 चारित्रमोहणीयं, अप्पच्चक्खण माणकसाय चारित्रमोहणीयं, पच्चक्खण माणकसाय चारित्रमोहणीयं, संजलणमाणकसाय चारित्रमोहणीयं, ८ अणंताणुबंधि मायाकसाय चारित्रमोहणीयं, अप्पच्चक्खण मायाकसाय चारित्रमोहणीयं, पच्चक्खण मायाकसाय चारित्रमोहणीयं, संजलण मायाकसाय चारित्रमोहणीयं १२, अणंताणु लोभकसाय चारित्रमोहणीयं, अप्पच्चक्खण लोभकसाय चारित्रमोहणीयं, पच्चक्खण लोभकसाय चारित्रमोहणीयं, संजलण लोभकसाय चारित्रमोहणीयं १६ । 15 नोकसाय चारित्रमोहणीयं, नवविहं तंजहा-

हास नोकसाय चारित्रमोहणीयं, रति नोकसाय चारित्रमोहणीयं, २ अरति नोकसाय चारित्रमोहणीयं ३, भय नोकसाय चारित्रमोहणीयं ४, सोग नोकसाय चारित्रमोहणीयं, दुगंछा नोकसाय चारित्रमोहणीयं, स्वीवेद नोकसाय चारित्रमोहणीयं, पुरुषवेद नोकसाय चारित्रमोहणीयं ८, नपुंसक वेद नोकसाय चारित्रमोहणीयं ९ ।

20

§596) आउयं चउव्विहं तंजहा-

नरयाउयं, तिरियाउयं, मणुयाउयं, देवाउयं, ४ ।

§597) नामं बायालीसविहं तंजहा-

गइनामं १, जाइनामं २, सरीरनामं ३, अंगोवेगनामं ४, विहायोगतिनामं ५, वंधणनामं ६, संघयणनामं ७, संठाणनामं ८, संघायणनामं ९, फरसनामं १०, रसनामं ११, गंधनामं १२, वन्ननामं १३, आणुपुच्चिनामं १४, अणुगुल्लुनामं १५, उवघायनामं १६, पराघायनामं १७, आयवनामं १८, उज्जोयनामं १९, उस्सासनामं २०, निम्माणनामं २१, पत्तेयसरीरनामं २२, साहाण्ण सरीरनामं २३, तसनामं २४, थावरनामं २५, सुभगनामं २६, हुभगनामं २७, सूतरनामं २८, दूसरनामं २९, सुहनामं ३०, असुहनामं ३१, सुहुमनामं ३२, बायरनामं ३३, पज्जत्तनामं ३४, अपज्जत्तनामं ३५, यिरनामं ३६, अथिरनामं ३७, आइज्जनामं ३८, अणाइज्जनामं ३९, जसनामं ४०, अजसनामं ४१, तित्थयरनामं ४२ ।

30

§598) गीयं डुविहं, तंजहा उच्चगोयं^१, नीचगोयं २ ।

§599) अंतराइयं पंचविहं, तंजहा-

दाणंतराइयं १, लाभंतराइयं २, भोगंतराइयं ३, उवभोगंतराइयं ४, धीरियंतराइयं ५, । पगइ-बंधो संमत्तो ।

§600) अहं डिइबंधो भइइ - नाणावरणीयस्स दंसणावरणीयस्स वेयणीयस्स अंतराइयस्स 35 तीसं कोट्टाकोट्टीओ सागरौवमाणं । उक्कोसा डिइ पन्नत्ता - मोहणीयस्स सत्तरि सागरोवम काटाकोट्टीओ

नामस्स गोयस्स य वीस सागरोवम कोडाकोडीओ आउयस्स तिन्तीसं सागरोवमा पुव्वकोडी तिभाभ-
सहिया । नामगुत्ताणं जहन्ना ठिई अट्टमुहुत्ता वेयणीयरस वारसमुहुत्ता अंतोमुहुत्ता सेसाणं । ठिइबंधो
सम्मत्तो ।

सुभासुभकर्मपुद्गलेसु जां रसो सो अणुभागो वुच्चइ । तत्थसुभेसु महुरो रसो, अहभेसु अमहुरो
५ रसो, तस्स बंधो अणुभागबंधो ।

अणुभागबंध विचारु गहनु छइ तिणि कारणि विस्तरि करी लिखिउ नहीं ।

अणुबंधो सम्मत्तो ।

§601) पपसा कम्मवग्गणा, खंधा तीहं तणउ बंधु, जीवप्रदेसहं सउं वह्नि लोह संबंध जिम
अथवा खीर नीर संबंध जिम जु एकरूपता भवनु सु प्रदेसबंधु कहियइ । तथा च भणितं—

१० जीविकर्मप्रदेशानां यः सम्बन्धः परस्परम् ।

कृशानुलोहवद्वेतोस्तं बन्धं जगदुर्वुधाः ॥

[८४३]

सु पुण सृष्ट्र वद्ध निधत्त निकाचित करणभेदइतउ चतुर्विधु हुयइ । समूहगत सूचिका समवाय
जिम सृष्ट्र कर्मबंधः । दवरकवद्ध सूचिका संबंधवद्ध कर्मबंधः । वर्षातरित दवरकवद्ध सूचिका संबंध-
वद्विद्धत्त कर्मबंधः । अभिध्मात् सूचिका समवायमेलवन्निकाचित कर्मबंधः । अथवा कोरी भीति उपरि

१५ चूर्ण पूर्ण पुट्टलिका खोटियइ तउ चूर्ण तणउ परागु भीति लागइ तिम जीवप्रदेसहं अनइ कर्मप्रदेशहं
रहइं जु संबंधु हुयइ सु सृष्ट्र कर्मबंधु कहियइ १ ।

भीनी भीति चूर्ण पुट्टलिका पखोटणि कीधइ इंतइ भीति सूकी हुंती जु चूर्ण संबंधु भीति
रहइं तेहं सरीखउ जीवप्रदेस कर्मप्रदेस संबंधु जु जुयइ सु वद्ध कर्मबंधु कहियइ २ ।

छोह टीप सरीखउ जीविकर्म प्रदेसहं रहइं जु संबंधु सु निधत्त कर्मबंधु कहियइ ३ ।

२० सर्व धोल छोह सरीखउ जीविकर्म प्रदेसहं रहइं जु संबंधु सु निकाचित कर्मबंधु कहियइ ४ ।

एउ सगल्ल पूर्वभणितु संक्षेपिहिं प्रदेसबंधु कहियइ । एह तणउं सविस्तरु स्वरुपु गहनु छइ तिणि
कारणि लिखिउं नहीं । 'पपसबंधो सम्मत्तो' ।

इति संक्षेपिहिं कर्म तणउ विचारु लिखिउ छइ । जु को विस्तरि करी कर्म विचारु जोयइ तिणि
कर्मग्रंथ पटी, गुरु कन्हइ वखाणावी, अर्थु हिया माहि अग्यारी करी सदा चीतवियउ । अनेराई धद्धा

२५ नवंतहं भविकलोरुहं आगिलइं गमइं सु निधिन्नु जाणतां हुंतां कहियउ । संदाइ इंतइ पुण कहियउ नहीं-
मिथ्यात्व प्ररूपणा भयइतउ ।

§602) अथ 'एवं अट्टविहं' इत्यादि गाथा करी जु अर्थु कहिउ सोई जि अर्थु विदोपि करी
कइइ ।

कयपावो वि मणूसो आलोइय निंदिओ गुम्सगासे ।

३० होइ अइरगल्लहुओ ओइरियभरुव्भ भारवहो ॥

[८४४]

'कय पावो वि' ईहां 'अपि' शब्दु अकृत पाप रहइं संप्रदाथु । तउ पाछइ इमउं अर्थु-जिणि
थोउउं सउं पापु कीधउं हुयइ सु जिम 'अनुदरा कन्या' इसइ भणियइ उदर पान्ह कन्या गमियइ । म
पुण संभवइ नहीं तिणि कारणि 'तुच्छोदराकन्या' गमियइ तिम संसारी प्राइहिं अकृतपाप पुरुष संभवइ

नहीं । पाछइ अकृतपापु इमइ भणियइ तुच्छपापु पुरुष लामइ । तउ पाउइ न पुण अकृतपापु तुच्छपापु
३५ पुरुष कृतपापु विरचित प्रचुरपापु पुरुष पुण गुम्सगामि आलोचितु । किमउ अर्थु ? जिम पापु कीधउं

601) 1 Bb. adds भणि । 2 B. omitt.

602) 1 Bb. भणिइ । 2 B प्राई ।

हुयइ तिमहिं जि जे किमइ कृतालोचनु हुयइ । तथा आपणीं मावि निंदितु किसउ अर्थुं ' हा डुडु कय ' इत्यादि प्रकारि करी कृतात्मनिंदनु हुयइ । तउ जिम 'ओहरिय भरुव भारवहो' । किसउ अर्थुं ? 'भारवहु' भणियइ भार ऊपाडणहारु पुरुषु । 'ओहरियमरो' किसउ अर्थुं ? मुक्तभार हतउ 'होइ' हुयइ, किसउ हुयइ ? 'अइरेग लहुओ' । अति हलयउ हुयइ, तिम श्रावक पुण पापभार रहितु हंतउ अतिरेकलयु । अति हलयउ तुवक जिम ऊर्द्धुगामी हुयइ । अत्र 'मणसो' ईहा मनुष्य ग्रहणु मनुष्यही जि रइइ प्रति 5 क्रमण योग्यता जाणाविवा निमित्तु कौधउं ।

§603) अथ पकदायारभवत ही श्रावक हीं रइइ आवश्यकि करी मुक्ति हुयइ । इसा अर्थ प्रकटिया कारणि कहइ—

आवस्सएण पएण सावओ जइ वि वहुरओ होइ ।

दुक्खाणमंतकिरियं काही अचिरेण कालेण ॥

[८४५] 10

श्रावकु गृही 'जइ वि वहुरओ होइ' जदपिहिं बहुपाप कर्मारु हुयइ । तथापिहिं 'सामादय चउवीसत्यो' वदण³ पडिक्कमण काउस्सगो पच्चकलाण' इत्येवंरुपु जु छइ छट्ठिहु भावावश्यकु तिणि करी, न पुण दंत मुख क्षालनरूपु उइ द्रव्यावश्यकु तिणि करी 'दुक्खाणमंत किरियमि'ति । सारीर मानस एक्षण छइ दुक्क कइ तीह नीं 'अतकिरिया' विनासु । 'काही अचिरेण कालेण'ति । अचिरि थोडइ कालि समइ करी करिसिइ । दुक्क नीं अतकिरिया मुक्ति कहियइं । तेह रइइ अनतरु हेतु ययारयातु चारितु 15 परपरा हेतु एउ आवश्यकु पुण हुयइ जिम श्रेष्ठि सुसंशन रइइ ह्यउ ।

§604) अथ जि के वीसरिया छइ अतीचार तीह रइइ पडिक्कमिवा निमित्तु कहइ—

आलोयणा बहुविहा नयसंभारिया पडिक्कमणकाले ।

मूलगुण उत्तरगुणे तं निंदे तं च गरिहामि ॥

[८४६]

एक विवस माहि अथवा रात्रि माहि जु जु वस्तु इन्द्रिय मनोभिरामु अथवा अणभिरामु जीवु 20 देसइ सामलइ अणुहवइ । तेह तेह वस्तु विपइ आत्तंध्यानरीद्रध्यानवसु हतउ जेतला विकल्प कल्पद तेतला वली बलता सामरइ नहीं । अत आह—

आलोयणा बहुविहा । आलोचनीय गुरु आगइ प्रकाशनीय पापस्थान बहुविध प्रभूतप्रकार ति पुण मूलगुण पाच अणुव्रत उत्तरगुण त्रिन्हि गुणव्रत चत्तारि शिक्षाव्रत 'तीह' नइ विपइ पडिक्कमणकालि आलोचनादि निंदा गरिहाएसरि सांभरी नहीं चित्ति आवी नहीं । चित्तान्यतादि प्रमादयसहतउ 'तं 25 निंदे तं च गरिहामि' । पूर्ववद ।

§ 6) ' एवं इसी परि प्रतिक्रमण कारकु आलोचना निंदा गरिहा करी धर्मापना निमित्तु कार करी अभ्युत्थयतु हतउ । 'तरस धम्मस्स केवलि पछत्तस्म' इसउं मन माहि करतउ हतउ भाव मगल गर्भुं ।

अन्मुट्ठिओमि आराहणाए विरओ मि विगहणाए ।

तिविहेण पटिंतो वंडामि तिणे चरव्वीमं ॥

[८४७]

केवलिप्रदाता सर्वहभापित तेह धर्म, किमउ अर्थुं ?

ध्याकधर्म तणी आराधना पूर्णलाभु तह निमित्तु 'अग्नि' एउ अम्युत्थितु उपमवयं तह तणी विराधना वदना तेह हतउ विस्तु निवसितु । 'तिविहेण पडिक्कतो' इति मन यच्चन काय एक्षण छइ विनि

करण तिग्ने तिग्नेहि करणि करी पडिंत्तु प्रतिंत्तु पापकर्म हुंतउ निवृत्तु 'यंदांमि जीणे चउव्जीमं' ति ।
जिन मत्पभादिक श्री मापीरिखमान चउवीस वांइउं इति अंतभाय मंगलं ।

तथा च भणिसं-मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि श्रेयस्कराणि भवंति—
इसी परि भापजिन वांड़ी करी स्थापनाजिन चंडना निमिचु मणइ—

जांति चेइयां उट्टेय अहे य तिरिय लोए य ।

सव्वाइ तां वंटे उह संतो' तत्थ संताइ' ॥४४॥ मुगमा [८४८]

नयरं इह संतो' इंतो हुंतउ एउ तत्थ संताइ' तिलां त्रैलोक्य माहि हुंतउ जेतलां चैत्य ऊद्धूलोकि
अधोलोकि तिर्यग्लोकि छइं तेतलां सट्टे वांइउं ।

§606) अत्र प्रस्तावइतउ त्रैलोक्यगत चैत्यसंगत्या विवसंरया च स्तवनि करी लिखियइ—

श्री ऋषभवर्द्धमानकचन्द्राननारारिपेण्णजिनचंद्रान् ।

तद्भवनविम्बमानानुकीर्त्तनेनेप संस्तोमि ॥ [८४९]

भवनपनिवानमन्तरतारकवैमानिकालयेषु वराः ।

त्रिद्वाराः श्रुतभणिताः प्रत्येकं पञ्चपञ्चसभाः ॥ [८५०]

जन्माभिपेरुभूपा व्ययासिति सौधर्मनामिकास्तास्तु ।

मुरमण्डपादि मण्डपमणिपीठस्त्वपचद्वाराः ॥ [८५१]

स्तूपे स्तूपे दिशि दिशि प्रतिमैकैकास्तिस्तदनु पीठगतौ ।

धर्मध्वजचैत्यतरु प्रवरजला तदनु पुष्करिणी ॥ [८५२]

§607) भवनपतीनां मध्ये माणितोरणकलसकेतनछत्रैः ।

चैत्यानि सन्ति कोट्यः सप्तदासप्ततिलक्षाः ॥ [८५३]

त्रिद्वाराणि सुरत्नस्तम्भसहस्रोच्छ्रितानि चैत्यानि ।

एषु मुरमण्डपाद्यं सभावदुक्तं श्रुते सर्वं ॥ [८५४]

द्वाविंशदुच्चभागे पञ्चाशद्योजनानि दीर्घत्वे ।

माथिम्नि च पञ्चविंशतिरितेपां मानमसुरेषु ॥ [८५५]

तन्नेमिप्रमितानि तु नागादिषु नवसु तानि भणितानि ।

तन्मध्ये प्रत्येकं प्रतिमा अप्योत्तरं च शतम् ॥ [८५६]

पाटिः सभासु पञ्चसु विंशं शतमस्ति जिनगृहेध्वेवं ।

भवने भवने वन्दे प्रतिमानां शतमशीत्यधिकम् ॥ [८५७]

त्र्यधिकानि च दशकोटी शतानि सेकोननवति कोटीनि ।

लक्षाणि पष्टिमेवं नमामि भवनेषु विम्बानाम् ॥ [८५८]

§608) क्रींशाधिकं पद्मयोजनं पृथूनि तद्विगुणितायतानि तथा ।

नवयोजनोन्नतानि व्यन्तरनगरेषु चैत्यानि ॥ [८५९]

त्रिमुरखान्यामितानि पुनरुदन्ति चैत्यानि पूर्वमुनिवृषभाः ।

ज्योतिर्व्यन्तरकाणां सुराजधानीषु चेदंशि ॥ [८६०]

§605) 1 B Bb सभो । 2 B Bb सभा-1

§607) 1 B Bb कलस । 1 e कलस ।

ज्योतिष्केषु विसंख्या जिनालयास्त्रिदशमालया महिताः ।
तेष्वप्यसंख्यसंख्याः संख्यावाद्भिः स्तुताः प्रतिमाः ॥

[८६१]

§609) दशकल्पनिवासीन्द्राश्रत्वारिंशच्च लोकपालसुराः ।

शक्रेऽज्ञानमहिष्यः षोडश तद्राजधानीषु ॥

[८६२]

द्विदश भवनपतीन्द्रास्तद्देव्योन्द्रादशोत्तरं च शतम् ।

5

तदशीति लोकपालास्तेषामपि राजधानीषु ॥

[८६३]

नन्दीश्वर रुचकादिषु शतद्वयं चतुरशीति संयुक्तम् ।

स्वाविमानश्रुवनजिनगृहसमानमंचामि चैत्यानाम् ॥

[८६४]

नन्दीश्वरे द्विषञ्चाशद्रुचके कुण्डले च चत्वारि ।

योजनशतपञ्चाशद्वासप्तति दीर्घपृथुलोच्चाः ॥

[८६५]

10

जिनश्रुवनपाट्टिरेषा चतुर्मुखा तदपरे^१ त्रिमुखा ।

अभयत्र प्रतिवक्त्रं मुखमण्डप मुख्यपट्टं च ॥

[८६६]

त्रिमुखे चतुर्मुखेषु च चैत्ये बन्देऽष्टशतमिताः प्रतिमाः ।

स्तूपाश्रितास्तु वक्त्रे द्वादशषोडश यथासंख्यम् ॥

[८६७]

§610) प्राच्यां सप्तविंशतिरर्चा ऋषभस्य चान्यतीर्थेऽगाम् ।

अन्यदिशासु ऋषतस्तथैकशः स्तूपगाः प्रतिमाः ॥

[८६८]

15

मेरुष्वशीतिरेका वक्त्रकारेष्वशीतिरपरा च ।

वर्षनगेषु त्रिंशद्विंशतिरिभदन्तकेषु तथा ॥

[८६९]

चत्वारि चेषुकारा चलेषु मनुजोत्तरे च चत्वारि ।

दिशतीमष्टादश वा नमामि चैतानि चैत्यानि ॥

[८७०]

20

एतेषामिदमुक्तं प्रमाणमिह योजनानि पट्टविंशत् ।

पञ्चाशदूर्ध्वपञ्चाशद्रुच्यया यामपृथुतासु ॥

[८७१]

§611) दिग्गजचत्वारिंशत्सु मेरुचूलासु पञ्चसु^१ दीर्घेषु ।

वेताङ्गेषु च सप्ततिशतं च जम्बूतराविकम् ॥

[८७२]

तत्परिवेषे जम्बूशिलरिष्वष्टोत्तरं शतं च तथा ।

तद्ब्रह्मे वनपण्डे चाष्टौ दिग्निदिग्बल्यानात् ॥

[८७३]

25

अन्येषु नवसु चैतच्छाल्मलिमुत्सवेषु निसिलमवसेयम् ।

सप्तत्याधिकैकादशशतानि चैत्यानि कुरु दशके ॥

[८७४]

काञ्चनगिरिषु सहस्रं त्रिंशती साशीतिरस्ति कुण्डगता ।

विंशतिरिह यमकस्था सुवृत्तवेताङ्गया सेव ॥

[८७५]

30

पद्मादिषु वाशीतिर्गङ्गादिषु सप्ततिश्च चैत्यानि ।

स्थानरुदशरुशान्पि समानि मानेन चेषानि ॥

[८७६]

§609) 1 B. तदपरे । Dh. तदपरेवने ।

§611) 1 B. omits. -सु ।

चत्वारिंशत्समाधिकभनुधतुः पूर्वदशगतसमुच्चाः ।

श्रोशायामाशोशाद्धं पृथुला चैत्यमालेयम् ॥ [८७७]

पञ्चशती विसहस्री चैत्यानां सप्तदशयुता भूमौ ।

द्वाविंशतिः सहस्रा लक्षचतुष्कं शतद्वितयम् ॥ [८७८]

साशीति च विम्बानां तिर्यग्लोके मयाचर्यते भक्त्या ।

कल्पेषु जिनावासा नन्दीश्वरचैत्यसप्ततुल्याः ॥ [८७९]

§612) सप्तनवतिः सहस्राश्चैत्यानां चतुरशीतिलक्षाश्च ।

त्रियुक्तविंशत्याधिकाः सुरलोके तेषु विम्बानाम् ॥ [८८०]

कोटीशतं द्विपञ्चाशत्कोट्यो लक्षकाश्चतुर्नवतिः ।

स सहस्रचतुश्चत्वारिंशत्पट्ट्याधिकसप्तशती ॥ [८८१]

कोटयोष्ट सप्तपञ्चाशलक्षाः पञ्चकं शतानां च ।

चत्वारिंशत्सहितं त्रिभुवन चैत्यावाल्लि बन्दे ॥ [८८२]

फनकमयी तनुपाष्टिः करचरणनखादिकाः परेऽव्ययाः ।

शाश्वतजिनविम्बानां रक्तादिकवर्णरत्नमयाः ॥ [८८३]

मणिपीठोपरि देवच्छन्दः सिंहासनं च तस्योर्ध्वम् ।

पर्यङ्कासनसंस्था ऋषभसमाः शाश्वतप्रतिमाः ॥ [८८४]

पृष्टे च्छत्रधराचर्चा पार्श्वे द्वे चामरग्रहे प्रतिभे ।

नागौ भूतौ यक्षौ कुण्डधरौ द्वौ प्रति प्रतिमम् ॥ [८८५]

कोटिशतपञ्चदशकं द्विकचत्वारिंशतामिताः कोट्यः ।

लक्षाष्टा पञ्चाशत्साहस्री सप्तपष्टिश्च ॥ [८८६]

चत्वारिंशत्कलिता त्रैलोक्ये शाश्वतीरिमाः प्रतिमाः ।

नित्यं नमामि भक्त्या पराणि तीर्थान्यपि प्रमदान् ॥ [८८७]

शान्तः प्रमोद्गुलकाङ्कित काययष्टि-

स्तोषामुवाहविमलीकृतवृष्टदृष्टिः ।

यः स्तोम्यते सकलशाश्वततीर्थराज-

स्तोमं गमिष्यति रमां स जिनाधिराजः ॥ [८८८]

इत्थं स्तुताः श्रुतसमाहितशान्तचित्त-

विद्याधरैर्गणधरैरसुरैः सुरैश्च ।

त्रैलोक्यशाश्वतजिनप्रतिमाः समस्ता

महां दिशन्तु तरुणमभयादृशं स्वाम् ॥ [८८९]

इति त्रैलोक्यशाश्वतजिनप्रतिमाप्रमाणस्तवनं समाप्तमिति ।

§613) आठकोडि सत्तायनलाख पांचसहं चियाल शाश्वतचैत्य त्रैलोक्यगत एह स्तवन माहि

काहियां छहं । पनरह कोडिसहं बश्तालीस कोडि अठ्ठावन लाख सत्तसहस्रसहस्र चियालीसे आगला शाश्वत

प्रतिमा सर्वे संख्या करी एह स्तव माहि काही छहं । तत्र सात कोडि बहत्तरिसय सहस्र भवनपति माहि

३५ शाश्वत चैत्य छहं । यथा—

असुरा १ नागा २ विञ्जू ३ सुवन्न ४ अग्नी य ५ वाय ६ धणिया य ७ ।

उदही ८ दीव ९ दिसा १० त्रि य दस भेया भवणवासीणं ॥

[८९०]

तत्र-असुर निकाय माहि चउसट्टिलाख, नागकुमार निकाय माहि चउरासीलाख, सुवर्ण-कुमार निकाय माहि वहत्तारि लाख, वायुकुमार निकाय माहि छत्रवइलाख । द्वीपकुमार, दिसाकुमार उदधिकुमार, विद्युत्कुमार, स्तनितकुमार अग्निकुमार नामक छई छ निकाय तीहं माहि छहत्तारि छहत्तारि 5 लाख शाश्वत चैत्य छई । एवंकारइ पूर्वोक्त सात कोडि वहत्तारिलाख शाश्वतचैत्य भवनपति माहि इसी परि हुयई । वानमंतर माहि असंख्यात शाश्वतचैत्य हुयई जो इसी माहि असंख्यात शाश्वतचैत्य हुयई । पृथ्वी-तलि त्रिन्हि सहस्र पांचसई सतरह शाश्वतचैत्य भणिया छई । ऊर्ध्वलोकि चउराशीलाख सत्ताणवई सहस्स त्रेवीसे करी अधिक शाश्वत चैत्य छई । तत्र सौधर्म देवलोकि बघीसलाख । ईशान देवलोकि अट्टाधीसलाख । सनत्कुमार देवलोकि वारहलाख । माहेंद्र देवलोकि आठलाख । ब्रह्म देवलोकि चत्तारि-10 लाख । लांतक देवलोकि पंचास सहस्स । महाशुक देवलोकि चियालीस सहस्स, सहस्राक देवलोकि छ सहस्स । आनत देवलोक प्राणत देवलोक विहुं चत्तारिसई । आरण देवलोक अच्युत देवलोकं विहुं त्रिन्हिसई ।

हिट्टिमगे विज्जतिगे एकु सउ इगारोत्तर मज्झिमगे विज्जतिगे एकु सउ सत्तोत्तर । उयरिमगे विज्ज-तिगे एकु सउ विजय वैजयंत जयंत । अपराजित सर्वार्थ नामसिद्धि नामसु पंच पंचोत्तरेसु पंच सासय' 15 चेयाणि ।

एवंकारइ पूर्वोक्त चउरासी लाख सत्ताणवइ सहस्स त्रेवीसे करी अधिक शाश्वतचैत्य ऊर्ध्वलोकि छई । एकि एकि चैत्य गर्भगृह माहि अट्टोत्तरसउ अट्टोत्तरसउ जिनविंब छई । एकि त्रिद्वार चैत्य, एकि चतुर्द्वार चैत्य छई । द्वारि द्वारि स्तूपगत चत्तारि चत्तारि जिनप्रतिमा छई । एवं समा पुण त्रिद्वार छई । द्वारि द्वारि स्तूपगत चत्तारि चत्तारि जिनप्रतिमा छई । एवंकारइ असीसउ असीसउ जिनविंब भवनि भवनि विमानि विमानि 20 छई । तथा पृथिवीगत पुण जि शाश्वत चैत्य छई तिहां पुण पूर्वोक्त साठि चैत्यगत चउवीसउ सउ चउवीसउ सउ जिनविंब छई । बीजे सविहुं वीसउ सउ वीसउ सउ जिनविंब छई । एवंकारइ सर्वत्रैलोक्यगत पनरह कोडि सई बहतालीस कोडि अट्टावनलाग सत्तसट्टि सहस्स चियालीसे करी अधिक जिनप्रतिमा छई ।

इति संक्षेपिहिं त्रैलोक्य शाश्वतचैत्य जिनविंब संख्या कही । विस्तर प्ररूपणा स्तवनार्थइतउ जाणिवी । यथा— 25

‘श्रीक्रपमे’ति । श्रीक्रपम यद्धेमान २ श्री चंद्रानन ३ श्री वारिपेण ४ इसां नामहं करी सर्वइ जिनविंब शाश्वतां वांडी करी । तीहं तणां भयन देवगृह । अनइ विंब प्रतिमा । तीहं तणउं मानु संख्यानु । तेइ तणइ अमुकीसनि सिद्धांतानुवाडि करी ति जिनचंद्र एप एउं ‘संस्तोमि’ संस्तउं कहउं ।

‘भयनपती’ति । भयनपति व्यंतर ज्योतिष्क वैमानिक चतुर्विध देवनिकाय निवासहं माहि । उपपात १ अभिषेक २ अलंकार ३ व्यवसाय ४ सौधर्मोन्निधान पांच पांच समा छई । तत्र उपपात समा 30 माहि छई उपपातशय्या तीहं ऊपरि देव ऊपजइ । अभिषेकसमा माहि स्वर्णरत्न सिंहासनोपविष्ट देव राहं सेवक देव तीर्थोद्दिक सुगंधजलपूर्ण स्वर्णरत्नकलमहं करी अभिषेक करई । अलंकारसमा माहि नानाविध निज पुण्यानुसारि स्वर्णरत्नसुकाळंकार स्ववांछानुमारि पहिरहं । व्यवसायसमा माहि रमणीय स्वर्ण-रत्नमय शाश्वत पुस्तक वाचई, देव नी स्थिति देव जाणई । सुपर्मासमा माहि नमा पूरी देव रक्षीया धिपत्य भोगयई । एक एक समा पूर्वदिशिणेत्तर द्वारद्वय सहित छइ । द्वारि द्वारि मुग्रमंडपु १, अत्तादा-35 मंडप सहित प्रेक्षामंडपु २, मणिपीठस्तूपु ३, मणिपीठ धर्मध्वजु ४, मणिपीठ चैत्यतक ५, पुष्करिणी ६, एवं नामक छ छ वस्तु छई । स्तूपि स्तूपि चत्तारि चत्तारि जिनविंब चतुर्दिग्भिमागागस्थित छई । इत्यार्यां चउ नउ अर्यु ॥ ४ ॥

§614) ‘भयनपर्वातां मध्ये’ इति । इमविध पूर्वमणित असुरादिक छई भयनपति । तीहं तणां निकायहं माहि । मणिमयतोरण मणिमयकलस भुंगार सुगणमय प्यजादिकहं करी उपलक्षित स्तंभ 40

शतसहस्र । संनिविष्ट विशिष्ट भक्त वारण छाजावलि मकरमुख सिंहमुख गजमुख वृषभमुख तुरगमुख
मृगमुखादि रूपकवर्णकाभिराम । सातकोटि वहत्तर लाख चैत्यशाश्वतां छई । ति सर्वई त्रिद्वार मुखमंड
पादिक समोक्त स्थानक पदू सहित छई ॥६॥

‘द्वात्रिंशदुच्चभावे’ इति । तत्र असुरनिकाय माहि चैत्यप्रमाणु । यथा वचीस जोयण ऊंचपणि ।
5 पंचास जोयण लांबपणि । पंचवीस जोयण पिहुलपणि ॥७॥

‘तक्षेमी’ति-। तीहं असुरकुमार निकाय माहि चैत्यहं तणउं नेमि अरुं ।

तेह समान ‘तक्षेमि प्रमित’ कहियई । ‘नागादिपु नवसु’ इति ॥

नागकुमार १, त्रिद्युत्कुमार २, सुवर्णकुमार ३, अग्निकुमार ४, वायुकुमार ५, स्तनितकुमार ६,
उदधिकुमार ७, द्वीपकुमार ८, दिशाकुमार ९, नामक छई नव भवनपनि निकाय तीहं माहि ‘तक्षेमि प्रमित’
10 छई । किसउं अरुं ! सोल जोयण ऊंचपणि ‘तानि भणितानी’ ति ति चैत्य भणियां तीर्थकर गणधरहं
कहियां ॥ तथा पंचवीस जोयण लांबपणि, सार्द्ध द्वादश जोयण पिहुलपणि छई । तीहं सर्वही माहि
अट्टोत्तरसउ अट्टोत्तरसउ जिनप्रतिमा छई ॥८॥

‘पष्टिः सभासु पंचसु’ इति । पूर्वोक्त जि छई पांच पांच सभा तीहं तणां द्वारहं त्रिन्दि त्रिन्दि
जि छई स्तूप तिहां छई द्वादश द्वादश प्रतिमा । वार पंचउं साठि ति साठि प्रतिमा । अनइ वीसउं सउ
15 विंव जिनभवन माहि । यथा-

अट्टोत्तर गभारा माहि, वारह विंव स्तूप त्रय तणां सर्वई मिलीयां वीसउंसउ । अनइ साठि सभा
तणां इसी परि भवनि भवनि प्रतिमा तणउं असीसउ यांउं ॥९॥

अथ भवनपति विंव प्रमाणु कहियई-

‘त्रयधिकानि च दशकोटी शतानी’ ति । त्रिहुं करी अधिकदश कोटि सई । किमउ अरुं ! तेरह
20 कोटिसई, इगुणनवइ कोटि, साठि लाख विंव, सर्थ भयगन छई ॥१०॥

§615) अथ द्यंतर नगरगत चैत्यमानु करियई । नर जोयण ऊंचपणि, सार्द्धद्वादश जोयण
लांबपणि, छ जोयण पकु गाऊ पिहुलपणि, द्यंतर नगरहं माहि चैत्य छई ॥११॥

‘त्रिसुपानी’ ति सुगमा ॥१२॥

‘ज्योतिष्केप्य’ ति । ज्योतिर्निकाय माहि, ‘विसंग्य’, किमउ अरुं ! अमंग्यात जिनालय छई ति
25 पुण त्रिदशमाला देवनिकाय तेहे ‘मलित’ पूजित छई । ‘तेजस्यसंग्यसंग्या’ इति । ‘अपि’ शब्द
समुच्चइ आर्थ । न केरलं द्यंतरगत असंग्यात छई तीहं माहि असीसय असीसय जिनप्रतिमा भाषि करी
जिनप्रतिमा पुण अमंग्यात संग्यावतलं मटापुद्धिसंतरे पडितरं ‘सुनाः’ किमउ अरुं ? कथियाः ॥१३॥

§616) अथ पृथिवीस्थिती धैत्य सांक्षियई । ‘द्वगत्वे’ ति । ‘द्विर्द्वी’ ति । ‘नदीश्वरे’ ति
सौधभेद १, ईशानेद २, सनत्कुमारेंद ३, मालेंद ४, ब्रह्मेद ५, लांतरेद ६, मटापुद्धिद ७, शरधार्थद ८,
30 प्राणतेद ९, अच्युतेद १०, इमां नानहं छई द्वगत्वे जिनामैदं द्वा देवलोक तणा द्वा इंद्र । तीहं द्वाती
इंद्रं तणा चत्तारि चत्तारि लोकपाल सुरदेवतइकई चियालीम लोकपाल देउ । तथा ‘द्वेःशान
माहिप्य’ इति । सौधभेद ईशानेद तणी आठ आठ अपमदिपी । आठ पूणउं सोल तीहं इंद्रादिकतं तणी
यथासंग्य द्वा चियालीम सोलस संग्यात छई राजधार्थी नि पुण सई संग्या करी छामट्टि छई तीहं
माहि । १४ ॥

‘द्विदश’ वि वार दश, वीमसंग्य भजनवीदं चमरेद १, वरींद २, धर्येद ३, भूतानेद ४,
35 वेणुवेद ५, वेणुदालेंद ६, हरिकानेंद ७, हरिमरेद ८, अग्निवेद ९, अग्निनागरेद १०, पूजेद ११.

§614) 1 B. -स्तरं- 2 B. omitt. 3 B B. -सई ।

§616) 1 B. omits 2 B. अग्निदेः ।

विशिष्टेन्द्र १२, जलकान्तेंद्र १३, जलप्रभेन्द्र १४, अमितगतीन्द्र १५, अमितगहनेंद्र १६, वेल्वेन्द्र १७, प्रभंजनेंद्र १८, धोषेन्द्र १९, महाधोषेन्द्र २०, इसां नामहं करी प्रसिद्ध । अनइ अटारोत्तरसउ तीहं नी अग्रमहिपी देवी । यथा असुरेन्द्रहं चमरवालि बिहुं रहई पांच पांच अग्रमहिपी । वीजां अटारहीं रहई छ छ अग्रमहिपी । सर्व मीलनि एकसउ अटारहोत्तर । तथा तीहं तणा असी लोफालदेव । सर्वमीलनि विसई अटारहोत्तर तीहीं तणी राजधानी हुयई । पाछिली छासठि राजधानी । अनई विसई अटारहोत्तर राजधानी ए एकठी ५ कीजरं विसई चउरासी राजधानी हुयई । ति सबवइ राजधानी नंदीश्वर रुचकादिकहं द्वीपहं माहि छई । तीहं माहि जि देवलोक तणा देव तीहं तणी राजधानी माहि चैत्य पुण देवलोक चैत्यसमान । जि भवनपति देव तीहं तणी राजधानी माहि पुण जेवडां भवन माहि चैत्य छई तेवडाई जि छई । तिणि कारणि कहिउं 'स्व त्रिमान भवनजिनगृह समानं' स्व आपणां छई विमान अनइ भवन तिहां छई जिनगृह तीहीं रहई मानि करी समानु 'अंचामि' चैत्यानां सयइगु चउरासी करी संयुक्तु चैत्यहं तणउं 'अंचामि' भावपूजा स्तोत्र १० स्तुति करणादिक तिणि करी पूजउ । तथा विद्याधर नरेसर सुरेसर विरचिज्जमाण छइ दिव्यकुसुम कुंडुम कर्पूर कृष्णागुरु मृगमद चंदन नाना नैवेद्यादिकहं करी द्रव्यपूजा तेह तणइ अनुमोदनि अनुवदनि रूपि द्रव्यपूजनि करी पुण पूजउं । १६ ॥ 'नंदीश्वरे' इति-नंदीश्वर नामि आउमइ द्वीपि वाचनचैत्य । यथा—

पुव्वदिसि टेवरमणो १ निच्छुज्जोओ य २ दाहिणदिसाए ।

अवरदिसाउ सयंपधु ३ रमणिज्जो ४ उत्तरे पासे ॥

[८९१] १५

इसा यचनइतउ पूर्वदिशि देवरमणु इसइ नामि देवकां चउरासी सरस्स जोयण ऊंचउ इससरस्स जोयण मूलविक्रमंशु अंजनगिरि छइ । एवडां ई जि दक्षिण दिशि नित्योद्योतु इसइ नामि अंजनगिरि छई । इसू शु पश्चिमदिशि सयंपधु इसइ नामि अंजनगिरि छइ । उत्तरदिशि रमणिज्जु इसइ नामि तेवडाई जि अंजनगिरि छइ । चउट्टं अंजनगिरि चउहं दिशि देवकां लासु लासु जोयण जउ जाइयइ तउ तिहां लाए लाए जोयणप्रमाण चंद्रमंडलाकार सरस्स जोयणावगाह चत्तारि पुष्करिणी छइ । एवकारइ सोल १० पुष्करिणी । यथा—

नंदिसेणा य १ मोहा य २ गोयुब्बा य ३ मुदंसणा ४ ।

नंदुत्तरा य ५ नंदा ६ सुनंदा ७ नंदिवर्द्धणा ८ ॥

[८९२]

भद्रा ९ विसाला १० कुमुया ११ वारसी पुंडरीगिणी १२ ।

विजया य १३ वेजयंती १४ जयंती १५ अपराजिता १६ ॥

[८९३] २५

नंदियेणा १, अमोघा २, गोस्तुमा ३, सुदर्शना ४, नंदोत्तरा ५, नंदा ६, सुनंदा ७, नंदिवर्द्धना ८, भद्रा ९, विसाला १०, कुमुया ११, पुंडरीकिणी १२, विजया १३, वेजयंती १४, जयंती १५, अपराजिता १६, इसां नामहं करी जाएयी । तीए सर्ती पुष्करिणी हुंता चउट्ट दिशि पांच पांच सर जायण जउ जाइयइ तिहां पांच पांच सरं जोयण विट्टलां लासु लासु जोयण लांश एए एक एक भावि करी चत्तारि वनरांठ छई । तउ पूर्वदिशि १ अशोकवनु १, दक्षिणदिशि २ सतपर्णवनु २, पश्चिमदिशि ३ चपकवनु ३ उत्तरदिशि ३० सर्वानुचूतवनु ४ तथा च भणित—

पुव्वेण असोवणं दाहिणउ ताण सत्तवन्नरणां ।

चंपगणमपररेणुरेण सव्याणुच्यवणं ॥

[८९४]

सीहं सोलहो पुष्करिणी मध्य एक ण्टु दधिमुरु पत्याकार देवकां चउमद्विसात्मस जोयण ऊंचउ दममहस्स जोयण मूलविक्रमंशु पर्यंत छइ । एवकारइ सोल दधिमुरु पर्यंत छइ । तउ पाउट्ट चउं अंजनगिरि ३५ पर्यंत सोल दधिमुरु पर्यंत ऊपरि एक एक चैत्यभावि करी वीम चैत्य छई । चउट्ट दिशि पुष्करिणी अंतरालि वि वि रनिकर पर्यंत मत्तम मत्तम जोयण ऊंचवणि झालगी नइ आकारि छइ । सीहं ऊपरि पुण

एक एक चैत्यभावि करी बत्रीस चैत्य छइं । इसी परि वीस अनइ बत्रीस वाचन चैत्य नंदीश्वरि दीवयरि छइं । रुचकु इसइ नामि तेरमउ द्वीपु छइ । कुंडलु इसइ नामि इगारमउ द्वीपु छइ । तिहां चत्तारि चत्तारि चैत्य छइं । एवं सर्व संमीलनि कीधइ साठि चैत्य हुयइं । ति साठि चैत्य सउ सउ जोयण दीर्यपणि' पंचास पंचास जोयण पिहुलयणि बहत्तरि बहत्तरि जोयण ऊंचपणि छइं ॥ १७ ॥

5 'जिन भवने' ति-जिनभवन तणी साठि चतुर्मुखा चतुर्द्वार । वीजां जि के ऊद्धलौकि तिर्यंग्लौकि अधोलौकि चैत्य छइं ति सर्वई त्रिमुख त्रिद्वार छइं । 'उभयत्र' ति-त्रिमुखिहिं, चतुर्मुखिहिं । 'प्रातवक्त्रं' मुखि मुखि । मुखमंडप १, अक्षाटकमंडप सहित प्रेक्षामंडप २, मणिपीठ स्तूप ३, मणिपीठ धर्मच्यज ४, मणिपीठ चैत्यतरु ५, पुष्करिणी लक्षण ६, छ छ पदार्थ छइं ॥१८॥

10 'त्रिमुखे' इति । त्रिमुखिहिं चतुर्मुखिहिं चैत्य अट्टोत्तरुसउ अट्टोत्तरुसउ जिनप्रतिमा वांदउं नमस्करउं । 'स्तूपाश्रिता' इति । स्तूपगत त्रिद्वारि चैत्य द्वाइश प्रतिमा चतुर्द्वारि चैत्य सोल प्रतिमा वांदउं नमस्करउं । 'यथासंख्यं' ॥ अनुकामि करी ॥१९॥

15 §617) 'प्राच्यामि' ति । जि के शाश्वत चैत्य विश्व माहि छइं तीहं सविहुं गभारा माहि पूर्वाभिमुख सत्तावीस धीरूपभ नाम जिनप्रतिमा छइं । दक्षिणाभिमुख सत्तावीस श्रीवद्धमान नाम जिनप्रतिमा छइं । पश्चिमाभिमुख सत्तावीस धीचंद्रानन नाम जिनप्रतिमा छइं । उत्तराभिमुख सत्तावीस श्रीवारिपेण्य नाम जिनप्रतिमा छइं । एवं सत्तावीस चउकु अट्टोत्तरु सउ जिनप्रतिमा गर्भमृत्गत जाणिवी । तथा तिणिहिं जि प्रकारि 'स्तूपगत' स्तूप वर्त्तमान प्रतिमा पुण जाणिवी । किसउ अर्थु ? पूर्वदिशि' धीरूपभजिनप्रतिमा । दक्षिणदिशि' श्रीवद्धमान जिनप्रतिमा । पश्चिमदिशि' धीचंद्रानन जिनप्रतिमा । उत्तर दिशि' श्रीवारिपेण्य जिनप्रतिमा एक एक जाणिवी ॥२०॥

20 'मेरुपरशतिरेके' ति-एकु जंबूद्वीपि वि धातुकी खंडि, छिपुष्करवर ह्रीपादौ, एवं पांच मेरु पर्यंत छइं ! एक एकि मेरुपरति चत्तारि चत्तारि वन छइं यथा--

भूपीइ भइसालं मेहलजुयदेमि दुधि रम्माइं ।

नंदण सोमणसाइं पंडगपरिमंडियं मिदरं ॥

[८९५]

30 भूमितलि भद्रशालु इमइ नामि वनु मेहल जुयालि किमउ अर्थु ! मेरुला परंत मध्यभाग कलिछइं । तिहां नंदनवन सोमनस्यवन इसी नामतें बरी वि वन छइं । 'पंडगपरिमंडियं सिहरामि' ति । पंडपु इमंड नामि वनु मेरुद्वारि छइ । तीहं च उं भद्रशाळादिकहं वनतें माहि चउहं दिनि एक एक चैत्य भावि करी चत्तारि चत्तारि चैत्य छइं । एवंकारइ एक मेरुप्रतिबद्ध सोट चैत्य छइं । एवं अन्य मेरुचउदइ संवद्ध पुण सोल सोल चैत्य छइं । इति सोल पंचउ असीं इसी परि पंचनेमन असीं चैत्य हुयइं । इसीपरि एक असीं चैत्यहं तणी 'यक्षस्कारेण्यश्रितिरपरा' चेति । मरादिदे क्षेत्र माहि त्रिजथांतराट वर्त्तमान सोट यक्षस्कार पर्यंत छइं । पंचमहादिदेगत सोल पंचउ असीं इति असीं यक्षस्कार पर्यंत हुयइं । तिहां एक एक चैत्य भावि 30 करी वीजी असीं चैत्यहं तणी । 'वर्षं नंगु त्रिंशदि' ति ।

द्विवंन १ महादिमवंन २ पव्वयानि सउ ३ नीळवंना य ४ ।

रूपी ५ मिहरी ६ एने वा महरागिरी मुणेपव्वा ॥

[८९६]

पूर्वपर-ममुद्रल्लोभयमांतु सुवर्णमय देवता जोयणमय मनुच्यु तिमरंन परंतु मरुतक्षेत्र पर-भागवती इइ ।

53 विमरं जोयण मनुच्यु सुवर्णमय पूर्वपरममुद्रल्लोभयमांतु महादिमंतु परंतु देमन क्षेत्र पर-भागवती इइ ।

पूर्वापरसमुद्रलक्षोभयप्रांत चत्वारिसदं जोयण समुच्चु रक्तरत्नमयु निपथु नामि पर्वतु हरिवर्ष-
क्षेत्र परभागवर्त्ती छदं । महाविदेहक्षेत्र परभागवर्त्ती निपथ समानु नीलमणिमयु नीलवंतु पर्वतु छदं ।
महाहिमवंतं समानु रम्यकक्षेत्र परभागवर्त्ती रुक्मी पर्वतु छद । हिमवंत समानु ऐरप्यवतक्षेत्र परभाग-
वर्त्ती शिपरी पर्वतु छद ।

इति हिमवंत १, महाहिमवंत २, निपथ ३, नीलवंत ४, रुक्मी ५, शिपरी ६, इसां नामहं छ वर्ष-
धरे-पर्वत जंबूद्वीप माहि वार धातुकी खंड माहि छदं । वार पुष्करवर द्वीपार्द्ध माहि छदं । एवं कारइ त्रीस
वर्षधर पर्वत सर्व संख्या करी हुयदं । तिहां एक एक चैत्यभावि करी वर्षनगहं वर्षधर पर्वतहं त्रीस चैत्य
हुयदं । 'विदातिरिमदंतकेपु तथे गति । एक एक मेरु पर्वत विदिशि वर्त्तमान गजदंतकार चत्तारि चत्तारि
गजदंत पर्वत छदं ! पंचमेरुप्रतिबद्ध वीस गजदंत पर्वत हुयदं । तिहां एक एक चैत्यभावि करी वीस
चैत्य गजदंत पर्वतहं हुयदं ॥२१॥

'चत्तारि' ति-धातुकीखंड अनइ पुष्करवर द्वीपार्द्ध रहदं द्विखंडीकरण हेतुक जिसा 'इपु' बाण
हुयदं इसा सत्याभिधान चत्तारि इपुकार पर्वत छदं । तिहां एक एक चैत्यभावि करी चत्तारि चैत्य छदं ।
'मनुजोत्तरे च चत्तारि' ति - मानुषक्षेत्र बलयाकारु छद मानुषोत्तर पर्वतु तिणि चउहुं दिशि एक एक
चैत्यभावि करी चत्तारि चैत्य छदं । 'मेरुप्यशीतिरेका' ईहां लगी जि के चैत्य कहियां तीहं सवहीं तणी
संख्या विसदं अढारोत्तर चैत्य हुयदं ति हउं 'नमामि' भावि करी चांदउं ॥ २२ ॥

'प्लेयामी' ति - ईहं विहुं सई अढारोत्तरही तणउं प्रमाणु इसउं सिद्धांत माहि उक्तउं कहिउं ।
छत्रीसजोयण अंचपणि, पंचासजोयण लांबपणि, पंचवीसजोयण पिहुलपणि ॥ २३ ॥

अथ स्थानक इशक चैत्यसमानता निमित्तु कहियइ ।

§618) 'दिग्गज चत्वारिंशदि'त्यादि ॥ आर्या पांच ॥

एक एक मेरु प्रतिबद्ध भद्रशालवन वर्त्तमान गजसमान दिशि'विदिशि' भावि करी आठ आठ
दिशि विदिशि रहदं प्रभय उत्पत्ति हेतु दिग्गजपर्वत छदं । ति सव्यइ मिलिया आठपंचउं चियालीस
दिग्गजपर्वत हुयदं । तिहां एक एक चैत्यभावि करी चियालीस चैत्य हुयदं ॥ १ ॥

'सुमेरु चूलासु पांच' पांच मेरुपर्वत संबंधिनी पांच चूला तिहां एक एक चैत्यभावि करी
पांच चैत्य हुयदं 'दीर्घेषु वेतादयेषु वे' ति । दीर्घ वैतादय सतरिसउ यथा । सातु सउ विजयगत
भरतैरवतगत दस दस सव्यइ मिलिया सतर सउ । तिहां तिहां एक चैत्यभावइतउ सतर सउ चैत्य हुयदं ।
'जंबूतरावेकं' ति उत्तरकुक्ष माहि पृथिवीविकाररूपु जंबू इसइ नामि सुवर्णरत्नमउ वृक्ष छद । जेह नइ
नामि जंबूद्वीपु कहियइ । तेह ऊपरि एकु चैत्यु छद । तेह जंबू नइ परिवेपि पाखतियां अट्टोत्तर सउ
जंबू वृक्ष छदं । तीहं ऊपरि पुण एक एक चैत्यभावि करी अट्टोत्तर सउ चैत्य हुयदं । तीहं जंबू बाहिरि
परिवेपाकार धनखंडु छद । तेह धनखंड माहि दिशिविदिशि एकैकभावि करी आठ चैत्य छदं । एवं कारइ
एक जंबू परिवारि एकु सउ सतरहोत्तर सउ चैत्यहं तणउं छद । 'शालमलिमुख्येषु निखिलमयसेयं' ति ।
एवं इसीं परि देवकुक्ष प्रभृति कहं माहि शालमलिप्रमुख जंबू सरीखा नयवृक्ष नयकुक्ष गत छदं जिम उत्तरकुक्ष
माहि ऐदानदिशि जंबूवृक्षु छद तिम देवकुक्ष माहि नैऋतदिशि शालमली वृक्षु छद इसीं परि धातुकीखंड
पुष्करवर द्वीपार्द्ध माहि वि वि मेरु प्रतिबद्ध कुरु छदं । एवं आठ ए, वि पाछिलो, सव्यइ मिलिया दस
कुक्ष हुयदं । तिहां एक एक वृक्षभावि करी आठ वृक्ष ति हुयदं । तिहां पुण जंबूवृक्ष जिम सतरहोत्तरसउ
सतरहोत्तरसउ चैत्य छदं । एवं कारइ कुरु दसाक इगारसई सतर चैत्य छदं । ४ ॥ २६ ॥

‘कांचनगिरिषु सहस्रामि’ति-महाविदेह माहि सीता सीतोदा नाम नदी मध्यभाविष्या देवकुरु उत्तरकुरु गत पांच पांच द्रह छई ॥ तथा च भणितं—

सीया सीओयाणं बहुमज्जे पंच पंच हरयाओ ।

उत्तरदाहिण दीद्वा पुव्वावरवित्थडाइ णमो ॥

5 सीता सीतोदा बहुमध्य उत्तरकुरु माहि सीता बहुमध्य भाविष्या पांच द्रह । देवकुरु माहि सीतोदा बहुमध्य पांच द्रह । तत्र उत्तरकुरु माहि नीलवंत इसइ नामि छइ गजदंत पर्वत तेह तणा समीप हुंता नीलवंत द्रहु १, उत्तरकुरुद्रहु २, चंद्रद्रहु ३, पेरावतद्रहु ४, माल्यवंतद्रहु ५, इसां नामहं प्रसिद्ध पांच द्रह छई । तथा देवकुरु माहि विद्युत्प्रभाभिधान गजदंतपर्वत समीप हुंता निपधद्रहु १, देवकुरु द्रह २, सूरद्रहु ३, सुलसद्रहु ४, विद्युत्प्रभद्रहु ५, इसां नामहं प्रसिद्ध पांच द्रह छई । ए दसइ द्रह उत्तर 10 दक्षिण दीर्घ, पूर्व पश्चिम पृथुल छई । ईहं दसहीं द्रहहं हुंता दसे दसे जोयणे पूर्वदिशि पश्चिमदिशि द्वादश कांचनगिरि छई । सर्व एक महाविदेह माहि बिसइ कांचनगिरि छई । पांचहीं महाविदेह तणा मेलिया हुंता सहस्र संख्य कांचनगिरि हुयइ । तिहां तिहां एरु एक चैत्य भावइतउ सहस्र कांचनगिरिगत चैत्यहं तणउ हुयइ ॥ ५ ॥

‘त्रिंशतीसाशीतिरस्ति कुंडगता’ । साठि सय विजय माहि वि वि नदी छई जेहे करी विजय 15 पटखंड नीपजई । ति सव्वइ मेलित हुंती त्रिन्हि सई धीसां महानदीय तणां नीपजई । तथा-पांच महा विदेह माहि वारवार विजयांतरालगत महानदी छई । वारपंचउ साठि नदी हुयइ त्रिन्हि सई धीसां अनइ साठि, त्रिन्हि सई असी, नदी हुयइ तीहं तणा प्रपात कुंड त्रिन्हि सई असी हुयइ । तिहां एकैक चैत्यभावइतउ त्रिन्हि सई असी चैत्य हुयइ ६ ।

‘विंशतिरिह यमकस्थे’ति—

20 देवकुराए गिरिणो विचिचकूडो य चिचकूडो य ।

दो जमगपव्यवरा विडंसया उत्तरकुराए ॥

[८९८]

विचित्रकूट १ चित्रकूट इसां नामहं करी प्रसिद्ध देवकुरु माहि वि यमकपर्वत छई । उत्तरकुरु माहि पुण वि यमकपर्वत छई । एवं अपर सर्व देवकुरुत्तरकुरु माहि वि वि यमक पर्वत छई सर्व संख्या करी धीस यमक पर्वत छई । तिहां एकैक चैत्यभावइतउ धीस चैत्य हुयइ । ७ ।

25 ‘सुवृत्तवैताड्यमासेव’ ति । हेमवत १, हरिवर्ष २, रम्यक ३, ऐरण्यवत ४, नाम जंबूद्वीपगत चत्तारि गुगलिया नां क्षेत्र छई तीहं माहि एक एक भावि करी वृत्ताकार चत्तारि वृत्तवैताड्यपर्वत छई । धातुकीखंड पुष्करवर द्वीपाद्धगत वि वि हिमवंत वि वि हरिवर्ष वि वि रम्यक वि वि ऐरण्यवत क्षेत्र छई । तिहां पुण एकैक वृत्तवैताड्य भावि करी सोल वृत्तवैताड्य छई । चत्तारि जंबूद्वीपगत वृत्तवैताड्य अनइ सोल धातुकीखंड पुष्करवर द्वीपगत एवं कारइ धीस वृत्तवैताड्य पर्वत छई । तिहां एकैक चैत्यभावइ- 30 तउ धीस चैत्य छई । ८ ।

‘पद्माद्रिषु चेति—पद्मद्रहु १, महापद्मद्रहु २, तिगिच्छिद्रहु ३, केसरीद्रहु ४, महापुंढरीकद्रहु ५, पुंढरीकद्रहु ६, छ द्रह ७ । अनइ दस द्रह पूविहि महाविदेह माहि कहिया, सव्वइ सोल द्रह जंबूद्वी माहि छई । तथा धातुकीखंड पुष्करवर द्वीपाद्ध माहि बनीसबत्रीस द्रह छई, सव्वइ मिलिया असी द्रह पद्माद्रिह हुयइ तिहां एकैक चैत्यभावइतउ शुथिवाविकार कमलोपरि धर्तमान असी चैत्य छई ॥ ९ ॥

‘गंगादिषु सप्ततिश्च चैत्यानी’ति । गंगा १, सिंधु २, रोहितांसा ३, रोहिता ४, हरिकांता ५, हरिसलिला ६, सीतोदा ७, सीता ८, नारिकांता ९, नरकांता १०, रूप्यकूला ११, सलिला १२, सुवप्र-
कूला १३, रक्षावती १४, ‘इसां नामहं करी प्रसिद्ध चऊद महानदी जंबूद्वीप माहि छई । धातुकीखंड
पुष्करवर द्वीपार्द्ध माहि इसां ई जि नामहं अष्टावीस महानदी छई । सवइ मिलिया गंगादिक सत्तारि
महानदी हुयई तीहं तणां छई प्रपातकुंड तीहं माहि वृथेथी विकार छई कमल । तीहं ऊपरि ऊपरि एकैक ६
चैत्यभावि करी गंगादिकहं महानदीयहं माहि सत्तारि चैत्य हुयई । स्थानक दशकस्थान्यपि ‘समानि
मानेन चेमानि’ दिग्गजचत्वारि ईहां हूता जि अनुकामि करी दस स्थानक तणां चैत्य कहियां ति
सगलाई मानि प्रमाणि करी समान छई ॥ २८ ॥

तेज जु समानु मानु कहियइ । ‘चत्वारिंशदि’ति - चऊदसई त्रियाल धणुह ऊंचपाणि, एकु
कोसु आयामि लांवपाणि, अर्द्धकोसु पिहुलपाणि । ए दसहीं स्थानहं तणी चैत्यमाला देवगृह परंपरा 10
प्रमाणि करी छई ॥ २९ ॥

अथ नंदीश्वरे द्वि पंचाशत् ईहां लगी जि के भूमिगत चैत्य कहियां तीहं तणी सर्व संख्या
कहियइ । ‘पंचाशती’ त्यादि । त्रिन्हि सहस्र पांच सई सतरहोत्तर संख्या करी भूमिगत चैत्य हुयई । अथ
भूमिगत चैत्यविषय संख्याकरणपूर्वक अचियई । ‘द्वाविंशतिरि’ ति । चत्तारि लाल बावीस सहस्र त्रि सई
असी विंव । तिर्यग्लोक माहि मई भक्तिभावि करी अचियई पूजियई । अथ ऊर्ध्वलोक चैत्यमानु नंदीश्वरचैत्य 15
समानता करी कहियइ । ‘कल्पेपु जिनावासा’ इति । सौधर्मादिकहं वारहीं कल्पहं देवलोकहं ‘जिनावासा’
जिनभवन । नंदीश्वरि द्वीपि जेवढां पूर्विहं कहिया तेवढाई जि जिनावास छई ॥ ३१ ॥

§619) अथ देवलोक चैत्यसंख्या कहियइ ।

‘सतनवतिरि’ ति—चउरासी’ लाए सत्तानवइ सहस्र त्रेवीने करी अधिक जिम पूर्विहं व्यक्ति
करी भणियां तिम सुरलोके ऊर्ध्वलोकिक वारेई’ देवलोक नवमावियेके पांचे पंचुत्तरे चैत्य छई । अथ तीहीं 20
जि चैत्यहं तणा जि छइ विंव तीहं तणउं प्रमाणु कहियइ ॥ ३२ ॥

‘कोटीशतमि’ ति—एकु कोटिसउ वाचनकोटि चउराणवइ लाए चउरासी सहस्र घातसई
साठि करी अधिकविषय ऊर्ध्वलोकिकि सर्वसंख्या करी हुयई ॥ ३३ ॥

अथ त्रिभुवनचैत्यसंख्या कथनपूर्वकु वादियई । ‘कोट्योष्टे’ ति—आठ कोटि सत्तान लाए 26
पांचसई त्रियाल त्रिभुवन चैत्यावलि । त्रैलोक्यचैत्यपरंपरा सर्वसंख्या करी वादउं ॥ ३४ ॥

§620) अथ प्रतिभास्यरूपु निरूपियइ ।

‘कनकमयी’ ति—शाश्वतजिनप्रतिमा तणी गात्रयष्टि कनकमयी जात्य सुवर्णमयी सहजि हिं
छई, इसउं नहीं किर्णार्हि घडी । ‘करचरणनखादिकापरेऽप्यया’ इति । ‘आदि’ शब्दइतउ’ धीजार्ह
अवयव जाणिया । ‘रक्षादिक वर्णरत्नमया’ इति । आदि शब्दइतउ’ कृष्णादिक वर्ण जि छई रत्न तन्मय
जिसा हुयई तिसा सहजि हिं छई । यथा कनकमयी गात्रयष्टि, लोहिताक्ष रत्नपरिमेक अंक, रत्नमय नख, 30
तपनीयमय पाणिपादतल, रिष्टरत्नमय रोमराजि, तपनीयमय नाभिचूचक, श्रीवत्स जिह्वा तालु तल,

618) 4 Bh. combines सलिला सुवप्रकूला and adds रक्षा as the fourteenth, it may be more appropriate. It is a later marginal addition in Bh. 5 Bh. स्थान ।

§619) 1 Bh. चउरासी । 2 Bh. वारे ।

§620) 1 Bh. drops words between आदिगात्रयष्टि । 2 B omits हिं ।

रिष्टरत्नमय रमभु^३, शिलाश्याल^१ भणियई पर्यालां तन्नय ओष्ठ, रक्तटिकरत्नमय दंत, लोहितक्ष रत्न-
परिसेक कनकमय नामिका^३, रिष्टरत्नमय अक्षिपत्र, रिष्टरत्नमय नेत्रतारिका, रिष्टरत्नमय भ्रूयास्य,
यज्ञमयी शीर्षपटी, वनकमयी केदाराम्बु, रिष्टरत्नमय भरतकक्षेत्र, एवं इती परि सयांघषय स्वर्णपु
विद्धांशभिरितु आणियउं ।

5 §621) १ ईहा जि अर्थं मृच्यु रतयनु लियियइं ।

नीर्थाधिनाथमृपथं विशु वर्द्धमानं,
चन्द्राननं समभिनम्य च वारिपेण्यम् ।
तेषां सनावननिनायननपु विम्ब-
रूपस्वरूपपरिवर्त्तनमादधामि ॥

[८९९]

10 विम्बानि पंचगनचापमितानि तेषा-
मुत्कर्षरन्ति विमलानि गुसंस्थितानि ।
पर्यंरूपासनभित्तानि पराणि सप्त-
दम्नोच्छ्रितानि मुदितस्तदहं स्तुवानि ॥

[९००]

15 तन्मूलगात्रलतिका फनफलात्मिकास्ति
मौलैर्घटी भवरयज्ञमयी चकास्ति ।
केदावनी फनफकाम्यमयी प्रदाम्ना
केदावरिष्टतरिष्टमयाः समस्ताः ॥

[९०१]

20 भूतारिकासिपुटिकाः कलिरिष्टमय्यः
शोणास्मामिथ्रफनकाणुमयी च नासा ।
स्वेच्छात्मकस्फटिकरत्नमयाथ दन्ता
दन्तच्छदाः परमाविद्रुमरम्यरूपाः ॥

[९०२]

25 स्मश्रूणि^१ रिष्टमणिमर्म्यमयानि जिह्वा-
श्रीवत्सतालुतलचूचकनाभिदेशाः ।
इस्तरुमाभ्युजतलावलपथ दीप्ता
जात्यप्रतप्तपनीयमयाथ तेषाम् ॥

[९०३]

30 कामाकुशा ललितलोहितलोहिताक्ष-
संगन्भिर्तांकमणिगर्भमयाः शुभन्ति ।
रोमावली वपुषि रिष्टमयी वरिष्ठा
विभ्राजते भगवतां सुपमा गरिष्ठा ॥

[९०४]

पृष्ठे समस्ति कलितातपवारणाच्चर्चा
द्दे पार्श्वयोर्विमलचामरधारिके ते ।

§620) 3। e. इम्यु 14 Bh -प्रयत्न । 5 B नागिका ।

§621) 1 Bh adds अत्र स्तवन । 2। e रम- । 3 Bh इमश्रूणि ।

द्वे स्वर्णकुण्डधरयोः करिणोरपि द्वे

द्वे यक्षयोश्च पुरतो वरभूतयोर्द्वे ॥

[९०५]

इत्थं शाश्वतचैत्यविम्बपटलीरूपस्वरूपं मया

सूत्रे साधुमतल्लिकाभिराभितः संकीर्तितं कीर्तितम् ।

येऽदः श्रद्धधते सदाभिदधते तेषां भवत्यंतिके

तूर्णं श्रीतरुणप्रभाभिरुचितं श्रेयः परमुत्पुरम् ॥

[९०६]

॥ इति शाश्वत जिनविंब स्वरूप निरूपकं स्तवर्नं समाप्तमिति ॥

‘गणिपीठे’ ति आर्यद्वयं सुगमं ॥ नवरमत्र सर्वं प्रतिमापरिकर स्वरूपु कहिउं छइ ॥३५॥

§622) अथ सर्वं त्रैलोक्यगत प्रतिमाप्रमाणु कहियइ ॥

‘कोटिदशते’ ति । पनरहकोटिसई बइतालीस कोडि अठ्ठावनलाख सत्तसष्टिसहस्स चियालीसे करी 10

अधिक त्रैलोक्य माहि प्रतिमा ‘सम’ समस्त ‘नित्य’ सदा भक्ति करी नमस्करउं अनेराई जि के तीर्थ छइं ति सगलाई नमस्करउं ‘प्रमत्ताद्’ अतिसमाधि संपन्न परमानंद वशइतउ ॥ ३९ ॥

‘प्रातरि’ ति- ‘प्रातः’ प्रभात समइ प्रमोदइतउ समाधि महानंदइतउ ‘पुलकांकित’ रोमांचित छइ ‘काययाष्टि’ हर्ष रोमांकुरित तनुलता जेह तणी सु ‘प्रातः प्रमोद पुलकांकित काययाष्टि’ पुरुष कहियइ । पुनरपि कितउ ‘तोपासुवाहे’ ति- ‘तोपासुवाह’ कहियइ हर्षासु जलप्रवाह तीहं करी 15 ‘विमलीकृत’ पवित्रीकृत ‘हृष्ट’ विकसित ‘दृष्टि’ लोचनु जेह तणी तोपासुवाह विमलीकृत हृष्ट दृष्टि कहियइ । इत्तउं हूतउं लु भव्यु जीवु ‘स्तोप्यते’ स्ताविसिइ । कउण रहइं ? इत्याह- ‘सकल शाश्वततीर्थ राजस्तोम’ समस्तशाश्वततीर्थकर विंबकदंडु । सु जिनाधिराज तणी ‘रमा’ लक्ष्मी ‘गमिष्यति’ लहिसिइ ॥ ४० ॥

‘इत्थं स्तुते’ ति- ‘इत्थं’ इणि प्रकारि ‘स्तुत’ संकीर्तित कियहं । ‘श्रुते’ ति- श्रुत सिद्धांत 20 तेह नइ विषइ समाहित सावधानु, इणिहं जि कारणि श्रांतु कपायोव्य रहितु चित्तु मनु जीहं तणउं हुयइ ति ‘श्रुतसमाहितश्रांतचित्त’ कहियइ । ति कउणि? ‘विद्याधरै र्गणधरैरि’ ति- विद्याधारण जंघा- चारणादिक महकपि । तथा गणधर गच्छधारी श्रीगीतमादिक अथवा गीतार्थ विद्याधर धरणीधर । विद्याधर गणधर स्तुरिधर । तेहे न केवलं पुण कउणि? तेहे ‘असुरै सुखे’ ति देवहं दानवहं ‘स्तुत त्रैलोक्य- शाश्वत जिनप्रतिमाः’ ॥ सुगमं ॥ ‘महं दिशंतु तरुणप्रभयादशं स्वां’ । ‘तरुण’ नवी छइ ‘प्रभा’ 25 काति, तिणि करी उपलक्षित ‘स्व’ आपणी दृष्टि ‘महं’ मू निमित्तु ‘दिशंतु’ दियउं ॥ ४१ ॥

॥ इति शाश्वतचैत्यजिनविंबमानस्तवर्नविबरणं समाप्तं ॥

§623) अथ सर्वसाधु वंदननिमित्तु कहइ-

जावंति केइ साहू भरहेरवए महाविदेहे य ।

सव्येसु वेसु पणओ तिबिहेण तिदंढ विरयाणं ॥

[९०७ सुगमा ॥] 30

नवरं प्रथम संहनानि उत्कृष्टपादि । पनरह कर्मभूमि, पांच भरत, पांच पेरवत, पांच महाविदेह, लक्षण तीहं माहि नयकोडि केवलज्ञानि साधुसंपदा, नयकोडिसहस्स थर ज्ञानदर्शनचरणधर साधु संपदा । जयन्यपदि विकोडि केवलज्ञानि साधुसंपदा, विकोडिसहस्स थरसाधुसंपदा कहियइ ।

§622) 1 Bh सातचित्त । 2 Bh कउण as a correction over original कउणि । 3 Mss place पुण कउणि after देवह दानवह ।

§623) 1 Bh omits वर ।

§624) इसी परि सर्व चैत्य सर्व साधु वंदनु करी प्रतिक्रमणकारु श्रावकु आगमिद कालि सुधु
आसंसतउ हंतउ भणइ ।

चिरसंचिय पात्रपणासणिय भवसयसइस्स महणीए ।

चउवीसजिणविणिग्गयकहाइ वोळंतु मे दियहा ॥

[१०८]

5 जिम वीज हंतउ अंकुरु नीसरइ, सुर्य हंतउ प्रभापूरु विस्तरइ तिम चउवीस जिण ऋपम
प्रमुख श्रीमहावीरावसान तीहं हंतौ कथा नीसरी । तीर्थकर नामोच्चारण गुणोत्कीर्त्तन लक्षण वचन
पद्धति नीसरी 'चउवीसजिण विणिग्गय कहा' कहियइ । तिणि करी मे मूर रहइ वीह अहोरात्र वोळउं
जायउं । ज चउवीस जिन कथा किसी छइ । 'चिर' ति - चिरकालि प्रभूतसमइ संचितु ऊपाजिउं जु पापु
तेह रहइ प्रणासिका फेडणहारि । तिणिहिं जि कारणि 'भवसयसहस्स महणीए' भवलक्ष भ्रमणनिवारक ।

10 §625) अथ जन्मांतरिदि समाधिबोधि तणी आइंसा कहइ ।

मम मंगलमरहंता सिद्धा साहू सुयं च धम्मो य ।

सम्माद्धिदी देवा दित्तु समाहिं च वोहिं च ॥

[१०९]

15 अहंत सिद्ध साधु श्रुत द्वादशांगु धर्मु चारित्रधर्मु प पांचइ 'मम' मूर रहइ मंगल मांगलिक्य-
कल्प वर्त्तइ । 'सुयं च' ईहा च काफ छइ तेहउत न पुण ए मूर रहइ मांगलिक्यइ जि छइं लोकोत्तम पुण
छइं, शरणु पुण छइं, इसउं जाणिवउं । ईहां धर्मे माहि श्रुतलाभ छइं पुण 'नाणकिरियाहिं मुक्खो' इसा
वचनतउ हानक्रिया विहुं मिलियाईं जि हंसा मोखु इसा अर्थे जाणाविवा कारणि श्रुतमहणु पृथक् कीधउं ।
तथा' सम्यग्दृष्टिदेव अहंतमक्त सौधमैदादिक । अथवा चतुर्विंशति यक्षयक्षिणी लक्षणा' 'दित्तु' दियउं
किसउं दियउं ! समाधि चित्त स्वस्यता कहियइ । बोधि भवांतरि सम्यक्त्वप्राप्ति सु समाधि अनइ बोधि
वि यस्तु दियउं । इति गाथार्थः ॥

20 §626) ईहां शिष्यु पूछइ । समाधि बोधि दानदियइ सम्यग्दृष्टि देव समर्थ छइं कि नथी ? जइ
समर्थ नथी तउ प्रार्थना निरर्थक । अथ समर्थ तउ अभय दूर भटय जि छइं तीही रहइ समाधिबोध
दियउं । अथ इसउं कहिसुं जि योग्य हुयइं तीहीं जि रहइं दियइं अयोग्य रहइं न दियउं । तउ योग्यता
ईं जि समाधि बोधि कारणु छइ । इसउं एकांतगार्ही कएइं, स्याद्वादगार्ही भगवंतु । तत्र-एक एक नय तणउ
एकांति करी घाट्टु एकांतवाट्टु । यथा-योग्यता ईं जि हंतउं कानु हुयइ । इसी परि सर्व नयमयता करी
25 स्याद्वाद रहइं न योग्यता ईं जि कारणु एकांतिहिं किंतु योग्यता शरणु इसउं कहियइ । तथा च 'स्याद्वाद-
मुद्रा सामग्री वै जनका' इति । जिम घट्ट निरपत्ति विपर माटी रहइं योग्यता हंतौहीं धुंभकार धक्का चंवर
द्वरक इंडादिक सहकारि कारणु पुण हुयइं तिम जीउ रहइं समाधि बोधि योग्यता हंतौ विप्रयितासकता
भावि करी यक्षांदादिक देव पुण मत्तार्यादिकहं जिम समाधि बोधिवरण हुयइं । इणि कारणि सम्यग्दृष्टि
देव तणी प्रार्थना निरर्थक नाहीं ।

30 §627) अथ तीहं कारण लग्गो प्रतिक्रमणु कीजइ ति कारण काइ ।

पटिसिद्धाणं परणे क्रिशाणमकरणे य पटियमणं ।

अस्सदहणे य तहा चिवरीयदरुणणाए य ॥

[११०]

प्रतिविद्ध निवारित छइं सम्यक्त्व तणा शकादिक अनीचार अनुज्जादिकहं तणा बोधादिक
अतीचार तीहं तणइ करणि हंतउ । कृत्य छइं समाइशादिक दिनकृत्य अथवा देवज्जा करणादिक नियम

§625) 1 Bh. omits. 2 Bh. omits

§626) 1 Bh. कहियउं । 2 Bh. जनिअ ।

तीहं तणइ अकरणि हंतइ । तथा 'अस्सद्दहणे'-निगोइ पुद्दल परावत्तादि सूक्ष्म विचार तणइ अस्सद्दहाणे^१ अप्रत्यइ अतथेति भावि हंतइ 'विधेरीय परूचणाण'य' उत्सुत्ताथे स्थापना विपरीत प्ररूपणा स पुण मरत्ति जिम भूरि भव परिभ्रमण कारण हुयइ । तिणि विपरीत प्ररूपणि अनाभोगादिवशि कीधइ हंतइ प्रतिक्रमण करेवउं हुयइ ।

§628) ईहां दिण्यु पृछइ—आवक रहइ धर्मोपदेश देवा नउ अधिकार छइ कि नथी? छइ,^२ इसउं कहां । जिणि आवकि गीतार्थं गुरु कन्हा सूत्रार्थं सम्यक् सांभलिउ हुयइ, सम्यक् हिया माहि अर्धधारिउ हुयइ, अति सु निश्चित कीधउ हुयइ अनइ सदा गुरु परतंतु हुयइ, तेह रहइ धर्मकथन विपइ किसउ नामु अधिकार नथी ?

'पढइ सुणइ गुणेइ य जणस्स धम्मं परिकहेइ' इत्यादि आगम तणा अनुयाइइतउ तर्था चूर्णं माहि पुण भणिउं । 'सो जिणदास सावओ अट्टमि चउइसीसु' उववासं करइ । पुत्थयं चापइ' ति ।^३

§629) अथ संसारसागर परिभ्रमण परायणहं जीवहं रहइं सवहीं जीवहं सउं वैरु संभवइ । तिणि कारणि सर्व जीव क्षामणा निमित्तु भणइ—

खामेमि सव्वे जीवा सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मिती मे सव्व भूपसु, वेरं मज्झ न केणइ' ॥

[१११]

सव्वइ जीव खमावउं जिणि किणिहिं मू ऊपरि वरुयउं कीधउं छइ सु हउं खमउं, कीधउं अकीधउं^४ १५ करी' मनउं' इसउ अर्थु । अज्ञानतिमिरावृतलोचनि हंतइ मइं सवहीं जीवहं रहइं पूर्वहिं पीडा कीधी छइ । सव्वइ जीव मू इष्ट चेटित रहइं खमउं खमाकरउं । कोपु मू ऊपरि म करिजिउ । इसउ अर्थु खमा विपइ । कारणु कहइ—'मिती मे सव्व भूपसु' सवहीं जीवहं सउं मू रहइं मैत्री सुजनबुद्धि 'वेरं मज्झ न केणइ' वैरु मू रहइं कही सउं नही । किसउ अर्थु ! जि मोक्षलाम रहइं हेतुभूत छइं ज्ञान दर्शन चारित्र ति आपणी शक्ति तणइ अनुसारि तीहं रहइं पमाउउं । आपणपा रहइं विघातकारकहीं तीहं विपइ^५ २० वैरु न करुं । जिणि कारणि कमठ मरुभूति प्रभूतिकहं जिम भूरिसंसारचारकानुभूति कारणु हुयइ ।

§630) अथ प्रतिक्रमणाध्ययसु उपसंहरतउ हंतउ अयसानमंगल दिखालिवा' कहइ ।

एवमालोइय निंदिय गरहिय दुग्गंछिय ।

तिविहेण पडिक्कंतो वंदांमि जिणे चउव्वीसं ॥

[११२]

इसी परि आलोइ करी सकलातीचार गुरु आगइ प्रकासी करी निंदी करी गरही करी दुग्गंछी^६ २५ करी भायसुद्धिपूर्वु - 'तिविहेण पडिक्कंतो' इति त्रिविध, मनि वचनि काथि करी पाप हंतउ प्रतिक्रान्तु निवर्तिउ हंतउ 'वंदांमि जिणे चउव्वीसं' चउवीस जिण ऋपभादिक वर्द्धमानावसान वर्त्तमान चउवीसी संस्थान वांउउं नमस्करउं ॥

॥ इति श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र विवरणं समाप्तम् ।

§631) जयति चन्द्रकुलं शुभसंकुलं, कुवलपोद्दलनैकफलाकुलम् ।

गुरुचकोरवरवजमसुलं, विमलकोमलगौरुमलाकुलम् ॥ १ ॥

[११३]

§627) 1 B Bh. have dropped—ह- । §628) 1 B Bh. have - सु ।

§629) 1 B. Bh. केणय । 2 Bh. omits 3 Bh. मानउ ।

§630) 1 Bh. adds कारणि । 2 Bh. omits श्रावक । §631) 1 L. चउ अणु । 2 Bh. कुवलपोद्दल- ।

- यः स्तम्भनाधीश्वरपार्श्वेनाथप्रसादमासाद्य नवाङ्गवृत्तिम् ।
 लब्धा श्वन्धेह किमत्र चित्रं, सोऽत्राजनिष्टाभयदेवमूरिः ॥ २ ॥ [९१४]
- तदीयपादद्वयपन्नसेवामधुव्रतः श्रीजिनवल्लभोऽभूत् ।
 यदङ्गरङ्गे व्रतनर्त्तकेन^३ किं नृत्यता कीर्तिधनं न लेभे ॥ ३ ॥ [९१५]
- तत्पट्टशैलेऽजनि योगराजः^४, सुरानतः श्रीजिनदत्तमूरिः ।
 तदन्तिपात्रैक उदैत्कलावान्, विनाकलङ्कं जिनचन्द्रमूरिः ॥ ४ ॥ [९१६]
- शिष्योऽस्य जज्ञे जिनपत्यभिरुच्यः, प्रवादिनागेन्द्रजये मृगेन्द्रः ।
 जिनेश्वराख्योऽस्य बभूव शिष्यः, प्रभावनोद्भावनसिद्धिरामः ॥ ५ ॥ [९१७]
- जिनप्रबोधामिध मूरिरासीत् तत्पट्टपूर्वाचलचण्डभानुः^५ ।
 पदे तदीये जिनचन्द्रमूरिरभून्मनोभू जयकारिमूर्तिः^६ ॥ ६ ॥ [९१८]
- येषां युगप्रधानानां प्रसद्य पदैवतं ।
 दीक्षाचिन्तामर्णा मह्यं ज्ञानतेजस्विनीं ददौ ॥ ७ ॥ [९१९]
- पितृभ्योऽप्यतिवात्सल्यं येनाधायितरो मयि ।
 यशःकीर्तिगणिमां स पूर्वं विद्यामभाणपत्^७ ॥ ८ ॥ [९२०]
- राजेन्द्रचन्द्रमूरिन्द्रैविद्या काचन काचन^८ ।
 जिनादिकुशलाख्ये^९ आदारव्याचार्यपदं च मे ॥ ८ ॥^{११} [९२१]
- अम्भोरुष्मकरन्दविन्दुनिकराह्लात्वा यथा पद्पदः
 स्वां वृत्तिं तनुते तथा श्रुतकणानादाय रुच्यैः पदैः ।
 मूरिः श्रीतरुणमभः प्रमितये मुग्धानिमुग्धान्मना
 पोदानदयकमूत्रवृत्तिमल्लिग्यत्सोऽख्यावबोधप्रदाम् ॥ ९ ॥ [९२२]
- यन्मिथ्याभिदधे मया मतिमहामाद्याद्रमम्पग्विदा^{१०}
 व्यासेपादयथा तदत्र मुषियः संशोध्य निर्मत्सगः ।
 व्यातन्वन्तु तथेमिसां गतथियो निःसंशयाना यथा
 पोदाऽवरयककर्मकर्मणि^{११} परं सम्बोधमाविघ्नने ॥ १० ॥ [९२३]

[§631] 3 P. तद्वेन । 4 L. योगराजः । 5 L. - चन्द्रमूरिः । 6 L. omits महा- leaving blank space for three letters. 7 L. adds मयि । 8 B. has added this verse in the margin. 9 L. वाचन । 10 B. तान्ति- । 11 Bh. P. number this verse as 9, and repeat the same number in the following verse, thus avoiding numbering different from B; L. changes the numbering by one. 12 Bh. L. विरा । 13 Bh. -मर्त्तनि । L. -मूर्त्तवर्त्तनि ।

अबुधबोधदशेन्धनदीधितेदिंनकृतेर्विद्वतेर्यदुपार्जयम् ।¹⁴

उपाचितं सुकृतं सुकृतेप्सितं भवतु तेन भवी सुकृती कृती ॥ ११ ॥ [१२४]

शाशि-शाशि-चे'देन्दु'-मिते संवति सति पत्तने महानगरे ।

दीपोत्सवे च लिलिखे सुगमा दिनकृत्यविद्वत्चिरियम् ॥ १२ ॥ [१२५]

§632) जयत्यसौ मन्त्रिदलीयवंशकः, सुगोत्रधात्रीवलयावतंसकः ।

चतुर्दिगन्तस्थगुणमतिष्ठिते न नर्त्ति यत्राद्भूतकीर्तिनर्त्तकी ॥ १३¹ ॥ [१२६]

तत्राभूत्पुण्यभूर्धुक्तोपमष्टक्कुर दुर्लभः ।

तदङ्गभूर्दामरारयश्चामरामलसद्गुणः ॥ १४ ॥ [१२७]

तस्याऽसीदात्मभूर्मालः ठकुरः सुकृताङ्कुरः ।

इष्टसाधनसाधिष्ठः कीर्त्तिकर्पूरसौरभी ॥ १५ ॥ [१२८] 10

देवपालो गुरुस्तेजपालोऽपरोजयतपालः तथा राजपालः सुधीः ।

सहणपालो नयात्पाल एतेऽभवन् स्तवनस्तस्य पद्भारताशा इव ॥ १६ ॥ [१२९]

§631) 14 Bh gloss on दशैघन प्रदीप ।

§632) 1 Bh omits verses 13-31 (both inclusive)

L P omit verses 13-32 (both inclusive)

Bh after writing verses 32-33, begins स १४११ वर्षे दीपोत्सव श्रीमदनहिल्लपत्तने मनिवारे and goes on like B till मन्त्रि-where the page ends abruptly Later hand, in the margin below, writes उप श्री ठाकुरसीजी गणिभि स्वपुण्यार्थे भाण्डगारायें वृत्तमिद पुस्तक घृत च गुणगामादेशात् शिष्य धनजीनेन च अमरसी वर्षुरादि सहितेन वाच्यमान चिर्न नदतादिति श्रेय ॥ श्री ॥

(and continues in the margin of the recto)

मट्टारव धी जिनराजसूरिशिष्योपा० (1 e उपाध्याय) श्रीज्ञानकुशलगणिशिष्योपा० धी ज्ञानसिंहगणभि स्वपुण्य-सचयार्थे श्री वृष्णदुग भाण्डगारायें वृत्तमिद पुस्तक चोपा० श्री धनजीके चि अमरसीवपूरादि शिष्यसहितें स्वगुणगामा-देशाच्च गुरुणा पुण्यसचयार्थे ॥ श्रेय ॥

L. after writing verse 13 (= B 12), writes सवत् १४११ । पौष वृदि ५ । then verse 33, words -दश- in 33b are missing. It continues सवत् १४११ वर्षे दीपोत्सवदिवसे मनिवारे धीमदनहिल्लपत्तने विविता like B Then ends with शुभ भवतु । शुभमस्तु । ऐषववाचनमुधावकवर्गसांत् । अनुष्मा सहस्राणि etc

P after writing verse 12 continues with verses पादुग पुस्तक and अनुष्मां महस्राणि numbering them 13 and 14 respectively, and continues ओम् ह्रीं धीं ह्रीं उ अगिया उगा नम । एषु नमस्कारम् । अथ धीं मृष विभ्रमादित्तराग्ये सवत् १५०८ वर्षे ज्येष्ठ वदि ११ मङ्गलवारं उत्तरामाद्रपदनगत्र धी मरम्बगो पतनाम्बतरे धी चरतरगन्धिग the last words 'चरतर' are superimposed on some other words Later hand continues धी उद्योतनमूरीगात्र (sic) पू धी जिनगामूर्ति । शगात्र (1 e शगात्र) धी जिनकुलगामूर्ति उद्यम धी जिनैश्वर्यमूर्ति । जिधैपामूर्ति । धी जिधैपामूर्ति । धी जिनगामूर्ति । उ (1 e उपाध्याय) धी पादुगपादु-निलकपूपा उ धी देवचन्द्रपट्ट भागभारतर उ धी धी धी शमायुत्तनिये ग देव चन्द्राज पुन्यार्थे ।

हरिराज-हेमराजौ, देवपालस्य नन्दनौ ।

जज्ञाते हरिराजस्य, रासलदे च गेहिनी ॥ १७ ॥

[९३०]

शुक्ताविव शुक्ताभौ तत्कुक्षवभवतां प्रचुरवृत्तौ ।

पुत्री रयातौ चाइड-धन्वकास्यौ च ठक्कुरौ ॥ १८ ॥

[९३१]

राजानुग्रहशालिना गुणप्रता लक्ष्मीवता धीमता
स्थाने चाइडठक्कुरेण विदधे तीर्थोन्नतिः सदगुरौ ।

देवे चार्हति भक्तिरद्भुततमा साधर्मिकोपक्रिया

प्रोढाऽवश्यकर्मकर्मदृढां ह्येतद्विकर्मोचितम् ॥ १९ ॥

[९३२]

तत्पत्नी सहजलदे समचित्ता समजनिष्ट सुकृतेषु ।

अनयोस्तनयाः सिंहानयनविजयजवणरुर्णेभ्यः ॥ २० ॥

[९३३]

व्यधितविजयसिंह स्तीर्ययात्रादिकार्ये,

स्वधनमनिधनं राक् सप्तश्रेण्यां वपन् यः ।

अणाहिलपुरमध्येऽभ्येत्य भक्तिं व्यकासी-

ञ्जिनकुशलगुरूणां स्थापनावाद्रोधात् ॥ २१ ॥

[९३४]

मदनपाल तनया वीरभदे विजयसिंह दयिताऽजनि धुष्या ।

पूर्णनीति वरदेव तनूजा तस्य भीरुरपरापि पराङ्गी ॥ २२ ॥

[९३५]

रत्नगर्भे च पुंरत्ने सुतौ प्रामूत चादिमा ।

राजमानसु तेजस्कौ महारां त्रासवर्जितौ ॥ २३ ॥

[९३६]

वलिराजस्तयोज्येष्टो, गिरिराजः कनिष्ठरुः ।

शुभाशुभावावि स्निग्धासाध्विनीतनयाविव ॥ २४ ॥

[९३७]

उदयकमलाश्वपरतो, राजाः साधारणश्च चत्वारः ।

पूर्णन्या वार्णन्याः पुत्रा राजन्ति गुणमिदिताः ॥ २५ ॥

[९३८]

शीलशालीन्यकौलीन्याऽमालिन्यगुणमालिनी ।

वलिराजस्य भार्याऽभूत् कोल्हारी धीविशालिनी ॥ २६ ॥

[९३९]

जिनधर्मानुरक्ताया भक्तायाः पत्युश्चमः ।

क्षेमसिंहः सुतस्तस्य जज्ञे हीरू च तन्मिया ॥ २७ ॥

[९४०]

लक्ष्मराजः सुतस्तस्य गर्भश्रावकताभुतः ।

अनुस्पृतेव यद्वपुद्विर्जिनधर्मेण राजते ॥ २८ ॥

[९४१]

परार्हतस्य तस्यासौ बलिराजस्य वृद्धः ।	
कल्पारामेऽर्हतां धर्मं भ्राम्यन् स्वलति नाऽत्र यः ॥ २९ ॥	[१४२]
कलौ कल्पादि वैकल्ये औदार्यं तत्र किं महत् ।	
करे पद्माकरे यस्य, कुबलयं बलयं च यत् ॥ ३० ॥	[१४३]
सतीर्थेशानि तीर्थानि बिम्बितानि मनोमणौ ।	
नित्ययात्रोत्सवं यस्य वितन्वन्ति मनीषिणः ॥ ३१ ॥	[१४४]
उपकृति बलिराजो लेखयामास भासां	
परिवृढ इव पोढावश्यकीयां सुबोधाम् ।	
सुविवृतिमिमिकां प्राङ् मच्छकाशात्स्वयं च	
स्वपरनरहितार्थं पुस्तके लीलितवच्च ॥ ३२ ॥	[१४५]
भरतामिवखडं शं त्रायमाणोऽङ्गिकायं	
त्रिदशदशतासैः श्लाघ्यमानार्घ्यधामा ।	
चरमजिनवरश्रीशासनं सार्वभौमं	[१४६]
प्रभवति भुवि यावत्तावदेपा सुवृत्तिः ॥ ३३ ॥	

§633) संवत् १४११ वर्षे इपोत्सवदिवसे शनिवारे श्रीमदणहिलपत्तने महाराजाधिराजः पातसाहि श्रीपिरोजसाहि विजयराज्ये प्रवर्त्तमाने श्रीचन्द्रगच्छालंकार श्रीखरतरगच्छाधिपति श्रीजिनचंद्र-सूरिदिप्यलेश श्रीतरुणप्रभसूरिभिः श्रीमंजिदलीयवंशावतंस ठक्कुर चाहडसुत परमार्हत ठक्कुर विजयसिंहसुत श्रीजिनशासनप्रभावक श्रीदेवगुर्वाज्ञाचिंतामणिविभूषितमस्तक श्रीजिनधर्मकाचकपूरपूर-सुरभितसतधातुपरमार्हत ठक्कुर बलिराजकृत गाढाभ्यर्थनया पडावश्यकवृत्तिः सुगमा बालावबोध-कारिणी सकलसत्त्वोपकारिणी लिखिता ॥ शुभमस्तु ॥

अनुष्टुभां सहस्राणि सप्तान्वधरसख्यया ।

नेयानि विवृतावत्र साधिकानि मनीषिभिः ॥ [१४७]

॥ संवत् १४१२ वर्षे चैत्र शुद्धि ९ शुक्ले श्रीमदणहिलपत्तने श्रीगच्छराज श्रीखरतरगच्छे श्रीपडा-वश्यकवृत्ति लिखिता पं० महिपांकेन ।

यादृशं पुस्तके दृष्टं तादृशं लिखितं मया ।

यादि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥ [१४८]

भग्नपृष्ठिकादिग्रीवा ऊर्ध्वदृष्टिस्थोमुखी ।

कष्टेन लिखितं श्लाघं यत्नेन परिपालयेत् ॥ [१४९]

शिवमस्तु ॥ मद्रं भवतु ॥ समस्त श्रीसाधु श्रीसमुदायस्य ॥ आचन्द्रार्कं नन्दतु ॥

The Index

Repeated occurrences of the same form are not noted, except in cases of words of rare occurrence

Sk and Pk loanwords are generally omitted, except in cases of loanwords which show significant phonological or grammatical features of Old Gujarati

Proper nouns from the illustrative narratives are entered in the index

Different grammatical forms of the same word are grouped together under a convenient form

The order of the Nagari alphabet is observed vowels followed by anusvāra are entered after simple vowels Reference to the text is given by number of the paragraph

References to the Nepali Dictionary by R L Turner and Formation de la Langue Marathe by Jules Bloch are given respectively, by citing the Nepali and the Marathi word

अडलेवेवड *adulevevad* to embezzle ger n dir sg 450 cf MG *olav vū* to embezzle to gain by unlawful means cf Sk *apalapa* to deny to conceal *apa-lapita* embezzled Pk *ava lava* to hide truth OG vowel sequence *av* should give us a lower O in MG (see Turner E and O in Gujarati Asbutosh Jubilee vol Pandit D and O in Gujarati Ind an Linguistics vol XV 1956) while we have the *h gher o* in MG moreover *le* cannot be explained

अकरणि *akarani* 'in not doing sub n loc sg 369 Sk *akarana* Pk *a + karana n*

अकरतड *akaratau* not doing pres part m dir sg 46 *akarā* abs 451 v s v *kara*

अकालि *akali* not at the proper time sub loc sg 519 lw Sk *akala* + OG loc sg suffix ;

अकीयद् *akidyad* "not done not accomplished past part loc. sg 523 560 v s v *kidhau*

अकर *akuru* gentle adj dir sg m 3 lw Sk. *akura*

अकुदु *akudru* contented not mean adj dir sg m 3 lw Sk *aksudra*

अखाडामण्डप *akhadamandapa* pavilion sub sg 614 *akhāla* + *mamḍapa*. Sk **ākṣa vātaḥ* Pa *akkhāvāto* Pk *akkhādaga akkhādaya* Sk *mamḍapa* lw in OG Sk *ākṣa* an axle the beam of a balance the collar-bone" Sk. *vātaḥ* fence a piece of enclosed ground Pa *akkhavāto* fence round a wrestling ground" The Pk. *evolute* has the same meaning and

also gamblers den seats for audience in a pavilion Most of the NIA languages have the meaning "a place for wrestling meeting place for sadhus in the latter sense of meeting place , it has a derogatory meaning Bloch (under *as*) and Turner (under *akharā*) give a Gujarati *evolute* *ās* 'ax s One more probable Gujarati (and Marathi Hindi) *evolute* of Sk *ākṣa* collar bone is *hāsrī* an ornament worn round neck This is probably a more suitable derivation than Sk *amsa* shoulder blade' > *hāsrī* especially because this ornament is worn round the neck The *ks* > *s* development passing through *-ch-* is a notable Marathi feature (Bloch § 104) Nasalisation is also explained by *atch aud -s*

अकरीण *akhrīṇa* not diminishing not peris h sg adj sg 112 Sk *akṣna* Pk *akkhīṇa-lw* Pk

अचालनित *acalanita* firm immovable adj sg 430 lw Sk *acalanīya* v s v *cāla*

अचोरित *acoruta* "not stolen past part n. dir sg 5²⁵, v s v *coruta*

अछाणित *achāṇita* unfiltered past part. loc. sg 519 MG has three other words which deserve to be noted here *chāṇvū* *chāṇvū* to cut in small pieces *chāṇavvū* to snatch separate The first is comparable to Sk *chāṇōti* *chāṇōti* to hurt, to injure source for the second is Sk *chāṇa* -i- in *chāṇvū* is retained probably due to the following nasal *chāṇvū* to

- filter' is not traceable, though many NIA dialects have similar cognates Turner sug ests (under chānuu) *kānāyati, cf Sk kānāti, Pk chāna- n 'to sift grain', chānau 'to filter' Since filtering is frequently done by tying a coarse cloth over a vessel (e.g. cards or sugarcane juice) connection with Sk chādanam n 'covering' is worth considering
- अछोपादि achopādi** Inst sg 129 Meaning and derivation not known
- अज्ञान ajāna** "ignorant sub dir pl m 3, ajānu adj dir sg m 285 586, Sk ajanat, Pk a + jana-
- अज्ञानतः ajānatān** 'not knowing' pres part m dir sg 462, also ajānato 554, 590, ajānatī f emphatic, ajānatā i pl 590, v s v jānai ajāna
- अज्ञित ajyita** proper noun m dir sg 110
- अज्ञितस्तु ajyitastu** proper noun m dir sg 573
- अजी' अji'** particle of address 483
- अजी' अji'** 'yet, still adv 297 Sk adya api Pk aja vi, note in MG hayi even now
- अष्टानुसृतः aṣṭānu sau** 'one hundred ninety eight' num dir sg 33 37, In the context adānāyā sau aṣṭānu sau 33, the former does not convey the meaning very clearly cf Sk aṣṭānavatīh Pk aṣṭānau; Turner aṣṭa nabe
- अष्टाविंशः aṣṭāviṣa** "twenty eight num dir sg 74 Sk. aṣṭaviṣatīh f Pk aṣṭaviṣa Turner aṣṭaṣ
- अष्टालीस aṣṭāliśa** 'forty eight' num 35 v s v aṣṭāliśa
- अष्टोत्तरः सप्त aṣṭottara sau** one hundred and eight num dir sg m 613, aṣṭottara sau 421, also aṣṭottara saya 424 Sk asta + uttara + sata- Pk aṣṭottara saya lw Pk
- अष्टोत्तरः सहस्रम् aṣṭottara sahasra** one thousand and eight' num dir m 312 lw Pk
- अष्टसष्टि aṣṭasasthi** 'sixty eight' num dir sg 74 cf Sk aṣṭasastīh f, Ps aṣṭasastīh, Pk aṣṭasastīh Bloch ar-, Turner aṣṭasastīh
- अष्टितालीस aṣṭitāliśa** forty eight' num 421 cf Sk aṣṭācatvāriṣat Pk aṣṭitāliśa MG aṣṭāliśa. Turner aṣṭāliśa
- अष्टील aṣṭīla** probably some type of chain to bind a prisoner etc., meaning and derivation not clear, the context is aṣṭīla ghatīu nūgād itū, 213
- अदनउय सयं aḍa nauya sayam** "one hundred ninety eight" num 24, lw Pk v s v aṣṭa nau sau, also note Sk aṣṭān, Pk aṣṭha, aṣṭha, aḍa
- अदयाला aḍayāla** 'forty eight' num 24 Pk lw v s v aṣṭāliśa
- अदाई aḍha** 'two and a half nu : 351, 403, 441 Sk ardhatīyah Pa addhatīya, Aś adha tiya-, Pk addhāya addhāya MG adhi, adhi Bloch ari, Turner aṣṭā
- अदारमह aḍarama** "eighteenth ord loc. sg 355 adharabe mase inst pl 401, "after eighteen months probably such usage explains the extension of -e pl to -e sg Sk aṣṭād aṣān Pk aṣṭārasa aṣṭhara also cf Pk adharasama 'eighteenth' MG aḍār, Bloch aṣṭhara, Turner aṣṭhara
- अदारोत्तरः सप्त aḍarottara sau** 'one hundred and eighteen' num 616 v s v adharama
- अनभयमिह ana abhaya** "when not set, not ended past part loc sg 325 Sk aṣṭam eti, perfect part aṣṭamita Pk aṣṭhāya OG ana + abhaya MG verbal base ābhūm 'to set to decline
- अनभालोचि ana aloci** 'without atoning abs 4'0, also analo Sk allocate, OG ana + aloci ana + aloi (1) v s v āloci
- अनजरी ana ājari** "while not got up, not dispersed" past part loc. sg 164 OG ana + utbi + loc suffix im v s v ājari
- अनयाविह ana ghata** "not throwing" past part loc sg 316 OG ana + ghāti v s v ghāti
- अनछानिया ana chānyā n** not filtered adj past part n pl 440 OG aṣṭa + chānyām v s v aṣṭhāni
- अनज्ञानिया ana jānīyā** 'not known' adj past part pl m 450, OG aṣṭa + jānyā v s v jānai
- अनदीयते ana didhau** 'not given' adj past part n dir sg 463 OG aṣṭa + didhāum v s v dei
- अनपदिहि ति ana padīhim ji** 'not fallen past part loc sg (j; emphatic) 312, cf pali 312, OG ana + padīhim v s v padāi.
- अनपुगः ana pūga** 'not reaching farther' past part loc sg 296 OG ana + pūga, v s v pūga
- अनपुच्छि ana pūchi** "without asking" abs 164 OG aṣṭa + pūchi v s v pūchi

अणविहरता *ana viharatam* "in not moving out
pres part obl gen 223, OG *ana + viharatam*
v s v viharat

अणसणु *anasanu* 'fast' sub n dir sg 573 Sk
anasanam Pk *anasana*

अणहुता *anahumta* "not having" past part pl 450,
OG *ana + humta*, v s v hot

अणवित् *anavitu* "brought on to oneself" caus past
part m dir sg 326 Note that though the
causal base is used, the meaning is not causal,
the context is *aticaru anavitu huyai aniva*
inf of purpose 333 Sk *ānayaṭi* Pk *anai* MG
anvū

अणुधानु *anuthanu* "religious practice sub dir
sg n 325 Sk *anusthanam* Pk *anuttthanam*,
note the short -u- in OG, before a long vowel
in the succeeding syllable

अणुवाद् *anuvai* 'one who studies' sub dir sg m
355 Sk *anuvacin*, Pk *anuvai*, *anuvai*

अत *ata* 'now, here' used as a particle, as a resp-
onse to a question 339, meaning and deriva-
tion are not clear cf however, Sk *atra* Pk
atta Bloch *atā*

अतिक्रमवद् *atikramavaḥ* 'causes to pass passes
v caus pres. 3rd sg 461 462, 589 lw Sk *ati*
kram- 'to cross over'

अतिक्रिदि *aticarum* 'transgressed past part
dir sg n 523 lw Sk *aticar-* 'to transgress'

अतिविक्रमवद् *ativikramavatu* proper noun m
dir sg 553

अतिसत् *atisau* "excess, peculiarity adj m dir
sg 435, *atisau* (v l *atisau*) 426, lw Sk
atisaya-

अतिसी *atisi* 'linseed' sub f 311 cf Sk *atasi*
'flax *linum-usitatissimum* linseed,' MG *asi*
Bloch *āsi*, Turner *ālas*, *tisi*

अथाण्डं *athāṇam* 'pickles' sub dir sg n 500
cf MG *athāṇū* n pickles, it refers to pickles
in general, each special variety e g mango
pickle, has its own name These pickles are
made once in a year, and then preserved,
and consumed during the year Considerable
amount of fermentation precedes before it is
ready for consumption Hence its relation
with fermentation may be noted cf MG
Athvū v trans 'to ferment, *ātho* sub m
fermentation *athāṇū* can be a nominal
derivative Source of these words is not
known relation with Sk base *ā + sthā* in the
sense of 'coagulation' may be considered

अदेखता *adekhatā* "not seeing" pres part m pl
489, 547, OG *a + dekhatā* v s v *dekhat*.

अधिकेरत् *adhikeraum* "more and more" adj dir
sg n lw Sk *adhika + OG eraum*, Sk *tara*,
Pk *yara*

अधिवासिया *adhivasiyam* "worshipped by means
of perfumes- past part n dir pl 483 lw Sk
adhivasita-

अनद् *anaḥ* "and" conj 38, 74, also *anai* 93, Sk
anya- stereotyped loc in OG, MG anE Pk
anna, Bloch *ani*, Turner *ani*

अनुमद् *anumanaḥ* "approves v pres 3rd sg
284, 285, *anumanum* past part dir sg n
326 lw Sk *anumanate*, *anumanyate*

अनुमिणद् *anuminaḥ* "infers v pres 3rd sg 403
cf Sk *anumimana-* 'inferring *anumana-*
'inference'

अनुमोदता *anumodayam* "supporting agreeing"
pres part obl pl 112 lw Sk *anumodayati*

अनेक *aneka* "many" adj 38, *aneki* loc sg 426,
aneka prakare inst pl 411, prob lw Sk
aneka-

अनेरत् *anerau* "another, different" adj dir sg
m 430, also *anero* 259, *aneram* n 326, -*rai*
inst sg 535, also -*rei*, -*rai* inst pl 442, -*aiṃ*,
ai, loc sg 73, -*ra* obl pl m 532, 538, -*rāṃ* n
pl Sk *anyatarah* Pk *annayaro annayara*,
ext in OG *anera + u*

अनंत *anamta* proper noun m dir sg 110

अपहरद् *apaharati* "robs snatches" v pres 3rd sg
526, *apaharasi* (v l *apaharasi*) fut 3rd sg
544, *apaharim* past part n dir sg 465 lw
Sk *apaharati*, Pk *apahāri* 'robber

अपाद् *apav* "in trouble, in misery sub. n loc
sg 434 lw Sk *apāya-*

अपूरणु *apurānu* "non fulfilment" sub dir sg n
523, lw Sk *purāna-* 'fulfilment OG *a +*
pūranu

अप्ययुद् *appathū* "one's own praise sub dir sg
f 396 lw Pk, Sk *ātma-stūthi*, lk *appa thūi*,
note the long f

अपेक्ष्यु *aphedasyu* "absence of destruction" sub
dir sg n 129, OG *a + phelann*, v s v *phelivā*

अबाधनत् *ābādhata* "not binding" pres part
m dir sg 517 OG *a + bādhatau*. v s v.
bādhata

अभिनेदन *abhinamāna* proper noun m dir sg
110

- अभिप्राय *abhiprāu* 'opinion' sub. m dir sg 471.
v l. *abhiprāyu* 144, lw. Sk *abhiprāyah*
- अभिसिंचाव् *abhisimāra* 'besprinkles' v caus
pres 3rd sg 483, lw. Sk *abhisīcati*, caus
abhisecayati, *abhisīcayati*, Pk *abhisimāvei*
- अभीरुः *abhīrū* 'fearless' sub dir sg m lw. Sk
abhīru, Pk *abhīru*
- अभ्यसह् *abhyasah* 'studies' v pres 3rd sg 245
lw. Sk *abhyasyati*, Pk *abhasasi*
- अमुक *amuka* 'particular (without specification)'
pro dir sg 164 lw. Sk *amuka-*, Pk *amua*
- अमूलिकु *amūlika* 'invaluable' adj dir sg 548
lw. Sk *amūlya-ka*, Pk *amolla-*
- अमेल्लतउ *amēlhatu* 'not leaving' pres part m
dir. sg 516, OG a + *mēlhatan* v s v *mēlhat*
- अम्ह *amha* 'we pers pro obl pl 110, 538, amhe
nom pl 94, 110, 579, also amhi 605, Sk *asmād*,
asmān, Pa Pk *amhe* Bloch *amhi*, Turner
hami
- अम्हाराई *amhāraim* 'our pers pro s_o n 537,
also amhārau sg m 456, amhāru sg m 489,
amhāra pl m 461, 538 amhāri pl f 112, 455,
amhāra loc sg n 461 v s. v *amha* Pk.
amhara-, Turner *hāmro*
- अर *ara* proper noun m dir sg 110
- अरणेटउ *aranetau* 'a kind of white clay' sub dir
sg m 20, MG *arneto* Der not known, the
word is recorded in Des, -*ta-u*, are, apparen-
tly, suffixes
- अरण्य *aranya* 'forest' sub n sg (v l *arinya*)
554 lw. Sk *aranya-*, for -*a/i* see Burrow
BSOS vol p 131
- अर्जनु *arjānu* proper noun (v l *arjanu*) m dir
sg 451
- अवलवणु *avalavaṇu* 'concealing-truth- sub n
dir sg 365 Sk *apa lapina* Pk *avalavaṇa-*,
v s v *avalevaṇam*
- अवलंबी *avalambī* depending, resting upon' abs
110, Sk *avalambya*, Pk *avalambiya*
- अवहेलियइ *avaheliyas* 'is insulted, not respected'
v pass sg 436, Sk *avahelyate*, Pk *avahela*
- अवधितिवर्द्धन *avamitvarddhana* proper noun m. dir
sg 574
- अवधितिसनु *avamitsenu* proper noun m dir sg 574
- अवाछतउ *avacchatau* 'not desiring' pres part
m dir sg 433 OG a + *vācchatau* v a v
vācchatau
- असक्त *asakata* 'one who does not possess a cart'
sub f dir sg 94 lw. Sk. a + *śakata*
- असतु *asatlu* 'honest' sub dir sg. m 3 lw. Sk
asātha-
- असुक्नु *asakunu* 'ill-omen' sub m dir sg v l
asakunu 450, lw. Sk a + *śakuna-*. Note the
change *śakuna* to *śakuna-*
- असक्ता *asakata* 'not able, incapable' pres part
m dir pl 109, OG a + *śakata* v, s v *śakati*
- असनी *asanni* 'not having consciousness (Jain
theological term - one who is not a Jain)' sub
dir sg m 33 Sk *asāñjin*, Pk *asannī*
- असवार *asarāra* 'rider, horsemen' sub m dir
pl 456 Sk *asvavarah*, cf Pers *asvar*
- असामरताई *asambharatai* 'while not remem-
bering' pres part pl m 345, i emphatic OG
a + *sāmbharata*, v s v *sambharati*
- असीसउ *asīsau* 'hundred and eighty' num 613
Sk *śatam*, Pk. *saya-*, OG *sau* 'one hundred
For OG *asi*, cf. Sk *asīth* f Pa *asiti*, Pk *asīf*
Bloch *asī*, Turner *asī*
- असुभ *asubha* 'inauspicious' adj dir sg 481, lw
Sk *asubha-*
- असुजल *asrujala* 'tears' sub. n dir pl. 527 lw
Sk *asru-jala-*
- असंखउ *asamkhau* name of a chapter in the utta-
radhyayana sutra 9f
- अहृडे *ahṛḍe* 'by three and half' num inst sg
158 Sk *ardha- caturtha-*, **ardha turtha-*
(Pischel §450, Katre NIA I 6 pp 401), also
cf later Sk back formation *adhyūsta-*, Pk
adbbuttha- Note the exceptional -*ddh* > *h*
MG *ūthū* n
- अगलहुणउ *amgalahanaum* 'cloth used for wiping
the body' sub dir s₁ n 281 Sk *lusati* 'deco-
rates' Pk *luhai*, *luhai* 'wipes' cf MG *luvū*
'to wipe
- अगारा *amgāra* 'burning charcoal' in the com-
pound *amgārājivana-* 'those who make living
by selling charcoal for burning' 352 Sk
amgāra- Pk. *amgāra-*
- अगुठउ *amguṭhau* 'thumb' sub. m dir sg 112,
amguthai inst sg 461, *amgūthā* obl, Sk
amguṭhāh, Pk *amguṭṭha-* ext. Bloch *am*
guthā Turner *aūtho*
- अगीकरइ *amgikaras* 'accepts' v pres 3rd sg 473
(used in the sense of fut.) *amgikare* imp. 2nd
sg 473, *amgikariyai* past part. loc sg 466,

- आपठ** *ādhaṁ* "half" adj dir sg m 95 Sk *ardhāḥ*
Pk *addha-* Bloch *ādāḥ*, Turner *ādāḥ*
- आपान** *āpāna* "breathing, inhaling and exhaling" sub Jain theological term lw Sk *āna+*
prāna, note the second n changed to -n- by
the influence of *āna*
- आपद्** *āpa-* 'gives' v pres, 3rd sg 554, *āpauhi*
1st sg (in future sense) 463, *āpi* imp. 2nd sg
386, *āpiu* past part m dir sg 518, *āpiyā* pl
366, *āpi* f dir sg 365, *āpisiu* fut 3rd sg 554,
āpāva- caus pres 3rd sg 558, Sk *āpaya-*,
Pk *appa-*
- आपडिय** *apāḍiya-* "when falls together, comes
together" past part loc sg 186, OG *a+padu*
v s v *padai*
- आपण** *āpana* "one's own" pro dir sg n 111,
556, *āpana* obl m 85, 459, 463, 560, also *apa-*
nā n 554, *apani* f 74, 622, *apanai* inst sg
73 559, also loc sg 557 Sk *atman*, Pk *appa-*
ext in OG Bloch *ap*, Turner *āpṇau*
- आपणप** *āpanapaṁ* "ones self" pro dir sg (v
l *āpanapaṁ*) 74, 85, 112, *āpanapa* obl sg 38, 440
554, *āpanapaṁ* inst sg 85, 551 *āpana* ext
with -*paṁ* < *sk* -*tvāka-*
- आपसाखि** *apasākhā-* 'with self as witness' sub
inst sg 564 For *apa* v s v *apanau*, Sk
sakaya- Pk *sakkha n*
- आपडे** *āpaḍe* "by ones self" pro inst sg 1, 47, 349,
474, 520, 557 For *apa-* s v *apanau*, *āpaḍe*
seems to be an archaism cf Pk *appa* inst
appaḥi
- आभिभोगिक** *ābhigōgika* "a type of gods, in Jain
Mythology" m dir pl 74 lw Sk *ābhijog-*
ika-, Pk *ābhigōgiya*
- आभीयी** *ābhīya-* 'having caused fear' abs 545 lw
Sk *ābhīyati* Sk *ābhī-*+OG -*i*
- आयुष** *āyusaṁ* 'span of life' sub dir sg n
25 Sk *ayūḥ*, *āyusa-*, *āyuska-* Pk. *au*, *āusa*,
āukka If the OG -*sa-* may be interpreted as
representing -*kh-* (cf. MG *āykhū n*) then
the line of development is Sk *āyuska-*, Pk
aukka, *āukka* - otherwise it may be treated
as a lw from Sk, cf MG *ayus*
- आराडि** *āraḍi* "scream, shout" sub. f. 25, 81 Sk
arāḍate, Pk *arāḍai*, Pk *rāḍi*, *rāḍi*, *quarrel*
cf MG *rar f* (Also cf MG *rarvū* 'to cry,
ārarvū 'to shout')
- आराधित** *ārādhiṁ* 'worshipped' past part. m
dir sg 470 lw Sk *ārādhi-*, *ārādḥ-*+
OG -*iu*.
- आरिस** *ārīsa-* "in the mirror" sub loc. sg m
373 Sk *ārāsa-* m Pk *āyāṁsa*, *āyāsa m*
OG -*i* MG not explained, it may be gra-
phic CG has *arso* m 'a big mirror', *arsif*
'a small mirror' Marathi has only the m
form, most of the other IA languages have
only the f form Bloch *arsā* *arsā*, Turner *ārā-*
- आरभित** *ārambhiṁ* "started, commenced" past
part n dir sg 94, *ārambhi f* 573 Sk. *aram-*
bha , Pk *ārambha-* +OG -*iu*
- आराट** *āraṭ* 'residence' sub n dir sg 529 lw
Sk *ālaya-*
- आलावा** *ālāva* "recitations" sub obl pl m 135
Sk *ālāpa-* Pk *ālāva-* ext. in OG
- आलोड** *āloḍaṁ* "atoned, repented" past part. n
dir sg (v l *āloḍaṁ*, *ālovaṁ*) 33 *ālo-* (v l
āloyai, -*iu*) loc sg 142, *āloḍa* fut 1st sg
326, *āloyaṁ* pass pl 338, *ālof* abs 630 Sk
alocate Pk *ālo-*
- आलोची** *ālo-* "having atoned, repented" abs 481
lw Sk *ālo-*+OG -*i* abs v.s v *āloḍaṁ*
- आवई** *āvai* 'comes' v pres 3rd sg 85, 469, *āvai*
pl. 44, 450, *āvau* 1st pl (in fut. sense) 579
āvai imp 2nd sg 536, *āvau* 3rd sg 103, 522, 536
āvai fut 3rd sg 110, 536, *āvaiṁ* pl 142,
āvata pres part. (unenlarged) 452, *āvata* pres
part (enlarged) dir sg m. 112, 483, 578 *āvata*
obl 454, 534, *āvataṁ* obl. 108, *āvate* loc. sg
377, *āvai* past part dir sg m 73 *āvai* n
94, *āvaiya* (v l *āvaiya*) pl. 38, *āvaiya* n pl 483,
also *āvaiya* past part m dir sg 527, *āvaiya*
loc sg 461, also *āvai* (v l *āvai*) 517, *āvai f*
434, 553 604, *āvai* abs 426, 559 Sk *āvai* cannot
explain the intrusion of -*v-*, Sk *āpaya-*, Pk
ave- Turner *aunu* 1
- आवई** *āvai* 'knows' v pres 3rd sg 94, *āvai*
past part. n dir sg 94, *āvaiṁ* pl 94 der
s v *āvai* 1
- आवणहारि** *āvāṇahari* 'approaching' sub loc sg
(loc abs) 282 OG *āvāṇahara* agent noun
derived from the base *āvā-*, dir s v *āvai*.
- आवजिनु** *āvajinu* 'inclined favourably' past
part. m dir sg 466 lw Sk *āvajita-*
- आवली** *āvāli* "a very short unit of time" Jain
theological term sub sg f 397 lw Sk
- आश्रयी** *āśrayi* 'having obeyed' abs 523 lw Sk
āśraya OG 1 abs
- आशंसा** *āśaṁsa* "longing for praise, glory" sub.
f. obl sg (v l *āśaṁsa*) 573 lw Sk *āśaṁsa*.

आसुज *asauja* "12th month of the Hindu calender, aṣṭiṃ month" sub (-masi 'in the month of) sg 294 Sk āsvayuja- Pk asoa MG aso Probably OG -j- represents -y-, or the form is built with Sk -yuja- Pk assauja, H asouj

आसाढ *asāḍha* "name of a month sub m sg 514, lw Sk. asadha

आसेविष्य *asevīṣy* "should attend" ger dir sg m 551 v s v sevai.

आहणी *ahani* 'having struck" abs 386 Sk āhanati Pk ahanaī, abs ahania

आहार *ahara* "eats" v pres 3rd sg 516, abar aum 1st sg 521, ahariṣu fut 1st sg 516 Sk aharaī, Pk aharaī

आहीर *ahira* "name of a clan" m sg 94, ahira ham obl pl 94

आहेड *aheda* 'hunting' sub m dir sg 448, Sk akheta-ext Pk ahelaya Turner aher

आहेडी *ahedi* hunter sub m dir sg 453, Sk akheti,ah, Pk *ahedia-

आक्षि *amkṣi* "an eye (first part of the compound -malu 'dirt of the eye), sub f 12 Sk āksi n Pk akkṣi m f n Turner āmkho

आंग *amga* 'limbs' sub pl 25, also āngu sg ("part' Jain technical term) 355 Sk. amga n Pk amga

आंगुलि *amguli* "finger" sub sg f 44 of MG āgal Sk amguli f Pk amguli f, Turner aūh

आंतरणी *amtaraṇi* 'impediment sub f sg 330 Sk amtara, Pk amtara-, cf MG ātarvā 'to obstruct', ātro 'distance

आत्र *amtra* 'intestines, bowel sub f dir pl 112 lw Sk āntara- m f n 'inside, antrā, antra-n 'intestines' Bloch āt, Turner ātro āt.

आविलु *ambilu* "a type of penance among the Jains, the devotee eats once a day and only dry non-oily substances" n dir sg 94, also ambula 94, 303 Sk ācamla-, Pk ayambila-

इ 'even' used to emphasise the preceding phrase 94, 109, 142 427, 448 Sk āpi, Pk avi, MG y

इउ 'iu' 'here, in this direction' adv 427 Sk i-tās Pk io

इउ 'iu' 'this pro m sg 555 Sk idām n etā n, Pk. eso, cho m, Note the initial short i- in OG

इगार *igara* "eleven" num 372, also igyar 268, Sk ēkadaśa, Pk ekkarasa, ikkarasa, eggārha, in OG igyar (and MG agyar) -y- can not be explained, but compare many dialects of Hindi with -gy-, See Saksena § 227, Bloch § 221, Turner eghara

इगारमउ *igarmau* "eleventh" ord dir sg m 374, -mai loc sg 355, -mi f 259 der s v igara

इगुणत्रीस *iguntris* 'by the 29th (day) num inst 339 Sk ekonatrimśat Pk egunatisa OG preserves -tri-, also MG ogantris, ogan tis All the numerals beginning with iguna in OG are derived from ekona- "one less", though the change is not clear, the alternative suggestion is to derive them from *apaguna, (as Pischel suggests *apaguna vimśati) for MG oganis ninteun Bloch § 222, Turner unanis Pischel § 444

इगुणनवइ *igunanava* "eightynine" ord sg 267 Sk ekona- navatiḥ Pk igunanam of bow cver MG ncyvaī probably built on the analogy of athyaṣi (= 88) satyaṣi (= 87) For iguna s v igungtris Turner unanabbe

इगुणपचास *igunapamcaśa* 'fortynine num dir sg 235, 424 Sk ekonapamcaśat Pk egunapannasa cf MG oganpacas For iguna s v igunatris Turner unanacās

इगुणवीसमइ *igunavīsamai* 'ninteenth ord loc sg 355 v s v ogunasa Sk ekonvimśati Pk egunavīsam, cf MG ogunī For iguna s v igunatris Bloch ekonā, Turner unais

इच्छउ *icchaum* "I wish v pres 1st sg 353 Sk icchamī Pk icchamī Ap icchaum, Probably a lw from Pk with OG inflection

इणि *ini* 'by him, it pro inst sg 75 94 Sk etēna Pk eena, note the short i in OG MG EnE

इतउ *itau* ablative postposition 85, 94, 111 386, 425, 463, 466 also used with vasa-, cf. Sk -vasat Der uncertain see Tessittori § 72 2

इम *ima* 'thus adv 483 Sk evām Pk evam, Ap emva, ema, in Ap emva, -m- may be an indication of nasalised vowel Pischel 261 Note the initial i- in OG MG Em

इय *iya* "this" dem. pro, f nom sg 74 Sk iyām Pk iyam

इरियावही *iriyavahi* '(karma resulting from) bodily movements, such as walking, etc" sub f. obl sg 38, also -hīya (v L) 142, Sk iriyāpāthī, Pk iriyāvahiya.

इसतं *isatam* 'thus, in this way' adv. adj. n sg (v l *isau*, *isau*) 73, 74, also *isat* 474, *isat* inst sg 73, also *isaim* 522, also *isami* (v l *isat*) 553, *ise* inst. pl 376, *isā* obl sg 535, 541, also pl 573, also *isām* pl 522, *isi* f inst sg 74, 522 Note the short *i*- in OG Sk *idrsāh*, *idrsakah*, Pk *idisa*, *isā*. Turner *uso*

इसी *isi* "eighty num 617 cf OG *asi*, for der s v *asīsau*

इंद्रणी *indrani* "Indras wife f dir sg 74 lw Sk

इदिकु "belonging to this' pro 85 (v l *ihiku*, *ihā* hu, *ihā* lok) The termination *-ku* is a borrowing from midland (unless the derivation be *ihika*-which is also likely), note the reluctance of the mass to accept the termination, der s v *imham*

ई : particle of emphasis 73, 94, 432, also im 544, 554 for der s v

ईच्छ *icchaum* "I wish' v pres 1st sg 158 Sk *icchāmi*, Pk *icchāmi*, Ap *icchaum*

ईर्ष्यालु *irśyalu* jealous (v l *irśalu*) m dir sg 516 lw Sk *irśyalu*

ईह *imham* "these dem pro obl pl 386, also *imham* 396 Sk *esah* Pk *eso* Ap *eho* m, *cha* n Note the initial short and long *i*- in OG

ईही *ihā* in here, here adv 425, 573 Sk *ihā* + OG emphatic ! s v *imham*

ईहा *imham* here (v l *iham*, *ihā*) adv 85 cf Sk *ihā* Turner *kaham*

उगत *ugau* 'agitated, alarmed' past part. m dir sg 38 der uncertain

उगरता *ugarata* 'being saved remaining' pres part pl m 341 For der s v *ugarjam*

उच्छति *ucchati* in the celebration sub m loc sg 527 Sk *utsavah* Pk *ucchavo* lw Pk *ucchava* + OG loc termination *-i* cf MG *Ochav*

उच्छेदित *ucchedim* cut off destroyed past part m dir sg 428 lw Sk *uccheda* + OG *-i*u past part. inflection

उज्जयिनी *ujjayini*: name of a town f sg 574

उठित *uthu* 'got up grew' 464 der s v *uthu*

उडुकारकरण *udukarakarani* act of belching' sub dir sg 42 *udukāra*+*karapa* cf MG *okār*, der not clear

उत्कट *utkadu* fierce, mighty (v l *utkatu*) adj m dir sg 446 Sk *utkata*-, Pk *ukkaja*-, lw Pk

उदह *udā* "to the rise' sub loc sg 94 lw Sk *udaya*-

उदाहरी *udāhari* "gave an example' past part f 383 Sk *udāharati*, Pk *udāharat* (lw from Sk)

उद्दिशि *uddisi* "referring to" abs 369 464 Pk *uddisati*, *uddisya* Pk *uddisai*, *uddisiya*, lw from Pk *uddis*- + OG *i*

उद्दाले *udhale* "in summer" sub m loc sg 401 Pk *usna* + *kālah*, Pk *unha*- ext in OG *unhālu*, MG *unālo*, Note the short *u*- in OG, probably on account of the following *-ā*- in the next syllable

उपदिशत *upadīshatau* "advising, instructing" pres part m dir sg 529 lw Sk *upadīshati*, *upadīśa* + OG *-tau*.

उपरमित *uparamiu* 'reached, terminated' past part m dir sg 434, 544 lw Sk *uparama* + OG suffix *-iu*

उपलभी *upalabhi* 'having obtained' abs 527 lw Sk *upalabhate*, *upalabha* + OG *-i* s v *lahai*

उपसमित *upasamium* 'assauged, calmed' past part n dir sg 589, *upasamāvaum* caus pres 1st sg 326 *upasamāvi* caus. abs 556, *upasamaviva* obl of inf caus 351 lw Sk *upāśamyati*, *upāsama*- + OG suffixes

उपसहरत *upasamharatau* "while finishing" pres part dir sg m 630 lw Sk *upasamharati*, *upasamhara* + OG suffix *-tau*

उपादनहार *upādānaharu* "one who carries a burden sub. dir sg m. 602. *upādānā* + *hāru*, note the short *u*-, Sk *utpātayati* 'to tear up, pull out, utpatana-, Pk. *upādāna* to raise up' -*hāra* is an *a*-entive suffix 'one who carries cf. *karana* *hāra* 'one who does', from which MG *-nār* has developed This *-āra* is probably comparable to Sk *-karah*, but *-h-* cannot be explained except as intrusive *upādāna* + *haru* in OG was probably pronounced with *-ph-* (for aspiration moving to the initial syllable cf. scribal variations such as *sāmuhān*, *samhau*, Sk *sam mukha*-) developing as *-n-* in MG An alternative suggestion is *-dhāra*, see Dave s v *utāranāhāra*

उपार्जित *uparjita* 'earned, attained' past part. dir sg n. (v l *ūparjium*) 42^c, *upārjyām* pl 553 *upārjatau* pres part. m dir sg 461, *upārjatām* obl pl 480, *upārjām* pres 1st pl 455, *upārj* abs 428 lw Sk *upārjyati*, *upārja*- + OG suffixes

उपोषितु *uṣṣṭu* "abstained from food, fast" past part m dir sg, 85, lw Sk *uṣṣṭa-*

उमकु *umaku* "some, particular" indef. pron dir sg n 309, *umaku* loc sg 282, 309 lw Sk *amuka*, cf Sk pronom base *amu*, used in the declension of the pronoun *adās-* "that" MG *amuk*

उयारउ *uyārau* "place where water is dragged from the well or a pond" sub dir sg m 79, Sk *ava-tāraha-*, Pk *oyaragu*, MG *ovaro*, higher o- in MG suggests an early contraction of *ava*, OG reading u- should be interpreted in that light

उरहउ *urahaṭu* with *ṣarahaṭu*, "here and there-far and near" 525 for der s v

उलित *ulim* past part n sg 91, meaning and derivation not known

उल्लसद् *ullasim* "shine, rise" v pres 3rd pl 516, *ullasī* past part f dir sg 426 Sk *ulla sīti* Pk *ullasai* lw Pk

उसह *usaha* "medicine" sub dir sg 450 Sk *osadhī* f, Pk *osahī* f, *osaha* n MG *osar* OG u- seems to be graphic, probably an error

उदिर *umdura* "mouse" sub n obl sg 545 Sk lex *undura-*, *unduru* Pk *umdara*, *umdura*

•

ऊ u emphatic particle 41, 48, 456, 525 sometimes precedes in emphatic, also *kadācitu* (Sk *kadācīt+OG u*) 56 see Tessitori §101, cf Sk *tu*, Pk u

ऊखल *ūkhala* "a wooden mortar" sub sg 520 cf Sk *udukhala-n* Pk *udukhala*, *ukhala-m* n. also Pk *ukhlala*, probably a non-Aryan borrowing Bloch BSOS V 1, Turner, *okhli*

ऊगरिउ *ugarium* "saved, escaped" past part dir sg n 85 *ūgariyam* n 175, *ugaratā* (note the short u-) pres part pl m 311 Sk *udgarati*, *udgarī*, Pk *ugālai*, *ugāra*, *ugāla* MG *ugarium* Bloch *ugānem*, Turner *ugelno*, *ugriano*

ऊगिउ *ūgu* "arose, gone up" past part dir sg m 452, 589 Sk *udgatah* Pk *ugra-*, OG *og* + past part. m suffix -iū

ऊघटायद् *ūghā/laya* "causes to open" v caus. pres 3rd sg (v l) *ūghālayati* 474, *ūghālayā* inf 547 *ūghālayam* adj dir sk n 309 (OG *ūghālaya-der* as n adj) Sk *udghālayati* caus. *udghāy-* Pk *ūghālaya*, further caus *ūghālay-*

dava-, cf MG *ugharvū*, *ughravvū* Turner *ughārnu*

ऊचरद् *ucarai* "speak" v pres 3rd sg 325, 366 *ucirātam* 'while uttering' 154 obl of the pres part but the nasalisation may be due to the loc sense, see however Dave p 51 *ucarivā* ger pl m 10, also-*reva* 160 Sk *uccarati* Pk *uccarai*

ऊचलिउ *uchalin* "sprang up, rose up" past part m dir sg 521, -li f 483 Sk *ucchalati*, *ucchalita* Pk *ucchala*, *ucchali-* Turner *uchranu*

ऊजालता *ujalata* "causing to shine, illuminating" caus pres part m dir pl 522 Sk *ujjalati* caus *ujjalayati*, Pk *ujjala-* Turner *ujjalnu* ऊजीणि *ujjāni* name of a town (v l ujjent) f 435

ऊठिउ *uthau* "got up" past part tn dir sg 73, *uthi* abs 163, 341 *uthium* n sg 326 *uthāli* caus abs 446, *ūthi* imp 2nd sg 589 cf Sk *utthiṣṭhāti*, Sk *ut+sthā*, Pk *utthai* Bloch *uthnē*, Turner *uthnu*

ऊड *ula* "name of a tribe of diggers", 386, for der s v ola

ऊणउ *unau* "deficient" adj dir sg m 330, *ūnā* pl also *unam* (note the short u-) 339, Sk *ūnā*, Pk *una* ext with OG -u. s v *unatā*

ऊणता *unata* "deficiency", sub-abstract noun-f sg 459 Sk *unā*, Pk *una*, der with OG -ta

ऊतरिउ *utarau* "got down, came down" past part m dir sg 463, 525, 539, *utaratau* pres part m dir sg 431, 579, *utari* abs 73, *ūtari* pass 3rd sg 296, *ūtāram* caus pres 3rd pl 521, *ūtāram* 1st sg 71, *ūtāriyam* fat 1st pl 455, *ūtāri* abs 528 *ūtāriā* obl of inf of the causal base 377 Note the short u. Sk *uttarati*, Pk *uttaru* Bloch *utarōc*, Turner *utranu*

ऊतर *ūtaru* "reply, answer" sub m dir sg 7, 281, 488, Sk *uttara-*, Pk *uttara*

ऊतारउ *utarau* "hasty fast" adj m dir sg 463 *ūtāvalā* obl sg 463, also pl 456 Sk *uttā pa* ext with -la, Pk *uttāvala-* ext in OO Bloch *ūtāvala*, Turner *ūtānla*

ऊदेगियद् *udgegiy-* "is troubled" pass sg 91 cf *udgegi* borrowed in Pk as *udgega*, *develops* in OG as *udgega+* passive sg inflection of OO

ऊदेही *ūdahi* "white ants" sul f 21 cf. MG *uthu* the OG word *lyk* like *sanskritization* of the current Gaj word der not known.

- उचरि *ūdhari* "remove, draw out" v imp 2nd sg 44 Sk *uddharati*, Pk *uddharati*, *uddharehi* also -*ahi* imp.
- उचसतुं *ūdhāsam* "rise, go up" v pres 3rd pl 246, Sk *udharsate* (*ud-harsate*), cf. Pk *uddhusa*, **uddhasa*
- उधारी *ūdhāri* "by loan, credit", sub inst. sg 459, Sk *uddhārām* m Pk *uddhāra* m Turner *udhara*.
- उधि *ūdhi* "the wooden seat in the centre of the yoke (of a cart) sub dir sg 44 Meaning is not quite clear, it may mean the vertical plank of wood fitted in the yoke, may be connected with Sk *urdhvā-* Doubtful
- उपजद् *upajai* "is produced, rises" v pres 3rd sg 432, *ūpajaiam* des pres 1st sg 516, *upajaiam* caus pres 3rd pl 553, *upajavatau* pres part m. dir sg 457, *upajavi* caus abs 38, 48.3, Sk. *utpadyate*, Pk *upajjai* Bloch *upajai* Turner *ubjaju*
- उपनत *upanaum* 'produced, created' past part. dir sg n 108 *upanaui* 432, (v 1 *upana*, 110) *upana* pl 44 *upani* f 463 Sk *ut-pad-upanna-* Pk *upanna-ext* in OG
- उपरि *upari* "on, above adv 74 557, Sk *upari* Pk *upari* Turner *upar*
- उपरवाद् *uparavāḍi* 'on above ad. loc. sg 577 Sk *upari* adv *upari* Pk *uppar-* for *vadau* cf MG *pachvādū* *pachari*, 'back, behind and analogically MG *agari* 'in front of also P *pachavarā*, in *upara-vadau*, *vadau* is possibly an analogical extension of the same but etymology is not clear Turner (s v *pachari*) suggests comparison with *paścādbhāḥ* 'hinder part'
- उपरवत् *upaharau* 'above belonging to the above' adv m dir sg 10 *upaharā* (v 1 -*harā*) obl pl 109 also *upaharām* obl (gen) 186, possibly *ūpara + rahan*, for der s v *upari*, and *rahan*
- उपरवत् *upaharāum* "more than comparative adj n sg 443, 553 v s v *upaharau*.
- उपारी *ūpāri* "having lifted abs 462, 561, *ūpāriu* past part m dir sg 555 *upādātām* pres part obl (gen) 211 Sk *utpātayari*, Pk *uppādi*
- उपारी *ūpāri* "having attained, obtained abs. (v 1 *upāri*) 38, 466, *ūpādāta* pres. part. (unenlarged) 86 for der s v *ūpādi*

उपेला *upelā* "above" adv adj obl sg 247, *upelai* (note the short u) loc sg 9, cf MG. *uplo a i j* m 'above probably *uppa-* (cf *upari*) with *illa*, cf Pk *uppelā* 'raised'

उरीटं *ūbithaum* "nauseated, full of aversion" past part dir sg n 473, probably Sk **ud vista* (contrast *pravista-*) Pk **uvaittha*, even though *v > b* remains doubtful though cf H *ub* *utha*. Extremely doubtful

उभत् *ubhau* "raised, elevated" adj m dir sg 456, *ubbā* pl 489, also obl 48, *ūbbām* obl 322, *ubbī* f 474 Sk *urdhvāh* Pk *ubbha*, *uddha*, *uddha* Bloch *ubha*, Turner *ūbho*

उभद् *ūbhāḍa* "half standing position" dir sg 322, 326, Pk *ubha* ext in OG -*dau*, developing as u, der s v *ūbhau*

उभल्लूरी *ubhalulāri* '(fried with) a little oil, refers to *chapatī* put on a frying pan with a little oil" adj f 315, etymology not clear, cf however MG *lukkū* adj 'dry, not buttered', Sk *rukṣa* Pk *lukkha*

उलालत् *ulalaum* cause to toss up, jump v caus pres 1st sg (in fut. sense) 537, *ulālī* abs 577 Sk *ullalati*, Pk *ullalai*, also **ullalayati* Pk *ullalei* Bloch *ulala*, Turner *urlanu*

उष *uṣadha* "medicine" sub dir sg 172 The initial *ū* cannot be explained, lw Sk *ausād bhām*

उसास *usasa* 'breathing' sub m 331, also **usasa* 571 Sk *uchvāsah* Pk *ussasa* m Bloch *usā*

उसु *usu* 'dew' sub dir sg 20 MG as. Sk *avaśyā* f Pk *osā* f also Pk *usā*, also Sk *avaśyāya* m Pk *osā* m

उचत् *umau* 'tall, high adj dir sg m. 616 also *umcu* 533, *ūmcau* loc. 463, *umca* obl 566 Sk *ucca* Pk *ucca* Turner *ūc*

उचपि *umrapani* 'due to height' sub. inst. sg 614 *umca + panum*, for *umca*, s v *umcau*, Sk -*tvana*, Pa *tpana* Pk *ppana*, OG ext Pischel § 597

उम्हत् *umhauum* 'hot' adj dir sg n 175 Sk *usnā* Pk *upha-* ext in OG

उम्हाद् *umbhāḍi* 'a burning stick straw or a faggot' sub dir sg 154, *ūmbhāḍi* obl s. 154 Sk *nimuka*, Pk *ummus*, ext -*dau*

ए "this" dem adj pro nom sg f m 94, 365, 424, 481, 526, also pl 455, also remote 135 Sk esāh m, esā f etāt n, Pk esa m esa f etah n

एइइ *eiṣa* "will accept alms" v fut. 3rd sg 137, Sk esati Pk eṣu, OG e with the future morpheme -īsa- eiṣa.

एउ *eu* "thus, that" dem pro 10 OG e+u, n is emphatic For der. s v e

एक *ek* "one, some" num indef. art 74, also eku 39, eki inst sg 425, also loc sg 38, Sk ekah, lw in Pk ekka-, Bloch ek, Turner ek

एकडे *ekāḥ* "together" adj f 520, 615 ekathāh n pl 520 Sk. eka stha- Pk ekkattha- ext

एकतीसमा *ekatisama* "thirty first" ord. obl 222 Sk ekatrisāt- Pk ekatisama, Note the retention of -tr- cluster in OG, also cf MG ekatris

एकल *ekala* "alone" adj dir sg m 452, also ekala 544, ekalā obl sg m 452, ekal f 589 Pk ekkala 'strong, powerful', note the retention of this meaning in the MG compound 'ekal vir' 'the lone warrior'

एकवार *ekavāra* "once" adv 96, 300, 492 Sk ekavāram, Pk ekka (also cf bijvara 96)

एकवीस *ekavīsa* "twentyone" num dir 74, eka vīśah pl n 74, ekavise inst pl 259, Sk eka vimśatih, Pk ekkavīsam, Turner ekkāṣ

एकहत्तरि *ekahattari* "seventyone" num dir 74 From Sk eka-saptati to Pk. eka hattari, for Sk -t to Pk r see Pischel § 215 r- is noted in cognate Indo-Aryan languages excepting Kashmiri and Sinhalese Bloch sattar, Turner ek'hattar

एकदशमी *ekadāśami* "eleventh" num card f dir sg 435 lw Sk ekādāśa + OG -mī

एकवारण *ekavāraṇa* "vow of eating once" sub. dir sg 300 (a Jain vow) OG eka + āśanaṁ, Sk āśanaṁ Pk āśana- ext. MG ekāśu

एकसप्तत्यस्र *ekasaptatyaśra* "one hundred fortyseven" num. 285 For ekasau, v s v eku and su. vateśāla Sk saptatvāśrīśat, Pk satta cattāśra, *cattiyattāśra, MG has, however, saptāśra, prob. on the analogy of arśāśra (forty eight) Turner saptāśra.

एकस्य *ekasya* "one" num. dir sg 142 lw Pk eka v s v eka.

एकस्य *ekasya* "as much, that much" adj dir sg 426, ekāśa obl pl 431, 470, etāśm n. pl 74,

also used as etāśā ke 553, etāśa loc. sg 74, 434, etāśe inst pl 74, etāśi dir sg f 74, also etāśm f 112 Sk śyātākāh cf śyat, Pk ettula Bloch ituka, Turner uti

एरण्ड *eranda* "the castor-oil plant, Ricinus Communis or Palma Christi" sub s: 311 Sk erandah Pk eranda

एरावण *eravana* "Indra's elephant" m dir. sg 74 Sk aravana-, Pk. eravana.

एवढ *evadā* "so big" adj dir sg m 539, evade inst sg 470 Pk evadda- ext

एव *eva* "this" dem pro nom s, 74, 94, 110, ehe inst pl 386, also ehu 381, with emphatic -u, v s v e 11 OG, eha is an archaism, Sk esah, Pk eso, eho

ओकली *okali* "(wind) which spreads like a wave" adj sg 20 Sk utkalikā f 'a wave' Pk ukkalyā f

ओगुणीस *oguniśa* "nineteen" num dir 44 cf MG oguṇis see Pischel's suggestion *apa-guṇa vimśati, § 444 v s v 19gunatris

ओघ *ogha* "the staff carried by Jain monks" sub dir sg m 158 oghai loc sg m 135 Sk ava-grahah, Pk uggaha-, o-gaha- ext in OG

ओछावु *ochāvau* "covering", sub dir sg 12 Sk ava-ochādāna- Pk ucchāvāna- note the y changing to -v-, which cannot be explained

ओटहिया *oṭahiyā* "rolled in dust (?) " past part pl 22 Derivation not clear

ओठमी *oṭambhī* "having supported" abs 44 Sk avastabhya Pk utthambhuya.

ओट *ota* "wandering tribe of workers and craftsmen" sub m. dir pl 386 Sk oṭra-, Pk. oṭa. Turner or

ओटा *oṭa* "in the residence" sub. loc sg 53^a cf Sk oṭa- Pk. oṭava-

ओटली *oṭlī* "having snatched" abs. 187, udā livā inf of purpose 105 Sk uḍalati caus. uḍāla-, Pk uḍalā.

ओपारि *opāri* "by loan" sub. inst. sg 182 also cf oḍāri Sk uḍhāśā Pk uḍhāra-, Turner uḍhāro

ओपरइ *oparai* "adj. part. in, refers specially to cooking when grain is put in hot or water" v pres. 3rd sg 179 oparai past part. loc sg 175, also past sg 175, MG or v² ek. avāś

- rayati, Pk *oyārei, cf Sk avatāraka-Pl. oya
raṅa-
- ओरइ orai "in the neighbourhood, near, prior,"
adv loc sg 179, also orai para; "near and far
391, Sk. āvarah, ext v s v parahau
- ओरइउ orahau "near, forward" adj dir sg m
425, orahā pl (honorific) (v l urahā) 103,
also orahām 151 cf. Sk āvarah, s v orai
- ओलखतु olakhatu "knowing, recognising" pres
part m dir sg 474, olakhiya past part m dir
pl 515, olakhi abs. 555 Sk lakṣayati poss
with Middle Indian prefix o-, Pk o-lakkbau
Bloch olakhñū
- ओलगित olagiu "attached stuck to" past part.
m dir sg 445, Sk avalaṅnah, Pk olagga, OG
olag+iu
- ओलण olana "without salt" adv dir sg 304 cf
Sk lavana-, possibly *apalavana-
- ओसहु osahu "medicine sub dir sg n 527, osabi
f 432, 463, osadha ham n inst pl 521 Sk
aṅsadham, aṅsadhī-, oṣadhī-, Pk osaha n
osabi n, osadha is lw in OG
- ओसामणु osamaṅu "which causes to dry" sub dir
sg m 303 Probably connected with MG
osāv vñ 'to cause to dry, esp to drain the
water from rice' MG osaman 'water derived
from rice, a gruel,' see P B Pandit 'E and O
in Gujrati' Ind Lang vol xv p 37 cf Sk
avasyatah 'cooled' Turner osina
- ओहदणु ohadanu "removal, reduction" sub dir
sg n 12, ohadavanattlu. lw Pk 'for the sake
of reduction 331 Sk apa+ghatanam, Pk.
ohadanam
- ओहली ohaḷi 'having sprinkled' abs 557 cf Pk
phrase amsujala-ohaliya-gamdayalo 'whose
cheeks are sprinkled by tears in Sheth's Pkt.
Dictionary, under ohaliya which he renders
as 'darkened, lustreless' Der not known
- ओही oh limit, border (Jain theological
term). sub dir sg m. 325 Sk. avadhāh Pk
ohi, final i cannot be explained prob ext in
Pk
- कउडु kaṅṭhu 'Feronia Elephantum and its
fruit' sub dir sg 41, Sk kapṭha, *kapa-
stha-, on which monkeys dwell", Pk kavī-
ttha-, kavīṭha-, MG kOṭhū Bloch kavath,
Turner kaṭh
- कउडइ kaṅṭam "cowries" sub obl pl n (v l
kavadām) 461 Sk kaparda-m, Pk kavāda-
m Bloch kavṛā Turner kavri
- कउण kaṅṇa "who" inter pro obl sg 463, kau
nu dir sg 451, 534, 555, kua obl sg 112,
557, also kuni 538, elsewhere kuni inst sg 545
Sk kāh pūnah, Pk kavau Bloch kon, Turner
kun
- कउतिग कौतिग kaṅṭiga "curiosity, miracle" sub n sg
465 lw Sk kautukam -h->-g- indicates
an earlier loan
- कचोलक kaccolaka "a porcelain (or glass) cup"
sub dir sg 478 Pk kaccolaya- In OG final
-ya is replaced by -ka. MG kacolū
- कडइ kaduka "a large cooking pan" sub obl
sg m 311 kadāhai loc sg 315 Sk latahah
Pk kadāha-, ext in OG Bloch kadhai,
Turner karaī
- कडियाली कडियाली kadiyālī 41, meaning and derivation
not known
- कडुक kaḍuka "bitter" adj dir pl (v l
katuka) 516, Sk katuka-, Pk kaḍua, OG
kadu ext with -ka Bloch kaṅṭu, Turner
karuwa
- कणिक कानिका kaṅṭika "a smaller variety of rice" sub
(in a compound kanikkāḍika) 502, also
kanika 311 Pk kanikka der not known
Deśinamamāla 137 records kanikā 'wet
dough for bread' in MG there are two words
kanikā 'smaller grain of rice' and kanikā,
kanek dough for bread'
- कडायिणु kaḍayinu "any time, some time adv
94 lw Sk kadācit + OG suffix -u
- कडइ kanhas "near postpos 94, 103 549,
also kanhā 74, 487, 533, 554, cf Sk kārṇe,
Turner kana
- कपदक kapardaka 'cowrie' sub dir sg m 21
lw Sk. kapardalāh
- कपाट kapata "door, panel of a door" sub. m
n dir pl 547 lw Sk kapata
- करइ karas 'does, accomplishes' v pres 3rd sg
85, 485 karām pl 142, karām 1st sg 85,
560 also karām 524, 629, karas fut. 1st sg
94, 560, karasim 3rd pl 489 karau imp 3rd sg
85, (also 2nd pl) 433, 482 561, also karo
164, karī 2nd sg 103, 557, karjia rec 3rd
sg 426 karata pres part. (unenlarged) 539,
karatau pres. part m dir sg 85, karatā pl
85, 544 karatām gen pl. 440, 480, karatai

- unextended *kā* has survived in MG as neuter, also *s v kāyu*, where it is neuter
- काजु *kāju* "work, assignment" sub dir sg n 307, 514, 537 Sk. *karyam*, Pk. *kajjā-* n Bloch *kāj*, Turner *kāj*
- काउड *kāuda* "draws out pulls out" v pres 3rd sg 112, *kāihau* 1st sg 342, *kāihiyab* past part dir. pl 556, *kāihii* loc sg 142, also *kāihite* 461, *kāihiva* obl of inf 556, *kāihiyatim* pass pl 556, *kāihiyau* caus past part m dir sg 526 Pa *kāihiat*, Pk *kāihā* Bloch *kāihū*, Turner *karhū*
- कातल *katata* "spinning" pres part dir sg m 213 Sk. root *kat*, *katana-* 'act of spinning', *katati*, Pk *katta-*, note the MG base with nasalisation *kāt-vū* Bloch *kātū* Turner *katnu*
- कादम *kadama* "mud" sub (in a compound *ladama* *lāhanu*) 12 Sk. *kardama-* m Pk *kaddama-*, MG *kadav*, perh lw with *-m-* to *-v-* change
- कापड *kapada* "garments, dress" sub n dir pl 548. Note the change of meaning in MG *kapar* 'cloth' and *kaprā* n pl 'clothes, prepared garments' Sk. *kāpatā-* Pk *kappada-* Bloch *kapar*, Turner *kapra*
- कावरड *kavarau* "variegated, spotted" adj dir sg m 25, Sk. *karburaka-*, Pk *kabburaya-*
- कामयुड *kamayuru* proper noun m dir sg 525
- काय *kaya* "body" sub dir pl 110 lw Sk. *kaya-*
- काउड *kāuda* "black" adj dir sg m 25 Sk. *kāū-*, Pk *kāū-*, ext
- कालेयक *kāleyaka* "liver" sub dir sg 25 lw Sk. *kāleyam*, *kāleyaka-*
- कालिड *kālī* "to-morrow" adv stereotyped loc (v I *kālī*) 483, 543 note the added aspiration Sk. *kāya-*, Pk. *kālā*
- काश्यप *kasyapa* proper noun dir sg m 365
- कि¹ *ki¹* a particle which introduces a question or a quotation conj 428 (occurs only once, P omits it) cit *svamin! su deva tumhārau putra huyau ki nahim* Sk. *kim* Pk. *kim* Bloch § 204 suggests Persian influence, but here in the context the Sk. source is sufficient. The usage is also considerably early Bloch *ki*, Turner *ki*
- कि² *ki²* "or" conjunctive particle 620, 628 der a, v *ki¹*
- किनि *kinī* "by some one" indef. pro inst sg 365, often followed by *luh* 73 94, also loc sg 112 Sk. *kenā*, Pk. *kenā*
- किम *kimā* "how" adv 483, 525, followed by *-i*, prob inst, changing the sense 'in any way' 73, 85, 474, 602 Ap *kenva*
- किरि *kirī* "as if" particle 514 Sk. *kīra*, Pk. *kīra* Bloch *kīra*
- किमड *kisau* "what, why, how much" adj interr pro dir sg m (v I *kisyau*) 94, *kisau* n sg 426, 556, also *kisuth* 588, (v I *kisūna*) 463, *kisā* obl sg 94 559, *kisum* pl n 563, *kisū* inst sg 386, 464, 1st f 464, 536 Sk. *kidīs-*, *kidīsika-* Pk *kīsa-*, note the short *-i-* in OG
- किहू *kīhū* "where" adv 365, 426, 514, 538, also *-hā* 514, pronom stem *ka-* with the loc *-namin*, Pk *-him* also cf Pk *kaṃha*, the ablative form, MG *kyā* Turner *kaḥā*
- कीजत *kiyatam* "while being done" pass pres part, gen pl 460, *kiyate* loc sg 56 Sk. *kriyate* Pk *kijjā* OG present participle *kiyatam* is derived from the passive base
- कीटड *kitāum* "dust (accumulated in ghee)" sub dir sg n 313 Sk. *kittam* 'secretion, dust, rust (of iron)', Pk *kitā-*, ext, MG *kitū* Bloch *kit*
- कीटिक *kitika* "ant" sub f 19 lw Sk. *kitāka-* m Pk. *kidiya f*, note the sanskritised formation
- कीडी *kiḍī* "ant" sub f 21 Sk. *kitāka-* m Pk. *kidiya* Bloch *kit*
- कीधड *kidhau* "done, accomplished" past part dir sg n 38, 567, *kidho* m 516, *kidhau* n sg 433, 435, also *kidhū* 523, *kidha*, *kidham* pl 94, *kidhā* loc sg 434, *kidhi f* 74, probably an analogical formation of the past participle of the *-dh-* type (*li-dhau*, *pidhau*, *didhau*) with *kar-* as the stem
- कीर्ति *kirita* 'having praised' abs 83 lw Sk. *kirtayati* OG *kīrta-* + OG *-i* abs
- कीर्तिपाउ *kirṭipāu* proper noun m. dir sg 487
- कुडुंबी *kudumbī* "farmer, householder (in contrast to a monk)" sub m dir sg (v I *kumḍa* mbl *kutambī*) 112 lw Sk. *kutambī* m
- कुडुडी *kudūdi* a long and a deep spoon used for serving and stirring ('while cooking') sub f sg 209 MG *karchī*, *karcho*, der not known

possibly the present word means 'a lotus', if so, the etymology is clearer Sk. Pk. kamala-

कांगुल *kāṅgula* "A type of creeper" sub (part of a comp) sg 311, Sk. *kāṅku* m. *kāṅgu*, f. *kāṅgunī* f. 'celastrus paniculatus' Pk. *kāṅgu*, *kāṅgunī*

काधि *kādhī* 'on the shoulder' sub loc sg 540, Sk. *kāndha-*, Pk. *kāmdha*, *kāmdha-*, MG *kādhī*, *kādhī*, f. It is used here in the idiom *kāmdhī kuhāḍau karī-* 'in all readiness' Turner L'ldh

किचूण *kīcūṇa* "a little less" adv 231 Sk. *kīcūt + unam* Pk. *kīcūc + uṇa*, OG *kīcūcūna*.

कुटो *kūṭo* "a bowl-shaped vessel, basin" sub f. 25 Sk. *kūṭāka*, *kūṭika*, Pk. *kūṭiya*, *kūṭi* MG *kūṭi*

कुथु *kūṭhu* proper noun m dir sg 110

कुथुया *kūṭhūya* "a type of insect" sub pl. 21, cf. Sk. *kūṭhātī*, 'to hurt, to twine round' Pk. *kūṭhū-* ext. in OG *kūṭhū*

कुम्भ *kūmbhī* proper noun dir sg m. 446

कुम्भी *kūmbhī* "jar, pitcher" sub sg 25 Sk. Pk. *kūmbhī*

कृमि *kṛmī* "insect" sub sg 21 lw Sk. *kṛmī* *kṛmī*

कृगु *kṛgū* proper noun m dir sg 145

क्रयाण्ड *kṛyāṇḍam* "a purchasable object, transaction" sub dir sg n 507 Sk. *kṛyāṇāka-*, note the retention of -r in OG MG *kṛāṇḍū*

क्षय *kṣaya* "annihilation, destruction" sub dir sg m 74 94 lw Sk. *kṣaya-*

क्षिण *kṣīṇa* will be annihilated, will wane v. pres (in fut. sense) 3rd sg 550 Sk. *kṣayati*, lw OG *kṣī-*

क्षिण *kṣīṇa* 'pardon forgive' v imp 2nd sg (v 1 *kṣāmi*) 539 lw Sk. *kṣamati*, OG *kṣām-* OG -i- in the first syllable may be due to the following -i- or some dialectal habit of the scribe

खचर *kṣacar* moving in the air, flying sub 21 lw Sk. *kṣacara-*

खजूर *kṣajūra* "dates" sub pl. 477 Sk. *kṣajūra* m. 'phoenix sylvestris, the wild date tree', Pk. *kṣajūra* m. Bloch *kṣajur*, Turner *kṣajur*

खडी *kṣāḍī* "chalk" sub f. sg 20 Sk. *kṣatikā*, Pk. *kṣālī* MG *kṣarī* Bloch *kṣarī*, Turner *kṣarī*²

खगु *kṣagū* "act of digging" sub sg n. 503 Sk. *kṣāṇam* Pk. *kṣāṇam*

खणोत् *kṣāṇatī* 'being dug' pass pres part. loc sg 336 This passive formation is new in OG, it is derived from Pk. passive suffix -iā-, and -tū is the extended form of the Pk. -anta of the present participle Sk. *kṣāṇatī*, Pk. *kṣāṇa*.

खनक *kṣāṇaka* "diggers" sub m. dir pl 387, *kṣāṇakam* obl pl 186 lw Sk. *kṣāṇaka-*

खपावइ *kṣāpavai* "causes to consume, annihilate" caus pres 3rd sg 586 *kṣāpīyati* pres. 3rd sg 15^v Sk. *kṣāpyate*, Bloch *kṣāpūt*, Turner *kṣāpnu*

खमद *kṣāmadam* 'atone, pardon' v pres 1st sg 327, 629, also 1st pl 629 also in the compound tense *kṣāmakaram* 1st pl 629, *kṣāmaṇam* caus pres 1st sg 629 *kṣāmaṇam* caus pres 3rd sg 539, *kṣāmaṇam* pl. 489, *kṣāmaṇiya* past part m. dir pl 108, *kṣāmaṇi* abs 113, *kṣāmaṇi* precativ 3rd sg 489 MG *kṣāmaṇū*, *kṣāmaṇū* Sk. *kṣāmate*, *kṣāmyati*, Pk. *kṣāmaṇi* *kṣāmaṇi*

खमासण *kṣāmasaṇu* 'act of paying respect, bowing down -originally a respectful way of addressing the teacher and the elders 'kṣamā sramana'', but later came to mean, among Jains, the act of paying respect, sub n sg 322, also *kṣāmasaṇu* 322 *kṣāmasaṇu* inst sg 322, Sk. *kṣāmasramana-* m Pk. *kṣāmasaṇam*

खरवलत *kṣāravalatau* "scratching" pres. part m dir sg 461, der not known

खरति *kṣāramati* "polluted, impure (by contact with impure object)" past part. sg 305, *kṣāramati* loc sg 209 Pk. *kṣāramta*, sanskritised in OG with Sk. participial suffix -ita cf. Pk. *kṣāraḍa* 'to besmear' MG *kṣāraṇū* 'to besmear, to make dirty by besmearing'

खल *kṣāla* 'residue of the sesamum seed after the oil is pressed out, oil-cake' sub m. dir pl (v 1 *kṣālī*) 433 Sk. *kṣālā-*, *kṣālī-*, Pk. *kṣālī* MG *kṣālī* m. Bloch *kṣālī* Turner *kṣālī*

खलइ *kṣālavai* in the thrashing floor granary" sub loc sg 477 Sk. *kṣālā-* m. Pk. *kṣālā-*, **kṣālām* OG *kṣālām* MG *kṣālū* Bloch *kṣālī*

खाइ *kṣā* is "eats" v pres 3rd sg 25, *kṣāyam* pass. pl 519 *kṣādhām* past part. n dir pl 433, *kṣā* abs 525 Sk. *kṣādāti*, Pk. *kṣāai* MG *kṣā* vū Bloch *kṣāpūt*, Turner *kṣānu*

खाडी *kṣāḍī* "butcher" sub m dir sg 129 Sk. *kṣāṭṭika-*, Pk. *kṣāṭṭīa*, *kṣāṭṭīka-* MG

khatkī, the transference (?) of -i- cannot be explained

खणि *khāni* "querry" sub dir sg f. 20, 508 Sk *khāni-*, f *khāni-*, Pk *khāni*, *khāni*, MG *khān* f Bloch *khan*, Turner *Lhāni*?

खामनाम *khamanaam* "act of asking pardon" Jain theological term sub dir sg n 326, *khāmanam* pl 341, cf Sk. *kṣama*, *kṣamāpana* Pk *khamana* f.

खसदां *khāsadam* "shoes" sub obl pl n 12, der not known

खिसई *khiswam* "move, slip" v pres 3rd pl 516, MG *khāsvū* Pk *khūsi*, *khāsi* cf II *khis-* which suggests that MI base should be **khīsa-* see however, Turner *khāsvu*

खीरि *khīri* "rice cooked with milk" sub f dir sg 112, *khīru* n dir sg 556, Sk *ksīram*, *ksīrikā*, Pk. *khīra*-n *khīri* Bloch *khīr*, Turner *khīra*?

खीली *khīli* "nail" sub f 245, Sk *khīlāh* 'post,' Pk. *khīla* m *khīliya* f there should also be a MI form **khīlā-* to explain MG (also MI and O) *khīlo*, *khīli*: Bloch *khīl*, Turner *khīl*?

खुई *khūpam* "sink, submerge" v pres 3rd pl 74, *khūta* past part m dir pl. Pk *khuppai* For a possible IE derivation of the whole range of words such as MG *khūpvū*, *khosvū* *kūdvū*, see Turner *copnu*

खोडियई *khōṭiyai* "being fixed attached" pass 3rd sg 601, cf MG *khōṣvū* 'to fix, drive in', note the open -O- in MG cf Sk *ṣṭot* 'to throw, to cast'.

खसकरणु *khāmsa kharanu* "act of coughing" sub n sg 42 cf. MG *khāmsi* 'cough' Sk *kṣāksikā* f Pk. *khāsa* m *khāsi* n Turner *khāmsi*

खर *khanda* "sugar" sub 477, lw Sk. *khanda-* m n Pk. *khanda-* m. n. MG *khāḍ* f, however, goes back to Pk. *khanda* f Bloch *khāḍ*, Turner *khāḍ*.

खारियई *khārciyaim* "are thrown, cornered" pass 3rd pl 582, cf MG *khāro* corner, Pk *khārcia-* 'controlled, dragged' der not known Turner *khāro* *khārcu*

खण्डत *khāṇḍatāu* "pounding, pressing, breaking" pres part m dir sg 213, 514 Sk *khāṇḍayati*, Pk *khamḍai*

खण्डु *khāṇḍu* "water in which rice is boiled" sub dir sg m. 307 PL *gajula*, der not known.

गणित *ganu* "counted, considered" past part. m dir sg Sk *ganitam*, Pk. *ganiam*, ext

गणाइ *gaṇaim* "counted, noted" pass 3rd pl 405 Note the use of -ā- passive, which is rare in this period The usual passive suffix is -iya-der s v *ganu*

गभारा *gabbara* "inner part of the shrine" sub obl sg m 617 cf Sk *garbhagṛha-* n, **garbhagṛha-*, Pk. *gabbha hara-* ext

गमइ *gama* "side, direction" adv loc sg 450, 457, 589, also *game* 483, *gama* obl 530 MG, *gam*, *game* Sk. *gamyā-*, Pk. *gamma-*, *gama-*, OG ext

गमनागमणु *gamanagamanu* "coming and going-bodily movement" sub n dir sg (v l *gamanagamaṇam*) 38, Sk. *gamanagamanam*, lw in Pk *gamanāgama-* ext

गयइ *gayau* "went" past part. m dir sg 38, 74, *gaya* pl 86, 433, 550, *gai* f sg 425, 489, 573, *gayai* past part. loc sg m 451 Sk. *gatāh*, Pk *gaya-* ext in OG Turner *gayo*

गरिइ *garīham* "exonerate" v pres 1st sg 384, also *garbaum* 166, *garīh* abs 564

गहयइ *garuyaim* "by the elder" adj m inst sg 365, *garuya* obl pl 516 Sk. *guruh*, Pk. *garua-*

गहई *garu* "big, on a grand scale" adj f. 71 Sk *gurūh* Pk *garua-* ext in OG with f suffix -i

गलइ *galai* "melts" v pres 3rd sg 438, *gālīud* caus past part sg n 25 Sk. **galati*, *gālayati*, Pk. *galai*. MG *gal-vū* Bloch *galūḍ*, Turner *galau*

गलकैवल *galakamvala* "a bull's dewlap" (first part of a compound *galakamvalādikaham*) sub 443 Sk. *galakambala-*

गलसरण *galasarana* "sobs" sub n. pl 38 Sk *gala svāra* 'noise in the throat' doubtful

गला *gala* "neck" sub n obl. sg 428 cf. Sk. *galaka-* m., Pk *gala-* m, perhaps also n in Sk, Pk. **galaam*, MG *galū* Bloch *galā*, Turner *galo*.

गली *gali* "swallowed" (in the compound verb construction with *gayau*) abs 556 Sk. *galati* 'swallows'.

गाइ *gāi* "cow" sub. sg f 264, 311, 325, Sk. *gāvi* f Pk *gāvi*, *gāi* f MG *gā*, *gāy* Bloch *gāy*, *gāi* Turner *gāl*

गाड *gāḍ* "two miles" (unit of measurement) sub m. dir sz 615. *gāvāśā* n. pl. 7. Sk. *gāv*

- yuta- n, Pk gāṭa, gāna, gāu n both the stems unextended and extended are noticed MG gāu m
- गगलि *gagali* proper noun m dir sg 108
- गाजतड *gajatau* 'roaring thundering' pres part m dir sg 514, Sk garjati, Pk gajjai, Bloch gajṇē.
- गादर *gadar* "young one of goat" sub dir 21 also gaḍari f 311 Pk gaddari f
- गादा *gaḍa* 'bullock cart' sub n obl. sg 94, gadām pl 94, 506 Pk deś gaddi Bloch ḡaḍi, Turner garī
- गादड *gadha* "thicker, bigger in intensity" adj m dir sg 453, gadhaim inst sg 453, gadhi f 298, 468, gadherau comparative form 453, for -erau see under adhikerau Sk gadha- Pk gadha- ext in OG
- गादह *gadaha* "donkeys" sub pl in 507 Sk gardabhāḥ, Pk gaddaha-, Bloch gadhav, Turner gadoho
- गाधि *gadhī* proper noun m dir sg 455
- गामु *gamu* 'village' sub m dir sg 386, gāma loc sg 223, 386 Sk grāmah m. Pk gama- m MG gam n Bloch gāv Turner gaū
- गायतड *gayatau* "singing" pres part dir sg m 223 Sk gāyati, Pk gaai, gayanta- ext in OG
- गाहदिके *garudike* 'by the snake-charmer' sub m inst sg 589 lw Sk gārudika-
- गालमलु *gālamalu* "dirt on the cheek" sub dir sg 12 Sk galla - m, Pk galla m. MG gal m Bloch gāl, Turner gālo
- गाहूँ *gāhūm* 'by verses' sub inst pl (in the context bhūḥ gāhāḥ karī) Sk gāthā f, Pk, gāhā - f
- गालड *galam* "I swallow" v pres. 1st sg 300, Sk galati 'swallows, note the -i- in the initial syllable s v gall
- गिरानि *gāṇis* "pain, nausea" sub 22 lw Sk glāni-
- गिलोह *gulo* 'a type of lizard (which moves about in the houses)' sub f 336 Pk. deś giloyā, giloi, cf. MG glaroiḥ giloiḥ glulora.
- गुजगाम *guyjagāi* "vaka" sub m voc sg 435 Sk. guhyaka-, Pk gujthagā- lw in OG
- गुदही *gudahi* a pitcher in which molasses or similar items are stored" sub 186 Meaning is doubtful and derivation is not known, cf.
- however MG garvo which has a similar meaning
- गुदु *gudu* "molasses" sub m. 311 also -da 477, Sk guda- gula-, Pk guda, gula MG gOḷ cf gula. Bloch gul, Turner gur
- गुणह *gunai* "repeats counts" v pres 3rd sg 438, 521, gunatau pres part m dir sg 426, guniya past part. pl 37, guniyai pass. 3rd sg 338, Sk ganayati (cf grāti) Pk gunai, MG gan vū Bloch gananē, Turner gannu
- गुणदाणड *gunathanaum* "a state of virtue, Jain theological term" sub dir sg n 401, gunathānai loc sg 403 Sk guna-sthanakam Pk gunathanaam
- गुणमाला *guṇamala* proper noun f dir sg 488
- गुर *gura* "teacher" sub m dir sg (v l gura) 38, gure inst sg 38 also guri 365 Sk guru, Pk. guru, OG gora cf MG gOr 'priest'
- गुल *gula* "molasses" sub m dir sg 314, 433, Sk gula, gula, Pk gula, gula, MG gOḷ, also s v gula Bloch gūl Turner gur
- गुदि *gudī* "a stick like the hockey stick" sub dir sg f 12 MG gerī Deś giddī Turner gur
- गुदिणि *gehini* 'house-wife' sub f dir sg 461, 473, Sk grhīni, Pk gehini
- गोमिडा *gomida* "a type of lizard (usually found in fields and hedges)" sub obl 21, der not known MG kakiro
- गोदा *godā* "knees" sub obl pl m 44, 151, 294, MO gurā, Deś godā, goda Turner goḍo
- गोदहिलिया *godhiliyam* "bowing down in such a way that knees touch the ground" adj n pl 44, 326 The first part godi- can be compared with MJ godā, godja Derivation not known
- गोदियह *gotriyaham* "for tie relatives" sub obl pl. m 12 Sk gotrika- Pk gottija- OG ext with u Note the retention of tr- in OG
- गोपालु *gopalu* proper noun m dir sg 574
- गोपात्रिका *gopātrikā* "cause to hide, to keep secret" obl. of Inf of the causal base 529 Sk gopyate, Pk guppai, OG gop- with causal suffix.
- गोलड *golau* "round (in the context cakṣugolau 'eyeball') sub dir sg m 44 Sk golakāh l k golao Bloch gola Turner goḷo.
- गोलु *golu* "ball" (lobhgolu 'iron ball') sub n dir sg 474 Sk gola- Pk gola

गोष्ठा *goṣṭhā* "(inside) the fold for cattle, (goṣṭhā mahilī)" sub. obl. sg. m. 388. lw. Sk. goṣṭha; ext in OG. goṣṭhau, obl. goṣṭhā.

गौतम *gautama* proper noun m. dir. sg. 103.

गंठी *gaṁṭhī* "knot" sub. (as a first member of a compound gamthīśahita) 309. Sk. granthih Pk. gaṁṭhī m. f. MG. gāth f. Bloch gāth, Turner gānu.

गंदोल *gāndola* "a type of worm" sub. 21; Sk. gāndula m.

गंधाह *gāndhāh* "smells" v. pres. 3rd sg. 434. Sk. gāndhāh m. Pk. gāndha- m. Sk. gāndhāyati ?

*

घटा *ghatai* "fits, suits" v. pres. 3rd sg. 426; ghatāvatam pres. part. caus. gen. obl. pl. 339, ghatāvītai pass. pres. part. loc. sg. 339. lw. Sk. ghataṭe, ghata- + OG. verb inflection.

घडा *ghadau* "pitcher" sub. dir. sg. m. 185. Sk. ghatah, ghatakah, Pk. ghada-, ghadāga. "small pitcher" MG. ghato Bloch gharā, Turner gharā.

घडयु *ghadānu* "manufacture" sub. sg. n. 506 ghadāvānu sub. n. sg. (fr. caus. base) 'causing to manufacture' 506. Sk. ghatanam Pk. ghadāna-.

घडिय *ghādiyāi* "hour" sub. f. loc. sg. 325. Sk. ghatikā, Pk. ghādiyā MG. ghāri

घडिया *ghādiyā* "swift, lit. travelling in the same hour" (ghādiyā yojanā sāmudhī 'a camel which runs one yojana an hour') adj. f. sg. 558, Sk. ghatikā, Pk. ghādiyā. Also s. v. ghādiyāi.

घना *ghana* "hammer" sub. m. dir. sg. 508, Sk. ghanah Pk. ghana m. MG. ghan.

घण *ghāṇa* "much" adj. adv. m. dir. sg. (v. l. ghanu) 142, 586, ghanā pl. 543, ghanānu n. sg. 571, also ghanam 464, 481; ghanā f. 489, 571; ghane inst. pl. 456 Sk. ghana-, Pk. ghana- ext. Bloch ghana, Turner ghanu

घणेर *ghāneram* "much" superlative adj. dir. sg. n. 38, 246, 516. OG. ghan- + eraum, for ghan- see ghanau, for -eram see adhikeraum.

घरा *ghara* "house" sub. n. dir. sg. 85, also ghara 529, ghari loc. sg. 85, 430, 525, also ghare (pl. ?) 86. For the problems of relating Sk. grā- with MIA ghara- see Turner BSOS III pp. 401. Bloch ghar, Turner ghar

घरती *gharati* "grindstone" sub. dir. sg. f. 520. Sk. gharatta m. grindstone, Pk. gharatta m.

also probably *gharattikā 'a smaller grindstone for domestic use.' MG. ghauti.

घाह *ghāh* "by stroke, attack" sub. m. inst. sg. 434 Sk. ghātab, Pk. ghāya, OG. gha, ext. to ghānu (probably to preserve m. gender). 1 loch ghāy, Turner ghāu

घान *ghāna* "in the oil mill" sub. m. loc. sg. 489, Sk. ghātana- Pk. ghāyana- ext. in OG. ghānau; MG. ghāno m., ghāni f. s. v. ghānu.

घाणु *ghāṇu* "quantity sufficient for one time (to be put in a frying-boiling-pan)" sub. dir. sg. m. 311, also ghāna 311, cf. MG. ghān, also ghano m. 'oil mill' ghāni f. Sk. ghānam, Pk. ghāyana Turner ghān.

घातित *ghātiṭu* "thrown" past part. m. dir. sg. 457, 557, ghātiṭva obl. of inf; ghātiṭ abv. 464, 489. lw. Sk. ghātayati, ghata- + OG. verbal inflection.

घारद *ghāradam* "a type of sweet prepared with ghee and sugar" sub. dir. pl. n. 316 cf. MG. ghāri, cf. Des. gharamta- m. etymology not known.

घी *ghēe* "ghee, melted butter" sub. dir. sg. n. 94. Sk. ghritam n. Pk. ghānu p. Bloch ghā, Turner ghāu.

घोडा *ghoḍau* "horse" sub. m. dir. sg. 464; ghoḍam inst. sg. 483, ghodī f. 264 Sk. ghotaka- Pk. ghoḍao, Bloch ghora, Turner ghorā.

घोल *ghola* "combination, mixture" sub. m. 601 Sk. lex. gholayati Pk. ghole, cf. Pk. ghola n. 'curds strained through a piece of cloth'-by constant rubbing, MG. gholvū 'to stir, mix', Bloch gholnē, Turner gholnu

घुंटी *ghūṁṭī* "ankle" sub. f. sg. (in the compound pāda-ghūṁṭī) 42, cf. MG. ghūṁṭī 'ankle' ghūṁṭan m. knee, (also cf. gōṭhan m. knee). Der. not known g ~ gh- alternation may suggest a non-aryan loan.

चक्र *cauki* "in the quadrangle" sub. loc. sg. 246 Sk. cauka- Pk. caukka, MG. cOk m. Bloch cauk, Turner cOk

चत्वारिस *cautāliśa* "fortyfour" num. dir. sg. 74; Sk. cātus- catvāriśat Pk. cauyāliśam, cattāliśam. MG. cūwāliś, cumwāliś, the OG. cautāliśa seems to be built upon a probable MI cau- and cattāliśa; the MG. form is derived from Pk. cauyāliśam. Bloch §223, Turner cauwāliś.

चत्वीस *cautvīsa* "thirtyfour" num 372. also *cautvīsa* 372 *cautvīsamu* ordinal n 339 Sk *calustrīṣat* Pk. *cautvīsa*, MG *cOtrīs*, note the retention of *tr-* in MG and OG *cautvīsa-man* is the ordinal, *-ma-* is the OG ordinal forming suffix. Sk. *-mah*, Pk *mo* Turner *cautīs*.

चतुर्थं *cauthaṁ* "fourth" num ord n dir sg 94, *cautha* obl pl 143, *cautha* inst sg 425, also loc sg 355, *cauthi* f 434 Sk *caturthāh* Pk. *cautha*-ext. MG *cOth-* Bloch *cauthā*, Turner *cautho*

चतुर्दश *caudā* "fourteen" num. 35, 247 *caudama* ord loc sg 'on the fourteenth' 354, Sk *cāturdaśa-* Pk. *cauddāsa* MG *caud*. Bloch *cauda*, Turner *cauda*.

चतुर्मासि *caumāsī* "in the monsoon" sub n loc. sg 515, *caumāsa* obl. sg 3^{as}, *caumāsīya* adj 'belonging to monsoon' 385 Sk *caturmāsam* n Pk. *caummāsa-*, ext. in OG Sk. *cāturmāsikam* Pk. *cāummāsīa*, *caummāsīa*. Turner *caumāsā*.

चतुर्मुखस्तूप *caumukhatarvpu* "form of four faces" dir sg m. 376, *cau-* v. s. v. *cau* hum disl. A lw in OG by substituting the first part with an OG form, the rest being Sk of Sk. *caturmukha-*.

चत्वारसी *caurāsī* "eightyfour" 421, (also in the compound *caurāsī lakṣa sātīnāmvaī sahasa tevīsa samkhyāham* = 84,97,023, num. obl. pl 90) also *caurāsī* (with retention of *ā-* before front vowels) 11, 84, 613 Sk. *cāturaśīh* Pk. *caurāsī*, *caurāsī*, MI *-ā-* can be explained by other MI forms with *k* in the same set. cf. *ekkāśī*, *bāsīm paścāśīm* etc. Turner *caurāsī*.

चत्वीस *caurva* "twenty four" num dir sg *caurvām* pl 407, *one hundred twentyfour* 124, 613 *caurvasam* ord. dir sg m 52-*mā* obl 222 Sk *cāturvīśatīh* Pk. *caurva* MG *cOvīs* for OG expression *caurvasam* *sa* one hundred twentyfour cf. MG *cOvīs* *so* Turner *caurvis*

चत्वारिंशत् *caurvaśīh* "sixtyfour" num dir sg 64 74 613, Sk. *caurvaśīh* f Pk. *caurvaśīh* MG *cOvāśīh*. Turner *caurvaśīh*.

चतुर्दिशि *cauthā* disl "in four directions" ord loc sg 7, MG *cOdi* in four directions Sk. *caur* Pk. *cau* Sk. *diśā* f. Pk. *diśā* f OG *diśā* f hum is OG emphatic particle

चतुर्दश *caurāśā* "a type of l rd. sparrow" sub s: 21 lw Sk. *caurāśā*-m.

चतुर्दश *caurāśā* "reluke" v 20f 2nd s: (v l. *caurāśā*, *caurāśā*, *caurāśā*)

vau) 35, Sk. *caurāśā*, onomatopoe. Ap. *cadakka*, He. iv 406, Sk. *caurāśā* 'quarrel some soldier', MG *caurāśā* 'quarrel, for adava *dāvau* cf. MG *dāvāvū* 'to threaten', for *dāda* *badāvau* cf. MG *dāvāvū* 'to threaten' see Turner *dāvānu*, *barbarānu*, MG *arāvū* is probably a causal base from *arvū* 'to be stubborn' and *dāvav-* is a causal base from *dab-* 'to press, crush', cf. Bloch *dābnū*

चढिड *caḍḍu* 'climbed' past part m dir sg 109, also *caḍḍāu* 457, *caḍḍā* pl 550, *caḍḍ* imp 2nd sg 457; *caḍḍu* fut 3rd sg 110, *caḍḍānu* pres part. m dir sg 434, 579, *caḍḍ* abs 109, 110, *caḍḍā* inf of purpose 109, *caḍḍātam* *cau* pres part gen obl pl 341, *caḍḍā* *cau* abs, *caḍḍānu* past part. m dir sg 483, *caḍḍānu* loc sg 453, For various (untenable) speculations see Gray L H JAOS 60, Pk. *caḍḍā* In MG there is also the alternative from *caḍḍvū*, same alternant *-ḍḍ-* is noticed in H 1st 8 L and O, thus it may be necessary to reconstruct a MI form **caḍḍā-*, *caḍḍā-* Bloch *caḍḍā*, Turner *caḍḍu*

चतुर्दश *caurāśā* "gram chick peas" sub obl pl 25 lw Sk. *caurāśā*, Bloch *caurā*, Turner *caurā*.

चत्वारिंशत् *caurīśā* "four hundred" num. 613 Sk. *cāvarīśāh* Pk. *caurīśā* *śāh*, *caurīśā* is a Pk lw in OG, MG (dialectal) *caurīśā*

चतुर्दश *caurāśā* "a kind of green vegetable com-parable in size and shape to string beans" sub 502 MG *cOśā*, *cOjī* the OG word seems to be a Sanskritization, *śā* *caurāśā*-ka-, *śā* f. Pk. *caurāśā*-m *śā* 'fickle, unsteady'

चतुर्दश *caurāśā* proper noun m dir sg 428

चलति *calati* 'to cause to move' *cau* inf 246, MG *calvū* *cau*, *calvā-vū* 'to move (from one position)', Sk. *cāratī* *calati*, Pk. *calā*, Turner *calno*

चरति *carati* "having moved- transformation from one life to another- by death" atm 84 Pk. *carate*, Pk. *carā*

चतुर्दश *caurāśā* proper noun m dir sg 274

चतुर्दश *caurāśā* "(wooden) shikha" sub dir sg f 12 215 MG *caḍḍhī* Der. not known

चतुर्दश *caurāśā* "grazing, keeping (cattle) *cau* pres part. m dir sg 580 *ca* *caurāśā*, Pk. *carā* I *caurāśā* Turner *carno*

चतुर्दश *caurāśā* "character, way of life" sub n dir sg 240 Sk. *cāritra*-n. Pk. *cāritra*-n. *ca* lw Pk.

- चालू *calā* "walks goes" v pres 3rd sg 365, *cālābh* pl 489, *calata* pres part m dir pl 544, *calu* past part m dir sg 94, 451, 578, *cāhya* pl 578, *cāhyath* 451, *cali* f sg 579, *cāliva* inf of purpose 481, *calavai* caus pres 3rd sg 488, *cālāvīyāi* pass sg 489, Sk. **calyati*, Pk *callai*. Blo h *cālō*, Turner *calnu*
- चित्ति *citti* "in the mind" sub n loc sg 94 Sk *citta-*, Pk. *citta-*, lw Pl.
- चित्र *citrau* "panther" sub m dir sg 448, *citrai* inst sg 448, also *citraku*, *citraku* 448 Sk *citrāh* 'spotted' *citrakah* Pk. *citta-ext* MG *citto*, note the retention of -tr in OG Bloch *cittā*, *cittā*, Turner *cituwā*
- चित्रसालु *citrasālu* proper noun m dir sg 516
- चियालीस *ciyāliśa* "forty" num 342, 616, MG *cāliś*, *cāliś*, OG *ciya-* can be explained to suggest an initial palatal glide, **cyā-*, also cf OG *ciyāri*, Sk *catvāriśat*, Pk. *cattāliśam*, *cāyāliśam* Bloch *caḷis*, Turner *cāliś*
- चियारि *ciyāri* "four" num dir sg 74, also *cattāri* 110, v l *cyāri*: 142, *cau* hum emphatic obl 142, also *ciyāri* i emphatic 431, 538 MG *cār*, emphatic *cāre* of Sk *catvārah* m, nom., *catvāri* n nom acc, **cātārāh* **cātārā*, could explain the present form Bloch *cār*, *cyār* Turner *cār*
- चिंतवद्, चिंतवद् *cintavas*, *cintavas* "thinks, ponders" v pres 3rd sg 73, 74, *cita* *vatānu* pres part m dir sg 38, *citavātām* obl pl 33, *citavānu* past part n, dir sg 112, *cita* *vivā* obl. of inf 74, also *citaveva* 85, *citavi* abs 112 Absence of nasalisation in many forms is due to contamination with *citta-* Sk *cintayati*, Pk *cinteti*, *cintavai* (causal in primitive sense)
- चिंतवद् *cintavā* "a type of small mosquito" sub 21, MG *citar* Der not known
- चूड *cuḷa* "misses" v pres 3rd sg 433 cf Sk *cyutāh*, Dhātupāṭha *cuḷ-* 'to suffer pain' Pk. *cukta-* 'to for, etc, be deprived of' Bloch *cukn-* Turner *cuknu*
- चूड *cuḷa* "cooking place" sub f sg 178 Sk. *cuḷi* f., Pk *cuḷi* f., MU *cuḷi* f No'te the MIA -li->-lh- development common to other MIA dialects P and Ia. Bloch *cuḷ*, Turner *cuḷi*
- चूडि *cuḷi* "maid-servant" sub f dir sg 85, Sk. *cuḷikā* Pk. *cuḷikā*, *cuḷi*
- चूडि *cuḷi* "pupil" sub m n dir sg 34, also *cuḷi* 34 cf *cuḷi* *cuḷi* Def. *cuḷi* - II' *cuḷi*
- suggests Dravidian origin Bloch *celā*, Turner *celo*.
- चोखा *coḷkā* "rice" sub obl pl m MG *coḷkā* 'rice' and the adj *coḷkḥū* 'pure'. Sk *caukṣāh* *coḷśah* 'pure', Pk *coḷkha* Bloch *coḷh*, Turner *coḷho*
- चोपदु *copadānu* "smearing (act of)" sub n dir sg 12 der from the OG base *copad-* s. v *copadium*
- चोपडि *copadūm* "besmeared" past part dir sg n 317, *copadi* abs 316 Pl. *copada-* 'to apply oil, ghee etc. Der not known For various suggestions see Turner *copnu*
- चोरउं *corau* "steal" v pres. 1st sg 525, *cori* past part f 548 Sk *corayati*, Pk *coria* 'stolen', Turner *cornu*
- चोरु *coru* "thief" sub. m dir sg 522, *cori* inst. sg 525, *coru* inst. pl 555 Sk *corāh* m Pk *cora* m Bloch *cor*, Turner *cor*
- चोरी *cori* "theft" sub f dir sg 464, 522, 525 Sk *caurikā*, Pk *coriś*, *cori* Turner *cori*
- चोलपट्ट *colapattāu* "a piece of cloth worn round the middle of the body" sub dir sg m 44, lw Sk *colapatta-* ext in O
- चंद्र *caṇḍra* proper noun m dir sg 445, 488
- चंद्रमम *caṇḍraprabha* proper noun m. a sg 110
- चंद्रिका *caṇḍrikā* proper noun f. dir sg 534
- चंपा *chāmpā* name of a town f dir sg 108
- चापूड *caṇḍuḷi* "a type of small bug" sub dir 21. Derivation uncertain, but cf Sk lex. called *ja-m* 'beak leaved, a kind of vegetable', cf. Sk *caṇḍupattā-* MG *caṇḍuḷi* m
- चांपी *caṇḍi* "having massaged, pressed, subdued" abs 279, MG *caṇḍi* De *caṇḍi*
-
- छ *cha* 'six' sub num 155, *cha* e inst. pl 120, 318 cf Sk. *ṣaṭ* Pa Pk. *cha*. For various etymological suggestions see Bloch § 218, Fiebel § 461, Bloch *śahā*, Turner *cha*.
- छा' *chāi* "image, form" sub f dir sg (second member of the compound *śra-chāi* 'Eight Image'). Sk. *chavi*, *chaviḥ*, Pk *chavi*.
- छा' *chāi* "is" v pres 3rd sg 112, 349, *chāiḥ* pl 142, also sg 430, *che* 3rd pl 349, *chāiḥ* 1st pl 455, *chā* auct pres part. dir sg n. 532, *chāi* pres part pl m. 409, 455 Sk *chāyati* Pk *chā* cf *śchal* f. v alternative suggestions see Bloch *caṇḍ*, Turner *chanu*.

- चत्वारिंशत् *chaturīṣa* "forty six" num 135 cf Sk. *satecatvarimśat*, Pk. *chāvāṣis*, for -*taṣis* (MG *chEtaṣis*) cf other numerals in the same series: MG 40-42 *ekaṣis*, *bEtaṣis*, *trEtaṣis*, *cummāṣis*, *paṣṭaṣis*, cf Pk. *cattalissam* for 40 Turner *chāvāṣis*
- छट्ठ *chatthau* "sixth" ordinal dir sg m 244 438, *chatthau* n. 162, 403, *chatthai* loc sg 120 of Sk. *ṣaṣṭhāḥ* Pk. *chattha-* Bloch *sahāvā* Turner *chaitaū*
- छतु *chattu* 'umbrella' sub n dir sg 483 Sk *chatram* n 'a parasol' Pk. *chatta* lw in OG
- छगणक *chaganaka* '(cow) dung' sub. dir sg 12, (accompanying Pk. text gives *chaṇi*), lw Sk. *chaganam* n ṣ v *chāṇi*
- छत्तीस *chattrīsāḥ* 'thirty six' num dir pl 74 *chattrīse* inst pl 438 of Sk. *sāttīrīmśat*, Pk. *chattīssām*, note the retention of *tr* in OG Turner *chattis*
- छव्वइ *channavā* 'ninety six' num dir 613 also *channavai* 421 cf Sk. *sannavatiḥ* Pk. *channavā*, *channaum* (cf MG *channū*) Pischel §446, Turner *chayannabe*.
- छप्पन्न *chappanna* 'fifty six' num dir sg 24 36, *chappanne* inst pl 258, cf Sk. *satpañcāśat* Pk. *chappannam*, *chavannāḥ*, MG *chappan* Turner *chappan*
- छमास *channamās* "months" (in a compound) sub. 339 also *chammāsīn* 'belonging to months' 339 cf Sk. *saṁmāsa-*, and *saṁmāsika*
- छवीस *chāvīsa* "twentysix" num. dir sg 74 cf Sk. *śadvīmśatiḥ* f. Pk. *chāvīsa*, MG *chāvīs* Turner *chabbis*
- छव्वत्ति *chavattari* 'seventy six' num 613 cf. Sk. *ṣatsatīṣaṭiḥ* f, Pk. *chāvattari*, MG *chōṭer* Pischel § 446 Turner *chayabattar*
- छाह्यइ *chāhya* '(in a) covered (place) past part loc sg 216, *chāi* (sic, final ṣ should be long) abs 296, Sk. *chāditam* (fr the causal base *chad-*) Pk. *chāya-*
- छाहित *chakin* 'intoxicated past part dir sg m 213, cf. MG *chak vū* to be arrogant, to be infatuated', *chak* to intoxicated person Der not known, see however Turner *chakinu*, *chakāṇu*
- छायाए *chājāraḥ* "a row of balconies" sub dir sg f 614, -*āvāḥ* lw fr Sk. *chājā-* Sk. *chājāḥ*, MG *chājū* 'balcony' perb lw from H P. *chājā-* cf MG *chājā* 'a small shelf' Turner *chājān*, *chājā*.
- छानि *chāni* "by (cow-) dung" sub inst sg 185 Sk. *chagnam* n, cf. Sk. *śākaṁ* n, *śāka* n Pa. *chakanam* Pk. *chāni* f, *chāna* n, MG *chan* n 'cowdung' Bloch *śen*, Turner *cher*
- छानु *chānu* "secret" adj dir sg m 192 *chānaum* n 489 Sk. *chāna*, Pk. *chapna-* ext Turner *chānu*
- छासट्ठि *chasatthā* 'sixty-six' num dir sg 616, cf Sk. *satsatīḥ* f Pk. *chāsattīm*, *chasattha* (sixty sixth) Turner *chayasatthū*
- छासी *chāsī* "buttermilk" sub f 311 Def. *chasi* MG *chās* OG should have short -i finally Der not known
- छाली *chālī* "she goat" sub f sg 264, 311, Sk. *chāga-m*, *chagala*, Pk. *chalya* f, *chālī* f
- छिवी *chivī* 'touched' past part f dir sg 544, Sk. *chupati* 'touches' contam with Sk. *kṣipāti* 'movement of arms and legs' Pk. *chivai*. Turner *chuvu*
- छिककरणु *chikkarāṇu* "act of sneezing" sub n sg 42, *karāṇu* lw Sk., *chikā* Sk. *chikkā* Pk. *chikka* MG *chīk* f
- छिकंड *chikāṇu* "a type of shelf in which remains of cooked food are kept, usually hung in the kitchen" sub n dir sg (v l *śikāu*) 434, *chikāḥ* loc. sg 186, connection with Pk. *chikka* 'touched' (cf Pk. *chivai* 'touches') is doubtful var no lectionis *śikāu* with *ś-* may be a secondary development, dialectally both are found in MG *chikā*, *śikū* Der not known
- छुरि *churi* "knife" dir sg f l Sk. *kṣurāḥ* m, *ksurikā*, *churikā*, Pk. *churi* MG *charī*
- छुट्ट *chutṭa* "releases (by oneself)" v pres. 3rd sg 402, *chūṭiyā* pass 3rd pl 482 Sk. *chutati*, caus. *chotayati*,* *chutya-*, Pk. *chuttai*, *chotai* Bloch *sutp*, Turner *chutnu*
- छेदइ *cheda* "cuts" v pres 3rd sg 434, *chedivā* inf 434 *chedi* abs 434, 538, Sk. *chodayati* (caus) lw in Pk. *chedimāṭi* (pass pl) MG *chedivū*
- छेदि *chedi* 'end limit' sub m. loc. sg lw Sk. *cheda* +OG loc sg suffix of MG *cheto* 'end and cheto 'distant', Sk. *cheda-* Pk. *chea-* ext.
- छेइ *chēḥā* "in the end belonging to the last" adj. obl. s 223 247 also pl. 164 *chēḥāḥ* loc. sg 247 OG *chēha-* (v s v *chēha*) ext. with -*lau*, MG *chēllā*.

छेहु *chehu* "end, last," sub dir sg 247, also *chehu* sīma 'upto the end' 336 *chehi* loc sg 'in the end' 223, 323, 329, 513, 565 Sk *cheda-*, 'limit' Pk *chea*, for derivations of various extensions of this word see Turner *cheu*, Bloch *šev*

छोड *choḍa* "release (to cause to)" v pres 1st sg 309, *choḍavi* caus abs 453 (note the -av- causal in OG, instead of the usual -av-) Sk *chutati*, caus *chotayati* Pk *chojai*, the causal base has been employed as primary in OG v s v *chutai*

छोहा *choha* 'lime for cementing it is pound and made of even texture after constant pounding and mixing' sub m dir sg 601 MG *cho* f 'flooring, cementing' Sk *ksodati* 'stamps on', *ksodah*, Pk *khoa*, cf Hindi *khoa* m 'pounded brick. For IE origins of Sk *ksud-* see Turner *copnu*

ज'जा' 'alone, only' emphatic particle 74, 465, 548 of Marathi and Chattisgarhi ca, while Modern Guj and Sindhī have *ja* Old Marathi has *ci*, Bloch suggests Sk *caiva*, Pk *ceia*, *ceca*, s v ca, v s v *ja', ja'*

ज'जा' "that" rel pro sg 400 f, 420 m 437 n 581 pl, Sk *yāh*, *yā*, *yāt* v s v *ja'*

जह *ja* "if" conj 74, Sk *yadi*, Pk *jai*

जह *ja* "when" adv 481, also 'if' 470, Sk *yadi*, Pk *jai* contain Sk. *tatah*, Pk *tao*, Ap *tau*

जइया *jauya* "a type of small insects" sub pl. 21 der not known

जणनी *janani* "mother" sub f dir sg 560, Sk *janani*, Pk *janant*

जण *janā* "men, persons" sub m dir pl 433, *janahān* obl pl 551, *jananāyaka* 'chief' dir sg 558 Sk *janah* Pk *jana*, MG *jan* Bloch *jan*, Turner *janā*

जदपि *jadapi* "even though" conj 470, Sk *yad* *api* lw Sk

जदाकाल *jadakāla* "when, at what time" adv 550, lw Sk. *yadākāla* + OG loc sg termination -i

जइया *janai* "recites" v pres 3rd sg 434 *janai* pres part f sg 529, *janayi* pass 3rd sg 152 lw Sk. *janite*

जम *jama* "god of death" sub (first member of a compound) 526, Sk. *yama*, Pk. *jama*.

जय *jaya* proper noun m dir sg 426

जयपुर *jayapura* proper noun m dir sg 445

जया *jaya* proper noun f dir sg 559

जलासय *jalasaya* "water reservoir, ponds" sub m dir pl 516, lw Sk. *jalasāya*

जलो *jalo* 'leech' sub dir sg pl f 21 Sk *jalan* *kāh* m, *jalauka*, Pk *jaloja*, MG *jalo*

जहिं *jahim* 'where, in what' adv stereotyped loc pro Sk *yasmin*, Pk *jahim*

जाह *jai* "goes" v pres 3rd sg 447, v l *ajāy* 539, *jaun* 3rd pl 408, *jaum* 1st sg (in fut sense) 483, 529, *jai* 2nd sg 529, *jaun* fut 3rd sg 481, 525, *jaun* 1st sg 455, 557, *jan* imp 2nd pl (v l *ajāyau*) 455 also 3rd sg 380, *ja* imp 2nd sg 544, 557, *ajāyau* precativ 3rd pl 480, *ajāyau* pres part m dir sg 142, 551, also *ajāyau* (v l *ajāyau*) 544, *ajāyati* loc sg 445, also *ajāyate* loc sg 377, *ajāyām* gen obl pl 94, *ajāyā* sg 103, *ajāyati* f 473, 555, *ajāyati* pres part (unlengthened emphatic) 386, *ajāyau* ger n dir sg 544, *ajāyā* obl inf 463, 489, 536, *jai* abs 73, 489, *ajāyati* pres sg 457, 483 Sk *yāti* Pk *jai* Bloch *janē*, Turner *janu*

जागइ *jagat* "awakes, rises" v pres 3rd sg 163, *jāgam* 3rd pl 336, *jagan* past part m dir sg 480, *jāgi* f 461, *ajāyate* pres part obl 163 Sk *jāgarhi*, 3rd pl *jāgrati*, pres part *jāgrat* Pk *jagga*: Bloch *jagnē*, Turner *jagnu*

जाचक *jacaka* "beggars" sub pl 553 lw Sk *yācaka-*

जानइ *janat* "knows" v pres 3rd sg 483, *janam* also sg 462, *janam* 1st sg 473, also *janum* 172, *janam* 2nd pl 172, *janē* 3rd sg but in the sense of 'as if' 514, 514, 556, *janī* imp 2nd sg 260, *ajāto* pres part m dir sg 560, *janata* pres part m dir sg 560, also *janato* i (emphatic) 460, *janā* past part m dir sg 85, *janāya* pl 386, 455, *janāyau* ger (inf) n 447, *janāvi* f 279, 535 584, also *ajāyē* 261, 581, *janāvam* n pl 463, 585, *ajāyē* abs 38, 489, *ajāyati* pass sg 514, 516, 575, *ajāyāim* pass pl 534 *ajāyati* caus past part. m dir sg 490, *ajāyati* inst sg 574, *ajāyati* obl. of inf 44, 314, 493 533, *ajāyati* pres part obl 533 Sk *janāti* Pk *janat* Bloch *janant*, Turner *janu*

जामइ *jamai* "in the birth" sub. loc sg 133, Sk. *janman* n Pk. *jamma* ext. in OG

जणमइ *janamānu* "knower" sub dir sg, m. 3rd OG *janāna* + *hānu*, agentive noun from

- the base jāna- v s v jānai, for hāru v s v karana-hāru
- जायणहार *jayana-hāra* "one who goes" sub dir pl 403 jāyana + hāra, agentive noun from the base jā, jāya, v s v jāi
- जाला *jalāh* "holes" sub obl pl n 264, Sk jāla kā n., Pk jālaya, MG jālū n.
- त्रि० *tri* "only" particle of emphasis १3, Pk ५, He ii 217, iv 419-20, Pischel §336 suggests *eva*, with a *y* glide in the initial syllable (as in Pali *veva*), later developing as *veva*, ५
- त्रि० *tri* "these" rel pro. noun pl 113, 526, 527, Sk ye, Pk je, v s v je
- त्रिगदासु *trinadasu* proper noun in dir sg 435
- त्रिगि० *triga* "by whom" rel pro inst. sg 74, 94, Sk yēna, Pk *triga* with the OG inst. inflection Note the short -i- in the initial syllable MG JEEnE.
- त्रिगिवा *triniva* "to win" obl of inf 246, 484, abs 515 Sk *triga*, Pk *triga*
- त्रिगदं *trinadam* "whose" rel pro dir sg n 403, an early alternation of *jeha* + *naum* v s. v *je*¹ MG JEEnū
- त्रिगदासु *trinadasu* proper noun m. dir sg 553
- त्रिगदसंबंधिया *trinadasambandhiyam* 'related to *Trinada*' lw Sk *triga sambandhin* Pk *sambandhi*, extended in OG with -u *trinadasambandhiu*
- त्रिग *triga* "as, like" adv 73, 553 559, Pischel § 261 suggests building of similar forms on the analogy of *evam*, *kāva*, *triga* (Ap *triga*), in the sense of Sk. *katham*, *yathā*.
- त्रिगद *trinadam* "of what type, like" adj 109, 553, *trinadam* n pl 74, *trinadam* inst. sg 143 *trinadam* f. sg 143, 480, 547 Sk. *trigadikam*, v s. v *triga*
- त्रिगद *trinadam* "where" adv 483, 538 Turner (s v *triga*, *triga*) suggests three probable sources for the suffix -*triga* suffix of Sk. *triga*, *triga*, that of Sk. *kātham*, *tāthā*, or the ending of loc in -*asmin*, Pk., *him*
- त्रिगद *trinadam* "won, conquered" past part m dir sg 74, 464, *trinadam* obl. pl 451, Sk *trigadya*, past part. *trigada*, Pk *triga*, *triga*, latter being formed on the analogy of other -*triga*- past participles.
- त्रिगदं *trinadam* "conquer" pass. 3rd sg (pl. im may be an error for -i) 251, Pk. *trigada*, cf. Sk. para digm of the stem *triga*, and formations such as *trigada*, *trigada*, which may be the sources of Pk. *trigada*.
- जीम *jima* "tongue" sub. f dir sg 521, cf. Sk. *jivā*, Pk. *jibhā* Bloch *jibhā*, Turner *jibro*
- जिमण्ड *jimandau* "right" adj dir sg m 302 Sk. *jematī* 'eats', *jemanaka*, Pk. *junana* 'eating', OG ext. -u, 'hand by which one eats' Initial *i* cannot be explained, MG *jamno*, 'right', *jamvū* 'to eat', suggest that the *i* should be short v s v *jimisu*
- जीमिसु *jimisu* "I will eat" v fut 1st sg 85, *jimatāu* pres part. dir sg m. 213, *jimatām* obl. gen pl 296, *jimī* abs 433, *jimādi* caus abs. 546, initial long *i* in *jima* cannot be explained, v s v *jimanaū* MG *jamvū* Turner notes Austr c (Munda) affinities. Sk. *jematī*, Pk. *junā* Bloch *jevno*, Turner *junar*
- जीविसि *jivasi* "will live" v fut 2nd sg 474, *jivatau* pres part. m dir sg 529, *jivati* (v l *jivati*) f sg 573, *jivati* past part. m. dir sg 433, 589, *jivati* f sg 555, *jivatai* pres. part. (unenlarged) 539, *jivatai* caus pres 3rd sg 463, 522, also in fut. cense 465, *jivādiu* caus past part. m. dir sg 465, 522 Sk. *jivati*, Pk. *jivati* Turner *junā*
- जु० *ju* "if" conj 561, also *ju* (v. l. *ju*) 578, v s. v *ju*
- जु० *ju* particle of emphasis 442, 444, 544 v s v *ju*
- जु० *ju* "who" rel pro. nom. sg 85, 102, 365, 465, 539 Sk. *yah*, Pk. *jo*, Ap *ju*
- जुक्तु *juktū* "joined, endowed with" past part. m dir sg 144, Sk. *yukta*- lw. in OG
- जुगत *jugata* "proper" adj m dir sg 69, also *jugata* 3, 70, Sk. *yukta*- lw. in OG v s v *juktū* -ga- suggests a late MIA loan
- जुगविको *juggavio* "one who practices gymnastics, acrobatics" sub m dir sg 250 Sk. *yogya* 'bodily exercise, gymnastics, Pk. *juggavio*, lw Pk.
- जुयदं *juyamam* "separate" adj adv dir sg. Sk. *yutāh* Pk. *juā* - ext. in OG
- जुयारी *juyari* "gambler" sub. m. dir. sg. 470, Sk. *dyutakārah* *dyutakārin*, Pk. *juari* ext. Turner *juwari*
- जूका *juka* "louse" sub. f dir sg 401 Sk. *yūka* f lw in OG. v s. v *ju*
- जू *ju* "louse" sub. f dir sg 21 338, Sk. *yūka* f Pk. *juā* f Bloch *ju*, Turner *juuro*
- जुवतु *juvatu* "youth" adj n dir. sg. 94, Sk. *yauvanam*, Pk. *yovapa-* n lw in OG

टिठो *ṭiṭam* meaning and derivation not known 112

टीप *ṭīpa* "that which is pounded, beaten" sub m sg 601, cf MG *ṭīpū* to beat, to pound, der doubtful, cf Sk. *ṭīp. ṭīpavati*, **ṭīpate* 'to heap together' Probably *ṭīpū* 'drop', and *ṭīpākū* 'to fall drop by drop' may be connected Bloch *ṭīp* Turner *ṭīpkanu*

*

ठीव *ṭhāv* "having placed" abs 112, Sk. *sthī-*, *sthāti*, *sthīpavati* lk *thā*, *thāva*, abs *thāvam* OG *thavī* Bloch *thēṭ* Turner *thikanu thūpṛu*

ठाल *ṭhālas* "empty" adj dir sg m 307, *thalam* n 112, cf MG (dialects of Saurashtra) *thālū* adj 'empty, worthless' Des *thalla* 'poor, without any possessions'

ठाह *ṭhāhu* "dirt (of oil) which has settled at the bottom" sub dir sg m 310 cf Sk. *staghā* 'shallow' (cf Sk. *astīgha* 'deep', lk. *nīlaha-*)

*

ढस *ḍas* "smitten, stung" past part m dir sg 522, 589, *ḍasī* abs 522 Sk. *ḍāsati*, lk. *dam* n MG *dasvū*, v s v *damka* Bloch *dasnū*, Turner *dasnu*

ढोरी *ḍoharī* "old woman" sub f dir sg 589, also cf MG *dok* f 'neck', *dokū* n 'head' and Nepali *doko* 'basket (carried on the back)' Derivation is not known; for other IA cognates see Bloch and Turner Bloch *doi doka*, Turner *doko*

ढोल *ḍola* name of a mountain' sub m sg 311

ढक *ḍamka* "sting bite" (serpenta-snake bite) sub m dir sg 512 also *ḍamka* 507 MG *damkh* Relation with lk *damsa* is not clear But compare similar words in Panjabi *I* *ahandī* and Sindhi *dangna* *dang* *dangana*, a probable source may be *damsa-kvata* 'wound by biting' Bloch *damkh* Turner *dasnu*

ढस *ḍamsā* "mosquitoes" sub m dir pl 401 -s- may be Sanskrit influence or dialectal MG *ḍās* Sk. *damsah* m, lk. *damsa* m v s v *dasnu* Turner *ḍās*

*

ढल *ḍhalu* fell toppled past part m dir sg 589, *ḍhalatam* pres part gen obl pl 376, *ḍhalva* obl of inf 487, cf MG *ḍhalvū*, 'fall' *ḍhalvū* eans, *ḍhal* f 'slope' lk. *ḍhalu* *ḍhala*, eans Turner *ḍhalnu* *ḍhālu*

ढल *ḍhalāḍ* sub f 12 meaning and der not known

ढल *ḍhalat* "viscous" adj dir sg m 311 Pl *ḍhāla-* Bloch *dhala*, Turner *dhālo*

ढल *ḍhūḷalauṃ* "near, adjoining" adj dir sg n 127, *ḍhūḷadam* loc (used adverbially) 10 cf Sk. *dhaukato* 'approaches', lk. *dhūḷkai*, *dhūḷka-*ext in OG -*ḷauṃ* Turner *dhūḷnu*

ढल *ḍhūḷ* "go near" v imp 2nd sg 515 Pl *dhūḷkai* v s v *dhūḷkadnuṃ*

ढल *ḍhūḷī* "a small lotū" sub f 209 cf MG *toylī* Der not known

ढल *ḍhokālū* "an eatable, a preparation of fermented flour" sub n obl 433 Der not known MG *dhoklū*

ढल *ḍhūḷkanuṃ* "cover, lid" sub dir sg n 211 Pl *dhūḷkai* 'covers', Ds *dhūḷkanu* f 'lid cover', **dhūḷkana-*cover v s v *dhūḷkanuṃ*

ढल *ḍhūḷkanu* "clo ed, covered" past part dir sg n 309, *dhūḷkatām* pres part gen obl pl 502, *dhūḷka* abs 467 Pl *dhūḷkai*, Ds *dhūḷkanu* f cover lid Bloch *dhūḷkanū*, *ḷhūḷkanū*, Turner *dhūḷnu*

ढल *ḍhūḷka* "type of cranes" sub 21, cf MG *dhūḷkaglo*, lk. *ḍimka*, *dhemka* 'a type of bird'

ढल *ḍhūḷkhanu* "by bartering" sub n 183 der not known

*

त *ta* 'then, otherwise' a particle with some contrastive meaning conj 532 Sk. *tadā*, lk. *tavā*, *tava* Turner *ta*

त *tau* then, therefore' conj postpo- Sk. *tītaḥ* lk. *tao* MG *to*

त *taṃ* 'you' pers 1 ro 2nd pers sg (v l tu) 71 427, 460, 474, 538, also *taṃ* 474, *ta* obl sg 457, 174, 539, *taṃ* inst sg 71, 522 502 cf Sk. *tāṃ*, which had an alternate dialectally, a di syllabic form Ved. Sk. *tāvām*, lk. *tamām* *taṃ*, *contam* first person haum OG *taṃ* Bloch *taṃ*, Turner *tā*

त *ṭadṭadṭat* *ṭadṭadṭatam* "convulsing (with pain) trembling and shivering violently in agony" pres part gen obl pl 20, lk. *ṭadṭadṭat*, *ṭadṭadṭatam* -, cf Sk. *ṭatṭat* 'crackling', *ṭatṭatṭat* -, and **ṭhat* (see Turner *ṭharkanu*) lk. **ṭhad* -, cf MG words *ṭharko* 'shock' *ṭharkṭharkū* or *ṭharkṭharkū* throbbing (of the heart) MG *ṭarkṭharkū* to be convulsing in pain, *ṭarkṭhark* 'quarrel', *ṭarkṭhark* (bolū) 'to speak harshly and plainly rudely' - cf also MG *ṭarkṭharkū* or *ṭarkṭharkū* crackling making the noise of crackling' Bloch *ṭarkṭhark*

l'k to, *tcha* may be explained from *ctāṣya*, for a detailed discussion of the probable line of development of allied pronominal forms see Dave pp 32-33

तेह *teda* "calls invites v pres 3rd sg 536, *telaam* pl 579, *tedya* past part dir pl 46, *tedi* abs 428, *telāvan* caus past part dir sg 386 MG *tervū* 'to invite, to carry (a child) on the waist' Der not known

तेतल *tetalam* "that much" adv n dir sg 483, *tetalam* loc sg 38, 519, *tetala* obl 400 Prenominal stem *ta-* for der s v *ctālau* Ap *tettula*-ext Bloch *tikā*, *tita* Turner *trati*

तेतीवार *tetiāra* "in the meantime" adv 38, 506, *teti* is also followed by *ham* emphatic 86 *teti + vara*, cf *tettula*-etc, s v *ctālau*, *tetalam*, l'k *tettia*, formed analogically based upon *kettia*-**kayattiva* see Pischel § 103

तेरमा *teramā* "thirteenth" ordinal obl 222 also *terahama* loc sg 300, for der s v *teraha*

तेह *teraha* "thirteen" num dir sg 74 of Sk. *trīyodasa*, l'k *teraha*, MI-*o-* in the initial syllable cannot be explained Bloch *tera*, Turner *tera*

तेल *tela* "oil" sub n 311, also obl *tela nau* 315 of Sk. *tāilām* n, l'k *tilla*, *tella-*, l'k *-ll-* cannot be explained, may be lw fr Sk Bloch *tel*, Turner *tel*

तेवडा *tesadā* "of that size" adj, obl pl 400, cf MG *evro jeyvo toyro kevvo*, used rarely in the present text The pronominal stems are clear but the derivation is not clear For some suggestions see Pischel § 149 of l'k. *evadda-*

ते *ta* "even, therefore" particles with *ezana* emphatic and contrastive force 91 132, 463, 560, also *tan q v*, Sk *tāta* l'k *tao* OG *tan* MG *tō*

तेल *tola* "weights" v pres 3rd sg 246 Sk. *tolayati* l'k *tolei*, *tolai* MG *toḷvū* Bloch *tuḷ*, *tol*, Turner *tulau*, *taulau*

तेबोल *tambola* "the betel leaf" sub dir sg n 291, Sk *tambulam* n l'k *tambola-* n Austric origin has been suggested Turner *tamol*

तेबोलिया *tamboliya* (insects) belonging to the betel leaf sub m dir pl. 21, Sk. *tambulin* l'k *tamboli* ext in OG *tamboli u*, inflected for pl Also cf MG *tamboli m* "one who sells betel leaves", Sk *tambulika-* l'k *tambolia-* v s v *tambola*

ता *tā* "till upto that time" adv 94, 112, 515 Sk. *tāvat* l'k *tāva* (cf Ap *tama*) for *v >* ~ v cf Pischel 201 MI graphic *-mva-* may have a

— ~ v — value Te-suttora § 98 1 suggests *tasmāt*, l'k *tambū*, which is not necessary v s v *jā*

तीह *tihamā* "those" pers pro 3rd pers gen pl (v l *tiham*, *tiha*) 74, 91, Sk. *te-ām*, l'k *tesam*

तुंबड *tūmbadam* "a dried gourd" sub dir sg n 223 MG *tūbrū* Sk. *tumba-* l'k *tumba-* n, ext in OG, Austric origin is suggested Bloch *tūbrū*, Turner *tumbo*

तुणघारि *trāṇāri* "broomstick" (lit one which obstructs grass or dust i e, something which cleans, broomstick) sub f dir sg 518 lw Sk *trā-* + *varān* MG word for broomstick is *varān*, derived from Sk *samvarana-* warding off, keeping back, *samvaranika f*

तुस *trasa* "thirst" sub f dir sg 126, 463, Sk *trsa f*, retention of *-r-* in script may suggest a retention of *-tra-*, and *-tar-*, in that case this may not be considered as a lw

तुसि *trasi* "thirsty" past part dir sg m 514, 006 Sk *trasta-*, for der s v *trsa-*

त्रसदिया *trāsadiyā* "caused trouble" past part caus pl 22 Sk *trāsati* caus *trāsayati*, Prot Guj **trāsai* caus **trāsadi* pa t part *trāsadi* Note the preservation of *tr-*, cf S *trahana* I *trahna* Bloch *tara-*, Turner *tarsanu*

त्राड *trathau* "terrified, afraid" past part m dir sg 403 Sk *trāsati*, *trastah*, cf l'k *tattho* Sk *trāsavati* caus note the retention of *tr-* in OG v s v *tra-ādiya*

त्रि *trī* "group of three" sub m dir sg 10 Sk. *trikā-* cf l'k *tia*, Proto Gujarati **triu* ext with OG *-u* *triu*

त्रिन्दि *trinḍi* "three" num dir sg 73, 74, also *trinḍi* 74, *trium* (v l *tri ham*) obl 109, *trinḍi* 1 is emphatic 109 (based on a Prakritic form *tinha-* Pischel § 438), Sk. *trīni* n pl MG *tran*, l'k *trinḍi* *tinha-* have influenced the OG scrabs though they have retained the *tr-* cluster Bloch *tin*, Turner *tin*

त्रिन्दिह *trinḍisam* "three hundred" num 613 v s v *trinḍi* *tsam* cf MG *transā*, *transō*

त्रिपडे *tripadam* "tin" sub n dir sg 25 lw Sk. *trāpu* n, note the *-i-* in the initial syllable, also note the extended form to indicate gender

त्रिभुवनतिसायिया *tribhuvanāṭisāyiyā* "excelling three worlds" sub dir pl n, 7 lw Sk *tribhuvana + āṭisāyina-* OG *tribhuvanāṭisāyī* ext *-u* sg

त्रिसद्व *trisattha* "sixtythree" num (in comp)
37 of Sk *trisastih* f Pk *tesattham* MG
trEaath

त्रिजद *trijau* "third" ordinal dir eg m 104,
trijam n 161, trijā f obl eg 109, trijā inst
eg m 118, 425 also loc eg 305 Sk *trijyah*,
Pk *trijja* ext in OG (with tr-group influenced
by *trāni* - *trāni*) *trijja*-u Bloch *tj*, Turner *tesro*

त्रिस *trisa* "thirty" num 36 Sk *trimsat*, Pk
tsam, OG and MG have retained tr- Bloch
ts, Turner *ts*!

त्रिसप्त *trissapthā* "thirtieth" ordinal obl 222 OG
dir *trissamau*, ord suffix -*ma*, ext *v s v trisa*

त्रिसत्रि *tritrissā* "thirty three" num 130 *tritrissā*
obl pl 9 of Sk *trāyastriṣṣat* f, Pk *tettissam*
Note the preservation of tr- and -tr-, the
latter on the analogy of *trissā* Turner *tettis*

त्रिपणदं *tripaṇam* "raft, some sort of help in
swimming" meaning is not clear sub n dir
eg 38 of MG *trāpo*, *tarapo* Noted in 'Peri
plus of the Erythrean sea' Gk *trappaga*
Bloch *tapo*

त्रिसप्तमा *trissapthamā* "twentythird" ordinal obl 222
trissā + *mā*, ordinal suffix -*ma* ext obl of
Sk *trayovimsat*, Pk *tevissam* Turner *tets*

त्रिसत्रि *tritrissā* "by twenty three" num inst pl
613 of Sk *trāyovimsat*, Pk *tevissam*

त्रोदियदं *trodiyam* "being broken" pass 3rd pl
485 Sk. *trutat*, caus *trotoyati* Bloch *torñē*,
Turner *torñu*

त्रुटी *truti* "broken" past part f dir eg 489
MG *tut vū*, *tut vū* Sk *trutvati* Pk *tuttai*,
tr- is retained Bloch *tutñē*

त्राम्बं *trāmbam* "copper" sub n dir eg 20,
trambā obl eg 463 Sk *tsurām* cf *Sindhu*
tramo m, *Lahanda trama* f, pos ibl **trāmra*-
Bloch *tābē*, Turner *tāno*

त्रय्यु *trayyu* proper noun in dir eg (v l *traku*)
457

*

थारिषु *tharissu* "I will praise" v fut 1st eg 372
Sk. *stāvato* Pk. *thava*

थाइ *thāi* "becomes" v pres 3rd eg 112, 488,
also *thāim* 386, *thāissam* fut 3rd pl 489, *thān*
imp 3rd eg also 2nd pl 489, *thā* imp 2nd eg
326, 470, *thā* past part m dir eg 316, 517,
(v l *thā*) 516, *thā* abs 72f 488 Sk. **sthāti*,
Pk *thā*

थाइ *thāim* "mars out, tires" v pres 3rd eg
380, *thākau* past part m dir eg 91 In some

participial forms it is used in another meaning
"remaining, staying" *thākatam* pres part
dir eg n 296, *thākatam* obl pl 333, *thākatā*
loc eg 320, *thākan* past part m dir eg 426,
529 Turner suggests possible extension in
-*akka-* of the Sk *sthā* 'stand' (v s v *thau*)
Bloch *thānē*, Turner *thāku*

थान *thāna* "place" sub dir eg n 22, *thāni* loc
eg 22 Sk. *sthānam* Pk *thāna*, retention of
-n- suggests a loan formation On the other
hand, various NIA languages have this form
with -n-, which leads Turner to suggest a
connection with Sk *sthāman*, **sthāmanā* > MI
**sthāna-*, or *sthāman-* with a dialectal -nn-
v s v *thānakam* Bloch *thān*, Turner *thant*

थानकु *thānakum* "place, residence, shrine" sub
dir eg n 437, *thānakam* obl pl 26, *thānaku*
loc eg 80, *thānako* loc pl 042 of Sk
sthānska- For the retention of -n- v s v
thāna, possibly, this retention may be due to a
specialised meaning - religious parlance -
'shrine', in MG, *thānā* n means 'shrine of a
deity', contrast with this MG *thānū* 'police
station' This supports the loan formation
rather than postulating -nn- in MI

थापई *thāpam* "establishes, places" v pres 3rd
pl 7, *thāpi* abs 374, *thāpivau* gerund dir eg
m 508, *thāpiyā* pass eg 237, 401 Sk
sthāpyate Pk. *thāpya-* placed Bloch *thājan*,
Turner *thāpnu*

थाल *thāla* "plate" sub 178 Sk *sthālā* f, *sthālam*
n Pk *thālā* f *thālam* n MG *thāl* m 'a big
plate', *thālā* f 'a smaller plate' Bloch *thāja*,
Turner *thāl*

थाहर *thāhara* "place, residence" sub obl eg 251
(*thāhara hūntau*) Sk *sthāvarā-* "standing
still" -h- cannot be explained but D. *thāha-*
'place' should be noted Bloch *thar*

थाहरी *thāharī* "your" pro loc eg 470, for
derivation s v *thāharau*

थाहरीची *thāharīcī* "stopped" caus past part f
dir eg 482 of Sk. *sthāvarā-* s v *thāhara*,
also compare Dhātup *sthālati* 'to stand firm'

थिर *thīra* "being remaining" 1st part (auxi-
liary) pl m 91, 300, 306, *thīrā* f 174, 518,
thīram gen obl 10, 311 For derivation s v
thīrakal, -i- is due to analogical influence of
sthāta- and absence of compensatory lengthen-
ing due to its frequency as an auxiliary (cf
Davis p 08).

थिर *thīra* "steady, firm" adj dir eg 38, *thīri*
ksāra n 'act of stabilising' 381 Sk *sthīrā-*
Pk. *thīra-* Bloch *thir*, Turner *thiro*

- धाड़ु** *thodau* *ka* little adj dir sg m ७86, thoda pl 377 413 416 419, thoda inst sg ०04, thoda inst pl 474, thodaum dir sg n 221 ७86 thodaum saum 'a little bit' (cf MG thodū su) n 170 301, thodam n pl 417, thodi dir sg f 112 Sk. stōka- lk. thoa ext in OG with -dau Bloch thoṇa Turner thor
- धोमवादाना** *thobha* *ca* *lanam* a type of vandana' sub pl n 342 This type of vandana is performed when some fault or error is in question The correct word is chobhha vandana- (Sk. *chobhha vandana-*), in various mss however, the graphic similarity of cho- and tho- has given rise to a word like thobha vandana-, it has also acquired a meaning 'a vandana performed while standing (i.e. not hurriedly) Both the words are found in mss and in the usage of monks
- धु** *thūka* little sub dir sg n 1-301, also thūmka 309 lk. thūka-n cf Sk. thūtharat Nasalisation is not regular, and found only in Guj, MG thūk Turner thak.
- धम्** *thambha* pillar (in the compound thambhadikaham) sub m 22 thambhai loc sg of the ext thambhau, 44 Sk. thambha- lk. thambha- ext in OG
- धायिनि** *thajjani* 'depo it' sub dir sg f 450 Sk. sthajana sthajanika cf lk. thajjani n preservation of -j- is due to the paradigmatic identity with the MI base thajja- going back to the presure syllabic Nasalisation is not regular The short -i at the end and MG thapan indicate that -i is not the result of an earlier contraction of -ika > -ia. but MI thajjani n is sufficient to an -i giving a feminine *thajjani (cf Sk. sthajani f) which would explain the OG short -i and zero in MG.
- *
- दहसद** *dahsa* *sa* one hundred and fifty num dir sg 43 also lk. dahsa 43 1 or 50 q v Sk. davarilla- davarilla (cf davarilla lk. davalha- > *davarilla- can explain OG davalha MG dālha Bloch dar Turner dar
- दधियुर** *dadhayura* 'proper noun' m dir sg ००८
- ददधामयु** *dadadhamayū* 'playing with a ball' sub dir sg n 12 1 or 2 lakka v s v dala.
- ददा** *dada* ball sub oīl sg m ००८ Sk. driti lk. dai ext. with -da- in OG. at 600-750 etc where as (see Davs v) *dā* a MG *dāra* can be possibly due to anal. and influence of MG. darrū to roll
- दधिआलिउ** *dadhialia* mixed with curds adj dir sg m 312 dadhi- lw Sk. +olia, Sk. ara +li lk. oī oī to go down' ext in OG with -n This described a preparation in which cooked rice is cooked in curd
- दयादु** *dayā* *tū* 'pious' adj dir sg m 3 Sk. dayalakha lk. *dayalno
- दरसन** *darasana* 'vision' sub dir sg n 16 lw Sk. darasana-
- दन्तउ** *dal tan* pounding preparing flour pres part dir g m 213 Sk. dalata lk. dala, MG dālū Bloch dalne Turner dalna
- दवर** *davara* 'string cord' sub (in the compound -adikaham) 27, also davaraka sg m ०01, 2०० D. gives davara and is adopted in Jain Sanskrit Bloch dor Turner dora
- दसा** *dasa* ten num 27 lw Sk. dāsa
- दसमउ** *dassama* tenth ord dir sg n 437 Note the -s- and dropping of the final m in lw Sk. v s v dāsa
- दस** *dasa* ten num dir sg 104, da sama ord loc sg 300, 401, dasa inst pl 21, 403, 616 Sk. dāsa lk. da-sa
- दहद** *daha* burn v pres 3rd sg ७31, d dhan past part m dir sg 14 471, dhadh f 112, dajalata pres part oīl pl m 473 Sk. dāhatī dajalha- lk. dāha 61 dāhātī lk. dajhal past part (anal. ga ally from labellha- lailla-) dādha- Bloch dahi २ Turner bahana
- दधि** *dahi* sour milk curd sub dir sg n 712 also dahu 178 MG dālī dahi Sk. d dhi lk. dahi ext MG h dāhī Turner dahi
- दाउ** *dā* peak (figurative) used for the peak of a mountain' sub dir sg f 51 MG dāhī f similar tooth Connected between Sk. dānāra m 1a dāttha f 16 d dāhī and non Aryan + dās are suggested for cognates from Austric group and Dravidian group see Bloch L 508 vol 7 4 and Turner m 1 r dā
- दाणु** *ḍa* (tax) vi d d d h k r r o s i t o l l sub dir sg 1 12 MG dā dā dā dā dā lk. dā dā dā dā m
- दानि** *dāni* giving Jain Buddh. oīl 1 or 2 sub f 207 Sk. dātta- lk. dātī f OG dātī
- दानि** *dāni* be gift donation sub m pl sg 1 471 lw Sk. dāna + OG. inst ००० x
- दानर** *dāna* *danora* sub m dir pl 471 lw Sk.
- दानिउ** *dānā* *ḍa* pres su dī sg v 1 lw Sk. (dānāra-) dānāra dānī + OG. suḍ x

देसवट्ट *desavatta* 'exile' sub dir sg m ०2० Sk.

*desa-vrīta-, Pk *de avatta- ext in OG

दोहल *dohala* 'longing desire esp of a pregnant woman for particular objects' sub dir sg m 81, 82 Sk. dohada m (probably a Pk. form of the word *daur hīda-*), Pk. dohala- m

दैवजोग *daivajoga* 'by chance destin-' sub obl sg 426, ०37 Sk. daivavogya-, OG daiva- 1० Sk lw, Pk. jogga-

दंड *danda* taxes, punishes v pres 3rd sg 538, damdavi pa s sg ०18 Sk. damdavati Pk. damdai

दण्डकण्टिका *dandakāntikā* '(bv) the broom tied to the stick' broom refers to the bunch of soft woolen strands tied to the bottom of the stick used by a Jain monk, by that he sweeps the place he walks he cleans books and brushes his own body sub obl sg 542, damdaukhanā inst sg ०23, Sk. dandaka+prachanaka Pk. dandaa-pumchanava Sk. unehata dandaka+ nnehana- ext

दन्तवृक्ष *dantavṛkṣa* 'a twig (usually of the Babul tree) used for cleaning the teeth' sub dir sg m 291 Sk. dantapavanam n Pa dantaponam n, Pk. dantavana- n, MG datan under the influence of dāt 'teeth', see Turner datium

दाह *dāha* 'by a way, path' sub m loc sg 463 Sk. danda-, dandaka- 'a row, line' Pk. dandava-, note the change in meaning

दन्ति *danti* 'teeth' sub dir pl m 74, danti loc sg 74 Sk. dantah m Ik. danta- in Bloch danta Turner dāt

द्वारक *daraka* ran past part dir sg m 29 Sk. drvate Pk. darac, darac- ext with -da-, Note the retention of initial dr- I over MG. hsa dOr vū to run, MG dOr f a run is derivable from *dava-iti- (cf. liti f a line' from MI *liha-iti-a).

द्वारक *daraka* grapes sub f 311 Sk. drak a f Pk. dakkha, note the retention of initial group dr-, in MG also darakh f

द्वयद्विद्वारक *dvayadvitaraka* proper noun a forest so named' sub f sg 426

द्वयद्वारक *dvayadvitaraka* 'twelfth ord dir sg n lw Sk. dvayadvitaraka OG -ma, note the absence of nasalisation

*

द्वयद्वारक *dvayadvitaraka* 'proprietor master' sub dir sg m. 213 ०48 Sk. dvayadvitaraka Pk. dvayadvitaraka Note the contraction -ia > -i having been worked out in OG Turner dvayadvitaraka

द्वयद्वारक *dvayadvitaraka* 'bow' sub dir sg 25 Sk. dvayadvitaraka- Pk. dvayadvitaraka

द्वयद्वारक *dvayadvitaraka* "bow' sub loc (in t) sg 4०4 Probably better reading should be dvayadvitaraka, giving us regular loc sg of dvayadvitaraka Sk. dvayadvitaraka h-, Pk. dvayadvitaraka dvayadvitaraka m dvayadvitaraka f v v dvayadvitaraka

द्वयद्वारक *dvayadvitaraka* proper noun m dir sg ००

द्वयद्वारक *dvayadvitaraka* rich dir sg m 466 lw Sk., v dvayadvitaraka

द्वयद्वारक *dvayadvitaraka* proper noun m dir sg ०53

धर *dharā* "preserves, keeps, bears in mind", v pres 3rd sg 111, ०20, dharan imp 3rd sg 562, dharatan pres part dir sg m 470, 474, dharatan (gen) obl 346, dharivā obl inf 279 474, dhara 158, 542, ०48, dharivai pass sg 403, dharivam pa pl ०20 Sk. dhāratī Pk. dharaī Bloch dhārā Turner dhara

धर्म *dharma* proper noun dir sg m 110 lw Sk

धर्मधोष *dharmandhosa* proper noun dir sg m 43० ०73

धर्मनन्द *dharmananda* proper noun m dir sg 386

धर्मयज्ञ *dharmanayajna* proper noun m dir sg ०73

धर्मवृक्ष *dharmanavṛkṣa* proper noun m dir sg 573

धादि *dhadī* "a salt attack" sub f dir sg 547 Sk. *dhatsvati dhātī, Pk. dhademi, D. dhādī Bloch dhar

धान *dhan* grain sub loc sg n 17० Sk. dhan yam, Pk. dhana n Bloch dhan Turner dhan

धाव *dha* ran, followed' past part m dir sg 466, dhava I. 529, dhavatam pres part obl 81, dhav f 147, dhav past part dir sg f 475 Sk. dhavati Pk. dhavaī Bloch dhavā Turner dhavānu.

धारक *dharaka* 'cause to place put v caus pres 1st sg 8० Sk. dharsvati Pk. dhara, caus dharaī The context is puṣa dharaīam I will cause him to eat his food (1 re)', In MG this idiom develops in a verbal base padhar -vū to welcome'

धारक *dharaka* 'should bear in mind' ger n pl 10 Sk. dharsvatarvam n Pk. dharsvatarvam n

धारक *dharaka* proper noun f dir sg 573

धाद्वि *dhadvi* 'a type of stone' sub f 29 dr., not known

धार *dha* proper noun m dir sg 522

धु *dhu* "chief" sub obl m 22 Sk. Pk. dhura-

धु *dhu* 'shakes trembles' v pres 3rd sg 514 dh. jam past part dir sg n 514, dh. jate

pres part inst pl m 213 Sk dhuyāte, cf. Pk dhua-

धुयरी *dhūyari* "a type of water formation? cloud smoke?" meaning not clear, it is considered to be an ap-kaya according to Jam theology 20

धूलि *dhūli* "in the dust" sub f loc sg 22 cf MG dhul f dhūr f (in the dialects of Saura shtra) *dhūdi- m Sk dhulih m f, for the Indo European *dhuzdi- see Turner under dhulo Note that the P L S and the Pahari languages have the reflexes of the -d- form

धोती *dhōti* "loin-cloth" sub f dir sg 365 v s v dhoyati

धोयती *dhoyati* "loin cloth" sub f dir sg (v l dhovati) 365 also see under dhoti Der not clear Turner dhoti

ध्यायतु *dhyāyatanu* "thinking, meditating" pres part m dir sg 80, dhyāyati inst sg 73, dhyayati f dir sg 561, dhyayī abs 74 lw Sk dhyayati, dhya- + OG verbal suffixes

*

न na negative particle 464, also used as an emphatic particle in constructions such as 'kahau na' 'please tell' 056 Sk ná, Pk na

नउ *nau* "of" postposition, adjectival dir sg m 94, also num 94, na pl 484, 516, nau ghari 'to the house' loc sg 85, also ne pae 'at the feet of' 74, ni f dir sg 521, 547 Der un certain, see Bloch § 201, where he suggests Sk. navena as a probable source

नखे *nakhe* "on the nails" sub m loc pl 376 Sk nakháh m n, Pk. nakhha is a lw from Sk. on account of the geminate -kkh-, regular Pk. development is naha OG nakhha is again a lw from Sk., with the OG loc pl suffix -e Some IA languages have the evolutes of Pk naha P nahu and H nah, MG has preserved this form in the word nErnu 'nail-cutter' Sk. nakhha-haram- ext in Pk and in the word nau 'underside of the nail' lk naha-, OG naha + suffix iu Bloch nakh, Turner nakh.

नयो *nayō* "is not" v pres 3rd sg 297, 444, 529, Sk nasti lk natthu, short -a- is due to auxiliary usage

नमस्तु *namastu* "bowing" pres part m loc sg 74, nami 427 Sk námasti, Pk namai Bloch lavnā, Turner nabunu

नमस्कृत *namaskrūt* "bowed, paid homage to" past part dir sg m 570, namaskari abs 85 lw Sk. namaskr- + OG suffixes

नमि *namī* proper noun m dir sg 110

नवरम्भु *navarammhu* proper noun m dir sg 425

नव *navā* "new" adj dir sg m 74, navai loc sg 310, navam n pl 017 navī f 622 Sk náva-, Pk nava-, ext in OG Bloch nava, Turner nauo

नव *navā* "nine" num dir sg nava inst pl 10, Sk náva- Pk nava, Bloch nau, Turner nau

नवम *navamau* "ninth" ord dir sg m 62, navamaum n sg 247 for der s v nava²

नवसह *navasam* "nine hundred" num dir pl 28 nava + sam, for der q v

नवाणवद् *navānava* "ninety-nine" num 383, MG navanū navañū cf Sk. nava + navatih, Pk nava + navim, MG navañū is standard colloquial while the one with -vy- is a class room form, probably analogical, cf. ekanū '92', 'sattanū' '97', 'atthanū' '98' etc

नवीन *navīnau* "disgusted, fed up" adj m dir sg 142, cf Sk nirvīna-, loss of initial -i- in closed syllable cannot be explained Possibly a late lw in OG may be *nivīna-

नहीं *nahim* "not" (v l nahī) 38, 548, 560 For various suggestions see Turner under nahī, "J Bloch (p 292) compares M ahñ to be, old H ah- (for which he tentatively suggests Sk abhavati, cf Pk abhua-), S K chatterji, Beng Lang P 1039, derives from *asati (replacing Sk āsti, with subsequent special development of -s-, which is not impossible in such a word) Possibility of contamination with descendent of Sk nahī must be considered

नागधु *nagadhū* proper noun m dir sg 488

नागि *naghi* proper noun m dir sg 470

नाच *nāca* "dance" sub dir sg m 570 Sk ntyam n Pk. naccam n, for other IA cognates see Turner under nac Note that while OIA and MIA forms are n gender, most of the NIA forms are m

नाच *nāca* "dances" v pres 3rd sg 429 Sk. ntyati, Pk. naccai Bloch nācñē Turner nācnu

नाउ *naū* "fed, ran" past part m dir sg 428, natham n 453, nātha pl 537, nañhi f dir sg 426 Sk. nastáh, Pk. nañtha-, Bloch nat, Turner natho

नाम्ना *namna* "small" adj pl m 23 Sk. slaksnāh Pk. lanha- Bloch lahan, sahān, Turner nāni, sanu

नामि *namī* "by names" sub inst pl 376 *nāme-bhīh Pk. nāmehu

नरिनी *nāriṇī* "one who belongs to hell" adj sg 21 lw Sk

नारी *nārī* "barber" sub dir sg m 36 Sk *nārī* in, Pk *nārī* - m Bloch *nārī*, Turner *nārī*

नाशिना *naśina* "nose" sub dir sg f 620 lw Sk *naśika*, note the *ḥ* *ś* - *ś* - before -*ī*

नाशिय *naśiya* proper noun dir sg n 386

नासतउ *nāsatau* "being running" pres part dir sg m 522, *nāsata* pl 128, 410, *nāsa* abs 575, *nāsa* in caus past part dir sg m 522, *nāsata* 183 Sk *nāsata* lk *nāsata* Bloch *nas*, Turner *naśnu*

नाहि *nāhi* "navel" sub dir sg f 506 Sk *nābhah*, Pk *nāhi*, lw from lk

निक्षिपानिधु *nīkṣipāniḥu* "cause to throw" v caus fat 1st sg 468 lw Sk *nīkṣip* + OG verbal suffixes

निग्रदाविउ *nigrahaviu* "caused to be arrested" caus past part dir sg m 386, *nigrahavi* pass sg 522 lw Sk *nigraha* + OG verbal suffixes

निच *nīca* "low" adj dir sg m The short -*ī* - may be a scribal error lw Sk *nīcah*

निटाल *niṭala* "totally, ab olutely, completely" adv 22 Sk *nīṭala*, lk *nīṭala*, Ap *nīṭalla* - for Ap -*ṭ* -> MG -*ṭ* - of Ap *nīṭalla* - MG *nīṭū*

निहु *nīhu* "daily" adv 80 386 Sk *nīya* - lk *nīta* -

निमिष *nimīṣa* "winking or twinkling of the eyes" sub n in t pl 138, lw Sk *nīmīṣa* - + OG inat pl affix

निममता *nīmamta* m "while inviting" pres part gen obl 502 Sk *nīmamtrayati* lk *nīmamtei* OG is either a lw from Sk or the -*tr*- group is retained

निवाणउ *nīvaṇau* "claiming the reward of penitential acts (Jain technical term) sub dir sg n 111 572 Sk *nīvaṇa* - n lk *nīvaṇa* - n ext in OG

निराखरिउ *nīraḥarīu* "repudiated removed" past part dir sg n 561, lw Sk *nīraḥar* - + OG suffixes

निरुपइ *nīrupai* "abstracts arrests" v pres 3rd sg 2, Sk *nīrunādhu* *nīrunādhe* Pk *nīrudāha* -

निनिधी *nīnīdhī* "having conjured" abs 406 617 Pk *nīna* (Sk *ja* in the 0th conjugation), refused in OG lw *nir*

निर्घाटिउ *nīrghāṭīu* "drove out defeated" past part m dir sg 447 dir s v *dhāṭī*

निबहु *nībahu* "strong" adj dir sg n 91. Sk *nībada* - , Pk *nīvīla* -

निवर्तइ *nīvartai* "returns, turns away, repudiates" v pres 3rd sg 576, *nīvartānu* 1st sg 385, *nīvartīnu* pres 2nd sg 80, *nīvartīnu* obl of the inf 312, *nīvartīnu* caus pres 1st sg 349 lw Sk (nī vrt-) *nīvarta* - + OG verbal suffixes

निवारिया *nīvāriya* "stopped objected" past part m dir pl 430, *nīvāri* dir sg f 560, *nīvāri* imp 2nd sg 560 Sk *nīvārayati*, lk *nīvāre*

निश्चइ *nīśchai* "definitely" adv (inst sg) 430 lw Sk *nīśchava* - with OG in t suffix

निषेधउ *nīśedhau* "I prohibit, I deny" v pres 1st sg 348; *nīśedhū* past part m dir sg 444 lw Sk *nīśedha* - + OG verbal suffixes

निशा *nīśa* "night" (first member of a compound) f sg 526 Sk *nīśa*, lk *nīśa*

निसेज *nīśeja* "seat" sub dir sg f 321 Sk. nīśedh f "a small bed or a couch", lk. *nīśeja* *nīśeja* f lk -> *nīśe* be analogically influenced by Sk *nīśeja* lk *nīśeja*, MG *nīśe*

निगमउ *nīgamau* "pauc, waste" v trans pres 3rd sg 481, *nīgamatum* pres part gen obl pl 460 Sk *nīgamayati*, lk *nīgama*

निचउ *nīcau* "low" adv adj dir sg n 44, *nīca* obl 586 Sk *nīca* - , lk *nīca*, *nīca* - (the latter, either a lw from Sk or analogically influenced by Sk *nīca* -) Turner *nīca*

निदाणरण *nīdāṇarāṇa* "act of weeding" sub dir sg n 440 cf *ka-hmīra nīda*, Marathi *nīdāṇ*, MG *nīdāṇ* *nīdāṇ* *nīdāṇ*, D. *nīdāṇ* *kuṭroddharāṇam* Sk *nīdāṇ* - "a weeder, reaper"

निवर्तइ *nīvartai* "produces, creates" v pres 3rd sg (v 1 *nīvartai*) 112, *nīvartānu* 1st pl (fat *nīvartānu*) 440, *nīvartānu* abs 536 Sk *nīvartati*, lk *nīvartayati* Bloch *nīvartānu*

निवणउ *nīvaṇau* "produced" sub part part, m. dir sg 42, *nīvaṇānu* n. sg 112, *nīvaṇānu* n. pl 514 *nīvaṇa* f 100 Sk *nīvaṇānu* - lk. *nīvaṇānu* -

निवणउ *nīvaṇau* "produces places" v. pres. 3rd pl. 7. Sk. *nīvaṇayati* (causal) lk *nīvaṇānu*, v. 2. v *nīvaṇānu*

निवर्तइ *nīvartai* "gone out went away" past part, m. dir. sg. 420 49, *nīvartānu* n. sg. 506, *nīvartānu* pl. m. 506, *nīvartānu* sg. f. 474, 524, *nīvartānu* pass pl. 130. Sk *nīvartati* lk. *nīvartānu*

नीमास 'breathing out sigh' sub sg 33 Sk
nīhsvasah Pk, nis asa-

नेमि *nemi* proper noun m, dir sg. 110.

नद *namā* proper noun m, dir sg 386

नदा *nardā* proper noun f, dir, sg. 469

नादिवा *nādhī*: "pleas'd, satisfied past part dir,
pl. m. 522, Sk nanditah Ik, nandā.

निदृष्ट *nindā* "I censure" v, pres. 1st sg. 166,
nindatāu pres. part, dir sg m 590, nindā abs.
564, 630, Sk. nindati Pk nindā.

नीद्र *nīdra* "sleep" sub f, dir, sg. 323, Sk nīdrā,
f, Pk. niddā, but MG also has retained -r-,
MG. nīdar f., so, the intermediate stage should
be *nūdra Bloch nīd, Turner nīd.

प्रवेश *pravaś* "enters" v pres 3rd sg 522, praviṅ
obl of the inf 108, pravi abs 160, prathau past
part m dir sg 134, prathā for sg 463 Sk
prāvasati, prāvatāh, Ik. prāvat, praitthā-ext
MG plāsvū plth- Turner prāva, prathā.

प्रवेशहार *pravaśahara* "one who enters" agent noun
m dir pl 576 prāvāna + hara for prāvāna s v
prāvat, for hara s v dekhānāharu

पद्म *padma* "wheels" sub n pl 520 Sk pradūh
Ik *pāh- cf H pāhya, OG ext form gives
MG pāru Turner pāya Note the change
in gender

पत्र *patra* "leaf by a quarter, 1 or three-quarters
num 294, 29, 320 Sk. 1 dona- Bloch pāna

पुंजी *pūñji*: "having cleaned, wiped" abs 382
(rajoharāni kara pūñji tāu pūñjai thavai)
Sk. pra-pūñ-, Ik. pūñjā, 'to employ, v c'
compare, however, the MG expression pūñjo
kūtho 'to clean (the floor, room etc.) wipe',
which may be connected with the Sk. pūñjā-
'a leap', referring to the leap of dust made by
sweepers or those who clean the rooms or floor,
cf Ik. pūñjā 'to make a leap' s v pūñj

प्रवर्तक *pravartaka* 'by the controller' sub m inst
pl 118 cf Sk. pravart- agent (of an action)

प्रवर्तन *pravartana* 'special preparation (fried in
khas or oil)' sub dir sg n 311 lw Sk
pārvāna-n MG pāvān

प्रायश्चित्त *prāyascitta* "bath, washing" in the compound
jalapakkāh, sub f dir sg 70, when the idol
in a temple is washed-giv n a bath-that act is
considered a type of worship (pūjā), and is
described as pākā (note that p- is also f)
in MG an ordinary passage for water is called
pākā in MG (and probably *kālī in OG).
All this indicates original verb ka pra + k-āl-

Pk pakkhal-, MG pakkhāl-vū to wash, to clean,
derived as a noun in OG Bloch pakkhalnē

पक्खोदण *pakkhodaṇa* "act of fixing, attaching" sub
loc sg n 601 cf Sk k ot-, k otayati 'to
throw, cast', Ik pakkhōdana "shaking" cf
MG khōd-vū to fix, attach

पग *paṅga* "foot, leg" sub m dir sg 294, al o
paṅga 201, 382, 403, al o pl 73, paṅga inst pl
000, paṅga loc sg 453 al-o paṅga 294, paṅga loc
pl 470, paṅgham obl pl 020, also 000 pan Pk
paṅga-, Bhayāni (Vagvājar p 294) suggests
*paṅgga < pada-ṅra- on the evidence of Ap
karagga < kara-ṅra- Turner paṅga dandi

पाचि *pacchi* "cooked past part dir sg m 311,
pācyai pasā 3rd sg 311 Sk pācyāte, Pk
pāca-, pāca- Turner pacnu

पच्छेद *pacchēda* "blanket" sub f sg 321 cf
MG pāchurī- a cotton blanket cf Sk
prācchad- to cover, MG Ochar 'bed sheet' is
comparable to Sk ava-cchada-, though core
brasilation cannot be explained, except by later
extension in -d-

पड *pada* "falls" v pres 3rd sg 434, padī-iyam
fut 1st pl 400, padī u fut 3rd sg 014, padatāu
pres part m dir sg 000, padatā obl 81, padīu
past part m dir sg 74, 128, 500, 506, padīyū
pl 403, padī dir sg 360, padī cras past
part m dir sg MG par vū, Note that NW
languages, S P and L have evolved of Sk
pātati, while for the rest, it is replaced by
*pātati, Ik padai Bloch pātē, Turner pāru

पडवड *padavala* 'falls' v pres 3rd sg 430,
probably an echo-formation from pālai 'falls'
though the common echo form begins with b-
in Gujarati s v padai

पटिकम *paṭikkama* "atonement" v pres 3rd sg 72,
paṭikkamātau pres part m dir sg 78, paṭik
kamātau obl -ṅra-, 38, paṭikkamūm past
part dir sg n 70, paṭikkama loc sg 320,
paṭikkamāyā pasā sg 720, paṭikkamāva obl
of inf 302, paṭikkamāte 35 also paṭikkamā
13 Sk. paṭikkamāti, Ik paṭikkamāi (a Jain
theological term)

पटिकमण *paṭikkamaṇam* atonement—a penance
meditation— Jain theological term sub dir
sg n 72, s v paṭikkamāi Sk paṭi-
kramaṇam, Ik paṭikkamaṇa- ext in OG

पटिकर *paṭikara* 'door keeper' sub m sg 306
Sk paṭikara-, Ik paṭikara-

पट्ट *paṭṭa* 'leaves' v pres 3rd sg 409, paṭṭam
3rd pl 432, paṭṭatāu pres part m dir sg
(v l paṭṭatāu) 104, paṭṭate obl p' 94,

- padham past part dir sg n 94, padhu loc *g 370, padhivaum ger 355, padhiva obl of inf 94, 355, padhuyat pass sg 375 438, padhuyam pass pl 14, 375, padhuyu precativo 3rd sg 353, padhi abs 32f 329 601 cf Sk pathati, Pk padha: Bloch padhnē Turner parnu¹
- पण *pana* "again, also" conj 402, note the early loss of -u- in open syllable, s v puni Sk panar Pk puna Bloch pan, Turner pani
- पणागना *pana ngana* "courtezans" sub f pl 80 lw Sk panangana
- पतंग *patamga* "moth" sub n dir sg 21 lw Sk patamga-
- पति *patis* "foot soldier" sub m dir sg 145 lw Sk patii
- पद्मपत्रा *padmapatra* proper noun dir sg f 547
- पद्मप्रभा *padmaprabha* proper noun dir sg m 110
- पन्तर *panara* "fifteen" num 20 36, panaramat ord loc sg 355 Sk pāncadasa-, Pk panarasa Ap panaraha MG pandar Bloch paudhra Turner pandra
- पनरस *panarasa* "fifteen" num 24 s v panara it is an archaism based on Pk panarasa
- पनरह *panaraha* "fifteen" num 20 326 302, 353 s v panara, panaraha is an archaism based on Ap panaraha
- पनाह *panādam* cause to reach cause to obtain v caus pres 3rd pl 378 panadam caus pres 1st sg 629 panadiu caus past part dir sg m 474, panadium caus past part dir sg n 388 panadiyā past part caus pl 22 Sk pāpnoti Pk panāna parai Dave (p 160) suggests Sk -pa->OG -m- (cf Sk svapna-MG samnu) Bloch pavne Turner paenu¹
- परवालड *parvala* m coral young shoot sub dir sg n 20 paravalam pl n 620 Sk pravala- n Pk pavala- ext in OG Note the retention of -r- in OG also MG parvalu
- परसाक्षि *parasakshi* visible to others with others as witness sub loc sg of 4 Sk para+sak+va- parasaksya Pk parasakshi
- परहड *paraha* far further away adj dir sg m 426 520, (used with oraha far and near), also paraha melhau "release ham 546, paraham pl n 101, der uncertain v s v orahau oro near and paro "far are used in MG dialects cf Sk pāra- "far, distant", it is possible that Sk āvara- and pāra- may be the source of MG oro Oro and paro
- परहसित *parahamsu* "laughed, jested" past part m dir sg (\ l parahamsu) 38 Sk. paraha sila-, Pk. parahisa-
- पराभवी *parabhavi* "to defeat- in the construction parabhavi na sakavati 'not able to defeat' inf 380 lw Sk parabhava + -i OG inf suffix < Pk -ium < Sk. -itum
- परि *pari* "in that manner" adv 74 cf Sk. prakārena lk. payarasa, payaram, MG pEr, see New Indian Antiquary non Aryan origin is suggested Turner pari
- परिष्ठ *paristha* "causes to be steady" v caus pres 3rd sg 380 Sk. paristhapayati, lk. paristhavi, meaning may be reinforced by Pk. paristhavana < Sk. prastisthavana- Note the short -i- in OG
- परिणाम *parinama* "results into transforms" v pres 3rd sg 521 Sk. parinamate, Pk. parinama
- परिणित *parinisu* "married" past part m dir sg 94 parini f 142, 003, pariniva obl of inf 471, parinava caus pres 3rd sg 470, parinaviva ger m dir sg 490, parinavi abs 94 Sk. paritayati, Pk. parinei
- परिव्रमी *paribhrām* after wandering abs 428 lw Sk paribhrām-+OG abs suffix -i < Pk -ia < Sk. -iya)
- परिवर्ज *parivarjaka* one who gives up sub dir sg m 492 (probably the final -i is a scribal error) lw Sk. parivarjaka-
- परिसालि *parisali* in the courtyard sub loc sg f 217, Sk. pari sala Pk. *pari-sala OG pari sali MG parsal f The explanation is doubtful since the text has -sali and not -sali
- परिहर *parihara* "leaves, deserts" v pres 3rd sg 320, pariharaum 1st sg 516, pariharipu pres 3rd sg 12 Sk. pariharati Pk. parihara
- परिशी *pari shi* having examined abs 382 Sk. parikṣate Pk. parikkhai Bloch parakhnō Turner parakh
- परिच्छ *paricchi* examines knows v pres 3rd sg 470 parichiam 3rd pl pass. 55 Sk. parikṣate lk. paricchi parikkhai v s v parikhi
- परिसेह *parisava* serves food v pres 3rd sg 112, parisavi past part (adj) pl n 563 Sk. parivestati Pk. parivasi
- परु *paru* guest (outsider) sub dir sg m 440 Sk. parah Pk. para-
- पल *pala* observe, work v pres 3rd sg 441, cf MG palā, Sk. palati Pk. palai.

पवित्र *paṭṭi* "pure" adj dir sg n 540, lw Pk pavitra-, Sk pavitra-

पसरि *pasaru* "spread" past part dir sg m 446 Sk prasarati Pk pasara Bloch pasar, Turner pasaru

पसाउ *pasau* "joy, satisfaction" sub dir sg m 446, 489, pasai inst sg 509, Sk prasada- m Pk pasaya- m Bloch pasay

पहर *pahara* "watch, space of three hours" sub m dir pl 026, pahari loc sg 142 Sk praharah Pk pahara- m Turner suggests Sk praharah is probably a Sanskritised Persian *pahra* (Modern Persian *pehre*) Bloch pahar, Turner pahar

पहिरणउ *pahiranaum* "dress, garment" sub dir sg n 325 Bloch suggests relationship with Persian *parahan* (Mod pers *parahan*), but Turner draws attention to the early occurrence of the word *paridhanam* in Atharvaveda, Bloch *peharan*, Turner *pairan*

पहिरइ *pahiram* "puts on" v pres 3rd pl 614, pahiri abs 73, 526, also pahiri 537, pahiravī cans abs 048 Sk paridadhati Pa paridadhati Pk pahirai Turner pairanu

पहिलउ *pahilaum* "first" num ord dir sg n 433, pahilai loc sg 448 also pahile 514, pahil f dir sg 109, pahilam adv usage, stereotyped loc 'in the beginning' 419 cf Sk *prathamā*, **prath-illa-* Pk pahilai, Bloch pahila, Turner paio

पहिलउ *pahileram* "earlier" adj dir sg n 179 OG pahila + eram, der s v pahilsum

पहुतउ *pahatau* "arrived, reached" past part m dir sg 74, 009, also pahtau 429, pahuta pl 522, pahutai loc sg 113, pahuti f dir sg 579, pahuci imp 2nd sg 481, pahucan imp 2nd pl 488 Note that in OG the past participle form is *pahut-* while the imp form (and present tense form in other OG texts) is *pahuc-*, while in MG the verbal base *pahuc-* underlies all derivative forms, which is a later analogical extension Turner's suggestion Sk *prābhūta-* Pk *pahua-* replaced by *pahutta* (Sk loan) and analogically (*acyāte saktā*) giving *-c-* and *-t-* bases, is supported by OG *pahuc-* for present and *pahut-* for past participle Bloch *pahānē* Turner *paicnu*

पाइक *paika* "foot-soldier" sub dir sg m 440; *payakham* obl pl 537 Sk *padatikā-*, *paikā* replaced by Pk *paikas* (lw from Sk.), short *-t-* in OG is not regular Bloch *paika*

पाउ *paū* "foot" sub dir sg m 80, pas loc pl 74, 026 Sk *padah*, Pk *paā*, ext in OG Bloch *pāv*, Turner *pau*

पाउपाउउ *paudhāru* "welcome lit lay your foot on" v pres let sg der s v *pau* and Sk *dharā*, *ṛat*, cf MG verbal base *padhar-*

पाउउणउ *pāumhana m* "broom used by Jain monks to wipe the floor- to prevent insects being killed while walking etc" sub dir sg n 326, cf Sk *pada-* *pranahana-*, Pk *paumhana* - ext in OG for *pau* q v, cf MG *pūhvū* "wipe, clean", Bloch *puñē*, Turner *puchnu*

पाकउ *pakau* "sugar boiled for preserves, sweet meat preparation" sub dir sg m 314 lw Sk *ṛakā-* ext in OG

पाकतिया *pākhata m* remaining at the back sub dir pl n 529, also obl pl 400, *pakhatiyam* laggu "attached to the back" *pakhatī* 464, Sk *pakṣa-*, *pakṣati* f, retention of *-ti* cannot be explained, unless as a special loan formation

पाकणि *paḥni* "stone" sub loc sg m 530 lw Sk *paṣane* Sk *-s-* written as *-kh-*

पाकी *pakhi* "fortnightly" adj f loc sg 329, Sk *pakṣika-* lk *pakkhina-*

पाके *pakhe* "without" prepositional usage stereotyped loc 74, also *pakhai* 448, 474, 526 Sk *pakṣa-*, Pk *pakkha-*

पाउउ *pachau* "back, after" adv sub dir sg m 110, pachaum n 108, pachai loc sg 441, also *pache* 143 433, 474, *pacha* obl sg 401, also pl 473, 540, also *paccham* pl 401 Sk *pacca*, *pasant*, lk *paccha* *paccha* ext in OG Turner *pachi*

पाउलउ *pāchilau* "one belonging to the end" adj dir sg m 233, *pachilai* loc sg 320, *pachilaum* n sg 300, also *pachilum* 168, *pachiliyam* obl pl n 582 der s v *pachau*, Pk *pacchā-* ext with *-illa-* ext

पाउउउ *pācharam* "posterior" adj comparative dir sg n 478, *pacha* + *-eram*, the comparative suffix is derived from Sk *-tara-* ext der s v *pachau*

पाउलउ *paṭalau* "wooden board" sub dir sg m 322, 328, *paṭala* obl m 322 Sk *paṭṭa-* Pk *paṭṭa-* ext with *-lla-* ext Bloch *paṭ* Turner *paṭi*

पाउि *paṭi* "on the seat, bench" sub loc sg f 144 Sk *paṭṭika*, Pk *paṭṭiyā* MG *paṭi* f also s v *paṭalau*

पाउरिउ *pāṭhacu* "sent dispatched" cans past part dir sg m 387, 488 Sk *prasthispavati*,

- lk jathlavca jathlavas Bloch jathavinē
 further jathl
- पाठि *paṭhi* 'area extension (metaphorically
 jurisdiction) sub f loc eg 502 of Sk patna-
 m j thala-
- पाटासी *paṭāsi* 'neighbour' sub dir eg m 318
 of MG p posum neighbour, jathros m 'neigh-
 bourhood' Śl jathros of jathros at Ia
 jathrosati lk jathros for various sugges-
 tions see Turner under jathros Bloch jathros
- पाणी *paṇi* water sub dir eg n 501 Sk
 jathrosam lk jathros Blo h paṇi Turner paṇi
- पाणीज *paṇij* water sub dir eg n 314, nk 0
 j nu 20 Sk jathrosam ll p nam OG jathros
 further ext in OG la -u s v jathros
- पापु *paṭu* vessel lot sub dir eg n 561 Sk
 patham Pk patham OG -tt- may be a
 scribal error or Prakritism
- पाधरा *padhara* straight adj n obl 209,
 padhara f 20 403 der not known D si gives
 padhara- straight
- पाण्डी *paṇḍi* heel sub dir eg f 44 Sk jathros
 f ext MG paṇi f
- पाप *paṭ* at the foot sub loc j l m 480 Sk
 padesu lk jathros OG j y
- पाण्ड *paṇḍ* break ng of the fast sub n
 dir eg 80 113 001 61 parat obl eg 112
 parat loc eg 109 Sk. jathros - n Pk
 parauaga parauaga n
- पारि *paṭi* beyond across adv lo eg 239
 Sk jathros - ll p ra-
- पास्ता *paṭa* fulfilling finishing pres part obl
 eg 4 j ri abs 3 6 01 jathros caus past
 part m dir eg 80 jathros jathros s 329 Sk
 jathrosati lk jathros
- पार्थ *paṭha* proper noun m dir eg 110
- पाटु *paṭu* proper noun m dir eg 3 4
- पाटुडी कण्ठ *paṭuḍi kaṇṭha* sitting cross leed
 sub dir eg n 1 Sk *parastika *jathros
 antika referring to bones in a special poet re-
 MG palthe OG l ng, thening of initial syllable
 remains unexplained
- पाटुवट *paṭuvata* maintaining preserving pres
 part m dir eg 016 jathros pl jathrosam pres
 lat eg 348 jathros past part m dir eg 441
 jathros abs 91 jathros jathros s 5 0 Sk palavati
 lk p loc Bloch pal Turner jathros
- पाटि *paṭi* edge boundary sub f dir eg 476
 544 MG j l Sk pal Pk jathros
- पाति *paṭi* "near adv ster otyped loc 452 Sk
 parva- lk jathros-, note -a- in Pk s v
 palni
- पाट्ट *paṭṭ* 'by (in the sense of agent) post
 position, stereotyped inst eg 573 extended
 form of OG p sa-, for examples of later
 usage see Tattvati 70 Note the change in
 meaning from OG j a- and note the change
 -s- > -h- Blo h jathros
- पाट्टु *paṭṭu* stone sub dir eg m 20 pal ni
 pl 508 jathrosam inst eg 386 Sk. jathrosam Pk
 pahana- n note lk -s- > -h- change,
 MG jathros (dual) Turner paharo
- पित्त *paṭṭa* proper noun dir eg m 108
- पिट्टपिट्टि *paṭṭapaṭṭi* will cause pain torture v
 caus fut 3rd eg 189 Śl palavati Pk palni
 Bloch jathros jathros
- पित्तरे *paṭṭare* by parents sub inst pl 461 lw
 Sk pithar- OG inst pl suffix
- पिष्ट *paṭṭ* drinks v pres 3rd eg 520 jathrosam
 lat eg 163 paṭṭ 2nd eg 463 jathrosam past
 part m dir eg 5 0 p vaum ger n dir eg 21
 jathros abs 506 jathros abs 05" Note the short
 and long -i in the stem in the present tense
 indicating OG contraction of -ai- > -i-
 (though -) is graphically retained which is
 lost later giving jathros 3rd s pres) The past
 part jathros -dh- is analogical extension from
 labial a laddi a type Bloch jathros Turner paṭṭu
- पित्तण्ड *paṭṭaṇḍ* goad sub dir eg m 6 of Sk
 pratodāh *jathrosana-, MG parOno m
 parOno f
- पित्त *paṭṭ* jathros sub dir eg 20 d variation not
 known MG para
- पिट्टुलपि *paṭṭulapaṭṭi* by breadth sub n inst
 eg 614 OG jathros jathros jathros - lk
 pithula-, MG jathros
- पिट्टुल *paṭṭula* broad wide adj n pl 616 Sk
 pithula- lk pithula- MG jathros
- पियण्ड *paṭṭaṇḍ* moreh sub n dir eg (v l
 pavanaṇḍ) 489 Sk. pavana- n lk pavana-
 n The -n- instead of the expected -a- (as
 shown in a later ms) is either due to the
 following v- or Marwari influence
- पाटु *paṭu* jathros a type of tree sub dir eg 01
 der not known
- पीसत *paṭṭaṭ* crushing pulverizing pres
 part m dir eg 213 Sk paṭṭaṭi paṭṭaṭi
 Pk jathros Blo h paṭṭaṭ Turner paṭṭu
- पीडि *paṭṭi* in the paternal home (of the
 wife) sub n loc eg 473 001 of Sk.-
 pithra- Pk pithara-, MG jathros

पुट्टलिका *puttalika* "small bundle" sub dir sg f 601, of Sk *puta*-bundle, **putya-*, Pk *pofta-*, *putta*- MG *potlo* m a big bundle, *potli* f a small bundle Bloch *pot*, *potiā*, Turner *poti*

पुत्रि *putri* "again" adv (v l *puna*) 38, 94, 493, also used in the sense of conj and emphasis 547, 550 Sk *panāh api*, Pk *punavī* OG *punt* s v *pana*

पुण्यरासि *puṇyaraśi* "piety, lit a heap of piety" sub dir sg m 428, lw Sk *puṇyaraśi* -

पुत्र *putra* "son" sub m dir sg 520, Sk *putraḥ*, Pk *putto*, *putta*, lw Pk

पुनिम *punima* 'the night of the fullmoon' sub f obl sg 483 Sk *pūrṇimā* m "full moon", late Sk *pūrnima* f Pk *punnima*, f MG *punam* f Bloch *punav*, Turner *punavā*

पुरिमाल *purimali* proper noun dir sg m 016

पुरपुर *purapura* proper noun m dir sg 044

पुरपातंसक *purpātamsak* proper noun m loc sg 429

पुङ्ख *puṅkha* "rice or grain scalded with hot water and then dried over fire" sub pl 502, Sk *prthuka-*, Pk *pahnka-*, MG *pōk* Bloch *poha*

पुङ्ग *puṅga* "arrived, reached" past part dir sg m 296, *puṅga* loc sg 478 Turner, under *puṅga* suggests analogical formation of **puṅga* replacing *puṅna* (*pūrnā*) as past part to *puṅjati* (*purjate*) and *puṅjai* **puṅga* formed on the analogy of *bhajai bhagga*

पुङ्ख *pūcha* "asks" v pres 3rd sg 448, also 2nd sg 538, *pūchi* imp 2nd sg 538, *pūchatai* pres part m loc sg 522, *pūchatam* gen obl pl 386, 506, *pūchau* past part m dir sg 86, *pūchya* pl 112, *pūchu* loc sg 428, *pūchu* abs 386, 573, *pūchiyai* pass sg 339 Sk *prechāti* Pk *puechar* Bloch *puṅgē*, Turner *puchnu*

पुङ्खनाकर *pūchanakara* "one who asks desirous to ask" sub dir sg m 577 OG *puchana*-*tharu*, der s v *pūchai*

पुङ्ख *puṅga* "worships, respects" v pres 3rd sg 74, *puṅgam* 1st sg 028, *puṅga* past part m dir sg 74, *puṅgata* pres pass part pl 72, lw Sk *puṅyati*, or a lw in Pk as *puṅja-*, and OG *puja-* of Pk *puṅga* pass, *puṅja-*

पुनार *pūjāra* "priest - who performs the worshipping ceremony in the temple -" sub m dir sg 527 Sk *pujākara*-est for *puja-* to be considered a lw s v *pujai*

पुङ्ख *pūchi* "at the back" adv 447, 029, 557 Sk *preṣṭh* f ribs Pk *piṭṭhi*, *patṭhi*, MG *pūthi* f Turner *piṭh*

पुङ्ख *pūjāra* "pancakes" sub dir pl m 315 Sk *pūpa*-Pk *pūa*-la, ext with -*la*- MG *puro*

पुङ्ख *pūra* "fills supports" v pres 3rd sg 470, *puram* 1st sg 466, *purati* pres part f dir sg 009, *pūrīvā* ger pl 407, *purī* abs 516 Sk *purīyati*, I k *purā* Turner *purnu*

पुङ्ख *pūra* "having asembled" abs 014 the con text is *sabha puri* 'having as embled the council' Sk *purayati* 'fills' Note the OG change in meaning of MG (dialectal) *trū* *purvū* 'to loak' v s v *pūrai*

पुरारस्थ *purārasṭha* 'in the previous stage' sub loc sg f 417 lw Sk

पुरी *pūri* "before, ahead" adv stereotyped loc 109, 428, often followed by -*him* emphatic lw Sk *pūrva* -

पेट *peṭa* "stomach" sub dir sg n 38, Pk *potta*-*putta*-n, cf MG *pot-lū* s v OG *puttalika*, also MG *peru* 'lower belly', heata tion in vowel quality may suggest an early lw, Bloch *pot*, Turner *pet*

पोतनपुरी *potanapuri* proper noun m loc sg 480

पोरिसि *porisi* "a type of Jain penance, Jain theological term" sub dir sg f 142 Sk *paursu*, Pk *porisi*

पोलिका *polika* "a kind of cake" sub dir sg f 317 lw Sk *paulikā* *polika*, Pk *polu* MG *poli*

पोव *poṭa* "sews, strings on fixes on" v pres 3rd sg 20 Sk *praveṣyati*, *prōta-*, Pk *poai*, *poa-*, MG however, continues a form with -*r-*, *parov vū* for which see Turner *bunnu*

पोव *poṭa* "supports, feeds" v pres 3rd sg 038 *poṭa* abs 516 Sk *poṭyati* Pk *poṭa*, -s- may suggest it to be a lw

पोस *posha* "a type of Jain penance Jain theological term" sub dir sg m 547 Pa *uposatha* Pk *posaha* -

पचिस *pacchisa* "twentyfive" num dir sg 428, also *pacchavisa* 420 Sk *pācchavimsat* Pk *panna visa* f *panvāsa* f n Ap *paciam* Turner *pacis*

पचिस मड *pacchisa maṭṭa* "twenty fifth" ord dir sg 02, *pacchavissama* obl 222 for der s v *pacchavisa*

पचास *pacchasa* "fifty" nom dir sg 421, 013 Sk *pacchāsāt* f I k *pannasam* Bloch *pannas*, Turner *pacas*

पचहत्तरी *pacchattari* "seventy five" num dir 133 of Sk *pacchāsaptati* f, I k *pacchattari* Turner *pacchattari*

पुण्डरि *paṃcuṃbāra* "five un-eatables, udambāra and the rest", sub f eg 352 Sk. paṃca + udambāra -, Pk. paṃcuṃbāra -, note the OG -i as a suffix for f derivation

पचत्तास्रस *paṃcetiśāsa* 'forty five' num 9, 407 cf Sk. paṃcaśatvarimsat Pk. paṃcāśāsa, Ap. paṃcāśāśāsa Turner paṃcāśāsa

पद्म *paṃdā* 'pale' adj; dir eg 213 Sk. paṃdu- m Pk. paṃdu- m

पाक्षिया *paṃkhiyā* 'birds' sub dir pl m 102, Sk. pakṣi Pk. paṃkhu pakkhu, paṃkhiya-, ext in OG with -u, Turner paṃkhi

पाच *paṃca* 'five' num dir eg 74, also paṃca 80, Sk. paṃca-, Pk. paṃca- Bloch paṃc Turner paṃc

पाचमत्त *paṃcamatam* "fifth" ord dir eg n 162, 350, paṃcamatā loc eg 355 dir s v paṃca

पाचसद्वे विसहस्र *paṃcasāśvā trisaṃśattha* "five hundred sixty three" num 37, dir s v paṃcaśāśu and trisaṃśattha

पाजरत्त *paṃjaraṃ* 'cage' sub dir eg n 463, Sk. paṃjara -lk. paṃjara- ext in OG MG paṃjā, but also piṃrū in the compound harpiṃjār 'skeleton' Bloch paṃjār, Turner paṃjara

पिंडु *paṃdū* "solid, mass" sub dir eg m 311 Sk. paṃdab Pk. paṃda-

पिञ्जतट *paṃjātaṭa* "carking" pres part dir eg m 213 Sk. paṃjāyati Pk. paṃjā, MG paṃjā

पुनि *paṃjā* 'in a heap in a lump' sub loc eg m 22 Sk. paṃjā- Pk. paṃjā-

पुनी *paṃjā* 'having cleaned wiped' abs 325 Sk. paṃjā- 'a heap', lk. paṃjā 'to make a heap' refers to the heap of dust made by sweepers who clean the rooms or floor MG paṃjā to clean may however be connected with Sk. pra-yaṃ-, lk. paṃjā s v paṃjā

पुवरा *paṃjāra* 'invisible insects in water' sub m pl 21 cf MG pora der not known

प्रकटिषा *praṃkaṭā* 'to manifest publish' obl of inf 544 lw Sk. praṃkaṭa-

प्रकाशइ *praṃkaśā* 'makes manifest brings to light' v pres 3rd eg 590, praṃkaśā abs 630 lw Sk. praṃkaśa-

प्रज्वलइ *praṃjalā* 'burns' v pres 3rd eg 521, praṃjalā past part m dir eg 488, praṃjalā caus pres part m pl 522 lw Sk. praṃjal-

प्रणामी *praṃamā* 'having bowed respected' abs 73, 489 lw Sk. praṃam-, lk. paṃamā

प्रतिक्रमत्त *praṃtikramatam* 'I atone' v pres 1st eg 17 lw Sk. praṃtikram-

प्रतिघात *praṃtighā* "obstruction, resistance" sub dir eg m 7 Sk. praṃtighāta-, OG praṃti lw + ghā

प्रतिपादइ *praṃpādā* 'observes, follows' v pres 3rd eg 484, praṃpādā abs 430 lw Sk. praṃpād-

प्रतिबुद्धइ *praṃbuddhā* "realises, knows" v pres 3rd eg 471, praṃbuddhā fut 3rd eg 471, praṃbuddhā abs 38 Sk. buddhate Pk. buddhā, Sk. bōdhati, OG praṃti lw + buddh- Bloch buddhā, Turner buddhā

प्रभवत्त *praṃbhavā* "happened, created" past part dir eg n 426, praṃbhavā pass eg 547 lw Sk. praṃbhav- + OG past participle n suffix -am

प्रवरु *praṃvaru* proper noun m dir eg 516

प्रवर्तयइ *praṃvartā* "causes to circulate, spread" v caus pres 3rd eg 472, praṃvartāyā past part n dir eg 482, praṃvartāyā fut 1st eg 482, praṃvartāyā abs 517 lw Sk. praṃvart-

प्रवर्द्धइ *praṃvardhā* 'increases' v pres 3rd eg 514 lw Sk. praṃvardh-

प्रवासावित *praṃvasā* "caused to rain" caus past part m dir eg 561 OG praṃvasāyā, Sk. varṣati, Pk. vasā

प्रशंसित *praṃśamā* "praised" past part m dir eg 85 lw Sk. praṃśam-

प्रसवइ *praṃsava* "gives birth creates" v pres 3rd eg lw Sk. praṃsavyate praṃsava-

पाइ हि *paṃhi* generally adv stereotyped inst 380 Sk. praṃyena

प्राघुर्णकु *praṃghurnakū* "guest" sub dir eg m 440 short -u- may be scribal error lw Sk. praṃghurnakā- praṃghana-

प्रणियत्त *praṃnyatā* 'being living creature' sub dir eg m 518, praṃnyatā sub inst eg 591, praṃnyatā obl pl m 320, praṃnyām obl pl n 400 Sk. praṃ n OG praṃti + ext with -n-, -va- in OG praṃnyā cannot be explained unless it is some representation of y glide

प्राप्तिवा *praṃpā* 'to obtain to attain' obl of inf 7 lw Sk. praṃp-

प्राविई generally adv stereotyped inst 586 lw Sk. praṃyena, praṃ- + OG inst suffix s v pratham

प्राथिवा *praṃthā* 'to request' obl of inf 575 lw Sk. praṃthā-

प्रासुक्येणित *praṃsūkyeṇitā* 'what is devoid of life and hence desirable, esp food for Jain monks' Jain theological term' adj; dir eg m 561 lw Sk. praṃsūka- eṇānyā-

महणकु *prāhanaku* "guest" sub dir sg m 302
der s v *prahunau* Note the -u- > -a- in
second syllable, which may be scribal

महणउ *prāhanau* "guest" sub dir sg m 461
See Turner under *pahunu* "Sk *prahunah* m
guest, cf Buddhist Sk *prahavanyah* worthy to
be received as a guest, Pk *pahunas*, *pahunaya-*,
late Sk *praghunah* due to influence of *ghūrnatī*
'moves to and fro'" parOno MG Bloch
pahunu, Turner *pahunu*

प्रिय *prīu* "dear" adj dir sg m 470 Sk *prīya-*

*

फणस *phanasa* "breadfruit, *Artocarpus Integrifolia*" sub sg 290 MG *phanas* n Sk *phanasa-*
m Pk *phanasa-* m Bloch *phanas*

फरस *pharasa* "touch" sub m eg 519, also
pharasu 403, *pharasa* root sg 246 Sk. *sparsah*,
Pk *pharasa-*

फरसन *pharāsana* "sense of touch" sub n 400
Sk *sparsana-* Pk *pharāsana-* note the -n- due
to Sanskrit loan influence

फरसनरुपु *pharāsana-rūpu*, 'form which can be
touched' sub dir sg 20, *pharāsana + rūpu*,
der s v *pharāsana*, *rūpu* lw Sk *rūpā-*

फरसिया *pharasiyā* "touched" past part pl m 22,
pharasiyam eg n 417, also *pharasiyam* 417, and
pharasiyam 417, *pharasiyam* pres part gen obl
153, *pharasiyam* ger n eg 160, *pharasiyam* ger
pl 160 Sk. *sprati*, Pk. *pharasi*

फलिड *phalim* "fulfilled, resulted" past part dir
sg n 529 Sk *phalati*, Pk *phalati*

फडिया *phāḍiā* "to tear, split" obl of inf 547,
(v l *phatīva*) Sk *sphatati*, *sphatayati*, Pk
phāḍi

फह *phā* "clear, i e without life" adj dir sg
492, also *phāsu* 492 Sk *pra-ukā-*, Pk *phāsu*
Note pr- > ph- is an exceptional treatment,
probably analogically influenced by *ajarsa* >
phassa, 'that which can be touched' This is a
Jain theological term

फिडिको *phitikaḍi* "alum" sub sg f 20 lw Sk.
ṣṭhatika-, not the initial -i- in OG which
may be due to the influence of the following
-i- or Rajasthan influence Turner *phitikaḍi*

फिट *phitaum* "end give up" v pres lat sg
461, Pk *phitai* Bloch *phitai* Turner *phitte*

फिर *phiram* "move turn" v pres 3rd pl 464,
phirata pres part dir sg m 17, *phirata*
loc sg 47, 420, *phirata* past part m dir sg
461, *phiram* n eg 370, *phira* abs 200, 527
Pk. *phira* Iora detail of etymology of *phira*,
see Turner Bloch *phira* - Turner *phira*,
add.

फिरणु *phiranu* "act of turning" sub dir, sg n
338, der s v *phiram*

फुसणइ *phūsana* "at the touch" sub loc sg 42
Sk *sprsat* Pk *phusa*, *phussa-*, *phusana-*, ext
in OG

फेदइ *pheda* "causes to destroy" v pres 3rd sg
402, *phediva* obl of inf 129 Probably a late
causal formation of *phita-* s v *phitaum*, cf
phira *phera* Pk *pheda*

फेदणहान *phedanahāru* "destroyer" sub dir sg
m 15, 326, *phedanahāri* f 624 (note the final
short -i, prob' scribal error) OG *phedana +*
hāru, for der s v *pheda*

फेदुरि *phedura* "a milk preparation" sub f sg
311 der not known

फेर *phera* "causes to turn" v caus pres 3rd
sg 376, a later caus base from *phira*, cf Pk
phera- dir s v *phiram* Turner *phera*

फाडणु *phodanu* "act of splitting" sub dir sg
n 008 der s v *phodiyā*

फोडिया *phodiyā* "broke" past part m dir pl
386, *phodiva* obl of inf 047 Sk *sphotayati*,
Pk. *phodai*, Bloch *phornē*, Turner *phornu*

*

चलताहीस *baṭāḥis* "fortytwo" num 260 of Sk
dvicatvarimsat f, *dvacatvarimsat*, Pk. *baya-*
lusam G M S P and L have forms with -t-,
which should go back to MI -tt- Turner
baṭāḥis

बडसिबड *baisaium* "to sit" ger dir sg n 42,
baisaium *pa-sa* 3rd pl 264, *baisi* abs 160, 342,
baisaium caus past part m dir sg 141,
baisali (v l *baisari*) caus abs 04, 108

baithau past part m dir eg 73, 74, *baitha*
pl 112, obl 312, *baithai* loc sg 520; *baisham*
gen obl 296, *baitha* f 461, *baitham* loc sg
44; Sk *upavisati*, *upavīta-*, Pk. *baisai*,
baitha-, the past participial form has been
extended in OG Bloch *baisnē*, *baisnē*, Turner
baithann

बग *bagā* "heron, crane" sub m dir sg 21 Sk
bakah Pk. *bagā* m Bloch *bak*, *bagā*

बगई बरसु *bagīkarasu* "act of yawning" sub dir
sg n 42, der not known MG *bagasū* 'yawn'
बडसि बडसि "thirtytwo" num dir eg 74, 613

cf Sk *dvātrimsat* f Pk. *baitham*, note the
reduction of -r- in OG

बडसि बडसि *baṭāḥis* "thirty second" ord dir.
eg m 104, *baṭāḥis + man*, s v *baṭāḥis*

बडसि बडसि *baṭāḥis* "thirty second" v pres 3rd sg 300 Pk
baṭāḥis MG *baṭāḥis* Turner *baṭāḥis* a contami-
nation of *dvāṭāḥis* with *dvāṭāḥis* Turner *baṭāḥis*.

बलद् *balada* "bulls" sub pl m 507 Sk *bali vardah* m Pk *bairavadda* m, *balidda*- m, *baladda*- m, MG *balad* Turner *balad*

बलही *balahi* "some preparation of milk" cf MG *bali*, der not known

बलहारी *balihari* 'by force' sub inst sg m 334, lw Sk *balatkara*- + OG inst suffix -i

बहिन *bahina* "sister" sub f dir sg 142, MG bEh Sk *bhaginī* Pk *bahinī*, -n- in OG in ducates Sk loan influence? Final -ī > -a is irregular Bloch *bahin*, Turner *baini*

बहत्तरी *bahattari* "seventy two" num dir sg also *bahattari* 74, cf Sk *dvasaptatī*, Pk *bavattari*, *bahattari* Bloch *bahattar*, Turner *bahattar*

बहुरा *bahura* "sweeper's broom" in a compound *bahuradika*, sub 318 the context is *buhari* (*vuhari*) *bahuradika* *buhari* means sweeper Sk. *vyavaharin*, cf Pk *bahuriya* f 'broom'

बाकुल *bakula* "a type of grain (?) " sub dir pl m (v l *bakula*) 433 Der not known

बाधत *badhat* "tied, obstructed" past part m dir sg 474, 473, 474, *badhi* f 480, Sk *badhātī*, Ik. *baddha*-, also see s v *bamdhru*

बाप *baṇ* "father" sub obl e in 108, Ik. *bappa*- Bloch *bap*, Turner *bap*

बार चत्वरिंशति *bara caturcāśti* "twelve multiplied by five is sixty," 614 This phrase indicates the manner in which multiplication tables are memorized in village schools For derivations see under *baraha* 12 a and *śūta*

बारमी *barāmī* twelfth ord f 290, *barahamā* loc sg m 35 der s v *baraha*

बारह *baraha* "twelve" num dir sg 54, 514, *baro* (v l *baraha*) inst pl 113 cf Sk *dvādaśa* Ar Ik *dayada*- *dayadāsa* Pk *barasa* *latala* Bloch *lara* Turner *lata*

बारि *bari* "at the door" sub loc sg m 8 Sk *dvāraṃ* Ik. *bara*- n Bloch *bari* Turner *duwar*

बारन *barān* fifty two num dir e 74 cf Sk *dvāśatī* *dvāśatī* Ik. *barān* Bloch *barān* Turner *launna*

बारसठि *barsathi* sixty two num f 10 cf Sk *dvāśatī* Pk *śāśatī* MG *barsathi* Turner *barasathī*

बारिह *barih* "outside" adv 573, *bari* (steriotyped loc) 527, also *bāhara* 28 *bāhara* dir sg m 112 482 540 cf Sk *bāh* *parh* *carān* or *bāhara*, Pk. *balara*-, MG *lahr* *bar* Bloch *baher* *bāhriśā*. Turner *bara*

बि *bi* "two" num dir 94, 110, 432, 535, also be 433, 480, 506, 578, *bihum* emphatic 386 Sk *dvā* n *da* Pk. *be*, OG *bi*, MG *bE*, OG. *be* should be a result of a contraction of some MI emphatic form such as *be-hu* > *be* > *be*, OG *bi* is retained in numerous OG compounds The following numerals with *bi* are noted *bi* *sam* *caturāśi* 'two hundred eighty four' 616, *bi* *sam* *chavvissam* n pl 'two hundred twenty six' 78, *bi* *sam* *chappanne* loc pl 'two hundred fifty six' 397, *bi* *sam* *chahattara* 'two hundred seventy six' 394, *bi* *sam* *trisam* n pl 'two hundred thirty' 78, Bloch *don*, Turner *du*

बिगुण *biguṇam* "double" adj dir sg n 461 OG *bi* + *guṇam*, for *bi* q v *guṇam* s v *guṇa* The lit meaning of the compound is 'multiplied by two'

बिदोत्तर सट *bidottara sau* "one hundred and twelve" num dir sg m 421 MG *barottara*, cf, Sk *dvādaśa*- *uttara*- *sata*- Note that the unemphatic *bi*- is used in the compound, as in other cases (v s v *bi*) but MG has replaced it by *ba*- on the analogy of *būr* 'twelve' v s v *baraha*

बियासी *biyāsī* "eighty two" num 394 cf Sk. *dvāśatī* f, Ik *bassim*, MG *brasi*, *basi* Note the OG *bi*- in compounds has been replaced by *ba*- in MG-, here it is as on the analogy of -*na*- in *MG* *ekāśi* 'eighty one' For a similar case see s v *bidottara sau*, also see s v *bi* Turner *biyāsī*

बीजतरा *bijāra* "seed filled" a citron, *Citrus Medica* sub obl sg 10, Sk *bijajuraha*- m Ik. *baurava*- n, reformed in Ik. the form may be **bijāsurava*- MG *bijorū* n

बीज *bijam* "second" ord dir sg n 417, 483, *bijām* n pl 302, 417, *bijā* m pl 480, *bijal* m+ sg 24 also *bije* 480, *bije* loc sg 613, *bija* f sg 403 Sk. *drāhya*- Ik *bijja*-, ext in OG v s v *bi*

बीर *bir* fears v pres 3rd sg 3, *bīrātau* pres part m dir sg 403, *bīrāvātau* caus pres part m dir sg 514, *bīrā* caus abs 435 Sk *bīrati* Pk *bīra* *bīra* *bīra*, note the long -i- in Pk. which may be due to the analogy of Sk. *bīrati* Pk. *bīra*

बुझ *buja* know awake v imp 2nd sg 435 lw Pk. v s v *bujhavi*

बुझव *bujhava* "enlightens causes to know" v pres caus 3rd sg 260 *bujhāvātau* pass pres 3rd pl Sk. *būjyate* Pk. *buja*

बुझ *buja* "promise words" sub m dir pl 453; *bole* inst pl 320 der s v *bojai*

बोलइ *bolai* "speaks" v pres 3rd sg 380, 406, bolam pl 147, 481, 548, bolau imp 2nd pl 534, bolatau pres part m, dir sg 514, bolata pl 538, bolivaum ger dir sg n 262, bolavivai caus pas 3rd sg 00, bolavia caus past part m dir sg 434, bolavati caus pres part f dir sg 589 Buddhist Sk bahubollakāh 'talkative' Pk bollai, Bloch suggests Dravidian origin Bloch bolnē, Turner bolau

बभुरा *bam bhura* 'proper noun, name of a town' f dir sg 521

बभानी *bam bāni* "surrounded, clustered" past part f dir sg 521 cf Ik Ap vamala- 'to collect', also bambala-, der not known

बाधइ *bandhai* 'ties, obstructs' v pres 3rd sg 522, bam bhau 1st sg 430, 413 also badhau (nasal is dropped probably influenced by participial baddha- 502, bandhau past part m dir sg 538, Bandhu abs 418, 488 Sk badhnati bandhati, Ik bandhai Blo h bādhnē Turner bādhu

बानपाइ *bananai* m "obscure, act of bowing (to gods and teachers) sub n dir sg 130, bananam n pl 123, also bananam n pl 326, 338; bananai loc sg 130, also bananai loc sg 160 Sk vandana- Ik vandana- ext in OG Note the special development -nd- > -~n- in this word of theological usage Note also initial v-> b- s v vandanaum

भरिउ *bharu* 'filled' past part m dir sg 461, also bhario lw Pk 101, bhari f 461, bhariva obl of inf 38 Sk bhārati, Pk bhari Bloch bhar, bhar, Turner bharnu²

भलउ *bhalau* "good, proper" adj dir sg n 134, 524, bhali f 426, 024 Sk lex bhallaḥ, Pk bhalla-, note the short -a-, being in an un emphatic form Bloch bhala Turner bhale

भविइ *bhāvika* having faith, householders - who are fit to achieve highest stage of deliverance adj m dir pl 38, Sk bhāvya-, Ik bhavia, OG rebuilt with -ka, bhāvika-

भवी *bhavi* 'having eaten' abs 433 Sk bhakā vati, Ik bhakkei Note the -a- in the initial syllable, which is irregular

भाई *bhāi* 'brother' sub m dir sg 04, also pl 427 Sk bhratrka-, Ik bhāu Bloch bhāi, Turner bhāu

भागइउ *bhajāu* "simpleton, afflicted" adj m dir sg 38, Sk bhagna-, Ik bhagga- ext- dau

भाजइ *bhaji* 'violates breaks' pres 3rd sg 560, bhagaum past part n sg 441, bhagam n pl 04, bhagi f sg 481, bhajai abs 514, also macas 'ran away, fled' when followed by auxiliary gavy bhajai gava 484 Sk bhānakti, bhāyāto, bhājayati past part bhagna-, Ik bhajai bhagga- Bloch bhā n Turner bhā nu, bhajau

- विज्ञानीय *bhikṣyāy* "living on alms" sub dir pl m 564 lw Sk *bhikṣavya* ext in OG with -a
- भिति *bhiti* "wall" sub f 264, 601, also loc eg 44 Sk *bhittih* Pk *bhitti* Bloch *bhit*, Turner *bhit*
- भीनत् *bhinata* "wet, softened" past part n dir eg 519 *bhina* adj f 601 It is not clear whether this is connected with Sk past participle *bhinna-* pierced, (Sk *bhid-*, *bhinna-*) as the context *manu bhinaum* 'his heart softened-his mind was pierced-and hence softened' may suggest, or is it related with Sk. *abhyavate*, *abhyavjati*, whose Gujarati evolve is *bhujvū* 'to be wet'? Bloch *bhijne*, Turner *bhijna*, *bhignn*
- भीष्म *bhīma* proper noun m dir eg 487
- भीलु *bhīlu* "man of the bhīla tribe" m dir eg 448, *bhīllaham* inst pl 448, Pk *bhīlla-*
- भूम *bhūm* "earth, distance" sub f dir eg 326, 461, 489, 544 Sk *bhūmah* f Pk *bhūma-* Bloch *bhūi*, Turner *bhūi*
- भ्रूलोडि *bhūloti* "a type of whirlwind" sub m dir eg 20 der not known
- भूमिहरि *bhūmihari* "in the cellar" sub n loc eg 186, Pk **bhūmi-gbara*, (cf Sk *bhūmi-grha-* 'underground chamber') **bhūmihara-*, MG *bhūyru* n Note the retention of -m- in OG
- भूख *bhūkha* "hunger" sub f dir eg 112 cf Sk *bhukha*, **bhukṣa* Pk *bhukha*, Bloch *buk*, Turner *bhok*
- भूखात् *bhūkhāt* "hungry" adj dir m 320 OG *bhukha* + *alau*, MG *bhukha*ivo is the result of further extension of *bhukhala* + *u*, this -u is later analogically replaced by -o (for gender) giving *bhukhalvo*
- भूखिया *bhūkhiya* "hungry" past part m dir pl 433 der s v *bhukha*
- भेटि *bhetu* "met" past part m dir eg 426 Pk *bhittijai* Turner *bhetna*
- भेदे *bhede* "by difference" sub inst pl 348 lw Sk *bheda-* + OG inst pl suffixes -e
- भोगवद् *bhogavā* "enjoys" v pres 3rd eg 462, *bhogavāim* pl 562, *bhogavi* imp 2nd eg 577, *bhogavatau* pres part m dir eg 517 lw Sk *bhoga-*, derived as verbal base
- भोजक *bhōjaka* "consumer" sub dir eg m 492, -i seems to be an error lw Sk
- भोज्य *bhōjya* proper noun m dir eg 469

- भोलु *bholau* "honest, simple-simpleton" adj dir eg m 38 Pk *bhola-*, ext in OG, MG *bhojo* Turner *bhojo*, *bhoz*.
- भोलपणइ *bhōlapana* "by simplemindedness" sub. inst eg 297, OG *bhola* + *panaum* der s v. *bhōlan*
- भंड *bhanda* "impolite behaviour" sub dir eg 12 Sk *bhanda-* m 'a jester, buffoon', Pk *bhanda-* m MG *bhāḷ*.
- भदारी *bhandāri* "store keeper, a surname" sub dir eg m 402 Sk *bhandagarika-*, Pk *bhandarisa-* Turner *bharari*
- भामगु *bhāmgau* "d vision, part" sub n dir eg 283, *bhānga* pl 280, also *bhānga* m pl 154, *bhāngai* loc eg 280 MG *bhāṅgo* Sk *bhāngā-*, Pk *bhānga-*, ext in OG
- भादशाला *bhādashāla* "store-house" sub f 478 lw late Sk, cf Gaj surname *bhādashāli* m Sk * *bhandasālika*
- भाडी *bhādī* "barber's box" sub f dir eg 360 Sk *bhādī* "razor-case" Bloch *bhāda*, Turner *bhāro*
- भाविण *bhāvīṇa* "eyelashes" sub f 44, cf Sk. *pakṣman*, pl *pakṣmani*, Pk *paṁha*, MG *pāpan* f der (with initial *bh-* in OG) not clear
- भुजइ *bhūm* "roasts" v pres 3rd eg 20, *bhūm* *jatau* pres part m dir eg 213 Sk *bhujati* "enjoys con-umes", Pk *bhujai*, note the significant change in meaning MG *bhūyru* 'to roast'
- भ्रमर *bhramara* "bee" sub eg m 21 lw Sk
- भ्रमरी *bhramarī* "bee" sub f eg 316 lw Sk
- भ्रष्ट *bhrasta* "roasted" past part 290, lw Sk *bhrsta-*
- *
- म मा "do not" prohibitive particle adv 38 Sk ma, Pk ma
- मउड *mauda* "crown" sub m dir eg 430 Sk *mukuta-*, Pk *mauda-* m n, MG *mOr*
- मउडउड *maud-raum* "little later" adj dir eg m 179 OG *mauda* + *eraum* OG comparative suffix Sk -*tara-* MG *mOr* adj m 'late', der not known
- मगप *magadha* proper noun m dir eg 420
- मगमा *magama* "name of mosquito-like insects" sub m pl 401 cf Sk *masaka-*, Pk *masaga-*
- मच्छर *macchāra* "jealousy" sub m 552 Sk *mat.sra-* Pk *macchāra-* m, prob lw fr Pk
- मजिपुन *magipuru* proper noun, name of a town, m dir eg 463 522

मणिप्रभु *maniprabhu* proper noun m dir sg 576
 मतिसागर *matīsagara* proper noun m dir sg 425
 मदनदत्त *madanadattu* proper noun m dir sg 426
 मद्रु *madru* proper noun m dir sg 522
 मनद् *mana* 'believes, considers' v pres 3rd sg 446, manam 1st sg 629, also manam 1st sg 535, manatau pres part m dir sg (v l manatau) 73, manata pl 6, manata loc sg 112, manium past part n dir sg 465, manavam caus pres 3rd pl 489, manavi abs 558 Sk mānyate, Pk mannai, MG manvū, OG -a- in the initial syllable may be due to analogical influence of word like māneh, note the appearance of ma- in some varie lectionis Bloch *manānē*, Turner *manar*
 मनोहारिन् *manoharin* 'pleasant' adj n dir sg 94, Sk manoharin lw ext in OG with -um
 मरद् *marai* 'dies' v pres 3rd sg 446, 526, marata pres part m obl pl 507, marai abs 111, marai caus pres 3rd sg 526, maraum 1st sg 558 (in future sense), mari imp 2nd sg 446, 483, 530, marivaum ger 447, mariu past part m dir sg 447, 522, mariya pl 448, 537, marie inst sg 522, maraviva obl of inf 454, 554, mari inf 507 Sk mārāte, marāyati, Pk marai, marai Bloch *marñē* marne, Turner *marnu*, *marnu*
 मरिच *marica* 'chillies, pepper' sub n 314 Sk maricah m Pk maria- m n, perhaps a loan from Sk in Pk, *maricea- MG *marī* *marcū* Bloch *marī*, Turner *maric*
 मर्दि *marḍi* 'pounded, rubbed' past part f 519, marḍiyam pass pl 519 lw Sk mārḍati, mard- + OG verbal suffixes
 मर्दि *mali* proper noun m dir sg 110
 मसली *masali* 'rubbed' past part f 519 cf Sk *masala* n 'pestle', Bloch suggests Dravidian origin, MG *masa* vū 'to rub squeeze' Turner *masarna*
 मसान *masana* 'crematorium' sub n 201 Sk *smāsanam* n lk *masana-*, MG *masan* Bloch *masan*, *mhasan* Turner *masan*
 महर्षि *maharṣi* 'great saint' sub m dir -sg 300, also obl 509, 561 lw Sk
 महता *mahatī* 'officers' sub m dir pl 489, mahato inst pl 489, also mahamtau m dir sg 540, mahamta inst sg 545 Sk mahanta-, lk mahamta-, OG extended with significant change in meaning
 माहारी *mahāra* 'kitchen, belonging to food' sub f sg 113, Sk mahāra- n, Pk mahāra- n, mahāra- n

महानदीयह *mahanādīyaham* 'in the great rivers' sub obl pl f 618 lw Sk maha + nadi, note -ya which suggests extension of nadi- in OG
 महपुर *mahapur* proper noun m dir sg 469
 महासत् *mahāsati* 'great soul' sub m dir sg 561 Sk maha sattva-, Pk mahā-satta-, lw, Pk
 महासल *mahāsala* proper noun m dir sg 108
 महासेन *mahasena* proper noun m dir sg 521
 महेशरदत्त *mahesaradattu* proper noun m dir sg 434, also mahesaradatta 434, mahesaradatti inst sg 434
 महिसि *mahisi* 'buffalo' sub f 264, Sk mahisi, Pk mahisa, also see s v bhamsi
 मह्य *mahya* 'a tree, *Basia Latifolia*, bees wax' (in a compound mahayādika) sub 501 Sk, madhuka- Pk mahua- m
 महियारी *mahiyārī* '(woman) milk vendor' sub f 360, mathuta + kari, Pk *mahia + ari, MG mahiari
 मातलु *matlau* 'mother's brother' sub m dir sg 142, matlai inst sg 142 Sk matula-, Pk maula- ext in OG This word is not used in MG and it is replaced by mama, which has spread in all MJA languages, (cf however, in dialects of saurashtra 'malo' is used in referring to a person who has done something unusual, it is also used as an exclamation of surprise, and inflected for gender, this comparison is extremely doubtful) Bloch *matla*, *mama* Turner *mama*
 मासि *maksi* 'house fly' sub f dir pl 21 (v l mamhi) 021, makkhe inst pl 521 Sk māśika Pk makkhia Bloch *masi*, Turner *makho*
 माग्द *māgas* 'demands, asks' v pres 3rd sg 470, 520, magi imp 2nd sg 470, magium past part n dir sg 112 magiyam pass pl (v l mamgiyam) 112 Sk margati, lk magga Bloch *magne* Turner *magua*
 मर्दि *mati* 'earth soil' sub f dir sg 20, 185 Sk mātīkā lk matīa Bloch *mati*, Turner *māto*
 माठ *matḥam* 'shortened (in idiomatic usage- 'inauspicious') adj dir sg n 401, mathai (idiomatic usage *enjai mathai thikai*) 'inauspicious' loc sg 28-, MG *matḥū* 'inauspicious, undesirable' It is probable that earlier meaning 'shortened rubbed recast' came to mean 'inauspicious especially in idiomatic usage, paired with *sajjam*, Sk *sajja-* 'repaired', *matḥam* Sk *matā-* 'repaired' Sk *matā-* Pk *matḥa-* Turner *mātho*

- मनुष्य *mānuṣya* "man" sub. dir. sg. n. 518, (v. l. mānasa) 556, also mānasa 21, Sk. mānuṣyaḥ, Pk. mānusa-; Bloch mānū, māna, Turner mānis
- माता *mātā* "by the mother" sub. inst. sg. f. 81, also mātā 81 and mātām inst. sg. 81. lw. Sk. mātā + OG. inst. suffixes
- माथ *mātha* "head" sub. dir. sg. n. 326, mātha loc. sg. 38, 327, 341, 483 Sk. mastaka-, Pk. matthaa-. Bloch māthā, Turner māth
- माय *māya* "mother" sub. f. dir. sg. 108, Sk. matā, Pk. mayā, Bloch mā, Turner māi.
- मायामय *māyāmayā* "illusory" adj. dir. sg. n. 430. lw. Sk. māyāmayā-
- मालय *mālaya* proper noun m. dir. sg. 534
- मावीत्र *māvītra* "parents" sub. 132. MG. māvīar, Sk. mātāpitr-. Note the -tr- in OG, Pk. mānpī cannot explain OG, and MG. forms, it seems to be a later compound, as suggested by retention of -p-.
- मासे *māse* "by the month" sub. m. inst. sg. 255. lw. Sk. māsa- + OG. suffix -e.
- माहरत *māharat* "my" pro. adj. m. sg. 94, māhara pl. 446, 463, 559, māharat inst. sg. 85, loc. sg. 85, māharatam n. dir. sg. 434, māharām n. pl. 473, māharī f. 471, Sk. māma replaced by Pk. maha + OG. postposition rahaum (cf. rahaum, later haraum, hraum) is added, MG. mārū. For a different explanation i. e. maha + kara- see Pischel § 434. Turner mero.
- माहि *māhi* "in, into" postpos. 73, 519, 554, (v. l. māhim) 38, māha 426, 560, māhā 91, 562, māhatau 'from māha + itau 401, Sk. mādhīyah, mādhya, Pk. mājhe, OG. mahi (-)jha- > -h- in OG, is a special treatment in an auxiliary word). Bloch maj, Turner m32.
- माहिल *māhilau* "belonging to the inside" adj. m. dir. sg. 548, der. s. v. māhi.
- मिच्छामि दुःखं *michchhami dukkhaṁ* 'may my sins be atoned, wiped out' a very common Jain phrase (Pk.) spoken while paying routine obeisance to the teachers, and on other religious occasions 78. Sk. mīchhā me duḥkṛtam. Note the pronominal 'me' being confused with the verbal form.
- मित्र *mitra* "friend" sub. m. dir. sg. 553. Sk. mitra-, Pk. mittā-, lw. Pk.
- मित्रानु *mitrānam* la proper noun m. dir. sg. 545
- मिद्वे *mīdva* "net" past part. m. dir. sg. 434, mādvā pl. 85, mīdvīyam n. pl. 626, mīdvīm v. 3rd pl. (note -h- instead of -la-, may be a scribal error) 282, mīdvā obl. of inf. 578. mīli abs. 483. Sk. mīlati, Pk. mīlai. Bloch mīlavā, Turner mīlha.
- मुक्तिगमियों *multigamīyām* "those who are on the path to deliverance" sub. obl. pl. n. 408. lw. Sk. ext. in OG. by OG. n. dir. suffix -am multigamūm
- मुक्तो *muḥkṭo* "having covered the mouth, by tying a piece of cloth" sub. m. dir. sg. 325. lw. Sk. mukha-, Sk. koḥ, Pk. kosa-OG. kosa.
- मुग्धा *muḥgha* "infatuate, swoon" v. imp. 2nd sg. 430, Sk. muḥyati, Pk. muḥghai, lw. Pk.
- मुद्गा *muḍga* "a particular kind of lentil" sub. 502. lw. Sk., s. v. munga.
- मुनिव्रत *munivrata* proper noun m. dir. sg. 119.
- मुय *muḥya* "dead" past part. m. dir. sg. 94; also mūya 432, Sk. mṛtāh, Pk. muu- ext., OG. past part. is the result of extended base in Pk. that alone can explain -y- in OG, muḥya, MG. however, has muo, result of an unextended base. Long -ū- in some forms explains the presence of the dialectal form Pk. muo OG. mū- u. Bloch melā, Turner mero.
- मुर्मुर *muḥmura* "burning charcoal" sub. dir. sg. 20. lw. Sk. marmura-.
- मुसल *muṣala* "pestle" sub. dir. sg. 520. lw. Sk.
- मुसम *muṣam* "robs, steals" v. pres. 3rd pl. 547. Sk. muṣnāti, muṣati, Pk. muṣai.
- मुहारी *muḥārī* "on the mouth" sub. loc. sg. 320. Sk. mukha-dvare Pk. muha-bare, OG. muhabari
- मुहूर्ति *muḥurta* "piece of cloth kept on the mouth by the Jains (of one sect) to prevent insects in the air from being killed by their breath during speech" sub. f. sg. 133. Sk. mukha patrika, lk. muhavattia, MG. muṁti, muṁpati (cf. Pk. muha patti)
- मू *mu* "pers. pro. obl. sg. 94, 561, also mūm 366, 426, main inst. sg. 491, 520, 518, (v. l. ma) 74. Ap. mahu, main
- मू *mū* "dumb" sub. dir. sg. 44. lw. Sk.
- मुकु *muḥka* "puts" v. pres. 3rd sg. 474, mūm- lian fut. 3rd sg. 382, mukta past part. m. dir. sg. 556, mūka abs. 463, 489, also mūmkī 74, 445 482, mūmkatī pres. part. f. dir. sg. 562. Sk. muḥkāti, muḥkāh, Pk. muṁkaī, mukkaī. Bloch muḥkā, Turner mukuro
- मुनि *mūni* "by sale" sub. inst. sg. 548, Sk. mūlyā- Pk. mulla-.
- मुनिव *mūniva* "principal, chief" sub. m. dir. sg. 446, Sk. mūle gataḥ OG. mūli + gaa.

मूढक *mūṭaka* "basket" (first member of a compound) sub 477 lw Sk. *mūṭa*, *mūṭaka*, *mūṭaka*

मेलनां *mēlhanām* "chain, series" sub f loc sg 109 lw Sk. *mēlhalā*+OG loc suffix -m

मेलह *mēlha* "leaves, abandons" v. pres. 3rd sg 577; *mēlhaum* 1st sg. 166, 349, *mēlhu* imp. 2nd sg. 487, 544, *mēlhaū* imp. 3rd sg. 548, *mēlhum* fut. 3rd sg 382, *mēlhu* past part. m. dir. sg. 387, *mēlhyai* pl. 501, *mēlhum* n. sg. 465, also *mēlu* 465, *mēlhyam* n. pl. 20, *mēlu* abs. 451, also *mēlu* 589, *mēlhava* caus. pres. 3rd sg 548, *mēlhaū* past part. m. dir. sg 434, 548; *mēlhyai* pass. sg. 529, also *mēlhyai* 529 Der. not known. Pk. *milla* MG. *mēlvū*.

मैलाव *mēlāva* "meeting, union" sub m. dir. sg. 578, Sk. *mēlapaka* Pk. *mēlava-*, *mēlavaya*.

मैह *mēha* "cloud" sub. m. sg. 483, Sk. *mēgha-* Pk. *mēha-*

मैहू *mēhu* "rain" sub m. dir. sg 501 Sk. *mēgha-*, Pk. *mēha-*.

मोकल *mōkala* "sends" v. pres. 3rd sg 533, 536, 554, *mōkalin* past part. m. dir. sg 108, *mōkalya* pl. 454, 538, *mōkalavi* caus. abs. 460, 554, der. s. v. *mukka* cf. Sk. *mukta-*.

मोकलउं *mōkalaum* "open, free" adj. dir. sg. n. 253, *mōkalam* n. pl. 480, *mōkala* m. pl. 42 44 Sk. *mukta* Pk. De. *mukka*-*la*-ext. in OG MG. *mōklo* Bloch. *mōkal*.

मोकलरुप *mōkalarupa* "act of easing, spreading- (one's feet)" sub dir. sg. 301 OG. *mōkala*+*karam* der. s. v. *mōkalaum*.

मोट *mōta* "big" adj. n. dir. sg 211, *mōta* inst. sg 484, *mōtai* inst. sg. m. 154 Sk. *mahat*-suffixed with -*tt-* (cf. Guy. *hā* 'line' MI. *lhat*ta, Sk. *rekha*, *lekha*, for -*tt-* as a MI. formative suffix see Bhayani H. C. *ugvyapar* p.) Turner. *mōta*.

मोटरी *mōtari* "bigger" adj. f 186, OG. *mōt*+*ari*, for der. s. v. *mōtaum*.

मोटलगा *mōtala* " (ornament) on which pearls are stitched" sub 519 Sk. *mōtakka*-*lā*. *mōtina*-OG. *mōti*, Sk. *lagyati* Pl. *lagga*, OG. suffix -*laga*, *laga* cf. *huralaga*.

मोटलगा *mōtalaga* "modaka, curuka and others" sub n. sg 170 *mōtakura* seems to be the name of some sweet preparation of a similar MG. name. *mōtū*.

मोटरी *mōtari* "a small, black insect" sub 21 MG. *mākoro* m. also *mākori* f. For a possible

confusion in the Sk. *mākura*- and *mākara*- and its evolutes in Mod. IA. languages see Turner under *mākana*. Final -*ā* may be influenced by MG. *karī* 'ant', Sk. *katika* Bloch. *mākār*.

मयूस *māyūsa* "box wooden" sub. obl. pl. 547, Sk. *māyusa*, Pk. *māyusa*, MG. *māyus*.

मडक *māṭaka* "upper crust (which is thin) of a baked loaf" sub m. dir. sg 317 lw Sk. *māṭaka*-, MG. *māṭvo*, *māṭo*, the former is derived from Pk. *māṭo* OG. *māṭa*-ext. with -*u*, which is later analogically replaced by -*o*.

ममूँद *māmūnda* 'chief minister' sub m. dir. sg 540, Sk. *māmūndra*-, Pk. *māmūnda*-, OG. has retained the -*tr-* group.

मकडी *mākadī* an iron piece (or sometimes wooden) fitted to the grindstone sub f 20 Sk. lex. *mākatī* f. an iron monkey-shaped belt.

मकुण *mākuna* 'bed bag' sub 21 MG. *mākār*, *mākan*, Sk. lex. *mākuṇah* Pk. *mākuna*-, *māmuna*- Turner. *mākuna*.

मखण *mākhana* 'batter' sub n. 490, also *māmkhānu* 316 Sk. *māksanām* Pk. *mākka* ns- Bloch. *mākhan*, Turner. *mākhān*.

मडला *māḍalā* 'circles' sub dir. pl. n. 542 Sk. *māḍalāni* Pk. *māḍalām*, OG. *māḍalām*.

मुग *mūga* 'a particular kind of lentil' sub dir. m. 288, Sk. *mudgāh* Pk. *mugga*-s. v. *mudga* Bloch. *mug* Turner. *mūg*.

मुठि *mūṭhi* 'fist' sub. dir. sg. f. 309 MG. *mūṭhi*, *mūṭhi* f. Sk. *mūṭhī*-Pk. *mūṭhi*- Bloch. *mūṭh* Turner. *mūṭh*.

*

य *ya* emphatic particle 143, 589 der. s. v. 1, cf. Sk. *ya* Pk. *ya* vi. OG. 1.

यशमती *yasomati* proper noun f. dir. sg 108

युगलिया *yugalya* 'pairs refers to Jain mythology to a heavy past where pairs-brothers and sisters could marry' sub pl. m. 36, lw Sk. *yugala*-OG. *yugala*+*n*.

युगल *yugala* proper noun m. dir. sg 515

योग *yoga* 'by yoga' sub inst. sg. m. 580 lw Sk. *yoga*+OG. inst. suffix.

*

रखे *rakhe* 1st prohibitive particle (v. l. *rakhe*) 019, Sk. *rākṣati* Pk. *rakha*.

रजु *raju* 'dust' sub dir. sg. 77 lw Sk. *rajan*.

रजतु *rajatu* 'silver' sub der. sg. 478 lw Sk.

- रतिगुदरी *ratisumdarī* proper noun f dir sg 420
 रत्नमञ्जरी *ratnamanjari* proper noun f dir sg 188
 रत्नवती *ratnavatī* proper noun f dir sg 553
 रत्नश्या *ratnasringa* proper noun in dir sg 451
 रत्नियवतु *ratnyavatu* 'pleased' adj m dir sg 557
 Der not known, cf MG *ratnyat* f as a proper noun
 रसानिदिउ *rasanidīu* sense of taste, tongue' sub dir sg 516, Sk *rasanendriya-*, Pk **rasanindriya-*, note the retention of -n- in OG, indicative of learned influence
 रहइ *rahaim* 'for, to,' post position 38, 80, 483 516, v l *raim* 446 Der uncertain, for various suggestions see Te-sittora § 71, Dye pp 59
 रहइ *raha* 'stays, remains' v pres 3rd sg 01, *rahaum* 1st sg 348, *rahaui* fut 3rd sg. 536, *rahaui* 1st sg 454 474, *raha* amp 2nd sg 38, *rahitau* pres part m dir sg 246, also *rahitu* 544, in both cases -i- cannot be explained, *rahu* past part m dir sg 80, *rahiva* pl 109, *rahu* past part m dir sg 80, *rahiva* pl 109, *rahaum* n sg 483 *rahiyam* n pl 506, also *rahiyam* gen obl pl 109, *rati* f dir sg 474, *rahivaum* ger 200, *rahiya* pass sg 200, *rahava* caus pres 3rd sg 477, 516, *rahavaum* pres 1st sg 309, *rahavata* pres part obl pl 279, *rahaviya* past part m dir pl 529, *rahavi* f dir sg 570, *rahavi* abs 528, also *rahavi* 481, *rahavi* inf 542, Sk *rahati* Pk *rahai* Bloch *rahanō* Turner *rahanu*
 राइ *rai* 'night' sub f sg 321, Sk *ratri* Pk *ratti* *rai* *rai* lw fr Pk f note the exceptional loss of -t- in MI of MG *rat* f v a v *rati*
 राइउ *raiu* belonging to night adj dir sg 321
 Sk *ratri* *ratrika-* Pk *raia* s v *rai*
 राउ *rau* 'king' sub m dir sg 73 also *raya* 558 *raya* obl sg 62" *rai* inst sg 142 527
 Sk *raja* Pk *raya* *raa* OG *ra* ext Bloch *rao* *rao* Turner *rai*
 राख *ralha* ashes sub f 519 Sk *rakṣa* f *akṣha* used for preserving lk *rakkha* f MG *rakh* Bloch *rakh* Turner *rachyan*
 राखिउउ *rakhiuu* to protect preserve ger m sg 430, *rakhuva* obl of inf 441 534 *rakhiyam* pass pl 448 Sk *rāksati* Pk *rakkhai* Bloch *rakno* Turner *rakhnu*
 राजवदि *rajara* royal rei royal saint sub m dir sg 460, *rajaram* inst sg 108, lw Sk *raja* + rei
 राजपुरी *rajapuri* proper noun, name of a town m dir sg 431
 राजादेश *rajāśeṣa* "royal command" sub m obl sg 416, lw Sk *rajāśeṣa-*
 राजि 'on the throne, kingdom' sub n loc sg 108, 457 Sk *rajyo* Pk *rajjo* OG *raji*
 राजी *raji* "queen" sub f dir sg 489, Sk *rajni*, lk *rañni*, *rañna* Bloch *rañi* Turner *rañi*
 राति *rati* 'night' sub f dir sg 326, al-o loc sg 142, 474 Sk *rātri*, *rātri* lk *ratti*, OG *rati* MG *rat* Bloch *rat*, Turner *rat*
 राधा *radha* 'cooked past part pl 288, *radhi* f 311, MG *rādhvū* Sk *rādhvati*, caus *randhāyati*, *raddha*, lk *raddha*, OG ext, al-o s v *randhaim* Bloch *rādhū* Turner *rādhnu*
 राव *rahi* "porridge (sweetened)" sub dir sg f 288, 311, Pk (Du) *rabba*, probably a lw from Perso arabic of Ar *rub*, Turner *rabari*
 रामति *ramati* 'game, play' sub f dir sg 12 Sk *ramyati* lk *ramma* adj *ramma-* OG *rama-*ti MG *ramat*, initial short vowel due to analogy of Sk *ramate*, MG *ramvū* Turner *ramaunu*
 राट्टवद्धन *rattaraddhana* proper noun m dir sg 574
 रितु *ritu* "season" sub dir sg 376 lw Sk *ritu* m, MG *ratu* f
 रिस *risa* "anger" sub f sg 386 Sk *riyati*, MG *ris* Bloch *ris*, Turner *ris*
 रुहियायितु *ruiyayitu* "pleased" 540 (v l *rahyavita*) v s v *rahyayitu*
 रुइइ *ruana* becomes angry, v pres 3rd sg 470, *ruthau* past part m dir sg 514 536, Sk *ruyati* *rusta*, lk *rusai* *ruttha-* Bloch *ruane*
 रुइउ *ruiau* good proper adj dir sg m 154, *ruaum* n sg 517, *ruli* f sg 434, 571 Sk *rupa-* Pk *rua-* ext -*dan*
 रेहया *reday* m poured past part n pl 91, *redanaum* 'act of pouring' sub dir sg n 217 der not known MG *revū* 'to pour'
 रोवतउ *rovata* weeping lamenting pres part dir sg m 223, *royati* f 580 Sk *rōditi* lk *roai* MG *rovu* Turner *runu*
 रजिउ *ramya* 'pleased' past part m dir sg 446, *ramyia* pl 406 *ramjavi* caus abs 202 Sk *rañjita* Pk *ramya-* ext in OG
 रामउ *ramkau* poor unlucky a term of reproach sub m voc sg 022 Sk *ramk-*, Pk *ramka-*, ext in OG
 राहु *ramhu* rope sub sg 200, 443 MG *rāh* vū a thick coarse rope, OG *ramdhu* ext with -um can explain MG form, der not known

राम्द *rāmdham* "cook" v pres 3rd pl 311, ramdhiyam pass. 3rd pl 311, Sk rādhvati, caus ramdhīyati, Pk ramdhai v s v rādha Bloch rādhnē, Turner rādhanu

रुपिड *rūmdhiu* "obstructed, prevented" past part m dir sg 446, rumdhu abs 528, rūmdhaviu caus, past m dir sg. 504 Sk rundhati, Pk rundhai Bloch rūdhnē rūdhnē Turner rūdinu

*

रक्ष्मणु *lakṣmanu* proper noun m dir sg 469

रक्ष्मीधरु *lakṣmīdharu* proper noun m dir sg 003

रक्ष्मीयुजु *lakṣmīyujya* proper noun m dir sg 461

रगादहनि *lagadana* 'in the act of teaching' sub n loc sg 164, dir s v lagai

रगामु *lagamu* 'a crooked piece of wood' sub dir sg 259, Jw Pk lagamda-der not known

रगागु *lagana* "a little, slight" adv 460, 488, usually followed by *eka* to indicate indefinite ness dir uncertain, note MG alternating forms lagar-lagar of OG post pos lagi, probably extension of lagg-, Turner lagarnu

रगिगु *lagi*, "on account of, as far as" post pos 86, 490, Sk lagyati 'is fixed to, lk laggai, Tesatoru (72) suggests Ap laggahim as a probable source of this post position, also see s v lagai Bloch lagi, Turner lagnu

राजादु *rajādū* "modest" adj dir sg m 3 Sk lajjalu-Pk lajjalno

रङ्गा *latta* "saffron, carthamus tinctorius," name of a plant sub f sg 311, Pk latta, der not known

रक्ष्मणी *lakṣmāni* 'a sweet preparation made of wheat and ghee' sub f 264 MG lapsi, this word is a Sanskritisation of the current word 'lapsi', and the Sk source, Sk lapsika f, Pk lappasiya, v s v lypasi

रक्ष्मणसमुद्र *lakṣmasamudra* name of an ocean (mythological) m dir sg 550

रहदु *lahau* "obtains gets" v pres 3rd sg 80, laham 1st sg 528, lahau fut 1st sg 260, lahau 2nd sg 521, lahu abs 460, 008, lahu past part m dir sg 470, laham past part m dir sg 426, also (v l) ladho 027, ladha m pl 389, ladham n sg 74, ladhi f sg 360, ladhai loc sg 429, also ladhe 478 SI labhate labdha-, lk lahai laddha-, Bloch lahnē lahnē Turner lahana

रहदुदु *lahidā* 'small' adj dir sg m 007, lahuia obl sg 078, lahudam pl 441, lahuia f 008 (lahudā nāi dhomatic 'urination') Sk laghu-, lk lahu- ext in OG -dan

लक्ष *lakṣa* "one hundred thousand" sub dir 74, also lakhu 74, Sk laksāh, Pk lakṣha-, Bloch lakh, Turner lakh

लाज *laja* "shame, modesty" sub dir sg f 007 Sk lajja Pk lajja, MG laj Bloch laj Turner laj

लाजततु *lajatau* "being ashamed, becoming bashful" pres part m dir sg 007, laj abs 474 Sk lajjate, Pk lajjat

लगणु *laga* 'sticks, attaches but the participial form used as auxiliary means started', v pres 3rd sg 406, lagata pres part m obl pl 020, lagate loc 282, lagan past part m dir sg 38, 74, laga m pl 179, lagam m pl, lagi f sg 434, lagadam caus pres 3rd pl 154, lagadiya past part pl 22, lagadi abs 341 Sk lagati lagna-, lk laggai lagga-, Bloch lagne, Turner lagnu

लठि *lath* a chocolate size sweet prepared out of sugar and sesamum, sometimes available in longer stick-bar-like sizes sub f, dir 314 MG revri, the text also glosses this word by revri Sk *lasti-m (Turner suggests contami nation of vadh-m with lakutah) Pk latthi f 'stuck latthaa (Do) m 'an eatable Also cf MG lathi f stick, Turner latho

लापसी *lāpas* "a sweet preparation made of wheat and ghee" sub f 310 Sk lapsika f, lk lappa siya, MG lapsi

लभदु *labham* "obtain achieve" v pres 3rd pl 300, labhadam caus pres 3rd pl 378 Sk labhyate, labdha-, Pk labbhai, laddha-, note that in MG, evolutes of active labhate (OG lahai) and passive labhyate (OG labhai) do not survive, but the past participle ladh-(labdha-) is employed as an active base ladhū i gann and is further derived as a past participle ladhū yū n 'found Bloch labhate labhē ladhnē Turner lahana

लिखिदु *likhīdau* 'should write' ger m dir sg 209, likhaya past part pl m 011, in the rest of the forms the base is passive likhaya pass sg 80, 420, 018, 590, likhīyam pl 081, likhau pass-fut 3rd sg 17 likhāvīyam pass of the causal base 3rd pl 438 Jw Sk likhāti, Sk likh + OG verb inflection suffixes MG lakhv + Bloch lekḥ kahnē, lkhnē Turner lakhnu

लियदु *liya* take, accept v pres 3rd sg 171, liyam 2nd sg 466, liyam 3rd pl 300, liam 1st sg 433, 460, 460, 466, 511, li imp 2nd sg 431, 467, 044, Jesu fut 3rd sg 381, liyam fut 3rd sg 782, liyam fut 3rd pl 489, liam fut 1st sg 223, 260, 577, liyam imperative 2nd pl

430, *lyata* pres part (unenlarged) 402, *lyata: i* pres part in dir sg 786, *lidiha* 1st part in dir sg 416 559, *lidihaum* n sg 431, 116 180, 481, *lidiha* m pl 78f, *lidiha f* sg 71, 379, *lyata* pres part 3rd pl 369 *lyatau* pres part 131 *lyavaum* ger n sg 227, *leva f* 101, *leva* chl (inf) 401 147, 401, 16¹ 183, 5 8 *lei* abs 112 226 n.l.ole 130, 406 48b, 53f Sk *lata* replaced by *lei* (probably under the influence of doi (Sk *datati*) nei (navati) in MI OG l- The past participle *lita*- is similarly replaced by *lidiha*- on the analogy of *lidiha*- *laddha*-, and ext in OG for the possible analogical influence of these forms see Tedesco JAOS 41, Turner also suggests Sk *lābhate* Blo h *lene*, Turner *linu*

lidihati *lidi* + being wiped licked' pres part f 402, Sk *lidi*, *lik* *liha*

līlāvati *līlāva* proper noun f dir sg 473

lūgāḍā *lūgāḍā* cloth garment sub old sg n 321 Turner connects Sk *raguḥ* Pk *lugga*- 'worn out with this word for garment Turner *luga*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'wiped out past part m dir sg 74 50) *lik* *lūcāḍā* 'wipes removes, cleans (by wiping) MG *lucvū* 'to wipe'

lūcāḍā *lūcāḍā* '(act of) wiping sub n sg 12 Pk *lūcāḍā* 'to wipe. cf OG *lusa-* to wipe s v *lūcāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'grammar school' sub f loc sg 432 Sk *leha sala* Pk *leha sala*, replaced in MG by *nisā*

lūcāḍā *lūcāḍā* I remonstrate v pres 1st sg 16) Used mainly by Jains referring to notion of thinking lw Sk *locate* Sk *loca*- OG verbal inflection

lūcāḍā *lūcāḍā* flour sub dir sg m 311 der not known probably connected with **lotyate* cf SI Dhātup *lotati* *lik* *lotāḍā* rolls tumble down cf MG *lotvā* to roll (on ground)

lūcāḍā *lūcāḍā* combing refers to the action of preparing cotton for making silvers pres part dir sg m 13 SI *lostate* to gather into a heap + r a *lūcāḍā* *lik* *loḍāḍā* processing cotton as it comes off the plant *lūcāḍā* MG *loḍāḍā* as used in this sense

lūcāḍā *lūcāḍā* 'to alcohol to transgress ger n sg 761, Sk *lapyāte* *lik* *lūcāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* cotton for making silvers pres part dir sg m 13 SI *lostate* to gather into a heap + r a *lūcāḍā* *lik* *loḍāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* blood *lik* *loḍāḍā* n Turner *lotāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* act of throwing sub n dir sg (second member of a compound *leśalamkhanu* *nekl* *slamkhanu* *rudhira* *lamkhanu*) 12 der v s v *lamkāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'name of a heaven, acc to Jains' proper noun m sg 26

lūcāḍā *lūcāḍā* 'debauchery' sub dir sg n 170 lw Sk *lampāḍā* + OG suffix *janam*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'throws v pres 3rd sg 529, *lūcāḍā* past part m dir sg 577, *lūcāḍā* m pl 21, *lūcāḍā* pres part m dir sg 217, *lūcāḍā* pres sg 577, *lūcāḍā* abs 386 431 In MG the root *lūcāḍā* survives dialectally (in the southern dialects) while the standard form is *lūcāḍā* Sk *namkāḍā* Turner BSOS iv, pp 30

lūcāḍā *lūcāḍā* 'crossed, passed past part m dir sg 80, *lūcāḍā* abs 16b, Sk *laḍāḍā* *lūcāḍā* *lik* *lamgāḍā* Turner *nāgāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'by length' sub inst sg n 614 OG *lamba* + *pani*, dir s v *lamba*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'tall distant adj m pl 116 Sk *lambā* *lik* *lamba*-, Bloch *lāb* Turner *lanu*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'a type of sweet preparation sub dir sg n 315 der not known -ta-um apparently, are suffixes

lūcāḍā *lūcāḍā* having besmeared, plastered abs 185 Sk *lūcāḍā*, *lik* *lūcāḍā* Bloch *lūcāḍā*, Turner *lūcāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'robs v pres 3rd sg 526, *lūcāḍā* pres 3rd sg 518 Sk *lūcāḍā* *lik* *lūcāḍā* Bloch *lūcāḍā* Turner *lūcāḍā*

*

lūcāḍā *lūcāḍā* enemy sub m dir sg 538, also pl 407 Sk *lūcāḍā* Pk *lūcāḍā*- MG *lūcāḍā* is the result of OG ext or later suffixation of -i to *lūcāḍā* (Sk *lūcāḍā*)

lūcāḍā *lūcāḍā* 'brinjals (vaimgana pramukha) sub pl 501 *lik* *lūcāḍā* *lik* *lūcāḍā*-, *lūcāḍā*- MG *lūcāḍā* Bloch *lūcāḍā* Turner *baḍāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'expounds, explains comments v pres 3rd sg 438, *lūcāḍā* past part dir sg n 111, *lūcāḍā* abs of the causal base 601 Sk *vyakhyānam* *lik* *lūcāḍā* derived also as a verb *lūcāḍā* + OG *lūcāḍā*- Note the change in meaning in MG *lūcāḍā* 'praise *lūcāḍā* to praise to appreciate Bloch *lūcāḍā* Turner *lūcāḍā* *lik* *lūcāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'commentary explanation sub n dir sg 316 Sk *vyakhyānam* *lik* *lūcāḍā*- MG *lūcāḍā* pres v s v *lūcāḍā* Bloch *lūcāḍā* Turner *lūcāḍā*

lūcāḍā *lūcāḍā* 'boy child term of endearment sub m voc sg 38 *lūcāḍā* voc pl 111 lw Pk. *lūcāḍā*-

वच्छगा *vacchaga* name of a river f dir sg 574

वच्छल *vacchala* "affectionate, kind" (second part of a compound *nutravacchala*) m dir sg 507 lw Pk,

वदद् *vada* "with post part indicating instrumentality" sg 34, 507, 521, *vadam* pl 386 Ltiv not known MG *vare*

वदद् *vada* "elder, bigger" adj m dir sg 427, 417, *vada* inst sg 461, *vada* obl sg 578 *vadi* f 300 338 (idiomatic *vali niti* 'act of defalcation') Sk lex *vadrah* 'big' Pk *vadda-*, MG *vare*, note the absence of compensatory lengthening in OG and MG, perhaps an early lw from Panjabi or Sindhu Bloch var, Turner baro

वणतउ *vanatau* "weaving; pres part" dir sg m 216 Sk *vāyati*, *vana* 'the act of weaving', Pa *vinati*, probably changed to **vunati* after Sk *utā-*, *ūrīte*, Ik *vinana-*, *vinana-* MG *vanvū* Bloch *vinhē*, Turner *bunnu*

वणफल *vanaphala* "wild fruits" sub dir pl n 433 OG *vana*+*phala-* Sk *vanam*, Pk *vanam* OG *vana* Sk *phalam* Ik *phalam* OG *phala*

वणतति *vanantari* "in the other forest" sub loc sg n 577 Sk *vanantara-*, Ik *vanantare* OG *vanantari*

वधावद् *vadhava* "congratulates, welcomes" v caus pres 3rd sg 547 502, *vadhavim* 1st part m dir sg 73, 508 Sk *vardhapayati* Pk *vaddhava* MG *vadhavū* Panjabi *Lahanda* and Sindhu cognates show absence of coronisation Another evolute of the same in MG is *vadhū* 'to cut', and Panjabi, Sindhu also have *vadhana*, *vadhana* respectively Bloch *vadhne* *vadhaya* Turner *bannu*, *barai*

वधारिवद् *vadharyam* "arc caused to increase" v caus pres 3rd pl 28 Sk v *rdhate* Ik *vaddhe* OG *vaddha-*+*causal* *āra-* cf MG *vadhurū*, also similar forms *sudharvū* to cause to improve' *svarvū* 'to cause to sleep' etc See T-satoris § 111, also s v *vadhava*

वर *vara* "good" adj m (first part of a compound *varapuruṣa*) 403, *vari* f sg 403 Sk *varṣm* Ik *vare*

वरद् *vara* "chooses, marries" v pres 3rd sg 471 Sk *varavati* Ik *varai*

वरस *varasa* "years" sub n dir pl (v l *varisa*) 94, *varasi* loc sg 200, (v l *varisi*) 514, *varasi* inst pl (v l *varise*) 117 Note the possible dialectal variation between *varasa-* and *varisa-* Pk *varisa-* (early loan fr Sk *varisa-* to distinguish it from MIA evolutes *vassa-* in the

sense of 'rain' of Sindhu va a f 'rain', Sinhalese *vas* 'rain') Bloch *varashe*, Turner *barasa* *basi*?

वरसद् *varasa* "rains" v pres 3rd sg 483, *varasa* *varasa* caus past part m dir sg 561, *varasa* *vaya* pl 517 Ik *varisai*, (early lw from Sk *varisa-*) see under *varisa*

वसराउउ *varasau* "monsoon" sub m dir sg 80 *varasalai* loc sg *8, also *varasalo* loc sg 401, Ik *varisa*+*kalā-*, *varisala-*, ext in OG, s v *vara* a MG *comasū* 'monsoon' has replaced this word

वसर् *vasar* "sutor, bridegroom" sub m dir sg 469 Sk *varāh* Ik *vara-* MG *var* Bloch *var*, Turner *bar*?

वसु *vasu* "boon blessing" m dir sg 470 Sk *vārah* Pk *vara-* MG *var*

वसुई *vasū* "in an undesirable way ugly way" sub sg 20 Probably connected with Sk *virūpa-* v a v *varuum*

वसुउ *vasūm* "ugly, undesirable hostile, not in proper form" adj dir sg n 381 a) o *varayuum* 384, 629, also *varayuum* 2), 389 Sk *virūpa-*, Ik *virua-* *virua-* ext in OG Note the early loss of -i- in the open syllable MG *varvū* adj

वसुवर्षी *varṣai* "having descended" abs 987, *varṣavim* pres part m dir sg 519 lw Sk *varṣavati*, the causal base is taken as primitive and inflectional suffixes are attached to it

वसुवर्षद् *varṣata* "stays exists" v pres 3rd sg 126, *varṣata* pres part m obl sg 514 lw Sk *varṣata*, *varṣa-*

वसुवर्षित् *varṣite* "turned" past part loc sg 38 lw Sk *varṣata*, *varṣite*

वसुवर्षतउ *varṣatau* "turning back" pres part m dir sg 110, *varṣata* obl 001, *varṣavim* pres sg 401 Sk *varṣate* Pk *varai* MG *varvū* to turn

वसुवर्षी *varṣi* "again" adv 522 519, again and again *varṣi* *varṣi* 94 absolute form of the OG base *val-*, s v *varṣata*

वसुवर्षी *varṣi* "name of a disease? *valguliroga*" sub m dir sg 132 lw Sk *valguli* meaning is not clear

वसुवर्षतउ *varṣata* due to, as a result of (also *vasaitau* *vasatau* and *vasatau*), 73, 94 OG *vaia*+*itau*, cf Sk *vasaita* *vasait*, Tessitori § 722 suggests to connect *Aj* *karṣata* to OG *-tau*, than allative post-position of OWH This *-tau* may be connected with MI *-hinte*, -*honto* which are allative suffixes dir m certain s v *itau*

- +OG in sive pre cent participial and m suffi
vis -a-ti-u
- विषर्ग *visarjā* ' gives up ' v pres 3rd sg ०13
lw Sk *visarjanāti visarjā-*
- विशद *viśada* 1 rojpr noun m dir sg 403
- विश *viśa* a type of measure, sometimes used
to measure ground and fields al o sub f 111
That which is a full measure is referred to as
vis vasa in Mtr and half full is referred to as
das vasa, der not known
- विषय *viśaya* with reference to regarding to p c t
po: 73 36), stereotyped loc, Sk vi śa-
vi śa, OG, visai, the - is Sanskrit influence
on the scribe MG visō
- विषया *viśayā* belonging to the subject sub
dir pl m 320 lw Sk visava- OG visai ext
visaiu the extended stem is declined for pl
visaiya
- विषयाशक्त *viśayāśakti* attached to carnal plea-
sures past part m dir sg. (v l visavaśakti)
०16 lw Sk vi śayāśaktā-
- विशाहण *viśahana* material, apparatus sub
n dir sg 380 Sl *visadhana Tk *visahana-
OG ext visahanaum MG va anū 'materials'
(in the preparation of sweets)
- विषु *viśu* 'poison' sub n dir sg 426 Sk vi śam
Pk vi śa-n Turner bis²
- विशुद्धिकरण *viśuddhikaraṇa* act of purifying sub
dir sg n 11 Sk viśuddhi- Tk viśuddhi-OG
viśodhi-, -karaṇa Sk karaṇam Tk karaṇam.
- विस्तार *viśtāra* 'in extenso by expanding' sub
mst sg in 424 601 lw Sk viśtāra-+OG
noun declension
- विस्तारि *viśtāra* spread past part f 30 lw Sk
v s v viśtāri
- विस्तारित *viśtārita* 'expanded' past part of the
causal base m dir sg 514 viśtāra abs 74 lw
Sk viśtārayāti viśtāra-+OG past part suffi x
-iu
- विषफट *viśpharati* attacks v pres 3rd sg 401
lw Sk viśphurati, MG viṣṭro attacks is
derived from the same source Sk viśphurati,
Pk viṣṭhura
- विस्मय *viśmayati* astonishment sub m dir sg
482, (v l viśmaya) 110 lw Sk viśmaya-
- विहर *viśhara* ' goes out (to collect alms food)
v pres 3rd sg ०1, viśharam pl 94, viśhara
past part m dir sg 8, also viśharaṇa (v l
viśhara) ०31, viśharaṇa inf 113 viśharaṇai
(offers alms)aus pres 3rd sg ०16, viśharaṇai
- प्र-त part m dir sg 112 viśharaṇai abs ०61
Sk viśharaṇai, lk viśharaṇai
- विहसत *viśhata* quickly, early v s v, viśhalaum
- विहस *viśhasam* ' laugh je t ' v pres 3rd pl
०33, viśhasam past part n pl 560 Sk
viśhasati ll viśhasai
- विक्रियत *vikriyātam* ' to sell ' ger dir sg n
०00 Sk vikriyat, replaced by lk vikriyat of
Sk vikraya-MG (dialectal) vekvū Bloch
viku
- विक्री *vikrī* to sell inf (obl) ०18, viku
loc sg (of part part viku) 477 Sk vikriyate
lk vikrī, MG (dialectal) vekvū, al-o v s
v vikriyātam veta Bloch vikrī Turner
bikru
- विक्रय *vikraya* 'lightening' sub f dir sg 20, ०14
Sk, viśyat f Pk vijya f Bloch vij Turner
bijuh
- विजायण *viśāyana* ' act of fanning ' sub dir sg
12 Sk vijyate lk *vijyati causal base vijyava-
The na al in MG vijyo fan and Sindhi vanaum
cannot be explained see under vijyati Bloch
vijyā
- वीनवद् *viśvā* requests v pres 3rd sg 426
vinau past part m dir sg 112, vinau loc
sg 486 Sk vijyāyati lk vinau, vinau
vai Turner binti
- वीर *viśa* proper noun m dir sg 110 ०22
- वीरमेतु *viśa* proper noun m dir sg 121
- वीस *viśa* twenty adj num 61 Sk -vimsatī
compounds lk viśam MG vis Bloch vis
Turner bis²
- वीसह *viśa* twenty adj num in the context
viśam navottara 'twenty nine 74, also
viśam in the context eku eśa viśam 'one
hundred twenty 74 also viśam 'one
hundred twenty 613 Sk vimsatih f lk
viśai final nasal cannot be explained cf Ap
viśam
- वीसमह *viśama* on the twentieth ord loc sg
3०० OG viśa + mau v s v viśa
- वीसरीया *viśarīya* forgotten past part m ०01
Sk viśarīyati lk viśarīya viśarīya- OG
viśarīya Bloch viśarī Turner bureau
- वीसामा *viśama* resting places sub dir pl m 117,
viśama loc sg 117 viśame lo pl 117 Sk
viśamāh lk viśama-OG ext viśama Bloch
viśavnē Turner bis²
- बुब्बुडा र *buḍḍa rā* imitation of bibbling
sound made by the sinking of an object in

शकटाविति *śakata-aviti* 'father of one seated in a bullock-cart' sub m dir २६ १४ lw Sk śakata-*aviti*

शकटात् *śakata* proper noun m dir २६ ४०

शकुन्तला *śakuntalā* proper noun m dir ६ ४३

शाश्वता *śaśvata* 'perpetual eternal' adj n ११ ७१ lw Sk śaśvatā-

शीतल *śītalā* 'shell generally hung in the kitchen in which remains of cooked food are kept and n dir २६ (२१) chikāma ४३४ Ved Sk śītalām 'a kind of loop or swing made of rope and suspended from either end of a pole or yoke to receive a load', lk śikkāyā-, MG śikū chiku (dialectal), Bloch śikkē, Turner śikō

शीतल *śītalā* proper noun m dir २६ ११०

शीतल *śītalā* proper noun m dir २६ १४२

शुद्धवृद्धि *śuddhāvṛddhi* proper noun m dir ६ ७१८

शोकतड *śokataḍ* 'lamenting pres part dir २६ m ०१०, lw Sk śi- so a-*ḍ*tau

शूल *śūl* 'swelling sub m dir २६ १२१ cf Sk śophā- m morbid swelling, tumour

शूल *śūlā* proper noun m dir ६ ७३३

शूल *śūlā* 'conch sub m २१ lw Sk

शान्ति *śānti* proper noun m dir २६ ११०

शमारसुदरी *śmārasudarī* proper noun f dir ६ ४८०

शमारसेलु *śmāraselū* proper noun m dir २६ ४८४

शमसान *śmāsāna* 'cemetery' sub n dir २६ १७० lw Sk śmāsāna

शयकु *śayaku* 'hon eholder (Jain expr 10n)' sub m dir २६ ४३२ lw Sk

शायिका *śayikā* Jain woman (f of śravaka) sub f dir २६ ७११ lw Sk

श्रेष्ठि *śreṣṭhi* 'rich' merchant bu mer- man sub m (२१) śreṣṭhi ७० ७७ śreṣṭhi in t २६ १७१ lw Sk śreṣṭhi probably an effort to Sanskritise the already common śreṣṭhi altered in the vulgar Śan krit śreṣṭhi

श्रवण *śravaṇa* proper noun m dir ६ ११०

*

स *sa* 'he/she that dem pro m f ४०० ४२० ४३१ ४ ३ ४७३ Sk śah ४ Pk śo śā. v २ २ २ su

स *śa* 'with post pos २२ ०१ १२० ७४७ ७७८ śa in t ७ Sk śahitam Pk śahitam, note the loss of -h- cf Bloch śi

स *śa* 'with pro dir २६ ०४ Sk śavānam Pk śayam

स *śa* 'by the co-wife' f २६ ४२८ Sk śapathni, śapatni, Bloch śavnt Turner śautā- The reading -i could be -śukā, note the MG २०२ nate śOk

सक *śaka* 'is capable v pres 3rd २६ ३७३, ७१०, ७०७, śakum let २ ४६६, ७४२, ४१० śakum ७३, śaku part part m dir २६ ४०७ १६४, śakāma १३ ११ (honorific) ४०० Sk śaknōti śakite lk akku śakke Blo śakne, Turner śaknu

सक *śakā* 'all adj adv dir २६ n ७, (२१) śakāla, śakālu ०४, १६०, śakālam pl ३२७, śakā śakāla २० १८३, ११ ११०, śakālu- m २६ १० śakāla ११ ४७३, śakāla obl १६, ४०७, śakāla in t. २६ ३०१, śakāla loc pl ३२७ Sk śakāla- lk śakāla- probably a late lw in lk ext in OG Bloch śakāla

सतर *śatara* 'seventeen num dir २६ २६१ also śatara ७१६, śatara ७११ २६ २६१, ६१३, note the -t- in OG MG has geminated -tt- śattara Sk śattara lk attara- s Ap śattarāla Bloch śatra, Turner śatra

सतरमा *śataramā* 'seventeenth ord obl २२२ śattara mai loc २६ ३०३, note the -t-, cf śatara in OG v s v śatara OG ordinal śatarāmau

सतह *śatah* 'seventy-even num dir २६ (२१) śattahitara śatahitara ७४ cf Sk śapta śatah f Pk śattahitara Turner śatahitara

सतह *śatah* 'fifty even num ३००, also śattavana ४०१ Sk śattapan śat Pk śattava nama note the -t- in OG MG has geminated -tt- attavan, Turner śatavan

सतह *śatah* 'ninety-even num ६१३, Sk śaptanavatih f lk śattannum MG śattannū, Turner śatanabe

सतह *śatah* 'twenty-even num ७४, also in the idiom śattava śauku atthottara śau 'twenty-even multiplied by four = १०८ ६१७, note that this OG system of multiplication is similar to pres-ent day grammar school tradition of multiplication Sk śaptivimsatih f śaptivimsatih f lk śattava am Turner śatah

सतह *śatah* 'one hundred and seven num ४२३ Sk śapta Pk śatta- śattottara- n ore by -even

सतह *śatah* 'eighty-even' num ७४ Sk śapta śatih f lk śattānum -t- in OG and MG śattava may be analogical of śkvasi brasi trasi corvasi etc in IG Turner śatah

सतह *śatah* 'meaning and derivation not known

संतापइ *samtāpāi* "troubles, harasses" v. caus. pres. 3rd sg. 526 Sk. *samtāpāyati* Pk. *samtāpēi*, MG. *sātāvṛū*; note the loss of nasal in most of NIA languages. Turner *sātānu*.

संघारउ *samghārau* "a bed (of a monk), place where the monks live" sub. m. dir. sg. 541; *samghārai* loc. sg. 323; *samghāra* obl. 338; MG. *sāthiro* 'bed on which a person is placed before death'; Sk. *samsthāra-*, Pk. *samthār*, OG. ext.

संदिशवउ *samdisāvaṁ* "I get permission" v. caus. pres. 1st sg. 342, Sk. *samdisāti*, Pk. *samdisai*, caus. *samdisāvei*.

संदेशउ *samdesau* "message" sub. dir. sg. m. 192. Sk. *samdesa-* Pk. *samdeṣa-* ext. in OG.

संधपण *sandhūṇa* "act of lighting (fire)" sub. n. 440; note OG -ṣ- for -kh-. Sk. *sandhukṣana-* Pk. *sandhukkṣana-*.

संनिवसि *sannivasi* "in the residence" sub. m. loc. sg. 119. Sk. *sannivasa-* Pk. *sannivasa-*.

संपजइ *sampajai* "succeeds, prospers, accrues" v. pres. 3rd sg. 588. Sk. *sampadyate* Pk. *sampajjai*

संबंधिउ *sambandhiu* "relative" sub. m. dir. sg. 16, 519; *sambandhium* n. sg. 115, *sambandhiyām* n. pl. 135. Sk. *sambandhiu* Pk. *sambandhiu* ext. in OG.

संबंधिवउ *sambandhivau* "should be related" ger. (denominative) dir. sg. m. 513. OG. *sambandha-* (v. s. v. *sambandhiu*) as a verbal stem.

संभव *sambhava* proper noun m. dir. sg. 110

संभवइ *sambhavam* "likely to happen, develop, to produce" v. pres. 3rd pl. 433, *sambhāvīu* caus. past part. m. dir. sg. 461, *sambhāvītau* pass. pres. part. *zw* dir. sg. 110, *sambhāvī* abs. 554. Sk. *sambhavati*, Pk. *sambhavai*, lw. Pk.

संभारु *sambhāru* "goods, stuff" sub. m. dir. sg. 463 Sk. *sambhārah* Pk. *sambhāro* m. 'collection' v. s. v. *sambhāra*

संभूयि *sambhūyī* "having adorned, provided" abs. 515 lw. Sk. *sambhūyati*, *sambhūy-* + OG. abs. suffix

संबचइयि *sambacchayī* "annual" sub. adj. 385, Sk. *sambatsara-*, *sāmvatsarika*. Pk. *sambacchāriya-* lw. Pk.

संस्तवउ *samstavaṁ* "I praise" v. pres. 1st sg. 614, *samstavātsu* pres. part. m. dir. sg. 110 lw. Sk. *samstavate*, *samstav-* + OG. verbal suffixes

संहरी *samhari* "having destroyed, withdrawn" abs. 463 Sk. *samharati* Pk. *samharai* lw. *-mhar-* + OG. abs. suffix

सांइ *sāmim* "meet cordially, embrace" sub. inst. sg. 446, also *sāio* inst. 578; ety. not clear. cf. Sk. *sajāti* 'belonging to the same family', see Turner *sānu*.

सांचरतउ *sāncarataṁ* "moving, going" pres. part. m. dir. sg. 376. Sk. *sāncarati*, Pk. *sāncarai*

सांदि *sāmdhi* "female camel" sub. f. dir. sg. 311, 558; Sk. *sandhikā*, Pk. *sandhi*, OG. *sāmdhi*, MG. *sāih m* 'uncastrated bull' should be separated from *sādh*, *sāihm f.* 'female camel'. The former is related to Sk. *sāndah* 'uncastrated'; the source of latter is not clear. Sk. *sandhikā* is a Sanskritization of Pk. *sandhi* (hence short -i in OG and -zero in MG.) Bloch *sār*, Turner *sār*

सांदिइ *sāmdhiu* "having connected, aimed" past part. m. dir. sg. 453. Sk. *samādāhāti* Pk. *samdhai* OG. *sāmdhai*, *sāmdhiu*. Bloch *sādh*, Turner *sādhnu*.

सांपदिउ *sāmpadiu* "attained" past part. m. dir. sg. 461 Sk. **sampatita-* cf. Sk. *sampatati*. v. s. v. *padai*. Bloch *sāparnē*.

सांभरइ *sāmbhara* "remembers" v. pres. 3rd sg. 326, 345, *sāmbharaim* 3rd pl. 604, *sāmbharūm* 1st sg. 345, *sāmbharatā* pres. part. obl. 345 *sāmbharī* past part. f. 604. Sk. *sāmbharati* 'collects', *sāmbhārayati*, Pk. *sāmbhāre* 'garnishes', MG. *sāmbhārvū* 'to remember' and *sāmbhār* 'masala used in cooking preparations'. Turner *samānu*, *sāmbhāru*

सांभलइ *sāmbhalu* "hears, listens" v. pres. 3rd sg. 429, 529, *sāmbhalau* imp. 2nd pl. 329, *sāmbhalata* pres. part. (unenlarged 86); *sāmbhalatau* pres. part. m. dir. sg. 426, *sāmbhalatā* obl. pl. 426, *sāmbhalā* past part. m. dir. sg. 367, 519, *sāmbhalum* n. sg. 109, *sāmbhalayai* pass. sg. 157, 420, *sāmbhalayaim* pass. pl. 371; *sāmbhalitū* pass. pres. part. m. sg. 326; *sāmbhalivā* inf. of purpose 426, *sāmbhalī* abs. 85, 109, 498 cf. MG. *bhālvū* 'to observe, see', *nihālvū* 'to see', *sābhaivū* 'to hear', *sāmbhālvū* 'to guard take care of' Sk. *bhālayate*, *nibhālayati* and *sāmbhalayati* For -r- forms in MG. *sāmbhārvū*, *sāmbhār*, see under *sāmbhara*. Turner *samānu*, *niyānu*, *sāmbhāru*

सिहदनु *simbhalatu* proper noun m. dir. sg. 525

सिइ *simlu* proper noun m. dir. sg. 487

सिचइ *simeca* "sprinkles" v. pres. 3rd sg. 521; *simecau* pres. part. m. dir. sg. 549. Sk. *sificāti*, Pk. *sificā* Bloch *sicē*. Turner *sicū*

सिपउ *sindhānu* "rock-salt" sub. dir. sg. n. 20. Sk. *sāndhavā-* Pk. *sāndhava-*

हाथियत *hathiyat* 'elephant' sub dir sg m 344,
hathiva pl 74, Sk hasti m, Pk hatthi, OG
hathu- ext with -u, Bloch hatthi Turner hat

हार हारai 'is defeated loses' v pres 3rd sg
470, harium past part n dir sg 471, hariahs
470 Original causal is employed as a prima
tive base Sk harayati, Pk harai, harai

हासत *hasat* 'laughter' sub dir sg n 520
Sk hasyam, Pk hasan- n OG hasa- ext -um

हिया *hiya* 'heart' sub n obl sg 111, 446, 578,
Sk hrdavam Pk haam, OG huvaum Bloch
huya Turner huyo

हिन *hina* 'now' adv 571 for der s v hara

दिवदा *hidada* 'just now' adv 427, 576, for
der s v hara

हीरालग *hiralaga* '(ornament) on which diamonds
' are studded sub 319 Sk hiraka- lk haraa
OG hira, Sk lagyati Pk laggai, OG suffix
-laga, laga cf. motilaga

हीलित *hilita* 'insulted, did not show respect
past part n sg 153 Pk hilai 'insults, prob
connected with Sk hela or hū-hī- hūdati,
hilati OG hila- is suffixed with Sk past part
suffix -ita, which in turn is suffixed by OG -u
Bloch helane

ह्ययनाहार *huyana-hara* 'that which is destined that
which is going to be' sub n dir sg 179 OG
(huyai) huyana + hara

हेत *het* below adv adj sg loc (v l beth) 38
hethi f 420, hethau m dir sg 589, goes with
genitive or compounded with stem Sk adhāstat
contam upāristat would give *adhāstat Buddh
ist Sk hesta, hestato, Pk hetha hetha-

हो *ho* particle for address vocative participle 580
Sk hó Pk ho o is retained as a special
treatment in OG

हो *ho* is becomes v pres 3rd sg 74 420
(also used in fut sense) 466, hoisu fut 3rd
sg 434 500 hoisum pl 338 hoisi 2nd sg
427, hoisu 1st sg 470 473 hoisum 1st pl
110, hoyatai pres part loc sg 30 639, -used

as conditional hoisu precativ 3rd sg 327,
528, hoisum 1st sg 516 671, hois ab- 130
474, hoisum ger n dir sg 420, hoiva inf of
purpose 577 huva v pres 3rd sg 109, 473,
526, huyam pl 74, haum 1st sg (in fut
sense) 473 huu imp 3rd sg 386, hūyau past
part m dir sg 74 80 386, al-o hūyau, 38, hū
360, huvaum n sg 74, hui f sg 94, 463,
huva 338 (v l hua) 142 pl, huyam n pl 85,
hūmtau pres part m dir sg 522, 340, also
humta 73, 420, humta pl 425, 473, as an
auxiliary after other past participle mokalya
humta 538, also 401, also huto m sg 402 and
huta m pl 420, 473, huti f sg 420, humtai
loc sg 329, also humto 438, hantai inst sg
539, hanta unenlarged pres part 426, hantai
enlarged pres part loc sg 386 used in condi
tional sense hu abs 463, 474 Sk bhāvati
* bhoti Pk hois hois, Bloch honē Turner
hunu

होदपतनु *hodapatanu* 'making a noise making a
bet' sub n dir sg 12 De hudda, hodda MG
hor, f, OG hoda + patanu lv Sk

होला *hola* parched gram sub m obl (in a
compound puhanka holadika) 502, MG Olo
'parching of green seeds of gram, prepared
and consumed on the field as a part of festival
der not known

हंस *hansa* proper noun m dir, sg 451

हाडी *handi* 'earthen cooking pot' sub f sg 170
lato Sk handika f Turner hāri

हादुली *handuli* 'small earthen pot (for cooking)
sub f sg 178, for der s v handi, MG hāli
hādli

हि *hi* emphatic particle 38, 74, 108, 446, 454
see Intro

हिंगलो *hingalo* 'Ferula Asa Foetida' sub dir
sg m 20 Sk hinguh m Pk hingula- m n
OG ext hingala: MG hūglo Bloch hūg
hingula Turner hun

हिनदा *hindai* walks v pres 3rd sg 520,
hindatai pres part m dir sg 544 Sk dhatup
hindate Pk hindai MG hūdū Turner hūna